

506V.

20723



साधवनिदान

भाषाटीका सहित ॥

प्रणम्यजगदुत्पत्तिस्थितिसंहारकारणम् ॥ स्वर्गाप-
वर्गयोर्द्वारत्रैलोक्यशरणंशिवम् १ नानामुनीनांवचनै-
रिदानीं समासतःसद्भिषजानियोगात् ॥ सोपद्रवारिष्ट-
निदानलिंगो निबध्यतेरोगविनिश्चयोयम् २ नानातंत्र-
विहीनानां भिषजामल्पमेधसाम् ॥ सुखंविज्ञानमातंकम

दोहा ॥

जनकसुता वशरथ तनय चरण कमल धरिहीय ॥

साधवरुत सुनिदान मापान्तर करू कमनीय ३

कह्यो प्रथम अध्यायमहँ सब ज्वर केर निदान ॥

वात पित्त कफ द्वन्द्व ज्वर सन्निपात मुखमान २

जगत् की उत्पत्ति पालन संहार करने के कारण स्वर्ग व मो-
क्षके द्वार व तीनों लोकों के रक्षक शिवजीके प्रणाम करके १
नाना मुनियों के वचनों के मतसे व अच्छे वैद्योंके अनुशासन
से उपद्रव व शुभाशुभ के चिह्न से युक्त यह रोगों का विनिश्चय
संक्षेप रीति से इस समय में निबन्धित करताहूँ २ नानाप्रकार
के तंत्रों से रहित अल्पबुद्धि वैद्यों के सुखपूर्वक रोग के जानने

यमेव भविष्यति ३ निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशय
स्तथा ॥ संप्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पंचधा स्मृतम् ४
निमित्तहेत्वायतनप्रत्ययोत्थानकारणैः ॥ निदानमाहुः
पर्यायैः प्राग्रूपैर्न लक्ष्यते ५ उत्पित्सुरामयो दोषविशे
षेणानधिष्ठितैः ॥ लिंगमव्यक्तमल्पत्वात् व्याधीनांतद्य
थायथम् ६ तदेव व्यक्ततांघ्रातं रूपमित्यभिधीयते ॥ सं
स्थानं व्यंजनं लिंगं लक्षणं चिह्नमाकृतिः ७ हेतुव्याधिवि
पर्यस्त विपर्यस्तार्थकारिणाम् ॥ औषधान्नविहाराणामुप
योगो सुखावहः ८ विद्यादुपशयं व्याधेः सहिसात्म्यमिति
स्मृतः ॥ विपरीतोऽनुपशयो व्याध्यसात्म्याभिसंज्ञितः ९

के लिये यह ग्रन्थ बहुत उपयोगी होगा ३ निदान, पूर्वरूप, रूप,
उपशय व संप्राप्ति इन पांच प्रकारों से रोगों का विज्ञान होता है ४
निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान, कारण ये सब निदान
के नाम हैं व निदान आदिकारण को कहते हैं ५ जिससे रोग के
पहिले का रूप जाना जाता है उसे पूर्वरूप व प्राग्रूप कहते हैं
यह दो प्रकार का होता है एक सामान्य दूसरा विशिष्ट सामान्य
इस पूर्वरूप से उत्पन्न होने वाले रोग का लक्षण विदित हो-
जाता है जिससे होने वाले रोग का ज्ञान सामान्य रीतिसे हो-
कुछ अधिकता न जानपड़े वह सामान्य पूर्वरूप कहाता है व
जिसमें रोग के प्रारम्भ में दोषादि प्रकट विदित होजाते हैं उसे
विशिष्ट पूर्वरूप कहते हैं ६ व वही पूर्वरूप जब बनाय प्रकट
होजाता है तब रूप कहाने लगता है संस्थान, व्यञ्जन, लिंग, ल-
क्षण, चिह्न, आकृति ये सब रूपही के नाम हैं ७ हेतु, व्याधि, वि-
पर्यस्त, विपर्यस्तार्थ इनके विपरीत करने वाले औषधों अन्नो
व विहारों के सुख कराने वाली युक्तिको व्याधिकी उपशय क-
हते हैं ८ व उसीको व्याधिकी सात्म्यभी कहते हैं व औषध अन्न

यथादुष्टेनदोषेणयथाचानुविसर्पिता ॥ निवृत्तिरामय
 स्यात्सौ सम्प्राप्तिर्जातिरोगतिः १० संख्याविकल्पप्राधान्यं
 बलकालविशेषतः ॥ साभिधत्तयथात्रैवं वक्ष्यतेष्टौ
 ज्वराइति ११ दोषाणांसमवेतानां विकल्पोशांशकल्प
 ना ॥ रवातंत्र्यापारतंत्र्याभ्यां व्याधेःप्राधान्यमादिशेत्
 १२ हेत्वादिकात्स्नर्यावयवैर्बलाबलविशेषणम् ॥ नक्तं
 दिनर्तुभुक्ताशैव्याधिकालोयथामलम् १३ इतिप्रोक्तानि
 दानार्थस्संख्यासेनोपदेक्ष्यते ॥ सर्वेषामेवरीणाणां निदा

विहार इन तीनोंके दुःकारक उपयोगको अनुपश्य कहतेहैं उसी
 का व्याध्यसात्म्य भी नाम है ६ जो वातादि दोषों की दुष्टता
 से अपने स्थानको छोड़कर इधर उधर नीचे ऊँचे फैलती चली
 जाती है और रोगको उत्पन्न करती है उसका सम्प्राप्तिनाम है
 उसीको जाति व आगतिभी कहतेहैं १० संख्या, विकल्प, प्राधान्य,
 बल व काल ये सब सम्प्राप्तिके भेदहैं संख्या जैसे इसीग्रन्थमें ८
 प्रकार के ज्वर कहे हैं इसको संख्या विशेष सम्प्राप्ति कहतेहैं ११
 वात पित्त कफोंके दोष जब एकेही संगहों चाहे समान अंशों से
 चाहे न्यूनधिक अंशों से तो उसे विकल्प सम्प्राप्ति कहते हैं व
 जहाँ व्याधि अपने अधीन हो उसे प्राधान्य सम्प्राप्ति कहते हैं
 जहाँ रोग अपने अधीन न हो उसे अप्राधान्य सम्प्राप्ति कहतेहैं १२
 हेतु आदि जब सम्पूर्ण अंगोंसे विद्यमानहों तो रोगको बलवान्
 जानना चाहिये व जो सब अंगोंसे युक्त नहीं थोड़ेही हों तो रोग
 को निर्बल जानना चाहिये रात्रि, दिन, ऋतु, आहार इन के
 अंशोंसे रोगका काल समझना चाहिये इसीको कालरूप सम्प्रा-
 प्ति कहते हैं रात्रि दिनके तीन २ भागकरके कफ पित्त वात का
 काल जानना चाहिये ऐसेही वसन्त ऋतु कफका समय शरद्
 पित्तका वर्षा वात का काल जानना चाहिये १३ निदानका अर्थ

नंकुपितामलाः १४ तत्प्रकोपस्यतुप्रोक्तं विविधाहित-
 सेवनम् ॥ निदानार्थकरोरोगो रोगस्याप्युपलक्ष्यते १५
 तद्यथाज्वरसन्तापाद्रक्तपित्तमुदीर्यते ॥ रक्तपित्ताज्ज्वर
 स्ताभ्यां श्वासश्चाप्युपजायते १६ स्नीहाभिवृद्ध्याजठरं
 जठराच्छ्रोफएवच ॥ अर्शोभ्योजाठरंदुःखं गुल्मश्चाप्यु-
 पजायते १७ प्रतिश्यायादथोकासः कासात्संजायतेक्ष-
 यः ॥ क्षयरोगस्यहेतुत्वे शोषस्याप्युपजायते १८ तेषु
 केवलारोगाः पश्चाद्धेतुर्थकारिणः ॥ कश्चिद्विरोगोरो-
 गस्य हेतुर्भूत्वाप्रशाम्यति १९ नप्रशाम्यतिचाप्यन्योहे

संक्षेप रीति से कहा अब विस्तार सहित कहते हैं सब रोगों के
 कारण कोपकियेहुये वात पित्त कफही होतेहैं १४ व इनका कोप
 विविध प्रकार के अहित अपथ्यों के सेवन से होता है रोग के
 अर्थ का निदान रोगही से होताहै अर्थात् रोगही से रोग उत्पन्न
 होताहै १५ जैसे कि ज्वर के सन्तापसे रक्तपित्त रोग उत्पन्नहो-
 ता है व रक्तपित्तसे ज्वर होता है और ज्वर रक्तपित्त दोनों से
 श्वास उत्पन्न होता है १६ व पिलही के बढ़ने से उदर रोग
 होताहै व उदर रोगसे शोथ रोग होता है व अर्श अर्थात् बवासीर
 से जठररोग व वायुगोलादि गुल्म रोग उत्पन्न होते हैं १७
 प्रतिश्याय अर्थात् पानस रोग से व नासिका बहने शरदी होने
 से खांसी रोग होताहै व खांसीसे होते २ क्षयरोग होता है यह
 क्षयरोग सब रोगों का हेतु है व सब रोगों का राजा है इस के
 होने से सब अंग सूखजाते हैं १८ वे सब रोग प्रथम केवल रोग
 रहते हैं फिर अपथ्यादि करनेसे वेही अन्यरोगोंके कारी होजाते
 हैं कोई रोग ऐसा होताहै कि किसी रोगका कारण होकर आप
 फिर शान्त होजाताहै १९ व कोई ऐसा होता है कि अन्यरोग
 को उत्पन्न करदेता है व आपभी बनारहता है शान्त नहीं होता

त्वर्थं कुरुतेपि च ॥ एवं कृच्छ्रतमानूणां जायन्ते रोगसंकराः
 २० तस्माद्यत्नेन स द्वैद्यैरिच्छद्भिः सिद्धिमुत्तमाम् ॥ ज्ञात
 व्योवक्ष्यते सोयं ज्वरादीनां विनिश्चयः २१ दक्षापमान
 संक्रुद्ध रुद्रनिश्वाससंभवः ॥ ज्वरोष्ठधापृथग्द्वंद्व संघाता
 गंतुजः स्मृतः २२ मिथ्याहारविहाराभ्यां दोषाह्यामाशया
 श्रयाः ॥ वह्निर्निरस्यकोष्ठाग्निज्वरदाः स्यूरसानुगाः २३
 श्वेदावरोधः संतापः सर्वांगग्रहणंतथा ॥ युगपद्यत्र रोगेतु
 ज्वरो ह्युपदिश्यते २४ श्रमोरतिर्विवर्णत्वं वैरस्यं नयन
 क्वः ॥ इच्छाद्वेषो मुहुश्चापि शीतवातातपादिषु २५ जृ

इस प्रकार रोग एक दूसरे से मिलकर मनुष्यों को बड़े कष्ट देते हैं
 २० इससे उत्तम सिद्धि की इच्छा किये हुये अच्छे वैद्यों को चाहिये
 कि ज्वरादिकों का निदान जो कहेंगे उसको अच्छे प्रकार जानें २१
 दक्ष प्रजापतिके अपमानसे क्रोध किये हुये रुद्रजी के निश्वास
 से उत्पन्न ज्वर आठ प्रकार का होता है वातज, पित्तज, कफज,
 व तीन द्वन्द्वज अर्थात् वात पित्तादिकों के दो २ के मिलने से
 उत्पन्न व एक इनतीनों के मिलने से जिसे सन्निपात कहते हैं
 व एक आगन्तुक वस ये २ हुये २२ मिथ्या आहार व मिथ्या विहार
 से वातादिक दोष उत्पन्न होते हैं वे आमाशय में मिलकर कोठे
 के अग्निको बाहर निकालकर फिर धातुरस में मिलकर ज्वरको
 उत्पन्न करते हैं २३ ज्वरके लक्षण—जिस रोगमें पसीना रुँककर
 सब अंगों में सन्ताप हो व सब अंगोंमें पीड़ा होने लगे यह एका-
 एकी एक ही संग हो उस रोगको ज्वर कहते हैं २४ ज्वरका पूर्व
 रूप विनाश्रम किये थकाई लगे किसी वस्तुमें प्रीति न रहे शरीरमें
 ग्लानि हो स्वाद मुखमें न विदित हो नेत्रोंमें आँशु भर आवें शीत
 वात घाम आदि की क्षणमें तो इच्छा हो व फिर क्षण मात्र ही में
 इनसे अप्रीति हो २५ जँभोई आना अंगमर्दन की इच्छा शरीरमें

स्भांगमर्दागुरुता रोमहर्षोरुचिस्तमः ॥ अप्रहर्षश्चशी-
 तंच भवत्युत्पत्स्यतिज्वरे २६ सामान्यतोविशेषात्तुज-
 म्भात्यर्थसमीरणात् ॥ पित्तान्नयनयोर्दाहःकफान्नाम्नाभि-
 नन्दनम् २७ वेपथुर्विषमोवेगः कंठौष्ठमुखशोषणम् ॥ नि-
 द्रानाशःक्षवस्तंभो गात्राणारौक्ष्यमेवच २८ शिरोहृद्गात्र-
 रुग्वक्त वैरस्यंवद्धविट्कता ॥ शूलाध्मानेजुम्भणंचभत्रं-
 त्यनिलजेज्वरे २९ वेगस्तीक्ष्णोतिसारश्च निद्राल्पत्वंत-
 थावमिः ॥ कंठौष्ठमुखनासानांपाकःस्वेदश्चजायते ३०
 प्रलापोवक्तकटुता मूर्च्छादाहोमदस्तृषा ॥ पीतविण्मूत्र-
 नेत्रत्वक्पैत्तिकेभ्रमएवच ३१ स्तैमित्यंस्तिमितोद्वेगश्चा-
 लस्यंमधुरास्यता ॥ शुक्लमूत्रपुरीषत्वक्स्तंभस्तृप्तिरथा-

गरुआपन रोम खड़े होना अरुचि अंधियारासा विदित होना
 चित्त की अप्रसन्नता जाड़ेका लगना वसत जब ज्वर होने पर
 होता है तब ये सब लक्षण होते हैं २६ यह सामान्य सब ज्वरों
 का लक्षण है अब विशेष कहते हैं वातज्वर में विशेष अत्यन्त
 वार २ जंभोई आती है व पित्तज्वर में नेत्रों में विशेष जलन
 होती है व कफज्वरमें भ्रमकीरुचिनहींहोती २७ वातज्वरकालक्षण-
 शरिरकांपना कभीबहुत शरीरजलना कभीकमहोना गल थोठ
 मुखकासूखना निद्रा न आना छींक न आना व अंगोंमें रुखाई २८
 शिर हृदय व देहभर में पीड़ा मुखफाका बहुत कड़ादस्त होना
 पेटकी पीड़ा व पेटफूलना जंभोई आना ये सब वातज्वरमें होते
 हैं २९ पित्तज्वर के लक्षण—बड़े वेगसे ज्वरहोना अधिक दिशा
 होना थोड़ी नादआनी ढाकना गल थोठ मुख नाक पकजाना
 पसीना होना ३० अनर्थ वकना मुखकडूरहना मूर्च्छा आना
 सदाजलनवनीरहनी उन्मत्तता पिपासाधिकता मल, मूत्र, नेत्र,
 खात इनकापीलाहोना व भ्रमहोना येसब पित्तज्वरमेंहोते हैं ३१

पिच ३२ गौरवंशीतमुत्क्लेदोरोमहर्षोतिनिद्रता ॥ स्रो
 तोरोधोरुगल्पत्वंप्रसेकोवहुमूत्रना ३३ नात्युष्णगात्रता
 छर्दिर्लालास्रावोविपाकता ॥ प्रतिश्यायोरुचिःकासःक
 फजेक्ष्णोश्चशुक्लता ३४ तृष्णामूर्च्छाभ्रमोदाहः स्वप्न
 नाशःशिरोरुजा ॥ कंठास्यशोषोवमथू रोमहर्षोरुचिस्त
 मः ३५ पर्वभेदश्चजृम्भाच वातपित्तज्वराकृतिः ॥ स्तै
 मित्यंपर्वणांभेदोनिद्रागौरवमेवच ३६ शिरोग्रहःप्रतिश्या
 यःकासःस्वेदाप्रवर्त्तनम् ॥ संतापोमध्यवेगश्चवातश्ले
 ष्मज्वराकृतिः ३७ लिप्ततिक्रास्यतातंद्रामोहःकासोरुचि

कफज्वरकेलक्षण-देहप्रानीसे भींगासावनारहे ज्वरका वेगमन्दरहे
 बालस्यरहे मुख्यमीठावनारहे मलमूत्रखाल उजलेरहे शरीरजक
 डासा भोजनकरनेकी इच्छानहोना ३२ शरीरगूररहना जाड़ाव
 हुत लगना उकलाई का होना रोमांच होना बहुत सोना नसों
 का रूंकना भंग में थोड़ीपीड़ा पसीनाहोना बहुत पेशाव होना
 ३३ देहमें बहुतगर्मीका नहोना डाकना लारवहना शरीरपकासा
 विदितहोना नाकवहना अरुचिहोना खांसी नेत्रों में शुक्लतावस
 ये कफज्वरके लक्षणहैं ३४ वात पित्तज्वरके लक्षण-प्यास मूर्च्छा
 आना चित्तभ्रमहोना जलनहोना नादकानाश होना शिरमेंपीड़ा
 होना गलमुखका सूखना वान्तहोना रोमखड़ेहोना अरुचि अंधि
 यारा दिखाईदेना ३५ सब सन्धियोंमें पीड़ा जँभोईआना वसये
 वात पित्तज्वर के लक्षण हैं अब कफवातज्वर के लक्षण कहते
 हैं-देह गीलेकपड़े से पोंछासा विदितहो सब सन्धियोंमें पीड़ाहो
 नादबहुत भावे शरीर गरुआरहै ३६ शिरमेंपीड़ा शरदी के मारे
 नासिकावहती रहै खांसीभावे पसीनाथोड़ाहो देहमें, दाहवनारहे
 ज्वरका मध्यम वेगहो वस येही वात कफज्वर के लक्षण हैं, ३७
 कफ पित्तज्वरके लक्षण-चटचटाहट के साथ मुखकड़ूहोना आ;

स्तृषा ॥ मुहुर्दाहोमुहुःशीतं श्लेष्मपित्तज्वराकृतेः ३८
 क्षणेदाहःक्षणेशीतमस्थिसंधिशिरोरुजा ॥ सस्त्रावेकलुषे
 रक्ते निर्भुग्नेचापिलोचने ३९ सस्त्रनोसरुजौकर्णौकं
 ठःशूकैरिवावृतः ॥ तंद्रामोहःप्रलापश्च कासःश्वासोरु
 चिभ्रमः ४० परिदग्धाखरस्पर्शाजिह्वास्त्रस्तांगतापरम् ॥
 ष्ठीवनंरक्तपित्तस्य कफेनोन्मिश्रितस्यचं ४१ शिरसोलो
 ठनंतृष्णानिद्रानाशोहृदिव्यथा ॥ स्वेदमूत्रपुरीषाणांचि
 राद्दर्शनमल्पशः ४२ कृशत्वंनातिगात्राणामतंसंकठकूज
 नम् ॥ स्फोटानांश्यावरक्तानांमंडलानांचदर्शनम् ४३ मू
 कत्वंश्रोतसांपाको गुरुत्वमुदरस्यच ॥ चिरात्पाकश्चदो
 षाणां सन्निपातज्वराकृतिः ४४ दोषेविवृद्धेनष्टेग्नौ सर्व
 लस्य होना मोह खांसीआना अरुचि प्यास वार २ दाह वार २
 शरीर ठण्डाहोजाना वस कफ पित्तज्वर के येहीलक्षणहैं ३८ स-
 न्निपातज्वरके लक्षण-क्षण में अतिदाह क्षणमें अति शीतहोजाना
 हडफूटन सबजोड़ों में पीड़ा शिरबहुत पीड़ितहोना नेत्रआंशुओं
 से भरे मैले लाल तिरछे बनेरहें ३९ कानोंमें संसनाहट व पीड़ा
 बनीरहै गले में काँटे से गड़ें आलस्य मोह अनर्थवकना खांसी
 दम सबवस्तुओं में अरुचि भ्रम ४० जिह्वाजलतीसी व खरखरी
 छूनेसे शरीरमें पीड़ाविदितहो रक्तपित्त मिलेहुये कफका धुँकना
 ४१ इधर उधर शिर घुमाते रहना अधिकप्यास लगना नींद न
 आना मनमें पीड़ा पसीना मूत्र मल बहुत देरमें कभी थोड़ासा
 दिखाईदेना ४२ देहकाबहुत दुर्बल न होना जलताहुआ गला
 घुर्घुरातारहना काले व लाल फोड़े व चकधोंका शरीर में पड़
 जाना ४३ बोलनसकना कान नाक जीभ गलापकजाना पेटका
 भारीबनारहना वात पित्त कफादिकों के दोषोंका बहुत दिनों में
 परिपाक होना ये सब सन्निपात ज्वरके लक्षण हैं ४४ वात पित्त

पूर्णलक्षणः ॥ सन्निपातज्वरोसाध्यं कृच्छ्रसाध्यस्ततोऽन्यथा ४५ सन्निपातज्वरस्यांतेकर्णमूलेसुदारुणः ॥ शोफः संजायतेतेन कश्चिदेवप्रमुच्यते ४६ अभिघाताभिचाराभ्यामभिषंगाभिशापतः ॥ आगंतुर्जायतेदोषैर्यथास्वंतं विभावयेत् ४७ श्यावास्यताविषकृतेदाहोतीसारएवच ॥ भक्त्वारुचिःपिपासाचतोदश्चसहमूर्च्छया ४८ औषधाघ्राणजेमूर्च्छाशिरोरुग्मथुःक्षवः ॥ कामजेचित्तविभ्रंश

कफके दोषोंके बहुत बढ़जानेपर जब अग्नि वनाय मन्द होजाय व ऊपर कहेहुये सब लक्षणहों वह सन्निपात ज्वर असाध्य होता है व जब इसकेविपरीतहो सबलक्षण नमिलें कुछमिलें कुछ नमिलें मन्दाग्नि न हों तब वह सन्निपात बड़ेकष्टसे साध्यभी होजाता है ४५ सन्निपात इसग्रन्थके व अन्यग्रन्थों के मत से तेरहप्रकार के होते हैं उनके लक्षण व नामादि ग्रन्थके अन्तमें कहेंगे सन्निपात ज्वरके अन्तमें कानोंके मूलमें जब अति दारुण शोथ होता है उसके होने से फिर कोई सैकड़ों में एक आधा बचता है नहीं तो मृतकही होजाता है ४६ अस्त्र शस्त्रादि के लगनेसे मन्त्रादि के विरुद्ध करनेसे सरसों आदि के हवन करनेसे अतिमैथुन करने से भूतादि लगनेसे ब्राह्मण वृद्धादिकों के शापसे आगन्तुक ज्वर उत्पन्न होताहै जिसमें शस्त्रादिकों में से जिसका लक्षण पाया जाय उसे उसीका आगन्तुक ज्वर जानना चाहिये ४७ विपसे उत्पन्न आगन्तुकज्वरका लक्षण—विपसे उत्पन्नज्वरमें मुखकाला होजाता है शरीरमें दाह होताहै दस्त होते हैं भोजनादिमें अरुचिहोती है प्यास लगती है शरीरमें मानोंकोई कोंचता है व मूर्च्छा होआती है ४८ किसी विपारी औषधके सूँघने से उत्पन्न ज्वरके लक्षण इसमें मूर्च्छा आजाती है शिरमें पीड़ाहोती है ओकाईआती छींकवहुतआती है कामसे उत्पन्न ज्वरके लक्षण यह

स्तंद्रालस्यसंभोजनम् ४६ हृदयेवेदनाचास्यगात्रंचप
 रिशुष्यति ॥ भयात्प्रलापःशोकाच्चभवेत्कोपाच्चवेपथुः
 ५० अभिचाराभिघाताभ्यांमोहस्तृष्णाचजायते ॥ भूता
 भिषंगादुद्वेगोहास्यरोदनकंपनम् ५१ कामशोकभयाद्वायु
 क्रोधात्पित्तत्रयोमलाः ॥ भूताभिषंगात्कुप्यंतिभूतसामान्य
 लक्षणाः ५२ दोषोल्पोऽहितसंभूतोज्वरोत्सृष्टस्यवापुनः ॥
 धातुमन्यतमंप्राप्यकरोतिविषमज्वरम् ५३ यस्यादनिय
 तात्कालाच्छीतोष्णाभ्यान्तथैवच ॥ वेगतश्चापिविषमो

ज्वर किसी स्त्रीमें चित्तलगनेपर उसके न मिलनेपर प्रायः उत्प-
 न्नहोताहै इसमें चित्तभ्रम होजाताहै शरीर तवाँपाकरता आल-
 स्य होतीहै किसी वस्तुके भोजनकी रुचिनहीं रहती ४६ हृदय
 में पीड़ा व सब अंगसूखते रहते हैं भय शोक व कोपसे उत्पन्न
 ज्वरोंके लक्षण भयसे उत्पन्न ज्वरमें प्राणी अनर्थ वचन बकता
 रहताहै व शोकसे उत्पन्नमें भी ऐसाही बकताहै व कोपसे उत्प-
 न्न वालेमें काँपता है ५० अभिचार व अभिघात से उत्पन्नज्वर
 में मोह होता व प्यास अधिक लगती है भूतप्रेतादिकोंसे उत्पन्न
 ज्वरमें चित्तकी उद्विग्नता हँसना रोना व काँपना होताहै ५१
 कामशोक व भयसे वायु कोपकरताहै व क्रोधसे पित्त कोपताहै
 व भूतज्वर में वातपित्त कफ तीनों दोष कोपकरते हैं व भूतके
 लक्षण और वातादिकों के दोषोंके भी लक्षण इसमें होतेहैं ५२
 विषमज्वरकी सम्प्राप्तिका लक्षण—ज्वर आकरलूटजानेपर दिनमें
 सोजाने आदि अपथ्योंके कारण अल्पदोष भी अपथ्यके हेतुअन्य
 धातुमें पैठकर फिर विषमज्वरको उत्पन्न कराताहै समयबदलता
 हुआ तीसरे चौथे दिन अति वेगसे आने लगताहै व फिर नित्य
 ज्वरको भी उत्पन्न करता है ५३ जिसज्वर का कोई काल
 नियत नही व शीत उष्ण दोनोंके संग भावे व जब आवे बड़े वेग

ज्वरस्सविषमस्मृतः ५४ संततःसततोन्येद्युस्तृतीयक
चतुर्थकौ ॥ संततोरसरक्तस्थःसोन्येद्युःपिशिताश्रितः५५
मेदोगतस्तृतीयेह्नित्वस्थिमज्जागतःपुनः ॥ कुर्याच्च
तुर्थकंघोरमंतकरोगसंकरम् ५६ सप्ताहंवादशाहंवाद्वा
दशाहमथापिवा ॥ संतत्यापोविसर्गस्यात्संततः सनिग
द्यते ५७ अहोरात्रेसततकोद्धौकालावनुवर्त्तते ॥ अन्ये
द्युष्कस्त्वहोरात्रमेककालंप्रवर्त्तते ५८ तृतीयकस्तृतीये

सेही आवे व पूर्व के लक्षणसे भी जो आवे उसज्वरको विषम
ज्वर कहतेहैं ५४ विषमज्वर के नाम-सन्तत सतत अन्येद्युतृती
यक चतुर्थक ये पांचप्रकारके विषमज्वर होतेहैं जिसका सदा
एकसावेग बनारहता वहसन्तत कहाताहै व चढ़ता उतरतारह-
ताहै उसकासततनामहै व जोआंतरिआआताहै उसेअन्येद्यु कहते
हैंतीसरेदिन आनेवालेको तृतीयक वा तिजरिया कहते हैं चौथे
दिनआनेवाले को चतुर्थक चातुर्थिक वा चौथिया कहतेहैं रसमे
प्राप्त होकर दोपसन्तत ज्वरको उत्पन्न करताहै व रक्त में प्रविष्ट
होकर सततज्वरको व मांस में दोप प्रवृत्त होकर अन्येद्युज्वर कौ
५५ मेदा में दोप पहुंचकर तृतीयक ज्वरको हड्डी व मज्जामें ज-
व दोप प्राप्त होता है तो चातुर्थिक ज्वर को उत्पन्न करता है यह
ज्वर बड़ा घोर होताहै इससे मरणही करदेता व बहुत से रोग
इसमें मिले हुये होते हैं ५६ सन्ततज्वर के लक्षण सात दिन
तक दशदिनतक अथवा बारह दिनतक जो वरावर चढ़ारहे कि-
सी समय न उतरे उसको सन्तत ज्वर कहते हैं इसमें वात का
सन्तत ज्वर सातदिनतक पित्तकादशदिन व कफका बारह दिन
रहता है ५७ सततज्वर के लक्षण-रात्रिहीमें वा दिनही में वा
रात्रि दिन दोनों मिलाकर जो दो समयों में आता है उसको
सतत ज्वर कहतेहैं व अन्येद्युनाम ज्वर रात्रिमें वा दिनमें एक

हनि चतुर्थेहनिचतुर्थकः ॥ (अहोरात्रादहोरात्रं स्थाना
 स्थानं प्रपद्यते ॥ ततश्चामाशयंप्राप्य करोति विषम
 ज्वरम्) केचिद्भूताभिषंगोत्थं वदन्ति विषमज्वरम् ५६
 कफपित्तात्रिकग्राही पृष्ठाद्वातकफात्मकः ॥ वातपित्ता
 च्छिरोग्राही विविधः स्यात्तृतीयकः ६० चातुर्थिकोदर्श
 यति प्रभावं द्विविधं ज्वरः ॥ जंघाभ्यां इलेष्मिकः पूर्वं शिर
 स्तो निलसंभवः ६१ विषमज्वर एवान्यश्चातुर्थिकविष
 ययः ॥ समध्ये ज्वरयत्यहनी आद्यन्ते च विमुञ्चति ६२
 नित्यमन्दज्वरो रूक्षः शूनकस्तेन सीदति ॥ स्तब्धाङ्गः

हीवार आता है ५८ तृतीयक वा त्रिजरिया तीसरे दिन आता
 है व चतुर्थक वा चौथिया चौथे दिन आता है सोभी ये दोनों
 एकही एकवार आते हैं कोई २ आचार्य्य भूतादिकों के संगसे
 उत्पन्न विषमज्वरको बताते हैं ५६ कफ पित्त के दोपसे उत्पन्न
 तृतीयक ज्वर पीठ रीढ़ व कटि तीन स्थानों में पीड़ा करता है व
 वात कफसे उत्पन्न तृतीयक केवल पीठमें पीड़ा करता है व वात
 पित्त से उत्पन्न तृतीयक शिरमें पीड़ा करता है इस रीतिसे तृती-
 यक तीन प्रकारका होता है ६० व चातुर्थिक वा चौथिया ज्वर
 दो प्रकार का प्रभाव दिखाता है जो कफका होता वह फालियों
 में पीड़ा करता है व वातज चातुर्थिक शिर में पहिले पीड़ा क-
 रता फिर सब शरीर में फैलता है ६१ विषम ज्वर के भेद-चौ-
 थिया ज्वरही उलटा होकर दूसरा विषमज्वर होजाता है वह आदि
 अन्तके अर्थात् पहिले चौथेदिनोंको छोड़ बीचवाले दूसरे तीसरे
 दिनों में आता है ऐसेही तृतीयक पहिले तीसरे दिनको छोड़
 दूसरे दिन आने लगता है तो दूसरा विषम ज्वर होजाता है ६२
 वात बलासकनाम ज्वर का लक्षण-नित्यमन्द ज्वर बना रहना
 देहमें रुखाई शोथ होना ग्लानि अंगों का टूटना कफकी अधिक

श्लेष्मभयिष्ठो नरोवातवलासकी ६३ प्रलिंपन्निवगात्रा
 णि घर्मेणगौरवेणच ॥ मन्दज्वरविलेपीचसशीतःस्यात्
 प्रलेपकः ६४ विदग्धेऽन्नरसेदेहेश्लेष्मपित्तव्यवस्थिते ॥
 तेनार्द्धशीतलौहमर्द्धचोष्णंप्रजायते ६५ कायेपित्तंय
 दादुष्टं श्लेष्माचांतेव्यवस्थितः ॥ तेनोष्णत्वंशरीरस्य
 शीतत्वंहस्तपादयोः ६६ कायेष्लेष्मायदादुष्टः पि
 त्तंचांतेव्यवस्थितम् ॥ शीतत्वंतेतगात्राणामुष्णत्वंहस्त
 पादयोः ६७ त्वक्स्थोश्लेष्मानिलौशीत मादौजनयतौ
 ज्वरम् ॥ तयोःप्रशांतयोःपित्तमंतेदाहं करोतिच ६८ करो
 त्यादौतथापित्तं त्वक्स्थंदाहमतीवच ॥ तस्मिन्प्रशांते

वृद्धियेइसज्वरवालेकोहोतेहै ६३ प्रलेपकज्वरकेलक्षण-इसज्वरमें
 पसीनेसे वा गरुभाईसे शरीरमेंज्वरके पीछे कुछवटवटीसीशरदी
 विदितहोती है व उसीसे मन्दज्वर कुछठण्डासा विदितहोनेलग-
 ताहै इसीसे इसका प्रलेपक नामभीहै ६४ विषमज्वरका विशेष
 लक्षण-अन्नकारसदुष्टहोकर व शरीरमें कफपित्तभी ज्वदुष्टहोकर
 टिकतेहैं तो कफकेकारण आधाशरीर तो बनायशीतल होजाताहै
 वआधापित्तके कारण बहुतगर्म रहताहै ६५ ज्वर देहमें पित्तदुष्ट
 होजाताहै व कफहाथों पैरोंमें दुष्टहोकर रहताहै तो उसपित्तकी
 दुष्टतासे अन्यभंगोंमें उष्णता व कफकीदुष्टतासे हाथोंपैरोंमें शी
 तलता होजातीहै ६६ इसीकाउलटा दूसराज्वर कोठेमें ज्वर कफ
 दुष्टहोकर रहताहै व दुष्टहोकर पित्तहाथों पैरोंमें व्याप्तहोताहै तो
 कफकी दुष्टतासे अन्यभंगोंमें शीतलता व पित्तकीदुष्टतासे हाथों
 पैरोंमें उष्णता होजाती है ६७ शीतपूर्वक ज्वर अर्थात् पहिले
 जाड़ा लगकर फिर ज्वरहोना खालमें टिककरकफ व वात पहिले
 शीतज्वर को उत्पन्न करते हैं जब कफ वातशान्त होजाते हैं तो
 पित्तदेहको जलाने लगताहै ६८ दाहपूर्वक ज्वर अर्थात् पहिले

त्वितरौ कुरुतेःशीतमंततः ६६ द्वावेतोदाहशीतादीज्व
 रोसंसर्गजौस्मृतौ ॥ दाहपूर्वस्तयोःकष्टः कृच्छ्रसाध्यतम
 श्चसः ७० गुरुताहृदयोत्केशस्सदनंछर्द्यरोचको ॥
 रसस्थेतुज्वरेलिंगं दैन्यंचास्योपजायते ७१ रक्तनिष्ठी
 वनंदाहोमोहश्चर्दनविभ्रमौ ॥ प्रलापःपिडिकातृष्णारक्त
 प्राप्तेज्वरेनृणाम् ७२ पिडिकोद्वेष्टनंतृष्णा सृष्टमूत्रपुरीषं
 ता ॥ उष्णांतर्दाहविक्षेपौ ग्लानिःस्यान्मांसगेज्वरे ७३
 पिडिकाजान्वधोभागे मांसपिंडस्यवेष्टनम् ॥ दण्डादि
 पीडनेनेव पीडामूत्रपुरीषयोः ७४ भृशंस्वेदस्तृषामूर्च्छा

तापहोकर फिर जूड़ी आना पहिले स्वचामें टिकाहुआ पित्त अ-
 त्यन्त तापको उत्पन्नकराताहै जब वहशान्त होजाताहै तो कफ
 व वात दोनों मिलकर सबअंगों को शीतल करदेते हैं ६६ दाह-
 पूर्वक व शीतपूर्वक येदोनों ज्वर त्रिदोषमें होते हैं उनमें दाह-
 पूर्वक बड़ाकष्टदायीहोताहै व बड़ेकष्टसे मिटसक्ताहै ७० रसगत
 ज्वरके लक्षण-शरीरगुरुआवनारहे हृदय में क्लेश शरीर का टूटना
 ओकाईआना सबवस्तुओंमें अरुचि किसीको न पहिचानना चित्त
 में दीनता वस ये सब चिह्न रसस्थ ज्वर के हैं ७१ रक्तगत ज्वर
 के लक्षण-रुधिर का ढाकना जलन चित्त विगड़ना वार २ ओ-
 काईआना किसीको न पहिचानना आदि विभ्रम अनर्थ वचन
 वकना फोड़ाफुंसी आदि होआना अधिकप्यास लगना येसवरक्त
 में प्राप्त ज्वरमें होते हैं ७२ मांसगत ज्वर के लक्षण-फोड़ाफुंसि-
 योंका होना प्यास मलमूत्रकी अधिकता अन्तःकरणका जलना
 हाथ पैरफटकना व ग्लानि येसबमांसगतज्वरमें होतेहैं ७३ मेदा
 में प्राप्त ज्वर के लक्षण-बहुत पसीना होना प्यास लगना मूर्च्छा
 आना अनर्थ वकना ढाकना मुखादिमें दुर्गन्धिका आना अरुचि
 होना ग्लानि देहसे पीड़ाका न सहना येसब मेदाके ज्वरमें होते

प्रलापःश्चिद्विरेवच ॥ दौर्गंध्यारोचकौग्लानिर्भेदस्थेचास
 हिष्णुता ७५ भेदोस्थानांकूर्जेनैवासो विरेकःश्चिद्विरेवचा ॥
 विक्षेपणंचगात्राणामेतदस्थिगतज्वरे ७६ तमःप्रवेशनं
 हिक्काकासःशैत्यं वमिस्तथा ॥ अंतर्दाहोमहाश्वासोम
 र्भच्छेदश्चमज्जगे ७७ मरणंप्राप्तुयात्तत्र शुक्रस्थानगते
 ज्वरे ॥ शोफसस्तब्धतामोक्षः शुक्रस्यतुविशेषतः ७८
 वर्षाशरद्वसंतेषु वाताद्यैःप्राकृतःक्रमात् ॥ वैकृतोन्यस्स
 दुःसाध्यःप्राकृतश्चानिलोद्भवः ७९ वर्षासुमारुतोदुष्टः
 पित्तश्लेष्मान्वितोज्वरम् ॥ कुर्यात्पित्तंचशरदि तस्यचा

है ७४ अस्थिगतज्वरके लक्षण—हडफूटनकाखना वा कहरना दम
 चढ़ना मलअधिक आना वमनहोना अंगोंकाफटकना ये लक्षण
 हड्डीमेंप्राप्तज्वरकेहै ७५ मज्जागतज्वरकेलक्षण—सबअंगेरादिखाई
 देना हुचकीआना खांतीठगढालगना वमनहोना अन्तर्दाह होना
 बड़े वेगसे श्वासआना कलेजे आदि सुकुमार स्थानोंमें छेदना
 येसब मज्जागत ज्वरमें होते हैं ७६ कामगतज्वरकेलक्षण—रसा-
 दि सानधालुओं में पैठते २ ज्वरज्वर काममें पैठजाताहै तवरोगी
 मृतकही होजाताहै क्योंकि लिंगसेशिथिल होजाताहै उससे पत
 ला होकर वीर्य वा रुधिरबहने लगताहै ७७ प्राकृत वैकृत ज्वर
 के लक्षण—वर्षा शरद व वसंतमेंक्रमसे वात पित्त व कफज्वरप्रा-
 कृतिकज्वर कहातेहै वर्षामेंवातज्वर शरदमें पित्तज्वर व वसंतमें
 कफज्वर और इनके विपरीत जो ज्वरहोता है वह वैकृत ज्वर
 कहाता है वैकृत बड़े दुःखसे साध्यहोताहै व वातज्वर प्राकृतिक
 भी दुस्साध्य होताहै ७८ पित्तकफ युक्त होकर वायु दुष्टहो वर्षा
 में ज्वरको उत्पन्न कराता है ऐसेही वर्षाकाल का इकट्टा हुआ
 पित्त दुष्ट होकर शरदमें ज्वरको कराता है उस शरदमें पित्तकफ
 से सम्बन्ध रखता है ७९ इस शरद ऋतुके ज्वर में जुजावदेने

ज्वरः क्षीणस्य शूलस्य गंभीरो दैर्घ्यरात्रिकः ॥ असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमंतकृज्वरः ६२ गंभीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यंतर्दाहेन तृष्णया ॥ आनद्धत्वेन दोषाणां श्वासकासोद्गमेन च ६३ आरम्भाद्विषमो यस्य यस्य वा दैर्घ्यरात्रिकः ॥ क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गंभीरो हंतियस्य तम् ६४ विसंज्ञस्ताम्यंते यस्तु शेते निपतितोपि वा ॥ शीतार्दितो तरुणश्च ज्वरेण म्रियते नरः ६५ यो हृष्टरो मारुक्ताक्षो हृदिसंघातशूलवान् ॥ वक्त्रेण चोच्छ्वसिति तं ज्वरो हंति मानव

दूसरा लक्षण—क्षीण व शोधे पुरुष के शरीर में जो ज्वर होता वह असाध्यही होता है व जो ज्वर धातुओं के भीतर पैठकर अति गुरु होजाता है व जो बहुत रात्रियों तक रहता है ६१ व जो ज्वर बहुत बलवान् हो और उसके कारणरोगीके वार चिकित्से होजायँ यह ज्वर असाध्य है गंभीर ज्वरके लक्षण—अन्तर्दाह व अति प्यास से युक्त ज्वर गंभीर ज्वर कहाता है ६२ इसके साथ ही जो मल बहुत बँधा हुआ हो व खांसी दमभी आने लगे तो अति गंभीर ज्वर होजाता है गंभीर ज्वरका असाध्य लक्षण—जो ज्वर प्रारम्भही से विषम हो बहुधा कोई समय न नियत हो वा जो बहुतदिनों तक बनारहै ६३ व जिस पुरुषके हो वह अतिक्षीण हो अथवा उसका शरीर बहुत रूपाहो तो वह ज्वर उसे मारही डालता है दूसरा असाध्य गंभीर ज्वरकालक्षण—जो ज्वर वाला मूर्च्छितहो मोहमें पड़ारहै व विस्तरापर पड़ेहुये सोताही रहे बिना उठाये उठनसके ६४ व ऊपरसे बहुत जाड़ेसे पीड़ितरहै और अन्तःकरण में दाह बनारहै यह ज्वर असाध्य होता है इससे इसमें प्राणी नहीं जीता मरीजाता है और असाध्यका लक्षण—जिस ज्वर वाले के रोम सदा खड़े रहें व नेत्र लाल व नेत्रहें व हृदयमें कुछ गाँठसी बँधकर पीड़ाकरे ९५ व मुखसे श्वासें अधिक निकलें उस

म् ६६ हिकाश्वासतृषायुक्तं मूढंविभ्रांतलोचनम् ॥ सं
 ततोच्छ्वासिनंक्षीणं नरंक्षपयतिज्वरः ६७ हतप्रभेन्द्रि-
 यक्षाममरोचकनिपीडितम् ॥ गम्भीरतीक्ष्णवेगार्त्तं ज्व-
 रितंपरिवर्जयेत् ६८ दाहःस्वेदोभ्रमःतृष्णा कम्पोवि-
 द्भिदसंज्ञता ॥ कूजनंचातिवैगन्ध्यमाकृतिज्वरमोक्षणे
 ६९ स्वेदोलघुत्वंशिरसः कण्डूःपाकोमुखस्यच ॥ क्षवथु-
 श्चान्नकांक्षाच ज्वरमुक्तस्यलक्षणम् १०० ॥

इतिज्वरनिदानम् ॥

पुरुष को वह ज्वर मारडालता है जिस ज्वरवाले को हुचकी
 श्वास पिपासाहो व वह मोह युक्त बनारहै नेत्र इधर उधर घुमा-
 याकरे ६६ व निरन्तर वेगसे श्वास लेतारहै व शरीर उसका
 बहुत क्षीणहोगयाहो तो वह मनुष्य मृतरुही होजाताहै जिस
 पुरुषकी प्रभाव इन्द्रियाँ नष्टहोगईहों व बहुतही दुर्बल होगया
 हो व अरुचिसे सबअंगोंसे पीडितहो ६७ गम्भीर व तीक्ष्णवेगसे
 अत्यन्त पीडितहो वैद्यको चाहिये कि ऐसे ज्वरवाले को छोड़दे
 औषध न करे ज्वर छूटजाने के पूर्वरूपका लक्षण—शरीरमें दाह
 होना पसीनाहोना कुछ भ्रमरहना प्यासलगना कुछ काँपना मल
 का पतला न होना ६८ काँखना वा कहरना देहमेंगन्धि न होना
 यह ज्वर छूटनेका लक्षणहै ज्वरछूटजानेका और लक्षण—पसीना
 का होना शरीर हलकाहोना शिरखजुआना मुखपकजाना ६९
 छीकेंआना अन्नखाने को मनहोना ये सब ज्वरछूटजाने के ल-
 क्षण हैं १०० ॥

इतिश्रीमाधवीयेभाषानुवादेज्वरनिदानप्रथमम् १ ॥

ज्वरः क्षीणस्य शूलस्य गंभीरो दैर्घ्यरात्रिकः ॥ असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमंतकृज्ज्वरः ६२ गंभीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यंतर्दाहेन तृष्णया ॥ आनद्धत्वेन दोषाणां श्वासकासोद्गमेन च ६३ आरम्भाद्विषमो यस्य यस्य वा दैर्घ्यरात्रिकः ॥ क्षीणस्य चातिरुक्षस्य गंभीरो हंतियस्य तम् ६४ विसंज्ञस्ताम्यंते यस्तु शैतेनि पतितोऽपि वा ॥ शीतार्दितो तरुष्णश्च ज्वरेण घ्नियते नरः ६५ यो हृष्टरो मारुक्ताक्षो हृदिसंधातशूलवान् ॥ वक्त्रेण चैवोच्छ्वसिति तं ज्वरो हंति मानव

दूसरा लक्षण—क्षीण व शोथे पुरुष के शरीर में जो ज्वर होता वह असाध्यही होता है व जो ज्वर धातुओं के भीतर पैठकर अति गुरु होजाता है व जो बहुत रात्रियों तक रहता है ६१ व जो ज्वर बहुत बलवान् हो और उसके कारण रोगीके वार चकित्ने होजायँ यह ज्वर असाध्य है गम्भीर ज्वरके लक्षण—मन्तर्दाह व अति प्यास से युक्त ज्वर गम्भीर ज्वर कहाता है ६२ इसके साथ ही जो मल बहुत बँधाहुआ हो व खांसी दमभी आनेलगेतो अति गम्भीर ज्वर होजाता है गम्भीर ज्वरका असाध्य लक्षण—जो ज्वर प्रारम्भही से विषम हो बहुधा कोई समय न नियत हो वा जो बहुतदिनोंतक बनारहै ६३ व जिस पुरुषके हो वह अतिक्षीण हो अथवा उसका शरीर बहुत रूपाहो तो वह ज्वर उसे मारही दालताहै दूसरा असाध्य गम्भीर ज्वरकालक्षण—जो ज्वर बालामूर्च्छितहो मोहमें पड़ारहै व विस्तरापर पड़ेहुये सोताही रहे विना उठाये उठनसके ६४ व ऊपरसे बहुतजाड़ेसे पीड़ितरहै और मन्तःकरण में दाह बनारहै यह ज्वर असाध्य होताहै इससे इसमें प्राणी नहीं जीता मरीजाताहै और असाध्यका लक्षण—जिस ज्वर वाले के रोम सदा खड़ेरहें व नेत्रलाल बनैरहें व हृदयमें कुछ गाँठसी बँधकर पीड़ाकरे ९५ व मुखसे श्वासें अधिक निकलें उस

म् ६६' हिकाश्वासतृषायुक्तं मूढंविभ्रांतलोचनम् ॥ सं
 ततोच्छ्वासिनंक्षीणं नरंक्षपयतिज्वरः ६७ हतप्रभेन्द्रि-
 यक्षाममरोचकनिपीडितम् ॥ गम्भीरतीक्ष्णवेगार्त्तं ज्व
 रितंपरिवर्जयेत् ६८ दाहःस्वेदोभ्रमःतृष्णा कम्पोवि
 द्भिदसंज्ञता ॥ कूजनंचातिवैगन्ध्यमाकृतिर्ज्वरमोक्षणे
 ६९ स्वेदोलघुत्वंशिरसः कण्डूःपाकोमुखस्यच ॥ क्षवथु-
 श्चान्नकांक्षाच ज्वरमुक्तस्यलक्षणम् १०० ॥

इतिज्वरनिदानम् ॥

पुरुष को वह ज्वर मारडालता है जिस ज्वरवाले को हुचकी
 श्वास पिपासाहो व वह मोह युक्त बनारहै नेत्र इधर उधर घुमा-
 याकरे ६६ व निरन्तर वेगसे श्वास लेतारहै व शरीर उसका
 बहुत क्षीणहोगर्याहो तो वह मनुष्य मृतकही होजाताहै जिस
 पुरुषकी प्रभाव इन्द्रियाँ नष्टहोगईहों व बहुतही दुर्बल होगया
 हो व अरुचिसे सबअंगोंसे पीडितहो ६७ गम्भीर व तीक्ष्णवेगसे
 अत्यन्त पीडितहो वैद्यको चाहिये कि ऐसे ज्वरवाले को छोड़दे
 औपध न करे ज्वर छूटजाने के पूर्वरूपका लक्षण—शरीरमें दाह
 होना पसीनाहोना कुछ भ्रमरहना प्यासलगना कुठ काँपना मल
 का पतला न होना ६८ काँखना वा कहरना देहमेंगन्धि न होना
 यह ज्वर छूटनेका लक्षणहै ज्वरछूटजानेका और लक्षण—पसीना
 का होना शरीर हलकाहोना शिरखजुमाना मुखपकजाना ६९
 छींकेमाना अन्नखाने को मनहोना ये सब ज्वरछूटजाने के ल-
 क्षण हैं १०० ॥

इतिश्रीमाधवीयेभाषानुवादेज्वरनिदानप्रथमम् १ ॥

ज्वरः क्षीणस्य शूलस्य गंभीरो दैर्घ्यरात्रिकः ॥ असाध्यो बलवान् यश्च केशसीमंतकृज्ज्वरः ६२ गंभीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्यंतर्दाहेन तृणया ॥ आनद्धत्वेन दोषाणां श्वासकासोद्गमेन च ६३ आरम्भाद्विषमो यस्य यस्य वा दैर्घ्यरात्रिकः ॥ क्षीणस्य चातिरूक्षस्य गंभीरो हंतियस्य तम् ६४ विसंज्ञस्ताम्यंते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा ॥ शीतार्दितो तरुणश्च ज्वरेण घ्नियते नरः ६५ यो हृष्टरो मारुक्ताक्षो हृदिसंघातशूलवान् ॥ वक्त्रेण चैवोच्छ्वसिति तं ज्वरो हंति मानव

दूसरा लक्षण—क्षीण व शोथे पुरुष के शरीर में जो ज्वर होता वह असाध्यही होता है व जो ज्वर धातुओं के भीतर पैठकर अति गुरु होजाता है व जो बहुत रात्रियों तक रहता है ६१ व जो ज्वर बहुत बलवान् हो और उसके कारण रोगीके वार चकिने होजायँ यह ज्वर असाध्य है गंभीर ज्वरके लक्षण—अन्तर्दाह व अति प्यास से युक्त ज्वर गंभीर ज्वर कहाता है ६२ इसके साथ ही जो मल बहुत बँधाहुआ हो व खांती दमभी आनेलगेतो अति गंभीर ज्वर होजाता है गंभीर ज्वरका असाध्य लक्षण—जो ज्वर प्रारम्भही से विषम हो बहुधा कोई समय न नियत हो वा जो बहुतदिनोंतक बनारहै ६३ व जिस पुरुषके हो वह अतिक्षीण हो अथवा उसका शरीर बहुत रूपाहो तो वह ज्वर उसे मारही डालताहै दूसरा असाध्य गंभीर ज्वरकालक्षण—जो ज्वरवाला मूर्च्छितहो मोहमें पड़ारहै व विस्तरापर पड़ेहुये सोताही रहे विना उठाये उठनसके ६४ व ऊपरसे बहुतजाड़ेसे पीड़ितरहै और अन्तःकरण में दाह बनारहै यह ज्वर असाध्य होताहै इससे इसमें प्राणी नहीं जीता मरीजाताहै और असाध्यका लक्षण—जिस ज्वर वाले के रोम सदा खड़ेरहें व नेत्रलाल वनेरहें व हृदय में कुछ गाँठसी बँधकर पीड़ाकरे ९५ व मुखसे श्वासें अधिक निकलें उस

म् ६६ हिक्काश्वासतृषायुक्तं मूढंविभ्रांतलोचनम् ॥ सं-
 ततोच्छ्वासिनंक्षीणं नरंक्षपयतिज्वरः ६७ हतप्रभेन्द्रि-
 यक्षाममरोचकनिपीडितम् ॥ गम्भीरतीक्ष्णवेगार्त्तं ज्व-
 रितंपरिवर्जयेत् ६८ दाहःस्वेदोभ्रमःतृष्णा कम्पोवि-
 द्भिदसंज्ञता ॥ कूजनंचातिवेगन्ध्यमाकृतिर्ज्वरमोक्षणे
 ६९ स्वेदोलघुत्वंशिरसः कण्डूःपाकोमुखस्यच ॥ क्ष्वथु-
 श्चात्रकांक्षाच ज्वरमुक्तस्यलक्षणम् १०० ॥

इतिज्वरनिदानम् ॥

पुरुष को वह ज्वर मारडालता है जिस ज्वरवाले को हुचकी
 श्वास पिपासाहो व वह मोह युक्त बनारहै नेत्र इधर उधर घुमा-
 याकरे ६६ व निरन्तर वेगसे श्वास लेतारहै व शरीर उसका
 बहुत क्षीणहोगयाहो तो वह मनुष्य मृतकी ही होजाताहै जिस
 पुरुषकी प्रभाव इन्द्रियाँ नष्टहोगईहों व बहुतही दुर्बल होगया
 हो व अरुचिसे सबअंगोंसे पीडितहो ६७ गम्भीर व तीक्ष्णवेगसे
 अत्यन्त पीडितहो वैद्य को चाहिये कि ऐसे ज्वरवाले को छोड़दे
 औषध न करे ज्वर छूटजाने के पूर्वरूपका लक्षण—शरीरमें दाह
 होना पसीनाहोना कुछ भ्रमरहना प्यासलगना कुछ काँपना मल
 का पतला न होना ६८ काँखना वा कहरना देहमेंगन्धि न होना
 यह ज्वर छूटनेका लक्षणहै ज्वरछूटजानेका और लक्षण—पसीना
 का होना शरीर हलकाहोना शिरखजुमाना मुखपकजाना ६९
 छीकेंमाना अन्नखाने को मनहोना ये सब ज्वरछूटजाने के ल-
 क्षण हैं १०० ॥

इतिश्रीमाधवीयेभाषानुवादेज्वरनिदानप्रथमम् १ ॥

गुर्वतिस्निग्धरुक्षोष्ण द्रवस्थूलातिशीतलैः ॥ विरुद्धा
 ध्यशनाजीर्णैर्विषमैश्चापिभोजनैः १ स्नेहाद्यैरतियुक्तै
 इच मिथ्यायुक्तैर्विषैर्भयैः ॥ शोकदुष्टाम्बुमद्याति पानैः
 सात्म्यर्तुपर्ययैः २ जलातिरमणैर्ध्वग विधातैःकृमिदोष
 तः ॥ नृणाम्भवत्यतीसारो लक्षणन्तस्यवक्ष्यते ३ सं
 शम्याऽपान्धातुरग्निम्प्रवृद्धो वर्चोमिश्रोवायुनाधःप्रण
 न्नः ॥ साध्यैताव्रीवातिसारंतमाहुर्व्याधिघोरंषड्विधंत
 वदन्ति ४ एकैकशःसर्वशश्चापिदोषैः शोकेनान्यःष

दोहा ॥ दुसरेमहें कह सकल अतिसार निदान विचारि ॥

देखहिं सज्जन चित्तदै जिमि वरगयो निरधारि १

अतीसार निदानकहते हैं गरुड वस्तुओंका भोजन जो शीघ्र
 नहीं पचती अति चिकनी वस्तुओं का भोजन अतिरूपे पदार्थ
 अतिउष्ण अतिपतली वस्तु अत्यन्तगाढी अत्यन्त शीतल विरुद्ध
 वस्तुओंका एकसंग भोजनकरना (अध्यशन) प्रथमका भोजनपचा
 न हो उसके ऊपर और भोजनकरना अजीर्ण में खाना विषम
 समयका भोजन कभीसवेरे कभी दोपहर कभी तीसरेपहर आदि
 व प्रमाणसे अधिक खालेनेसे १ स्नेहादिकों के अत्यन्त करने से
 व कमकरने से स्थाविरादि विषों के भोजनसे भयसे शोकसे दुष्ट
 जल पीने से बहुत मदिरा पीनेसे ऋतुओंके विपरीत खानेपीने
 से २ जलमें अति क्रीड़ाकरने से मलमूत्रके वेगके रोकने से अ
 थवा रुमियों के दोषसे मनुष्योंके अतीसार रोगहोता है उसका
 लक्षण कहते हैं ३ अतीसार की सम्प्राप्ति का वर्णन—जल धातु
 शान्तहो दुष्टत्रन अग्नि को मन्दकरके मल मिश्रितहो वायुसे बड़े
 जोरसे प्रेरित होकर गुदकीद्वारा गिरावे उसको अतीसार रोग
 कहतेहैं यहमहाघोर व्याधिहै और ६ प्रकारकाहोताहै ४ वातादि
 एक २ दोषोंसे तीन जैसे वातातीसार पित्तातीसार कफातीसार

पृथगामेन चोक्तः ॥ हन्नाभिपायूदरकुक्षितोदगात्रावसादा
 निलसन्निरोधाः ॥ विङ्गसंगमाध्मानमथाविपाको भविष्य
 तस्तस्युपुरस्सराणि ५ अरुणंफेनिलंरुक्षमल्पमल्पंमुहु
 मुहुः ॥ शकृदामंसरुकशब्दं मारुतेनातिसार्प्यते ६ पि
 त्तात्पीतनीलमालोहितंवातृष्णामूर्च्छादाहपाकोपपन्नं ॥
 शुक्लंसान्द्रंश्लेष्मणाश्लेष्मयुक्तं ॥ विस्रंशीतंहृष्टरोमामनु
 ष्यः ७ वाराहस्नेहमांसांशुसदृशंसर्वरूपिणम् ॥ कृच्छ्रसा
 ध्यमतीसारंविद्याद्दोषत्रयोद्भवम् ॥ तैस्तेर्भावैःशोचतोल्पा

तीन ये व चौथा इनतीनों दोषोंके मिलने से सन्निपातातीसार
 पाँचवाँ शोकातीसार व छठाँ आमातीसार द्वन्द्वज अतीसार कभी
 होताहीनहीं अतीसारोंका पूर्व्वरूप ऐसाहोताहै हृदय, नाभी, गुद
 पेट, कोखि इनमेंव्यथाहोना कोंचना देहका अस्वस्थरहना पवन
 की हँकावट मल की हँकावट पेटफूलारहना अन्नका परिपाक
 नहोना अतीसार होनेके प्रथम येसब लक्षणहोते हैं ५ वातात्ती-
 सार के लक्षण—लालरंग फेनासहित रूपा थोड़ा २ मल बार २
 थावे सो भी कच्चा मल व उसके बीच २ में पीड़ासहित वायुका
 शब्द होताजाय व मड़ोरा देकरही मल कष्टसे निकले वाता-
 तीसार का यही लक्षण है ६ पित्तातीसार के लक्षण—पीला
 नीला वा कुल्लललाई लिये दस्तहो पिपासा बहुतलगे मूर्च्छा
 आजाया करे पकजाने के समान गुद में पीड़ा हो ये पित्त के
 अतीसार के लक्षण हैं कफातीसार के लक्षण—उज्जला बहुत
 कड़ा कफ सहित कच्चे सड़े मांस अन्न आदि की गन्धिके समान
 गन्धियुक्त व ठण्ढा मलहो व रोगी के रोम खड़े होजाया करें
 पित्तातीसार के ये ही लक्षण हैं ७ सन्निपातातीसार का लक्ष-
 ण—शूकरकी बसाके समान चिकना वा मांसके धोने के जल के
 समान ललभर दस्तहो यह सन्निपातातीसार बड़े कष्टसे साध्य

नाशयेत् १६ चालेत्तद्वैत्वंसाध्योरूपरेतैरुपद्रुतः ॥

अपिपूनामसाध्यः स्यादतिदुष्टेषुधातुषु २०) शोथंशूलं

ज्वरं तृष्णांश्वासंकासमरोचकं ॥ छदिमूर्च्छांचिहिकांच

दृष्ट्वातीसारिण्यजेत् २१ ॥ अथरक्तातीसारः प्रवाहिकाच ॥

पित्ताकृतियदात्यर्थं द्रव्याण्यश्नातिपैत्तिके ॥ तदोपजा

यतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसारमुल्वणम् २२ वायुः प्रदुष्टोनिचि

तं वलासंनुदत्यधस्तादाहिनाशनस्य ॥ प्रवाहतोल्पं बहु

शोमलाक्तां प्रवाहिकांतां प्रवदंति तज्ज्ञाः २३ प्रवाहिकांवा

तकृत्वा सशूला पित्तात्सदाहासकफाकफाच्च ॥ सशोणि

कां ज्वरहो ऐसे अतीसारवालेको भी वैद्यछोड़दे १६ अतीसारके

उपद्रव ये हैं शोथः शूल ज्वर अधिकप्यास खाँसी अधिकश्वास

भोजनमें अरुचि बसनहोना मूर्च्छा आना हुबकी इन उपद्रवों से

युक्त अतीसार वालेको देखकर वैद्यको चाहिये कि उसे छोड़दे

औरप्रथमकरे १६ श्वात शूल पिपासासे पीड़ित अतिक्षीण ज्वर

से अति पीड़ित फिर वृद्धशरीर ऐसे को अतीसार विशेष करके

भारडालता है २० यह रोग बालक व वृद्ध के जय होता है तो

असाध्यही होता है जब वह ऊपरके उपद्रवों से युक्तहोता है व

जो धातुओं में पैठजाताहै तो युवाभवस्थावालोंमें भी असाध्य

होजाता है २१ रक्तातीसार के लक्षण—जब पित्तके अतीसार में

पित्तकारी प्रदार्थोंको पुरुष बहुत भोजन करताहै तब महाभयं

कर रक्तातीसार उत्पन्नहोताहै २२ प्रवाहिका अतीसारका लक्षण

अपथ्य भोजन करनेवाले मनुष्यको एकत्र कियाहुमा कुपित

वायु बारबार थोड़ा थोड़ा मल गिराकर कण्टदेताहै वह जो बहु

धा बहाही करताहै मलयुक्तही रहताहै वंत वैद्यलोग इसी को

प्रवाहिका रोग कहते हैं २३ प्रवाहिकाके भेद वातकी की हुई

प्रवाहिका शूलसहित होती है पित्तकी दाहयुक्त होती कफकी

ताशोणितसम्भवाच्चताःस्नेहरूक्षप्रभवामतास्तु २४ (क्षु
तेरक्तेपुरीषेच वायुनाविड्विवर्जितम् ॥ प्रवाहिका
तदाख्यातायत्केनाधःप्रवर्तते २५ सफेनपिच्छंसरुजं
सविवन्धंपुनःपुनः ॥ अल्पत्वमल्पमल्पंसाह्यविवन्धाप्रवा
हिका २६ तासामतीसारवदादिशेच्च लिंगंक्रमाच्चापिवि
पक्तांच) यस्योच्चारंविनामूत्रं सम्यग्वातश्चगच्छति ॥
दीप्ताग्नेर्लघुकोष्ठस्य गतस्तस्योदरामयः २७ (ज्वरा
तिसारयोरुक्तं निदानंयत्पृथक्पृथक् ॥ तस्माज्ज्वराति
सारस्य तेननात्रोदितंपुनः २८) ॥ इतिपडुतिसारनिदानम् ॥

अतीसारेनिवृत्तेपिमन्दाग्नेरहिताशिनः ॥ भूयःसंदूषि
तोवह्निर्ग्रहणीमभिदूषयेत् १- एकैकशःसर्वशश्चदोषैरत्य
कफयुक्त होती है व रक्तसे उत्पन्न प्रवाहिका रक्तसहित होती है
स्नेहसे कफकी प्रवाहिका रुपाई से वातकी तीक्ष्ण व खट्टेपदार्थ
से पित्तकी होतीहै २४ अतीसार निवृत्तहोनेका लक्षण—जिसको
विनादस्तके पेशाबहोनेलगे व पवनभी विनादस्तके अलग खुल-
नेलगे व अग्नि प्रज्वलितहो जो खाद्यपचनेलगे कोठा हलका
होजाय बस जानो उस मनुष्यका अतीसार अब जाता रहा-२५
इतिश्रीमाधवनिदाने भाषानुवादेऽतीसार निदान

न्दितीयम् २ ॥

दोहा ॥ तिसरे महँ ग्रहणी प्रथित रोगनिदान कहेव ॥

जामें अन्न पचै नहीं बहुत तासु हैं भेव ?

अवग्रहणीआदिके लक्षण कहतेहैं अतीसार निवृत्तहोने परभी
मन्दअग्निवालापुरुष जब अपथ्य भोजन करताहै—तो फिरदूषित
हाकर अग्नि ग्रहणी को दूषितकरताहै अर्थात् ग्रहण करनेवाली
शक्तिको बिगाड़ताहै ? ग्रहणी के सामान्य लक्षण अलग २ वात
पित्तकफ के दोषों से वा एकत्र होकर सब अस्यन्त प्राप्त वाता-

थमूर्च्छितैः ॥ सादुष्टावहुशोभुक्तमाममेवविमुंचति २ पकं
 वासरुजंपूतिमुहुवृद्धंमुहुद्रवम् ॥ ग्रहणीरोगमाहुस्तमायु
 वेदविदो जनाः ३ पूर्वरूपंतुतस्येदन्तृष्णालस्यंत्रलक्षयः ॥
 विदाहोन्नस्यपाकश्च चिरात्कायस्यगौरवम् ४ कटुति
 क्तकषायातिरुक्षसन्दुष्टभोजनैः ॥ प्रमितानशनात्यध्व
 वेगनिग्रहमैथुनैः ५ मारुतःकुपितोवाह्लिं संझायकुरुतेग
 दान् ॥ तस्यान्नंपच्यतेदुःखं शुष्कपाकंखरांगता ६ कंठा
 स्यशोषःक्षुत्तृष्णा तिमिरंकर्णयोःस्वनः ॥ पाश्वोर्वुवंक्षण
 ग्रीवारुगभीक्ष्णंविषूचिका ७ हृत्पीडाकाश्यदौर्बल्ये वैर
 स्यंपरिकर्त्तिका ॥ गृद्धिःसर्वरसानांच मनसःसदंनंतथाऽ

दिकोंसे दुष्टहोकर वह ग्रहणी भोजनकिये हुये अन्नको ग्रहणनहीं
 करती नपकातीहै केवल आमही करकेगिराती है २ वज्रो कच्चेवा
 कुच्छ पके अन्नको पीडाके व दुर्गन्धि के साथ वार २ गाढा करके
 मलको गिरातीहै वैद्यलोगउसे ग्रहणीकहते हैं ३ ग्रहणी केपूर्व-
 रूपके लक्षण—प्यासलगना आलस्यहोना बलकानाश दाहहो-
 ना बड़ीदेरमें अन्नका पचना शरीर गरूरहना ये सब ग्रहणीहोने
 पर होतीहैतो होतेहैं ४ घातसे उत्पन्न ग्रहणी का हेतु कडू तीत
 कसेला अतिरुखातमयके विरुद्ध भोजनकरना अप्रमाण भोज-
 नकरना बहुतमार्ग चलना मूत्रपुरीषके वेगका रोकना बहुतमैथुन
 करना ५ वस इनसब कारणों से कोपकरके पवन अग्निको आ-
 च्छादित करकेग्रहणीरोगको करताहै फिरग्रहणी जिन २ रोगोंको
 उत्पन्न करतीहै उनको दिखातेहैं ग्रहणीकेरोगी को घड़े क्लेशसे
 अन्नपचताहै उसकापाक सूखारहताहै अंगों में रुपाई आजाती
 है ६ गला व मुखसुखता रहता है भूँख प्यास अधिक लगती है
 तिमिर लगने लगता है कानों में संसनाहट सदा होती है
 पशुरी जंघा हड्डियोंके जोड़ोंमें गलेमें इनसब स्थानोंमें वार २

जीर्णजीर्य तिचाध्मानं भुक्तेस्वास्थ्यमुपैति च ॥ सवात
गुल्महृद्रोगप्लीहाशंकीचमानत्रः ६ चिराद्दुःखद्रवशुष्कं
तन्वामंशब्दफेनवत् ॥ पुनःपुनःसृजेद्वर्चःकासश्वासा
र्दितो निलात् १० कट्वजीर्णविदाह्यम्लक्षाराद्यैःपित्तमुल्व
णम् ॥ आप्लावयन्हृत्प्यनलंतप्तंजलमिवानलम् ११ सो
जीर्णनीलपीताभं पीताभःसार्प्यतेद्रवम् ॥ सधूमोद्गा
रहृत्कण्ठ दाहारुचितृर्दितः १२ गुर्वतिस्निग्धशी-
तादि भोजनादतिभोजनात् ॥ भुक्तमात्रस्यचस्वप्ना-

पीड़ाहोतीहै व दस्त बमन दोनोंहोतेहैं ७ हृदयमें पीड़ाहोती
है शरीर दुर्बलहोजाता बड़ी कशता आजातीहै मुखमें रसका
स्वाद नहीं जानपड़ता फीकासा बनारहता है गुदमनों कोई
कतरेलिये जाताहै सब रसोंके खानेकी इच्छाहोती है मनमें
ग्लानि बनीरहतीहै ८ अन्नपचनेके समय पेटफूलभाताहै भो-
जन करनेपर चित्त स्वस्थहोताहै वायुगोला वा पिलहोकी उस-
को शंकाहोती है क्योंकि इनदोनोंरोगोंके समान पेटमें पीड़ाहोने
लगती है ९ व वायुकेयोगसे मनुष्यके खँसी व श्वाससे पीड़ित
होके कभीबहुतकभी थोड़ाशब्द व फेना सहित बड़ेदुःखसे गीला
वा सूखा बड़ीदेरमें मलहोताहै १० पित्तकी ग्रहणीके लक्षण कडू
खानेसे अजीर्णहोने से दाहकरनेवाली वस्तुके खानेसे अम्ली व
खारी चीजोंके खानेसे पित्त अत्यन्त उष्णहोकर उदयकेअग्निको
बुझादेताहै जैसे कि उष्णभी जल अग्निको बुझाताहै ११ तब
उसमनुष्यका रंगपीलाहो जाताहै व उसके बिनापचाहुआ नीले
पीले रंगका मलगिरने लगता है व धुआँइधआती हृदयवगलेमें
दाहहोता सब वस्तुओंमें अरुचिहोजाती व प्यास सदालगिररह-
तीहै १२ कफकी ग्रहणीका निदान गरिष्ठ - अतिचिकनी बहुत
ठण्डी इत्यादि वस्तुओंके भोजन करनेसे व दिनमें भोजनके

(संसृष्टाव्याधयोयस्य प्रतिलोमानुलोमगाः ॥ व्याप
 न्नग्रहणींप्राप्य ऊर्ध्वसान्नतुजीवति) लिङ्गैरसाध्योऽथ
 हणीविकारोयैस्तेरतीसारगदोनसिद्ध्येत ॥ वृद्धस्यनूनग्र
 हणीविकारोहत्वातनुंयोविनिवर्त्ततेच६ ॥ इतिग्रहणीनिदानम् ॥
 पृथग्दोषैःसमस्तैश्च शोणितात्सहजानिच ॥ अर्शा
 सिषट्प्रकाराणि विद्याद्गुदवलित्रये १ दोषास्त्वङ्मां
 समेदांसि संद्रूप्यविविधाकृतीन् ॥ मांसांकुरानपानांदौ
 कुर्वत्यर्शांसिताञ्जगुः २ कषायकटुतिक्तानिरूक्षशीतल
 घूनिच ॥ प्रमिताल्पाशनंतीक्ष्णंमद्यंमैथुनसेवनम् ३ लं

संग्रहणी रोग असाध्य होताहै ५ जिन २ लक्षणों से अतीसार
 रोगनहीं सिद्धहोता नहीं मिटताहै उन २ लक्षणोंके होनेसे यह
 संग्रहणी वा ग्रहणीरोगभी असाध्यहोजाताहै यदि यह रोग किसी
 वृद्ध मनुष्यकोहो तो उसके देहको नाशही को पहुँचादे ६ ॥
 इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेसंग्रहणीरोगनिदानंचतुर्थम् ४ ॥
 दोहा ॥ साध्यासाध्य विचार सत्र ववासीर के जोय ॥

पँचयें महुँ वर्णनकिये और रोगनहिँ कोय ?

(अर्शः) ववासीर रोगके लक्षण वात पित्त कफ इनतीनोंसे
 अलग २ तीन व इनतीनोंके मिलनेसे एक व एक रक्तसे व एक
 सहज अर्थात् जन्मके साथही उत्पन्न होताहै ये ६ प्रकारके
 अर्शरोग होते हैं व गुदाकी त्रिवलीमें होते हैं इन त्रिवलियों के
 नाम ये हैं प्रवाहिणी सज्जनी व ग्रहिणी १ वात पित्त कफके
 दोष त्वचा मांस व मेदाको दूषितकरके गुदभादि स्थानोंमें मांस
 के अंकुर उत्पन्न करतेहैं वस उन्हींमांसके अंकुरोंको अर्शकहतेहैं
 सो गुदहीमें नहीं कभी २ नाक नेत्र लिंग व तोंदोंमेंभी मांसके
 अंकुर अर्थात् मसेहो जातेहैं २ वातसे उत्पन्न अर्शके हेतु कहते
 हैं कसैली कडू तीत रूपी ठण्डी अतिहलकी वस्तुओंकेखानेपीने

घनदेशकालौच शीतौव्यायामकर्मच ॥ शोकोवातातप
 स्पशौहेतुर्वातार्शसांमतः ४ कट्वम्लवणोष्णानि व्या
 यामाग्न्यातपश्रमाः ॥ देशकालावशिशिरौ क्रोधोमद्यम
 सूयनम् ५ विदाहितीक्षणमुष्णंच सर्वपानान्नभेषजम् ॥
 पित्तोत्वणानांविज्ञेयःप्रकोपेहेतुरशंसाम् ६ मधुरस्निग्ध
 शीतानि लवणाम्लगुरुणिच ॥ अव्यायामदिवास्वप्नश
 य्यासनमुखेरतिः ७ प्राग्वातसेवाशीतौच देशकालाव
 चिंतनम् ॥ श्लैष्मिकाणांसमुद्दिष्टमेतत्कारणमशंसाम् ८
 हेतुलक्षणसंसर्गाद्विद्याद्द्वन्द्वौलवणानिच ॥ सर्वोहेतुस्त्रिदो
 षाणांसहजैर्लक्षणैःसमम् ९ विष्टम्भोद्गस्यदौर्बल्यंकुक्षेरा

आदिसे उष्ण भोजनकरनेसे थोड़े तौलेहुये खानेसे तीक्ष्णमदिरा
 पीने से व अधिक मैथुनकरनेसे ३ बहुया लंघन करनेसे शीत
 देशकालके अतिसेवनसे व दण्ड मुद्गगादि बहुत कसरतकरने
 से शोकसे उष्ण पवन घामआदि जलाक लगनेसे वस वातका
 अर्श इनसेहोताहै ४ पित्तके अर्शकेकारण कडुई भम्ली खारी
 बहुत उष्णवस्तुओंके खाने पीनेआदिसे दण्डादि करनेसे अग्नि
 व घामके बहुतसेवनकरनेसे अधिक श्रमकरनेसे उष्णदेशकालके
 अतिसेवनसे क्रोधकरनेसे मद्यपीनेसे किसीकागुणन सहसकनेसे
 यह होताहै ५।६ कफके अर्शकेकारण मीठी, चिकनी, ठण्ढी, खारी
 खट्टी, गरुई वस्तुओं का खानापीना आदि व जोरनकरना दिनमें
 सोनावहुधाखाटपर पड़ेरहना ७पुरवाई पवनकासबरेसेवन शीत
 देशकाल का अतिसेवन व वहां अस्वस्थ रहना वस कफके अर्शों
 का यहीकारणहै ८ दो २ के कारण मिलेहुये अर्श के कारण जि-
 समें वात पित्तकफ इनमें से दो २ के लक्षण मिलेहों उसे द्वन्द्वज
 अर्शकहते हैं त्रिदोषज अर्शके कारण जिसमें वातपित्तकफ तीनों
 के सब लक्षण पायेजायँ वह त्रिदोषज वा सन्निपातज अर्श क-

टोपएवच ॥ काश्यमुद्गारवाहुल्यं सविषादोल्पविट्क
 ता १० ग्रहणीरोगपांड्वर्ति राशंकांचोदरस्यच ॥ पूर्व
 रूपाणिनिर्दिष्टान्यर्शसामभिवृद्धये ११ गुदांकुराःवक्रनि
 लाःशुष्काश्चिमचिमान्विताः ॥ म्लानाश्यावारुणास्त
 व्धाविशदाःपरुषाःखराः १२ मिथोविसदृशावक्रास्ती
 क्षणाविस्फुरिताननाः ॥ विंवीकर्कंधुखर्जूरकर्पासीफलसं
 निभाः १३ केचित्कदंबपुष्पाभाःकेचित्सिद्धार्थकोपमाः॥
 शिरःपार्श्वीसकट्यूरुवंक्षणाभ्यधिकव्यथाः १४ क्षत्रधू
 द्वारविष्टंभद्ग्रहोरोचकप्रदाः ॥ कासश्वासाग्निवैषम्य
 कर्णनादभ्रमावहाः १५ तैरार्तोग्रथितंस्तोकमशब्दंसप्र
 वाहिकम् ॥ रुक्फेनपिच्छानुगतंविबद्धमुपवेश्यते १६

हाताहै व सहज अर्शके लक्षणोंके समान जितमें लक्षण हों वह
 भी त्रिदोषज कहाता है ६ ववासीर के पूर्वरूपका निदान वायु
 का न छूटना भंगों का दुर्बल होना कोठका गुडगुड़ाना रुशता
 डकारें आना जांघों में हड़फूटन थोड़ा दस्त होना १० ग्रहणी
 पाण्डुरोग पेटमें किसीरोग के होनेकीशंकाये संव्र अर्शरोग बढ़ने
 के पूर्वरूपके लक्षण हैं ११ वातकी ववासीर के लक्षण—गुद के
 भसे बहुतमोटे सूखे चुन्नेकी पीड़ासेयुक्त मुरभायेहुये काले वा
 लाल पीठे नुकीले उठे हुये कड़े खरखेर १२ एक दूसरेसे मिले
 हुये नहीं टेढ़े तीखे मुहँखलेहुये कँदरू बेर खजूर कपासके फलों
 के समान १३ कोई कदम्बके पुष्पके आकारके कोई सरसों के
 तुल्य इनकेहोने के कारण शिर पशुली कन्ये कमर जाँघ फीली
 रीढ़में अधिकपीड़ा १४ छींकआना डकारआना मलकीरुकावट
 हृदयका जकड़ना अरुविहोना खांसी हांपना अग्निकी विषमता
 से अन्नका न पचना कानोंका संसनाना भ्रमहोना १५ इनअर्श
 रोगोंसे पीड़ित मनुष्य बहुत थोड़ा कड़ा शब्द सहित अर्थात्

कृष्णत्वङ्मखविण्मूत्रनेत्रवक्रश्चजायते ॥ गुल्मस्त्रीहोद्वरा
 ष्ठीलासंभवस्ततएवच १७ पित्तोत्तरानीलमुखारक्तपीता
 सितप्रभाः ॥ तन्वस्त्रक्स्त्राविणोविस्त्रास्तनवोमृदवः श्ल
 थाः १८ शुकजिह्वायकृत्खंडजलोकावक्रसंनिभाः ॥ दाह
 पाकज्वरस्वेदतृणमूर्च्छारितिमोहदाः १९ सोष्माणोद्रवनी
 लोष्णपीतरक्तामवर्चसः ॥ यवमध्याहरिर्पीतहारिद्रत्वङ्म
 खादयः २० श्लेष्मोल्बणामहामूला घनामंदरुजः सि-
 ताः ॥ उत्सन्नोपचिताः स्निग्धाः स्तब्धवृत्तगुरुस्थिराः
 २१ पिच्छलाः स्तिमिताः श्लक्षणाः कंड्वाढ्याः स्पर्शनप्रि-

कहरनेके साथ वातप्रवाहिका के लक्षणों से युक्त शूलसहित फेन-
 युक्त चिकने वरूँक २ करहोनेवाले मलको करताहै १६ व उस-
 के त्वचानख विष्णामूत्र नेत्र व मुख कालेहोजातेहैं व वायुकीगांठ
 पिलही पेटमें गुमरियाँ होजातीहैं १७ पित्तके बवासीर वा अर्श
 के लक्षण—पित्त अधिकवाले बवासीर में गुदकेमसोंकामुखनीला
 होताहै उससे लाल पीला वा काला रुधिर निकलताहै कच्चेसड़े
 अन्नकीसी गन्धि आती है व मसे छोटे २ नरम होते हैं १८
 व तोतेकी जीभके डौलके यकृतके खण्डके तुल्य जोकके मुखकी
 नाई होते व दाह पकना ज्वर पसीना प्यास मूर्च्छा अरुचि मोह
 ये उपद्रव रोगीको होते हैं १९ छूनेसे उष्ण जानपड़ते व गुदसे
 पतला नीला उष्ण पीला लाल आम सहित मल उतरताहै व
 वह नीचे यवके पेटकी मुटाईके समानहोताहै व फुनगी पतली
 होतीहै व उसरोगीके नख नेत्र शरीरका चमड़ा हरिताल वा
 हरदीके रंगके होजाते हैं २० कफके अर्शके लक्षण—कफसेउल्लव-
 ण अर्शरोगके मसे भीतरसे बड़ी दूरसे जड़ बाँधे हुये होतेहैं कड़े
 व थोड़ी २ पीड़ा करतेहैं उजले होते लम्बे चिकने खड़े वा गोल
 होते व गुदके चारों ओर घेरे स्थिर रहते हैं २१ बहुत चिकने

याः ॥ करीरपनसास्थ्याभास्तथागोस्तनसन्निभाः २२ व
 क्षणानाहिनः पाश्र्ववस्तिनाभ्यवकर्षिणः ॥ सकासश्वास
 हल्लासप्रसेकारुचिपीनसाः २३ मेहकृच्छ्रशिरोजाड्य
 शिशिरज्वरकारिणः ॥ क्लेव्याग्निमार्दवच्छदिरामप्रायवि
 कारदाः २४ वसाभाः सकफप्रायपुरीषाः सप्रवाहिकाः ॥
 नस्रवंति नभिद्यन्ते पांडुस्निग्धत्वगादयः २५ सर्वैः सर्वा
 त्मकान्याहुर्लक्षणैः सहजानि च ॥ रक्तोल्बणागुदेकीलाः
 पित्ताकृतिसमन्विताः २६ वटप्ररोहसदृशागुजाविद्रुमसं
 निभाः ॥ तेत्यर्थदुष्टमुष्णञ्चगाढविट्कप्रपीडिताः २७

अचल गुलगुले खजुली समेत होते हैं इससे छूनेपर बहुतसुख
 सा विदित होता है करीर और कटहल के बीजोंके समान वा
 गायकी चूँचीके आकारके मसे होते हैं २२ सत्र जोड़ोंको खींचते
 रहते हैं पशुरी अण्डकोश व गुदके बीच के सीनेको व नाभिको
 खींचते रहते हैं खाँसी श्वास मुहमें पानीछूटने लार बहाने अ-
 रुचि व पीनसकोभी करते हैं २३ प्रमेह मूत्रकृच्छ्र मस्तककी
 गरुआई व शीतज्वरको करते हैं नपुंसकता अग्निमन्दता वमन
 आमके सम्बन्धी अतीसारादि रोगोंकोभी कराते हैं -२४ चर्बीकी
 नाई कफ मिलेहुये मलको गिराते प्रवाहिकाको करते रक्तादिकों
 को नहीं चुआते न पीड़ाको करते हैं त्वचा नखनेत्रादिक उजले
 व चिकने होजाते हैं २५ सन्निपात व सहजअर्शके लक्षण—सत्र
 वात पित्तकफोंके मिलेहुये लक्षण जिस बवासीर वालेकेहोंतो
 उसके सन्निपातका अर्श जानना चाहिये व येही लक्षण सहज
 अर्शकेभी होते हैं क्योंकि सहजभी वातादि तीनों दोषों सेही
 होते हैं रक्तके अर्श के लक्षण—रक्तकी अधिकता वाले अर्श के
 मसे पित्तके अर्शके मसोंके डौलसे मिले हुये होते हैं २६ व वे
 वरगदके मसुयेकी तरहके वा घुँघचीसे अथवामूंगे के आकारके

स्वतिसहसारक्तंतस्यचातिप्रवृत्तितः ॥ भेकाभःपीड्यते
 दुःखैःशोणितक्षयसंभवैः २८ हीनवर्णवलोत्साहोहतौ
 जाःकलुषेन्द्रियः ॥ विट्श्यावंकठिनंरूक्षमधोवायुर्नवर्त्त
 ते २९ तनुचारुणंवर्णचफेनिलंचास्त्रगर्शसाम् ॥ कट्यूरु
 गुदशूलंचदौर्वल्यंयदिवाधिकम् ३० तत्रानुबन्धोवातस्य
 हेतुर्यदिचरूक्षणम् ॥ शिथिलंश्वेतपीतंचविट्स्निग्धंगुरु
 शीतलम् ३१ यद्यर्शसांघनंचासृक्तंतुमत्पांडुपिच्छलम् ॥
 गुदंसपिच्छंस्तिमितंगुरुस्निग्धंचकारणम् ३२ श्लेष्मानु
 बन्धोविज्ञेयस्तत्ररक्तार्शसांबुधैः ॥ पञ्चात्मामारुतःपित्तं

होते हैं व वे गाढे गरम रुधिरको गिराते और पीड़ा करते हैं २७
 उन मसों से बहुत एकाएकी रक्त बहने के कारण शरीर में रु-
 धिरका नाशहोने के हेतु मनुष्य के देहका रंग मेडुके के रंगका
 होजाताहै २८ व उस रोगी के शरीर का बल रंग उत्साह परा-
 क्रम जाता रहता है सब इन्द्रियां व्याकुल होजाती हैं विष्ठाकड़ी
 व रूपी होने लगती है व नीचे वायु नहीं छूटता २९ रक्त के अ-
 र्श में वात कफादिकों के भेदों के लक्षण—रक्तके अर्शों में पतला
 लाल व फेना सहित रक्तगिरताहै कटि मोटी जाधें व गुदमें शू-
 लहोती है अथवा दुर्बलता अधिक होजाती है ३० जब इन ल-
 क्षणों से युक्त रुपाई लिये यह रोग होतो वात सम्बन्धी रक्तार्श
 जानना चाहिये कफसम्बन्धी रक्तार्शके लक्षण—जिसमें ढीला उ-
 जला वा पीला चिकना गरू व शीतल मल गिरताहै ३१ व
 यदि अर्शोंमें गाढारुधिर बहै व उसमें सूतसे दिखाई दें व उजले
 और चिकने हों व गुदमें चिकनई के कारण चटचटी बनी
 रहै व निश्चलताहो गरुआपन विदितहो और चिकनापन अ-
 त्यन्तहो वस कफसम्बन्धी रक्तकेअर्शोंके यही लक्षण हैं ३२ के-
 वल गुद स्थानमेंही रोग के होने से दुर्बलतादि जिस प्रकार

रुग्ज्वरः ॥ तृष्णागुदस्यपाकइचनिहृन्युगुदजानरम् ४०
 तृष्णारोचकशूलार्त्तमतिप्रसृतशोणितम् ॥ शोथातीसार
 संयुक्तमशांभिक्षपयंनिहि ४१ मेढ्रादिष्वपिवक्ष्यंतेयथा
 स्वंनभिजानितु ॥ गंडूपदास्यरूपाणिपिच्छिलातिमृदू
 निच ४२ व्यानोगृहीत्वाइलेपमाणं करोत्यर्थस्त्वचोवहिः ॥
 क्रीलोपमंस्थिरखरंचर्मकीलंतुतंविटुः ४३ वातेनतोदः
 पारुष्यंपित्तादसितरक्तता ॥ इलेपमणास्निग्धतातस्यग्रं
 थितत्वंसवर्णता ४४ इत्यंशनिदानम् ॥

मंदस्ताक्षणोथविषमः समश्चेतिचतुर्विधः ॥ कफपि-

पीड़ा ज्वर घनारहना प्यासलजना गुद व मुखपकजाना वस ये
 न्नक्षण जिस घवासीर वालेके हुये जानो रोगीको मारलेंगे ४०
 अन्य असाध्य लक्षण—जिस भर्शके रोगीके प्यास अधिकलगे
 अरुचिदो पीड़ायुक्त रुधिर बहुत गिरे शोथहो व अतीसार भी
 होतारहे वस ऐसरोगीको घवासीर मारही खेताहे ४१ लिंगादि-
 फोंमें आदि शब्दसे नाक कानमेंभी केचुवाके मुखके चिकने व
 गुलगुले मसे होतेहैं येभी असाध्य होते हैं ४२ चर्मकीलनाम
 सम्प्राप्तिके लक्षण—व्यानवायु यद्यपि सब शरीरमें रहताहे पर
 गुदमें रहनेवाला व्यान कफको ग्रहणकरके खालके ऊपर मसों
 को ढरपत्र करताहे ये कीलकी तरहके होतेहैं व स्थिर और खर-
 खरे होते हैं इनमसोंको चर्मकील कहते हैं ४३ वात के कारण
 उरा चर्मकीलमें व्यथा व कड़ापन रहताहे व पित्तके कारण
 उसका रंगकाला लाल मिलाहुआ होताहे व कफके कारण चि-
 फना व गैठीला व रंग चमड़ेकासा होताहे ४४ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेऽर्शरोगनिदानम्पञ्चमम् ५ ॥

बोधा ॥ छठये महुँ मन्वाग्नि भरु कहे अजीर्ण निदान ॥

देखाहे सुजन लगाय चित वर्णित सहित विधान १

तानिलाधिक्यात्तत्साम्याज्जाठरोनलः १ विषमोवा
 तजान्‌रोगान्‌तीक्ष्णपित्तनिमित्तजान् ॥ करोत्यग्निस्तथा
 मंदोविकारान्‌कफसंभवान् २ समासमाग्निरशितामात्रा
 सम्यग्विपच्यते ॥ स्वल्पापिनैवमंदाग्नेर्विषमाग्नेस्तुदे
 हिनः ॥ कदाचित्पच्यतेसम्यक्कदाचिन्नविपच्यते ३ मा
 त्रातिमात्राप्यशितासुखंयस्यविपच्यते ॥ तीक्ष्णाग्निरि
 तितंविन्द्यात्समाग्निःश्रेष्ठउच्यते ४ आमंविदग्धंविष्ट
 व्धं कफपित्तानिलैस्त्रिभिः ॥ अजीर्णंकेचिदिच्छंतिचतुर्थ

अग्निकी मन्दता के लक्षण—मन्द तीक्ष्ण विषम सम अग्नि
 चारप्रकारका होताहै कफकी अधिकतासे मन्द पित्तकी से तीक्ष्ण
 वायुकीसे विषम व इन तीनोंकी समानता से सम पेटका अग्नि
 रहताहै १ इनके लक्षण—विषम अग्नि वातसे उत्पन्न रोगों को
 करताहै व तीक्ष्ण अग्नि पित्तके कारणसे उत्पन्न रोगोंको करता
 है व मन्दाग्नि कफसे उत्पन्न विकारोंको करताहै वातजरोग ८०
 होते हैं पित्तज ४० कफज २०—२ सम अग्नि के लक्षण—सम
 अग्निसे जिन पुरुषोंकी मात्रासमान होती है उनका अन्न अच्छी
 तरह पचताहै व मन्दाग्नि पुरुषको थोड़ीभी मात्रा अर्थात् खु-
 राक नहीं पचती व विषम अग्निवाले प्राणीकी मात्रा कभीपच-
 तीहै कभी नहीं पचती ३ व जिस पुरुषको बड़ीसेभी बड़ीमात्रा
 जितनाही खाय पचजाती है उसको तीक्ष्णाग्नि कहना चाहिये
 इन सब अग्नियोंमें सम अग्नि श्रेष्ठकहाताहै ४ मन्दाग्निकेनि
 दानकहे अब अजीर्णके कारण कहते हैं—कफ पित्त व वायु इन
 तीनोंकी अधिकतासे यथाक्रम आम विदग्ध व विष्टव्य ये तीन
 प्रकारके अजीर्ण होतेहैं अर्थात् कफाधिक्यसे अन्नपचताही नहीं
 कच्चा रहजाताहै पित्ताधिक्यसे अधिक जलजाताहै व वाताधि-
 क्यसे अन्न बँधजाता वा लपटजाता वस अजीर्ण होजाताहै व

रसशेषतः ५ अजीर्णपंचमंकेचिन्निर्दोषंदिनपाकिच ॥ वत
 तिषष्ठं चार्जीर्णप्राकृतं प्रतिवासरम् ६ अत्यम्बुपानाद्विष
 माशनाद्वासंधारणात्स्वप्नविपर्ययाद्वा ॥ कालेपिसात्म्यं
 लघुचापि भुक्तं मन्नन्नपाकं भजते नरस्य ७ ईर्ष्याभयक्रोधप
 रिक्षते न लुब्धेन रुग्दैर्न्यनिपीडितेन ॥ प्रद्वेषयुक्तेन च से
 व्यमानमन्नसम्यक्परिणाममेति ८ (मात्रयाप्यभ्य
 वहतंतथ्यंचान्नं न जीर्यते ॥ चिन्ताशोकभयक्रोधदुःख
 शय्याप्रजागरैः) तत्रामेगुरुतोत्क्रेदः शोफोगंडाक्षिकूट
 जः ॥ उद्गारश्च यथाभुक्तमविदग्धः प्रवर्तते ९ विदग्धश्च
 मृत्तमूर्च्छाः पित्ताच्च विविधारुजः ॥ उद्गारश्च सधूमाम्लाः
 खेदोदाहश्च जायते १० विष्टब्धशूलमाध्मानं विविधा
 चौथा भोजनके रस सुखजानेसे होताहै ५ किसीके मतसे जो
 दिनभरमें अन्नपचता है वह पाँचवां अजीर्णहै यद्यपि इसमें पेट
 नहीं फूलता पर दिनभरमें पचनेके कारण अजीर्णही है जिसमें
 स्वभावही से अजीर्ण बनारहै पेटमें गरुआपन जानपड़े उसे
 छठा अजीर्ण कहते हैं ६ बहुत पानीपीनेसे नियतसमयपर भो-
 जन न करनेसे मलमूत्रके वेगके रोकने से दिनके सोनेसे रात्रि-
 के जागनेसे चाहे फिर समयपरभी अपनी इच्छाके अनुकूल वा-
 लघुही भोजन करे पर उसपुरुषका अन्न नहीं पचता ७ ईर्ष्या
 भय क्रोधसेयुक्त लोभ शोक दीनतासेयुक्त व किसीसे अप्रसन्न
 रहनेवाले पुरुषका अन्न नहीं पचता ८ आमादिकके अजीर्णोंके
 लक्षण—आमाजीर्णमें अंगोंमें गरुआई आकाई गालों व नेत्रोंमें
 शोथ व जैसा अन्न भोजन कियाहो डकारबाने के साथ वैसाही
 निकलना ये लक्षण होते हैं ९ विदग्धाजीर्णका लक्षण—विदग्धा
 जीर्णमें जो पित्ताधिक्यसे होताहै चित्तभ्रम तृपा मूर्च्छा व पित्तके
 नानाप्रकारके रोगधुआँइध आमिलचुकीके साथ डाकना पत्तीना

वातवेदनाः ॥ मलवाताप्रवृत्तिश्चस्तम्भोमोहोङ्गपीडनम्
 ११ रसशेषेऽन्नविद्वेषोहृदयाशुद्धिगौरवेः ॥ मूर्च्छाप्रलापोव
 मथुःप्रसेकःसदनंभ्रमः ॥ उपद्रवाभवंत्येतेमरणं चाप्यजी
 र्णतः १२ अनात्मवंतःपशुवद्भुजतेयेप्रमाणतः ॥ रोगानीक
 स्यतेमूलमजीर्णंप्राप्नुवंतिहि १३ अर्जाणामंविष्टब्धंविद
 ग्धंचयर्दारितम् ॥ विषूच्यलसकौतस्माद्भवेच्चापिविलंवि
 का १४ सूचीभिरिवगात्राणितुदन्संतिष्ठतेनिलः ॥ यत्राजी
 र्णानसावैद्यैर्विषूचीतिनिगद्यते १५ नतांपरिमिताहारा
 लभंतेविदितागमाः ॥ मूढास्तामजितात्मानोलभंतेशन
 लोलुपाः १६ मूर्च्छातिसारौवमथुःपिपासाशूलभ्रमोद्वेष्ट

व दाह होताहै १० विष्टब्धाजीर्णके लक्षण-विष्टब्धाजीर्ण में जो
 कि वाताधिक्यसे होताहै शूलउठना बहुत पेटफूलना वातरोगों
 की विविध पीड़ा मल न उतरना अयोवायुका न छूटना अंगोंका
 स्तम्भ मोह व अंगों में पीड़ा वस ये लक्षणहै ११ रसशेषाजीर्ण के
 लक्षण-रसशेषाजीर्णमें अरु चि हृदयकी अशुद्धता अर्थात् जीम-
 चलाना शरीरका भारीपन वस ये लक्षण होतेहैं अजीर्णके उप-
 द्रव-मूर्च्छाआना अनर्त्यकरना डारुना मुख में पानीछूटनाग्ला-
 निहोना भ्रमहोना कितो अजीर्णमें ये उपद्रव होतेहैं अथवा
 मरणही होजाताहै १२ जिन लोगोंकी इन्द्रियां उनके अधीन
 नहीं हैं इससे पशुओंके समान अप्रमाण भोजन करतेहैं वे रोग
 समूहकी जड़ अजीर्णरोगको प्राप्त होते हैं १३ आमअजीर्ण वि-
 ष्टब्धअजीर्ण व विदग्ध अजीर्ण ये तीनों जो कहआये हैं इनसे
 विषूची अलसक व विलम्बिका ये तीनोंरोग होतेहैं १४ विषूची
 के लक्षण-जिसअजीर्ण रोगमें सूइयोंकीनाई कोंचताहुआ पवन
 पेटमें टिकताहै उसे वैद्यलोग विषूची कहते हैं यह शीतरसका
 भेदहै १५ परन्तु यह विषूचीरोग उनलोगों को कभी नहींहोता

नजृम्भदाहाः ॥ वैवर्ण्यकंपौहृदयेरुजश्च भवन्ति तस्यां
 शिरसश्च भेदाः १७ कुक्षिरानह्यतेत्यर्थं प्रताम्येतपरिकू
 जति ॥ निरुद्धोमारुतश्चापिकुक्षावुपरिधावति १८ वा
 तवर्चोनिरोधश्चयस्यात्यर्थं भवेदपि ॥ तस्यालसकमाचष्टे
 तृष्णोद्गारौ चयस्यतु १९ दुष्टं तु भुक्तं कफमारुताभ्यां प्रव
 र्त्तते नोर्ध्वमधश्चयस्या विलां विकान्तां भृशदुश्चिकित्स्या
 जो प्रमाणसहित बंधाहुआ अन्नखातेहैं व जो वैद्यक शास्त्रपढे हैं
 उसके अनुसार खातेपीतेहैं उनकोभी नहींहोता व जो लोगमूढ
 व अजितेन्द्रिय हैं भोजनके बड़ेलोभीहैं अच्छा अन्नपाकर अप्र-
 माण खाते चलेजाते हैं उन्हींको विपूची होती है १६ इस
 रोगमें मूर्च्छा आती अतीसार होता वमनहोता प्यास वार २
 लगती शूर उठती चित्तभ्रम होता हाथ पैरों का ऐंठना जँभोई
 आना दाह होना शरीरकाविवर्ण होना औरका औरहोना कम्प
 उठना हृदयमें पीड़ाहोना शिरमें अत्यन्त पीडा ये सब विपूची
 वा विपूचिका रोगके लक्षण हैं इसी को महामारी व शीतरस
 व लोकमें हैजाभी कहते हैं १७ आलसक के लक्षण ये हैं कोखि
 फूलकर बहुत बंधजातीहै पेटघलघलानेलगताहै इसप्रकार बंधा
 हुआ वायु कोखिके ऊपरको दौड़ने लगताहै १८ वायु व मल
 दोनों रुकजाते हैं यहाँतककि गलेतक अत्यन्त पेटफूल आताहै
 प्यास लगती है व वमन होनेलगताहै जिसअजीर्ण रोगमें ऐसा
 होताहै उसे आलसक कहतेहैं १९ विलम्बीके लक्षणयेहैं-कफ व
 वायुके कारण भोजन कियाहुआ अन्नऐसा दुष्टहोजाताहै कि न
 ऊँचेको जाने पाता न नीचे आनेपाता अर्थात् न वमनहोनेपाता
 न झाड़ा होने पाताहै वस पुराने वैद्यक शास्त्रवेत्ता इसे विल-
 म्बिका कहतेहैं क्योंकि इसमें बड़ीदेरतक अन्नएकही स्थानपर
 रहताहै इसरोगकी चिकित्सा बहुत कठिन होतीहै आलसक व
 विलम्बिका दोनों समान रोग होते हैं आलसक में शूलादि अ-

माचक्षतेशास्त्रविदःपुराणाः २० (भुक्त्वान्नं प्रहरात्पूर्वं दूचं कृत्वोद्ध्वमानयेत् ॥ यासां विशूचिका प्रोक्ता धोनयेत्सा विलं विका) यत्र स्थमामं विरुजेत्तमेव देशं विशेषेण विकारजातैः ॥ दोषेण येतावत तं शरीरं तल्लक्षणैरामसमुद्भवैश्च २१ यः श्यावदंतौष्ठनखोलपसंज्ञो वम्यर्हितो भ्यंतरजातनेत्रः ॥ क्षामस्वरः सर्वविमुक्तसंधिर्यान्नरोसौ पुनरागमाय २२ उद्गारशुद्धिरुत्साहो वेगोत्सर्गो यथोचितः ॥ लघुता क्षुत्पिपासा च जीर्णाहारस्य लक्षणम् २३ (अग्निनाशोरुचिः कंपो मूत्राघातो विसंज्ञता ॥ अर्मी उपद्रवाः घोराः विषूच्यां पंचदारुणाः ॥ प्रायेणाहारवैषम्याद् जीर्णं जायते नृणाम् ॥ तन्मूलो रोगसंघातस्तद्विनाशाद्विनश्यति)

इत्यजीर्णनिदानम् ॥

कृमयस्तु द्विधा प्रोक्ता बाह्याभ्यंतरभेदतः ॥ वहिधिक होते हैं व विलम्बिकामें नहीं पर पवन व मल दोनों में ऊँचे नीचे नहीं जाने पाते २० जिस स्थान पर आम रहजाता है वात कफके दोषों से उसी स्थानमें पीड़ा किया करता है व उसी विना पचेहुये अन्नके रहगयेहुये स्थानमें फोड़ा आदि उत्पन्न होते हैं २१ विषूचिका व आलसकरोगके असाध्यलक्षण—जिसमें दांत थोठ व नखकाले पड़जायँ व ज्ञानटीक न रहै व मनसे अत्यन्त पीड़ितहो आँखें भीतरको बैठजायँ बोलना धीरा होजाय व सत्र जोड़ शिथिलहोजायँ व सफिर वह प्राणीमृतकही होजाता है २२ पचेहुये अन्नके लक्षण—शुद्ध उच्चारना देहप्रसन्नहोना भोजनके प्रमाणमलमूत्रहोना पेटका हलकापन भूखप्यासका लगना व स अन्नपचजानेके ये लक्षण हैं २३ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादेऽग्निमांसाजीर्णनिदानं पष्ठम् ॥

मलकफासृग्बिट्जन्मभेदाश्चतुर्विधाः १ नामतोविंश-
 तिविधावाह्यास्तत्रमलोद्भवाः ॥ तिलप्रमाणसंस्थानः
 वर्णाःकेशांवराश्रयाः २ बहुपादाश्चसूक्ष्माश्चयूकालि-
 क्षाश्चनामतः ॥ द्विधातेकोठपिडिकाकंडूगंडान्प्रवृत्तते ३
 अजीर्णभोजीमधुराम्लनित्योद्भवप्रियःपिष्टगुडोपभोक्ता ।
 व्यायामवर्जीचदिवाशयश्च विरुद्धमुग्रांलभतेकृमीस्तुः
 ४ माषपिष्टान्नलवणगुडशकैःपुरीषजाः ॥ मांसमाषगुड
 क्षीरदधिशुक्तेःकफोद्भवाः ॥ विरुद्धाजीर्णशाकाद्यैःशोणि-

दोहा ॥ सतयैमहं कृमि उदरके सकलकहेविधिपूर्व ॥

देखहिंसुजन विचारिके जोसबभांति अपूर्व ?

कृमि दोप्रकारके होतेहैं एकवाहरी दूसरे भीतरी उनमें एक
 वाहरके मलपसीना व मैलसे उत्पन्न व भीतरवाले कफरक्त और
 विष्टामें उत्पन्न होतेहैं ये वाहरी भीतरी चारप्रकार के होतेहैं १
 उनकेनाम बीसप्रकारके होते हैं उनदोनों में वाहरी कृमि वाहर
 के मलसे होते हैं इनका प्रमाण तिलके समान वर्णभी काले
 वा उजलेतिलोंके समान होताहै व वे बालों में और बस्त्रोंमें रह-
 तेहैं २ इनके पैर बहुत होतेहैं सो भी बहुत छोटे होते हैं येयूक
 अर्थात् जुम्माँ व लिरव्य अर्थात् लीख कहाते हैं इससे दो प्रकार
 केहुये इनके काटनेसे देह में छोटे २ फुटके खजुली दानेसे हो-
 जाते हैं ३ कृमिहोने के कारण-अजीर्णमें भोजनकरनेसे नित्य
 मीठी खट्टी वस्तुखानेसे कट्टी लप्सीभादि बहुत पतली वस्तुखा-
 नेसे पीठी से बनो हुई वस्तु व गुड़के खानेसे दण्ड कुशती भादि
 न करनेसे दिन में प्रतिदिन सोने से दूधकेसाथ मछली आदि
 विरुद्ध भोजन करने से कृमि प्राणी के होजाते हैं ४ उर्द पीठी
 भात अधिकखारी गुड़ व शाकके खानेसे विष्टा में कृमि उत्पन्न
 होतेहैं व मांस उर्द गुड़ दूध दधि व सिरकाखाने से कफज कृमि

तोत्थाभवन्तिहि ५ ज्वरोविवर्णताशूलंहृद्रोगःऋदनंभ्रमः ॥
 भक्तद्वेषोतिसारश्चसंजातकृमिलक्षणम् ६ कफादामाशये
 जातावृद्धाःसर्पितिसर्वतः ७ पृथुवर्द्धिनिभाःकेचित्केचित्
 गंडूपदोषमाः ॥ रूढधान्यांकुराकारास्तनुदीर्घास्तथाण
 वः ८ श्वेतास्ताघ्रावभासाश्चनामतःसप्तधातुके ॥ अं
 त्रादाउदरावेष्टाःहृदयादामहाकुहाः ९ चुरवोदर्भकुसुमाः
 सुगंधास्तेचकुर्वते ॥ हृत्लासमास्यश्रवणमविपाकमरो
 चकम् १० मूर्च्छाञ्छर्दिज्वरानाहकार्श्यक्षवथुपीनसान् ॥ र
 क्तवाहिशिरास्थानाद्रक्तजाजंतवोणवः ११ अपादावृत्त

होते हैं जो जिसमें न मिलाना चाहिये उसमें उनको मिलाकर
 खानेसे अजीर्ण में भोजन करनेसे शाकादि खानेसे रक्तसे उत्पन्न
 कृमि होते हैं ५ पेटमें कृमि उत्पन्न होनेके लक्षण—ज्वर देह रंग
 बदनना शूल उठना हृदयमें पीड़ा वमनहोना चित्तभ्रमहोना भो
 जनसे अप्रीति अतिसारहोना वस जिसके पेट में कृमिहोजाते
 हैं उसके येही लक्षण होते हैं ६ कफसे उत्पन्न कृमि के लक्षण—
 कफसे उत्पन्नकृमि आमाशयमें जाकर बढ़ते हैं व सब ओर रेंग-
 ते फिरते हैं उनमें कोई २ तो चमड़ेके पतले नाधाके आकारके
 कोई कर्बुआके आकारके कोई २ अन्नके अंकुरके आकारके कोई
 बहुतलम्बे कोई बहुतहीछोटे पतलेहोते हैं ७ कोई उजले कोई
 लाल उनके सात येनामहैं अन्त्राद उदरावेष्ट हृदयाद महाकुह
 ८ चुरु दुर्भकुसुम व सुगन्ध ये कृमि जब पेटमें होजाते हैं तो
 जोमचलाने लगताहै मुहमें पानी छूटता अन्ननहींपचता अरुचि
 होती है १० मूर्च्छाआती वमनहोता ज्वरआता दुर्बलताहोती
 छीकेंआती पीनसरोगहोता वा.नाकसदाभयिकवहाकरती है रक्त-
 ज कृमिकेलक्षण-रक्तवाहिनी नसों में रक्तसे उत्पन्न छोटे २ कृमि
 होतेहैं उनकेपैरनहींहोते गोले वतामड़ेरंगकेहोते हैं व अत्यन्तछोटे

तामाश्चसौक्ष्म्यात्केचिददर्शनाः ॥ केशादालोमविध्वंस
लोमद्वीपाउद्वराः १२ षट्तेकुष्ठककर्माणःसहसौरसमा
तरः ॥ पक्वाशयेपुरीषोत्थाजायंतेधोविसर्पिणः १३ वृ
द्धास्सन्तोभवेयुश्च तेयदामाशयोन्मुखाः ॥ तदास्योद्गा
रनिःश्वासविड्गन्धानुविधायिनः १४ पृथुवृत्ततनुस्थ
लाःश्यावपीतसितासिताः ॥तेपंचनाम्नाकृमयःककेरुकम
केरुकाः १५ सौसुरादामलूनाख्याःलेलिहाजनयन्तिते ॥
विड्भेदशूलविष्टम्भकार्श्यपारुष्यपाण्डुताः १६ रोम
हर्षाग्निसदनंगुदकण्डूविमार्गगाः ॥ इति कृमि निदानम् ॥
पाण्डुरोगाःस्मृताःपंचवातपित्तकफैस्त्रयः ॥ चतुर्थः

होनेसे कोई रदिखाई भी नहीं देते ११ वे ६ होते हैं केशाद लोम
विध्वंस रोमद्वीप उदम्बर सौरस माता इन कृमियों का मुख्यक
र्म कुष्ठरोग करना है जो कृमि पंके हुये मल में उत्पन्न होते हैं
व मलकेसंग नीचेगिरतेहैं वे अधिकबढ़ जाने पर जब आमाशयकी
धोरको चलते हैं १२१३ तत्र उसपुरुपके डकारलेने व निःश्वास
लेनेमें विष्ठाकीसी गन्धि उत्पन्नकरते हैं व वे कृमि मोटे गोलेलंबे
काले पीले उजलेनीले होतेहैं १४ उन कृमियोंके पाँचनाम होते
हैं ककेरुक मकेरुक सौसुराद शूल लेलिह ये कृमि इनरोगोंको
उत्पन्नकराते हैं १५ मलपतला शूल कबुजसी दुर्बलता कड़ापन
पांडुरोग देहपीली रोमोंकाखड़ाहोना अग्निमन्द गुदमें खजुली
इतने उपद्रव करते हैं १६ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेकृमिनिदानंसप्तमम् ७ ॥

दो० ॥ अठर्येमहँ कह बहुत विध पांडुरोग के भेद ॥

देखहिं वैद्यप्रवीण तिन होहिं लपत विनखेद १

पांडुरोग के निदान-पांडुरोग पाँच प्रकार के होते हैं एकवात
से दूसरा पित्तसे तीसरा कफ से चौथा सन्निपात से व पाँचवाँ

सन्निपातेन पंचमोभक्षणान्मृदः १ व्यवायमम्लंलव
 णानिमद्यम्मृदन्दिवास्वप्नमतीवतीक्ष्णम् ॥ निषेवमा
 णस्यविदूष्यरक्तंकुर्वतिदोषास्त्वचिपाण्डुभावम् २ त्व
 कस्फोटनिष्ठीवनगात्रसादमृद्भक्षणप्रेक्षणकूटशोफाः ॥ वि
 एमूत्रपीतत्वमथाविपाको भविष्यत्स्तस्यपुरःसराणि ३
 त्वङ्मूत्रनयनादीनारूक्षकृष्णारूणप्रभाः ॥ वातपाण्डु
 मयेकंपतोदानाहभ्रमादयः ४ पीतमूत्रशकृन्नेत्रोदाहृ
 ष्णाज्वरान्वितः ॥ भिन्नविट्कोतिपीताभः पित्तपाण्ड्वा
 मयीनरः ५ कफप्रसेकश्चयथुतन्द्रालस्यातिगौरवैः ॥ पा

मिट्टीखाने से १ पाण्डुरोग की सम्प्राप्ति के कारण—अति मैथुन
 करनेसे अतिखट्टी वस्तु खानेसे अतिखारी पदार्थ खानेसे बहुत
 मदिरापीने से मिट्टीखानेसे दिनमें बहुधा सोनेसे अत्यन्ततीक्ष्ण
 भ्रूराती हुई वस्तुके खानेसे दोष रक्तचर्म व मांसमें जाकरइन
 सबोंको पीले करदेते हैं उन्हींको पाण्डुरोग कहते हैं २ पाण्डु
 रोगका पूर्वरूप—त्वचा फटीसी थूँरुना शरीर में ग्लानि मिट्टी
 खानेकीइच्छा नेत्रोंके गोले में शोथ मल व मूत्रमें पीलापन
 अन्नका न पचना ये लक्षण जब पाण्डुरोग होनेपर होता है तब
 पहिले होतेहैं ३ वातज पाण्डुरोगके लक्षण—वातज पाण्डुरोग
 में त्वचा मूत्रनेत्रादिकों में रुपाई आजाती है व इनकारंगकाला
 व लाल मिलाहुआ होजाताहै शरीर कांपता कोंचने के समान
 पीड़ाहोती है पेट फूलता है चित्तभ्रम आदि होतेहैं ४ पित्त के
 पाण्डुरोग के लक्षण—पित्तके पाण्डुरोगवाले मनुष्य के मूत्रमल
 व नेत्रपीले होजाते हैं दाह प्यास व ज्वर होते हैं मल पतला
 होजाताहै शरीरकारंग बहुत पीलाहोजाताहै ५ कफके पाण्डुरोग
 के लक्षण—कफ के पाण्डुरोगी के मुख से कफ गिराकरता शोथ
 होता भ्रूपानसा मुखपर पड़ा रहता भ्रूलसई आती शरीर गरू

एडुरोगीकफाशुक्लेस्त्वङ्मूत्रनयनाननैः ६ ज्वरारोचकह
 ल्लासच्छर्दिदृग्णाक्लमान्वितः ॥ पाण्डुरोगीत्रिभिर्दोषै
 स्त्याज्यःक्षीणोहतेन्द्रियः ७ मृत्तिकादनशीलस्य कुप्य
 त्यन्यतमोमलः॥कषायामारुतंपित्तमूषरामधुराकफम् ८
 कोपयेन्मृद्रसादीश्चरौक्ष्याद्भुक्तंचरुक्षयेत् ॥ पूरयत्यपिप
 कैवश्रोतांसिनिरुणद्धयपि, ९ इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो
 वीर्यौजसीतथा ॥ पाण्डुरोगं करोत्याशु बलवर्णाग्निना
 शनम् १० शूनाक्षिकूटगण्डध्रुःशूनपान्नाभिमेहनः ॥
 कृमिकोष्ठोतिसार्पेत मलंसासृक्कफान्वितम् ११ पाण्डु

जानपड़ता व त्वचा सूत्रमुख व नेत्र बहुत उजलेहोजाते, व जिस
 में वात पित्त कफ तीनोंके लक्षणहों वह सन्निपातका पाण्डुरोग
 कहाताहै ६ व जिस सन्निपात के पाण्डुरोगीके ज्वर भरुचि
 मुखमें पानीछूटना वमनकरना अतिप्यास लगना चित्त व्याकु-
 लता अतिदुर्वलता इन्द्रिय शिथिलता ये उपद्रवहों उस अता-
 ध्य सन्निपात रोगीको वैद्यछोड़दे औपध न करे ७ मिट्टीखानेसे
 उत्पन्नपाण्डुरोगकेलक्षण-मिट्टी खानेवाले मनुष्यके वातादिक
 अलग कोप करते हैं जैसे कसैली मिट्टीके खाने से वायुकोप क-
 रताहै खारीके खानेसे पित्त सपेदमीठी मिट्टीके खानेसे कफकुपि-
 तहोताहै ८ फिर वह खाई-हुई मिट्टी रसादिक सात धातुओंको
 कुपित्त कराके रूपकरदेती है उस रूपनसे फिर वह प्राणी जो
 कुछ अन्न खाताहै वह भी रूपाहोजाताहै व वह मिट्टी वैसी कच्ची
 बनी रहकर सब मागोंको रोकदेतीहै ९ व इन्द्रियों के बलको
 मारकर तेजवीर्य पराक्रम को भी मारतीहै व बल वर्ण अग्नि
 के नाशनेवाले पाण्डुरोग को बहुतही शीघ्र करती है १० सब
 पाण्डुरोगों में जब कोठे में कृमि होजाते हैं तो नेत्रके गाले
 गाल भौहँ पैर नाभि व लिंगमें शोध होआताहै व रुधिर कफस

रोगश्चिरोत्पन्नः खरीभूतो न सिध्यति ॥ कालप्रहर्षाच्छू-
नांगो यो वा पीतानि पश्यति १२ बहुलं विदू सहरितं सक-
फं यो तिसार्यते ॥ दीनः श्वेतातिदिग्धांगश्छर्दिमूर्च्छात्तुड-
न्वितः १३ सनास्त्यसृक्क्षयाद्यस्तु पांडुश्वेतत्वमाप्नुया-
त् ॥ पांडुदन्तनखोयश्च पांडुनेत्रश्च यो भवेत् १४ पांडु-
संघातदर्शी च पांडुरोगी विनश्यति १५ अन्तेषु शूनं परि-
हीनमध्यं म्लानं तथा अन्तेषु च मध्यशूनम् ॥ गुदेथशेफर्य-
थमुष्कयोश्च शूनम्प्रनाम्यंतमसंज्ञकल्पम् १६ विवर्जये-
हित पतलामल गुदमार्गं होकर बाहर आता है ११ बहुत दिन का
पांडुरोग अति तीक्ष्ण होजानेके कारण असाध्य होजाता है सिद्ध
नहीं होता वा बहुत दिन होनेसे जिस पाण्डुरोगीका शरीर शोथ
भावे अथवा जिस रोगीको सब पीलाही पीला दिखाई दे तो
वह भी रोगी असाध्यही होता है १२ व जो रोगी हरा कफसहित
बहुत विष्ठाकरे वह भी असाध्यही होता व जो पीड़ाके मारे
दुःखी रहता व उजली खोसीसी उसके शरीर पर विदित होती
वमन मूर्च्छा व प्याससे युक्त रहता वह भी असाध्य होता
है १३ व जो रक्त नाश होजानेके कारण पीला उजला होगया
हो वह जानों अब इस संसारमें नहीं है व जिस पाण्डुरोगीके
दांत नख पीले होगये हों व जिसके नेत्र भी पीले होगये हों व
जिसे सब पीलोंके समूह दिखाई देतेहों वह पाण्डुरोगी मृतकही
होजाता है १४ जिसपाण्डुरोगीके हाथ पैर जंघाआदि शोथ भाये
हों व बीचका धड़ सूखगयाहो यह रोगी असाध्यहोता व जिसके
हाथ पैर जंघाआदि सूखजायें व मध्यका शरीर छाती पेटआदि
शोथभावे वह भी असाध्यहीहोता है १५ गुद लिंग व पोतोंमें जिसके
सूजनहोती है वह भी असाध्यहोता है व जिसके ऊपर कँपानदिन
रात्रिपड़ारहै वनाय चैतन्यता जातीरहै वह भी असाध्यहीहोता
है व जिस पाण्डुरोगीके ज्वर अतीसार संगही हों उसको यश

त्पांडुकिनंयशोर्थीतथातिसारज्वरपीडितंच ॥ पाण्डुरोगी
 तुयोत्यर्थीपित्तलानिनिषेवते ॥ तस्यंपित्तमसृग्मांसंदग्ध्वा
 रोगायकल्पते १७ हरिद्रनेत्रःसमृशंहारिद्रत्वग्ग्नखान
 नः ॥ रक्तपित्तशकृन्मूत्रोभेकवर्णोहतेन्द्रियः १८ दाहावि
 पाकदोर्वल्यसदनारुचिकर्षितः ॥ कामलावहुपित्तैषाको
 ष्टशाखाश्रयामता १९ कालांतरात्स्वरीभूता कृच्छ्रास्या
 त्कुम्भकामला ॥ कृष्णपीतशकृन्मूत्रोभृशंशूनश्चमानवः
 २० सरक्ताक्षीमुखच्छर्दिद्विएमूत्रोयश्चताम्यति ॥ दाहा
 रुचितृडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥ नष्टाग्निसंज्ञःक्षिप्रंहि

चाहनेवाला वैद्य तुरन्त छोड़दे क्योंकि वह महा असाध्य होता है
 १६ पाण्डुरोगके अन्तर्गत कामल पांडु अर्थात् काँवरि रोगके
 लक्षण—जो पाण्डुरोगी अत्यन्त पित्तकरनेवाली खट्टीतीखी आं-
 दिवस्तुआँका सेवनकरताहै उसकापित्त रक्त मांसको जलाकर
 कामलरोगको उत्पन्न करताहै १७ इसरोगमें नेत्रहरिद्राके समान
 पीलेहोजातेहैं त्वचा नख मुखभी हरिद्राहीके रंगके होजाते
 हैं मूत्र व मल लाल पीला मिला होजाताहै मेड़कके समान
 देहका रंग पीला होजाताहै सबइन्द्रियाँ हतहोजातीहैं १८ सदा
 दाह अन्न न पचना दुर्बलता ग्लानि अरुचि इनसे पीड़ितरह-
 ताहै बहुत पित्तहीसे कामलाहोती है यह प्रथम कोठेमें रहती है
 फिर उसकी शाखा रक्तादि धातुआँमें प्रविष्ट होजाती है १९
 इसी कामला वा काँवरिकाभेद कुम्भकामला है यहीकामल
 बहुत कालतक रहनेसे अतितीक्ष्ण होकर कुम्भकामलाहोजाती
 है यह बड़ेकष्टसे साध्यहोतीहै इसके असाध्य लक्षण—मलमूत्र
 काला पीला मिलाहोजाता है अंग अत्यन्त शोथआते हैं नेत्र
 मुख वमन विष्ठा मूत्र लालहोजाते हैं व सदामानो भ्रूषानसा
 पड़ारहता है २० दूसरे असाध्यके लक्षण—जिसकामलावाले

कामलावान्विपद्यते २१ अर्द्यरोचकहृत्लासज्वरकृमनि
पीडितः ॥ नश्यतिश्वासकासातोविड्भेदीकुम्भकामली
२२ यदातुपाण्डुवर्णःस्याच्चरितस्यावपीतकः ॥ बलोत्सा
हक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वस्मृद्दुज्वरः २३ स्त्रीष्वहर्षोद्गम
र्दश्च सादस्तृष्णारुचिभ्रमः ॥ हलीमकन्तदातस्य वि
द्यादनल्पित्ततः २४ ॥ इतिपाण्डुरोगनिदानम् ॥

धर्मव्यायामशोकाध्वव्यवायैरतिसेवितैः ॥ तीक्ष्णो
रोगीके दाह अरुचि प्यास पेटफूलना भ्रँपान व मोह सदावना
रहै व अग्नि चैतन्यता जातीरहे ऐसारोगी शीघ्रही मरताहै २१
कुम्भ कामलाके असाध्य लक्षण—जिस कुम्भ कामलावाले के
वमन होता अरुचिरहती जीमचलाता ज्वरहोता विना परिश्रम
के थकना श्वास कास आना पतला दस्त आना ये सब लक्षण
होते हैं वह मृतकही होजाताहै २२ पांडुरोगी के अन्तर्गत हली-
मक रोगके लक्षण—जब पांडुरोगी का रंग हरा नीला वा पीला
होजाय बल व उत्साह जातेरहे भ्रँपान पड़ारहे अग्नि मन्द हो
जाय कुछ थोड़ा हलका ज्वर बनारहे २३ स्त्रीके संगकरने की
इच्छा वनाय जातीरहे शरीर टूटाकरे ग्लानि वनीरहे प्यास अ-
धिकलग्ने अरुचि व चित्तभ्रमहो तो इसरोगका हलीमक नाम
जानना चाहिये यह बात पित्तसे मिलकर होता है—पाण्डुही के
भेद पानकी रोगके लक्षण—भ्रंगोंमें सन्ताप पतला मल गिरना
बाहरभीतर सब पीला होजाना दोनों नेत्रोंमें पीलापन ये जिस
के हों उसके पानकी रोगके लक्षण जानो २४ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेपाण्डुकामलाहलीमकरोग
निदानमष्टमम् ॥

दोहा ॥ नवयं महँ कहँ रक्तपित रोग निदान अनेक ॥

साध्यासाध्य विचारिके औपथ करियसटेक ?

रक्तपित्तरोगके लक्षण—अत्यन्त घाम में चलने फिरने से

त्पांडुकिनंयशोर्थात्तथातिसारञ्जरपीडितंच ॥ पाण्डुरोगी
 तुयोत्यर्थापित्तलानिनिषेवते ॥ तस्यंपित्तमसृग्सांसदग्ध्वा
 रोगायकल्पते १७ हारिद्रनेत्रःसमृशंहारिद्रत्वग्ग्नखान
 नः ॥ रक्तपित्तशकृन्मूत्रोभेकवर्णोहतेद्रियः १८ दाहावि
 पाकदोर्वल्यसदनारुचिकर्षितः ॥ कामलाबहुपित्तेषाको
 ष्टशाखाश्रयामता १९ कालांतरात्खरीभूता कृच्छ्रास्या
 त्कुम्भकामला ॥ कृष्णपीतशकृन्मूत्रोभृशंशूनश्चमानवः
 २० सरक्ताक्षीमुखच्छर्दिविण्मूत्रोयश्चताम्यति ॥ दाहा
 रुचितृडानाहतन्द्रामोहसमन्वितः ॥ नष्टाग्नि संज्ञः क्षिप्रं हिं

चाहनेवाला वैद्य तुरन्त छोड़दे क्योंकि वह महा असाध्य होता है
 १६ पाण्डुरोगके अन्तर्गत कामल पांडु अर्थात् काँवरि रोगके
 लक्षण—जो पाण्डुरोगी अत्यन्त पित्तकरनेवाली खट्टीतीखी आ-
 दिवस्तुओंका सेवनकरता है उसकापित्त रक्त मांसको जलाकर
 कामलरोगको उत्पन्न करता है १७ इसरोगमें नेत्रहरिद्राके समा-
 न पीलेहोजाते हैं त्वचा नख मुखभी हरिद्राहीके रंगके होजाते
 हैं मूत्र व मल लाल पीला मिला होजाता है मेड़कके समान
 देहका रंग पीला होजाता है सबइन्द्रियाँ हतहोजाती हैं १८ सदा
 दाह अन्न न पचना दुर्बलता ग्लानि अरुचि इनसे पीड़ितरह-
 ता है बहुत पित्तहीसे कामलाहोती है यह प्रथम कोठेमें रहती है
 फिर उसकी शाखा रक्तादि धातुओंमें प्रविष्ट होजाती है १९
 इसी कामला वा काँवरिकाभेद कुम्भकामला है यही कामल
 बहुत कालतक रहनेसे अतितीक्ष्ण होकर कुम्भकामलाहोजाती
 है यह बड़ेकष्टसे साध्यहोती है इसके असाध्य लक्षण—मलमूत्र
 काला पीला मिलाहोजाता है अंग अत्यन्त शोथआते हैं नेत्र
 मुख वमन विष्ठा मूत्र लालहोजाते हैं व सदामानो भ्रंपानसा
 पड़ारहता है २० दूसरे असाध्यके लक्षण—जिसकामलावाले

कामलावान्विपद्यते २१ अर्धरोचकहृत्लासज्वरकुम्भनि
पीडितः ॥ नश्यतिश्वासकासातोविड्भेदीकुम्भकामली
२२ यदातुपाण्डुवर्णःस्याद्धरितस्यावपीतकः ॥ वलोत्सा
हृक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वम्मृदुज्वरः २३ स्त्रीष्वहर्षोद्गम
र्दश्च सादस्तृष्णारुचिभ्रमः ॥ हलीमकन्तदातस्य वि
द्यादनलपित्ततः २४ ॥ इतिपाण्डुरोगनिदानम् ॥

धर्मव्यायामशोकाध्वव्यवायैरतिसेवितैः ॥ तीक्ष्णो
रोगीके दाह अरुचि प्यास पेटफूलना भ्रंपान व मोह सदावना
रहै व अग्नि चैतन्यता जातीरहे ऐसारोगी शीघ्रही भरताहै २१
कुम्भ कामलाके असाध्य लक्षण—जिस कुम्भ कामलावाले के
वमन होता अरुचिरहती जीमचलाता ज्वरहोता बिना परिश्रम
के थकना श्वास कास आना पतला दस्त आना ये सब लक्षण
होते हैं वह मृतकही होजाताहै २२ पांडुरोगी के अन्तर्गत हली-
मक रोगके लक्षण—जब पांडुरोगी का रंग हरा नीला वा पीला
होजाय बल व उत्साह जातेरहें भ्रंपान पड़ारहे अग्नि मन्द हो
जाय कुछ थोड़ा हलका ज्वर बनारहे २३ स्त्रीके संगकरने की
इच्छा वनाय जातीरहे शरीर टूटाकरे ग्लानि वनीरहे प्यास अ-
धिकज्ञगे अरुचि व चित्तधमहो तो इसरोगका हलीमक नाम
जानना चाहिये यह बाल पित्तसे मिलकर होता है—पाण्डुही के
भेद पानकी रोगके लक्षण—भ्रंगोंमें सन्ताप पतला मल गिरना
वाहरभीतर सब पिला होजाना दोनों नेत्रोंमें पिलापन ये जिस
के हों उसके पानकी रोगके लक्षण जानो २४ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेपाण्डुकामलाहलीमकरोग
निदानमष्टमम् ८ ॥

दोहा ॥ नवयै महुँ कह रक्तपित्त रोग निदान अनेक ॥

साध्यासाध्य विचारिके औषध करियसटेक ?

रक्तपित्तरोगके लक्षण—अत्यन्त घाम में चलने फिरने से

ष्णैःक्षारलवणैरम्लैःकटुभिरेवच १ पित्तंविदग्धंस्वगुणै
 विदहत्याशुशोणितम् ॥ ततःप्रवर्ततेरक्तमूर्ध्वबाधोद्विधा
 पिवा २ ऊर्ध्वनासाक्षिकर्णाक्षैर्मदयोनिगुदरधः ॥ कुपितरोम
 कूपैश्चसमस्तैस्तत्प्रवर्तते ३ (आमाशयाद्भ्रूजेदूर्ध्वमधःप
 काशयाद्भ्रूजेत् ॥ विदग्धयोर्द्वयोश्चापिद्विधाभागंप्रवर्तते)
 सदनंशीतकामित्वंकण्ठधूमायनं वमिः ॥ लोहगंधिश्चनि
 श्वासोभवत्यस्मिन्भविष्यति ४ सांद्रं सपांडुसस्नेहंपिच्छि
 लंचकफान्वितम् ॥ श्यावारुणंसफेनंचतनुरूक्षंचवातिक
 म्प्ररक्तपीतकषायाभंकृष्णंगोमूत्रसंनिभम् ॥ मेचकांगारं

अतिदण्ड कुशती आदि खेलनेसे अतिशोक करने से बहुत मार्ग
 चलने से अतिमैथुन करने से अतितीक्ष्ण अतिउष्ण अतिक्षार
 अतिसलने अतिखट्टे व अति कडुवे पदार्थोंके सेवनकरने से १
 पित्त अति जलकर अपनेगुणों से बहुत शीघ्र रुधिरको बहुत
 गरमकरदेताहै इसलिये रुधिर ऊँचे नीचे दोनोंओर से वह नि-
 कलताहै २ ऊँचे को तो नाक नेत्र कान व मुखके मार्गसे निक-
 लनेलगतता है व नीचे लिंग व गुदकीद्वारा और स्त्रीके भग व गुद
 की द्वारा नीचेको व ऊपर को जिन मार्गों से पुरुषके निकलता
 है व जब अत्यन्त कोप करता है तो सवरोमों की भी निकलने
 लगताहै ३ रक्त पित्तके पूर्वरूपके लक्षण—ग्लानि शीतपदार्थों
 की इच्छा गले से धुआँइंधसी निकलनी वमनहोना तपायेहुये
 लोह की महकके समान श्वास की गन्धि जब रक्त पित्त होने
 पर होताहै तब ये सब होतेहैं ४ कफ युक्त रक्तपित्तके लक्षण—
 गाढा कुछ पीलापन लिये चिकनाई हुये बुझा बुल बुलाता
 हुआ रुधिर जिसमें गिरताहै वह कफयुक्त रक्त पित्त कहाताहै
 वात मिश्रित रक्त पित्तके लक्षण—नीला कुछ ललाईलिये फेना
 सहित पतला व रूपारुधिर जिसमें गिरताहै वह वातमिश्र रक्त-

धूमाभमंजनाभंचपैतिकमूदसंसृष्टलिंगसंसर्गात्त्रिलिंग
 सान्निपातिकम् ॥ ऊर्ध्वगंकफसंसृष्टमधोगंमारुतानुगम् ७
 द्विमार्गकफवाताभ्यामुभाभ्यामनुवर्त्तते ॥ ऊर्ध्वसाध्यमधो
 याप्यमसाध्ययुगपद्गतम् ८ एकमार्गवलवतोनातिवेगंन
 वोत्थितम् ॥ रक्तपीतंसुखेकालेसाध्यंस्यान्निरुपद्रवम् ९ ए
 कदोषानुगंसाध्यंद्विदोषंयाप्यमुच्यते ॥ यत्त्रिदोषमसाध्यं
 पित्त कहाताहै ५ पित्तके रक्तपित्तके लक्षण—जिस रक्तपित्तमेंगेरू
 के रंगे बस्त्रके समान रक्तकारंगहो कालाहो अथवा गोमूत्रके रंग
 काहो वा मोरके पक्षके रंगकाहो वा अंगारसाहो वा धूमकेरंगका
 हो वा अञ्जन सा रंगहो तो उसरक्त पित्तको पित्त सम्बन्धी जा
 नना चाहिये ६ दो २ दोषों से उत्पन्नके लक्षण—जिसमें दोदोषों
 के लक्षण मिलेहुये पायेजायँ उसे द्विदोषजरक्त पित्त जानना
 चाहिये जिसमें तीनों दोषोंका संसर्गहो उसे त्रिदोषज वा सा
 न्निपातिक रक्तपित्त जानो जिस में मुखनासिकादि ऊपरके
 छिद्रों से रक्तवहे उसे कफका रक्त पित्त जानना चाहिये जिसमें
 गुदलिंग योनिआदि नीचेके छिद्रों से रुधिर निकले उसे वायु
 का रक्त पित्त जानो ७ जिसमें ऊँचे नीचे दोनों मार्गों से रक्त
 निकले उसे कफवात दोनोंसे उत्पन्न रक्तपित्तजानो इनके सा
 ध्यासाध्यके लक्षण—ऊपरके मार्गों होकर रुधिरवहनेवाला रक्त
 पित्त साध्यहोताहै क्योंकि कफ मिश्रितहोताहै नीचे के मार्गों
 से जिसमें रुधिर वहताहै वह याप्यअर्थात् साध्यअसाध्य दोनों
 होताहै व जो नीचे ऊँचे दोनोंओर की वहता है वह असाध्यही
 होताहै ८ साध्यहोने के हेतु जो रक्तपित्त बलवान् पुरुष के एरु
 ऊपरकेही मार्गसे रुधिर निकालता है सो भी अति वेगसे नहीं
 व थोड़ेही दिनोंसे सो भी शिशिर हेमन्तादि सुखके कालमें वह
 भी उपद्रव रहितहो तो वह रक्तपित्त साध्यहोताहै ९ दोष भेद
 से साध्य असाध्य के लक्षण—एकदोषसेयुक्त रक्तपित्त साध्यहोता

स्यान्मंदाग्नेरतिवेगतः ॥ व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धस्या
 नश्नतश्चयत् १० दौर्बल्यंश्वासकांसज्वरवमथुमदापांडु
 तादाहमूच्छाभुक्तेघोरोविदाहस्त्वधृतिरपिसदाहृद्यतुल्या
 चपीडा ॥ कृष्णाकोष्ठस्यभेदः शिरसिचतपनंपूतिनिष्ठीव
 नत्वं भक्तद्वेषाविपाकोविकृतिरपिभवेद्रक्तपित्तोपसर्गः
 ११ मांसप्रक्षालनाभंक्रथितमिवचयत्कर्दमांभोनिभंवा
 मेदःप्यास्रकल्पंयकृदिवयदिवापक्कजंबूफलाभम् ॥ यत्कृ
 ष्णयञ्चनीलंभृशमतिकुणपंयत्रचोक्ताविकारा स्तद्वर्ज्यंर
 क्तपित्तंसुरपतिधनुषायञ्चतुल्यंविभाति १२ येनचोपहतं

है व दोदोपोंसे मिलाहुआ याप्य अर्थात् कष्टसाध्य होनेसे साध्य
 असाध्य दोनों होताहै व जो तीनों दोपों से उत्पन्नहोता है वह
 असाध्यही होताहै व मन्दाग्नि पुरुषके जो अतिवेगसे रुधिरआता
 है वह भी असाध्यहोता है व्याधि से क्षीण देहवाले अतिवृद्ध व
 जिसकाअन्न छूटगयाहो उसका भी रक्तपित्त असाध्यही होता है
 १० रक्तपित्तके उपद्रव—दुर्बलता श्वासआना खांसी आना ज्वर
 होनाभोकाईलगना मदचद्दारहना देहकाभारदुर्गं होजाना दाह
 मूच्छा भोजनकरनेपर घोरदाह गरुडहीजलना अधीरहोना सदा
 हृदय में विषमपीडा प्यासलगना मलकापतला होना शिरका
 जलना धूकने में दुर्गन्धिका आना अरुचि अन्नका न पचना व
 शरीर की आकृतिका बदलजाना वस रक्तपित्तके ये उपद्रवहैं ११
 असाध्य रक्तपित्तके लक्षण—जिसरक्त पित्तरोगमें रुधिर मांस के
 धोवनके रंगकाहो वा काढेके रंगकाहो वा कीचड़ मिले हुये जल
 के रंगका हो वा चर्बी और पीवमें मिले हुये रुधिरके रंगकाहो
 वा यकृत करेजीके खण्डके रंगकाहो अथवापकेहुये फरेंदे के रंग
 का हो वा काला नीलाहो वा मुर्देकी दुर्गन्धि के समान जिस
 रुधिर में अति दुर्गन्धि आवे अथवा जिसमें इन्द्रधन्वा के रंगों

रक्तं रक्तपित्तेन मानवः ॥ पश्येद्दृश्यं वियञ्चोपितद्वासाध्यम
संशयम् १३ लोहितं र्द्धयेद्यस्तु बहुशो लोहितेक्षणः ॥ लो
हितोद्गारदर्शी च स्थिते रक्तपैत्तिकः १४ इति रक्तपित्तनिदानम् ॥

वेगरोधाक्षयाच्चैव साहसाद्विषमाशनात् ॥ त्रिदोषो
जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात् १ क्षयशोषो राजयक्ष्मा
रोगराडिति कीर्तितः ॥ राज्ञश्चन्द्रमसो यस्माद्भूदेषकि
लामयः ॥ तस्मात्तं राजयक्ष्मेति केचिदाहुर्मनीषिणः २
कफप्रधानैर्दोषैस्तु रुद्धेषुरसवर्त्मसु ॥ अतिथ्यवायिनो वा
के समान अनेक रंगका रक्त गिरे ये सब विकारजिसमें हों वा इन
में से एकही कोई होतो वैद्यको चाहिये इस रक्त पित्तको असा-
ध्यसमझ कर छोड़ देवे १२ अन्य असाध्यके लक्षण—जिस रक्त
पित्तरोगसे उपहत होकर मनुष्य सब घटपटमठादि दृश्यपदार्थों
को व आकाशको लाल देखे वह भी रोगी असाध्यही है इसमें
संशय नहीं है १३ अन्य असाध्यके लक्षण—जोरक्त पित्तका रोगी
लालही वमनकरे व जिसके नेत्र बहुत लालबने रहतेहों अथवा
जिसको डकार में वड़ी गण्डही आवे व डकार आने के समय
लालही दिखाई दे वह भी असाध्यही होता है १४ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे रक्तपित्तनिदानत्रयवमसू ६ ॥
दोहा ॥ दृश्यं महँ कह क्षयी प्रथ रोगनिदानविचारि ॥

जो असाध्यबहुभांतिसों साध्यअल्पनिरधारि १

राजयक्ष्मा अर्थात् क्षयरोगके निदान दिशापेशाव अधोवायु
के रोरुनेसे मैथुनादि अतिकरनेसे अधिक धातुक्षयहोनेसे साहस
करनेसे व कुसमयपर कभी सन्ध्या कभी तीसरेपहर कभी रात्रि
में भोजन करनेसे वस इनचारों कारणों से तीनों वात पित्त कफ
कोप करते हैं इसीसे राजयक्ष्मा रोग उत्पन्न होता है १ क्षय शोष
राजयक्ष्मा रोगराज ये चार इसी यक्ष्माके नामहैं जिससे कि यह
रोगराजाचन्द्रमाकेहुआथा इसीसे इसेकोई २ परिडतलोग राज-

पि क्षीणैरेतंस्यनन्तराः ३ क्षीयन्तेधातवःसर्वे ततःशुण्य
 तिमानवः ४ इवासांगसादकफसंश्रवतालुशोष छद्यग्नि
 सादमदपीनसकासहिकाः ॥ शोषेभविष्यतिभवन्तिसचा
 पिजन्तुः शुद्धेक्षणोभवतिमांसपरोरिरंसुः ५ स्वप्नेषुका
 कशुकशल्लकनीलकण्ठ गृध्रास्तथैवकपयःकृकलाशका
 इच ॥ तंवाहयन्तिसनदीर्विजलाश्चपश्येत्शुष्कांस्तरु
 नूपवनधूमद्वार्दितांश्च ६ असपाश्वाभितापश्चसंतापः
 यक्ष्माकहतेहैर्नहींतो यक्ष्मातो इसको नामहीहै रजव कफादिक
 दोपरसोंकेमागोंको रोकलेतेहै रुधिर वहानेवालीनसोंसे यथाव-
 स्थितरक्त सबकहीं नहींजाता केवलहृदयमेंही रहताहैतबजलकर
 वहरुधिर अनेकरूपसे सुखकी गिरताहै अथवा अति मैथुनकरने
 से जब बीज क्षीण होजाताहै उसके पीछे यह रोगहोता है ३
 क्योंकि जब वीर्य क्षीणहोजाताहै तब सब अन्य छःधातुभी नष्ट
 होजाते हैं तब मनुष्य सूखजाताहै धातुओंका राजा शुकही है
 इससे उसकीरक्षा सदाकरनीचाहिये क्योंकि उसके क्षीणहोतेही
 अन्यधातु क्षीणहोजातेहैं ४ क्षयरोगका पूर्वरूप—इवासअधि-
 क आना वा हाँपना भंगोंका ढीलाहोना मुखसे अधिक थूकगि-
 रना तालुसूखना ढाकना अग्निकीमन्दता नशासा चढारहना
 नाक अधिकबहना वा पीनसरोगहोजाना खाँसीआना हुचकी
 आनाजब शोपरोग होनेपरहोताहै तो प्रथम येऊपरलिखेहुयेदोष
 होते हैं व उसपुरुषकेनेत्र उंजलेहोजाते हैं व उले मांसखाने व
 मैथुनकरनेकी इच्छाअधिकहोतीहै ५ व वह पुरुष स्वप्नमेंदेखता
 है कि कौआ, तोता,साही, मोर, गीध, वानर, गिरगिट में इनके
 ऊपरचढाहूँ व वह बिनाजलकी नदियोंको देखताहै व सूखेवृक्षों
 को देखता वा वायु धुआँ व दावानलसे पीड़ित वृक्षोंको देखता
 है ६ कन्धा पशुरियोंका जलना हाथ पैरोंका अधिकजलना व
 सब भंगोंमें सदाज्वर बनारहना ये तीन लक्षण राजयक्ष्माके

करपादयोः ॥ ज्वरः सर्वांगगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ७
 (भक्तद्वेषोज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् । स्वरभेद
 इचजायन्ते षड्रूपे राजयक्ष्मणि) स्वरभेदो निलाच्छूलं
 संकोचश्चासपाश्वयोः ॥ ज्वरोदाहोतिसारश्च पित्ताद्रक्त
 स्यचागमः ८ शिरसः परिपूर्णत्वमभुक्तिश्छर्दिरेवंच ॥ का
 शः कण्ठस्वरध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः ९ एकादशभिरे
 तैर्वा षड्भिर्वापिसमन्वितम् ॥ काशातिसारपाश्वर्त्तिस्वर
 भेदारुचिज्वराः १० त्रिभिर्व्वापीडितं लिङ्गैर्ज्वरकाशां
 सृगामयैः ॥ जह्याच्छोषान्वितं जंतुमिच्छन्सुविपुलयशः
 ११ सर्वैरर्धैस्त्रिभिर्वापिलिङ्गैर्मांसवलक्षयैः ॥ युक्तो वर्ज्यः
 चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोप्यतो न्यथा १२ महाशिनंक्षीयमा

मुख्यहैं ७ यद्यपि राजयक्ष्मा वातादि तीनों दोषों के मिलजानेही से होता है पर उनके विकारोंसे अलगरूप उपद्रव कहते हैं—वायुके दोषसे बोल और प्रकारका होजाता है कन्धे व पशुरियोंमें शूरउठती व वे खिंचीसी जानपड़ती हैं व पित्तके दोष से सदाज्वर बनारहता है अंगोंमें दाहहोता अतीसारहोता व रक्तमुखसे गिरता है ८ व कफके कोपसे शिरभारीरहता अरुचि खाँसी स्वरभेद होता है ९ इनरगारहोंसे वा छः से युक्त शोपरोग होता है खाँसी आना अतीसारहोना पशुरियोंमें पीड़ा स्वरभेद अरुचि व ज्वर इन छः से १० वा ज्वर खाँसी व रक्तगिरना इन तीनों से युक्त यह रोग रहता है वस लो वैद्य अपना बहुत यशचाहताहो उसे चाहिये कि इसराजयक्ष्मावाले रोगीको छोड़दे औषध न करे ११ असाध्य साध्यका विचारकहते हैं—जब उपरके लिखेहुये रगारह दोषों से युक्तहो वा छः से युक्तहो वा तीनही से युक्तहो परवल मांसरहितहो तो वह रोगी असाध्य है यदि सबदोषों से युक्त है परवल मांसयुक्त है तो औषध करना चाहिये १२ असाध्य के

पि क्षीणैरेतस्यनन्तराः ३ क्षीयन्तेधातवःसर्वे ततःशुण्य
 तिमानवः ४ श्वासांगसादकफसंश्रवतालुशोष छर्द्यग्नि
 सादमदपीनसकासहिकाः ॥ शोषेभविष्यतिभवन्तिसचा
 पिजन्तुः शुक्लेक्षणोभवतिमांसपरोरिरंसुः ५ स्वप्नेषुका
 कशुकशल्लकनीलकण्ठ गृध्रास्तथैवकपयःकृकलाशका
 इच ॥ तंवाहयन्तिसनदीर्विजलाश्चपश्येत्शुष्कांस्तरु
 न्पवनधूमदवार्दिताश्च ६ अंसपाश्वाभितापश्चसंतापः
 यक्ष्माकहतेहै नहींतो यक्ष्मातो इसको नामहीहै २ जब कफादिक
 दोपरसोंकेमागोंको रोकलेतेहैं रुधिर वहानेवालीनसोंसे यथाव-
 स्थितरक्त सत्रकहीं नहींजाता केवलहृदयमेंही रहताहैतबजलकर
 वहरुधिर अनेकरूपसे सुखकी गिरताहै अथवा अति मैथुनकरने
 से जब बीज क्षीण होजाताहै उसके पीछे यह रोगहोता है ३
 क्योंकि जब वीर्य क्षीणहोजाताहै तब सब अन्य छःधातुभी नष्ट
 होजाते हैं तब मनुष्य सूखजाताहै धातुओंका राजा शुक्रही है
 इससे उसकीरक्षा सदाकरनीचाहिये क्योंकि उसके क्षीणहोतेही
 अन्यधातु क्षीणहोजातेहैं ४ अथरोगका पूर्व्वरूप—श्वासअधि-
 क आना वा हाँपना अंगोंका ढीलाहोना मुखसे अधिक थूँकगि-
 रना तालुसूखना ढाँकना अग्निकीमन्दता नशासा चद्दारहना
 नाक अधिकवहना वा पीनसरोगहोजाना खाँसीभाना हुचकी
 आनाजब शोपरोग होनेपरहोताहै तो प्रथम येऊपरलिखेहुयेदोप
 होते हैं व उसपुरुषकेनेत्र उजलेहोजाते हैं व उसे मांसखाने व
 मैथुनकरनेकी इच्छा अधिक होतीहै ५ व वह पुरुष स्वप्नमेंदेखता
 है कि कौआ, तोता,साही, मोर, गीध, बानर, गिरगिट में इनके
 ऊपरचढ़ाहूँ व वह विनाजलकी नदियोंको देखताहै व सूखेवृक्षों
 को देखता वा वायु धुआँ व दावानलसे पीड़ित वृक्षोंको देखता
 है ६ कन्या पशुरियोंका जलना हाथ पैरोंका अधिकजलना व
 सत्र अंगोंमें सदाज्वर बनारहना ये तीन लक्षण राजयक्ष्मा के

करपादयोः ॥ ज्वरः सर्वांगगश्चेति लक्षणं राजयक्ष्मणः ७
 (भक्तद्वेषोज्वरः श्वासः कासः शोणितदर्शनम् । स्वरभेद
 इचजायन्ते षड् रूपे राजयक्ष्मणि) स्वरभेदो निलाच्छूलं
 संकोचश्चांसपाश्वयोः ॥ ज्वरोदाहोतिसारश्च पित्ताद्रक्त
 स्यचागमः ८ शिरसः परिपूर्णत्वमभुक्तिश्छर्दिरेवच ॥ का
 शः कण्ठस्वरध्वंसो विज्ञेयः कफकोपतः ९ एकादशभिरे
 तैर्वा षड्भिर्वापिसमन्वितम् ॥ काशातिसारपाश्वार्त्तिस्वर
 भेदारुचिज्वराः १० त्रिभिर्व्यापीडितं लिङ्गैर्ज्वरकाशां
 सृगामयैः ॥ जह्याच्छोषान्वितं जंतुमिच्छन्सुविपुलं यशः
 ११ सर्वैरर्द्धैस्त्रिभिर्वापि लिङ्गैर्मांसवलक्ष्यैः ॥ युक्तो वर्ज्यः
 चिकित्स्यस्तु सर्वरूपोप्यतो न्यथा १२ महाशिनंक्षीयमा

मुख्यहै ७ यद्यपि राजयक्ष्मा वातादि तीनों दोषों के मिलजानेही
 से होताहै पर उनके विकारोंसे अलगरूप उपद्रव कहते हैं—वायुके
 दोषसे बोल और प्रकारका होजाताहै कन्धे व पशुरियोंमें शूरउ-
 ठती व वे खिंचीसी जानपड़ती हैं व पित्तके दोष से सदाज्वर
 बनारहता है अंगोंमें दाहहोता अतीसारहोता व रक्तमुखसे गिरता
 है ८ व कफके कोपसे शिरभारीरहता अरुचि खाँसी स्वरभेद
 होताहै ९ इन्म्यासहोंसे वा छः से युक्त शोपरोग होताहै, खाँसी
 आना अतीसारहोना पशुरियोंमें पीड़ा स्वरभेद अरुचि व ज्वर
 इन छः से १० वा ज्वर खाँसी व रक्तगिरना इन तीनों से युक्त
 यह रोग रहता है वस जो वैद्य अपना बहुत यशचाहताहो उसे
 चाहिये कि इसराजयक्ष्मावाले रोगीको छोड़दे औषध न करे ११
 असाध्य साध्यका विचारकहतेहैं—जब ऊपरके लिखेहुये ग्यारह
 दोषों से युक्तहोवा छः से युक्तहो वा तीनही से युक्तहो परवल
 मांसरहितहो तो वह रोगी असाध्य है यदि सबदोषों से युक्तहै
 परवल मांसयुक्त है तो औषध करना चाहिये १२ असाध्य के

एमतीसारनिपीडितम् ॥ शूनमुष्कोदरञ्चैवयक्ष्मणंपरिव
 र्जयेत् १३ ज्वरानुबन्धरहितस्वलवन्तंक्रियासहम् ॥
 उपक्रमेदात्मवंतंदीप्ताग्निमकृशंनरम् १४ शुक्लाक्षमन्नद्वे
 ष्टारमूर्ध्वश्वासनिपीडितम् ॥ कृच्छ्रेणबहुमेहंतंयक्ष्माहन्ती
 हमानवम् १५ व्यवायशोकवाद्ध्वेक्येव्यायामाध्वप्रशोषिता
 त् ॥ त्रणोरःक्षतसंज्ञौचयक्ष्मणोलक्षणेःशृणुं १६ व्यवायशो
 पीशुकस्य क्षयलिंगैरुपद्रुतः ॥ पाण्डुदेहोयथापूर्वं क्षीय
 न्तेचास्यधातवः १७ प्रध्मानशीलस्त्वस्तांगः शोकशो

लक्षण-जो रोगी भोजन बहुत करताहो पर प्रतिदिन दुर्ब-
 लहोताजाता हो व अतीसार से पीडितहो पेट व पोतोंमें शोथ
 आगयाहो ऐसे यक्ष्मावाले को छोड़देनाचाहिये क्योंकि वह अ-
 साध्य होताहै १३ व जो क्षयरोगवाला ज्वरसे अति पीडित न
 हो बलवान्हो औषधों को सहसकाहो इन्द्रियों की शक्तियुक्त
 हो अग्नि प्रदीप्त हो व दुर्बल न होगयाहो ऐसे रोगी को औषध
 देनाचाहिये १४ असाध्य का अन्यलक्षण-जिसरोगी के नेत्रव-
 हुत उजले होगयेहों अन्नमें अरुचिहोगईहो ऊर्ध्वाशवास आती
 हों व बड़े कष्टके साथ बहुतमूतताहो ऐसे रोगीको यक्ष्मा मारही
 डालता है १५ केवल अति मैथुन करने से धातुक्षीण होजानेही
 से यह शोषरोग नहींहोता किन्तु अन्यकारणोंसेभी होता है अति-
 मैथुन करनेसे सूखेहुये शोकसे सूखेहुये लृप्तता से दराडभादि अ-
 धिककरने से बहुत मार्ग चलने से घावसे वा कलेजे के घावसे
 सूखे हुये शोष रोगीके लक्षण अलग २ सुनो १६ अति मैथुन
 करने से सूखे हुये के लक्षण-अति मैथुन करने से जो पुरुष
 सूख जाताहै वह धातुक्षय के उपद्रवों से युक्त होताहै जैसे कि
 उसका शरीर पीला होजाताहै लिंग व अण्डों में पीड़ा होती है
 मैथुन करने की शक्ति जाती रहती है धातु बहुत कम गिरने

प्यपितादृशः ॥ विनाशुकक्षयकृतैर्विकारैरुपलक्षितः १८
जराशोषीकृशोमन्दवीर्यबुद्धिबलेंद्रियः ॥ कम्पनोरुचि
मान्भिन्नकांस्यपात्ररुतस्वरः १९ ष्ठीवतिश्लेष्मणाही
नंगौरवारुचिपीडितः ॥ संप्रस्रुतास्यनासाक्षः शुष्कंरुं
क्षमलच्छविः २० अध्वप्रशोषीस्त्रस्तांगः संभ्रष्टपुरुष
च्छविः ॥ प्रसुप्तगात्रावयवःशुष्कस्वान्तगलाननः २१
व्यायामशोषीभूयिष्ठमेभिरेवसमन्वितः ॥ लिंगैरुरक्षत

लगतहै इत्यादि दोष होते हैं १७ शोकसे सूखे हुये के लक्षण
शोकसे शुष्क पुरुष बहुत चिन्ता करता रहताहै हाथ पैर आदि
अंगढीले पर जाते हैं इस रोगी के धातुक्षय तो नहीं होता जो
कि अति मैथुन करने वालेके लक्षणमें कहाहै परन्तु अन्य सब
उसी के लक्षण इस के भी होते हैं १८ वृद्धता से सूखे हुये के
लक्षण-वृद्धताके कारण पुरुष दुर्बल होजाताहै क्योंकि उसके
वीर्य बलबुद्धि व इन्द्रियहत होकर मन्द होजातेहैं शरीर कांपने
लगतहै अन्नमें अरुचि होजातीहै फूटे हुये कांसिके पात्रके शब्द
के समान उसका बोलना होजाताहै १९ थूंकनेमें कफ नहीं गि-
रता देह भारी लगताहै व अति अरुचिसे पीडित रहता है मुख
नेत्रनाक बहा करते हैं मलकड़ा होजाता है व शरीर में रुखाई
के कारण शोभा नहीं रहती २० अधिक मार्गचलने से सूखेहुये
के लक्षण-मार्गचलने से सूखे हुये पुरुषके हाथपैर आदिअंग
ढीले पड़जाते हैं शरीरकी शोभा कड़ी व भ्रष्टहोजातीहै सबअंग
सोयेसे जानपड़तेहैं हृदय गल व मुख सदा सूखे बनेरहतेहैं २१
अधिक दण्ड आदि परिश्रम करनेसे सूखेहुये के लक्षण-जो
लक्षण अधिक मार्ग चलनेसे सूखेहुये के कहे हैं वेही अधिकप-
रिश्रमसे सूखेहुये के भीहैं व छातीमें घावलगनेसे सूखेहुयेपुरुष
के भी लक्षण युक्तरहते हैं परन्तु इसरोगीकी छाती में घावनहीं

एमतीसारनिपीडितम् ॥ शूनमुष्कोदरञ्चैवयक्ष्मिणंपरिव
 र्जयेत् १३ ज्वरानुबन्धरहितम्बलवन्तंक्रियासहम् ॥
 उपक्रमेदात्मवंतंदीप्ताग्निमकृशंनरम् १४ शुक्लाक्षमन्नद्वे
 ष्टारमूर्ध्वश्वासनिपीडितम् ॥ कृच्छ्रेणबहुमेहंतंयक्ष्माहन्ती
 हमानवम् १५ व्यवायशोकवार्द्धक्येव्यायामाध्वप्रशोषिता
 त् ॥ त्रणोरक्षतसंज्ञौचयक्ष्मणोलक्षणैः शृणु १६ व्यवायशो
 षीशुक्रस्य क्षयलिंगैरुपद्रुतः ॥ पाण्डुदेहोयथापूर्वं क्षीय
 न्तेचास्यधातवः १७ प्रध्मानशीलस्त्रस्तांगः शोकशो

लक्षण-जो रोगी भोजन बहुत करताहो पर प्रतिदिन दुर्ब-
 लहोताजाता हो व अतीसार- से पीडितहो पेट व पोतोंमें शोथ
 आगयाहो ऐसे यक्ष्मावाले को छोड़देनाचाहिये क्योंकि वह अ-
 साध्य होताहै १३ व जो क्षयरोगवाला ज्वरसे अति पीडित न
 हो बलवानहो औषधों को सहसक्ताहो इन्द्रियों की शक्तिसेयुक्त
 हो अग्नि प्रदीप्तहो व दुर्बल न होगयाहो ऐसे रोगी को औषध
 देनाचाहिये १४ असाध्य का अन्यलक्षण-जिसरोगी के नेत्रव-
 हुत उजले होगयेहों अन्नमें अरुचिहोगईहो ऊर्ध्वाश्वासमें आती
 हों व बड़े कष्टके साथ बहुतमूतताहो ऐसे रोगीको यक्ष्मा मारही
 डालता है १५ केवल अति मैथुन करने से धातुक्षीण होजानेही
 से यह शोथरोग नहींहोता किन्तु अन्यकारणोंसेभी होताहै अति-
 मैथुन करनेसे सूखेहुये शोकसे सूखेहुये वृद्धता से दगडआदि अ-
 धिककरने से बहुत मार्ग चलने से धावसे वा कलेजे के धावसे
 सूखे हुये शोथ रोगीके लक्षण अलग २ सुनो १६ अति मैथुन
 करने से सूखे हुये-के लक्षण-अति मैथुन करने से जो पुरुष
 सूख जाताहै वह धातुक्षय के उपद्रवों से युक्त होताहै जैसे कि
 उसका शरीर पीला होजाताहै लिंग व अण्डों में पीड़ा होती है
 मैथुन करने की शक्ति जाती रहती है धातु बहुत कम गिरने

प्यपितादृशः ॥ विनाशुकक्षयकृतैर्विकारैरुपलक्षितः १८
जराशोषीकृशोमन्दवीर्यबुद्धिवर्लेन्द्रियः ॥ कम्पनोरुचि
मान्भिन्नकांस्यपात्ररुतस्वरः १९ ष्ठीवतिश्लेष्मणाही
नंगौरवारुचिपीडितः ॥ संप्रस्रुतास्यनासाक्षः शुष्कंरू
क्षमलच्छविः २० अध्वप्रशोषीस्त्रस्तांगः संभ्रष्टपरुष
च्छविः ॥ प्रसुप्तगात्रावयवःशुष्कस्वान्तगलाननः २१
व्यायामशोषीभूयिष्ठमेभिरेवसमन्वितः ॥ लिंगैरुरक्षत

लगताहै इत्यादि दोष होते हैं १७ शोकसे सूखे हुये के लक्षण
शोकसे शुष्क पुरुष बहुत चिन्ता करता रहताहै हाथ पैर आदि
अंगढीले पर जाते हैं इस रोगी के धातुक्षय तो नहीं होता जो
कि अति मैथुन करने वालेके लक्षणमें कहाहै परन्तु अन्य सब
उसी के लक्षण इस के भी होते हैं १८ वृद्धता से सूखे हुये के
लक्षण-वृद्धताके कारण पुरुष दुर्बल होजाताहै क्योंकि उसके
वीर्य बलबुद्धि व इन्द्रियहत होकर मन्द होजातेहैं शरीर कांपने
लगताहै अन्नमें अरुचि होजातीहै फूटे हुये कांसिके पात्रके शब्द
के समान उसका बोलना होजाताहै १९ थूंकनेमें कफ नहीं गि-
रता देह भारी लगताहै व अति अरुचिसे पीडित रहता है मुख
नेत्रनाक बहा करते हैं मलकड़ा होजाता है व शरीर में रुखाई
के कारण शोभा नहीं रहती २० अधिक मार्गचलने से सूखेहुये
के लक्षण-मार्गचलने से सूखे हुये पुरुषके हाथपैर आदिअंग
ढीले पड़जाते हैं शरीरकी शोभा कड़ी व भ्रष्टहोजातीहै सबअंग
सोयेसे जानपड़तेहैं हृदय गल व मुख सदा सूखे बनेरहतेहैं २१
अधिक दण्ड आदि परिश्रम करनेसे सूखेहुये के लक्षण-जो
लक्षण अधिक मार्ग चलनेसे सूखेहुये के कहे हैं वेही अधिकप-
रिश्रमसे सूखेहुये के भीहैं व छातीमें घावलगनेसे सूखेहुयेपुरुष
के भी लक्षण युक्तरहते हैं परन्तु इसरोगीकी छाती में घावनहीं

कृतैःसंयुक्तश्चक्षतंविना २२ रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथैवा
 हारयंत्रणात् ॥ व्रणितस्यभवेच्छोपो यस्यासाध्यतमोम
 तः २३ धनुराकर्षतो नित्यं भारमुद्वहतोगुरुम् ॥ युध्य
 मानस्यत्रलिभिःपततोविषमोच्चतः २४ वृषंहयंवाधाव
 न्तं दम्यंचान्यनिगृह्णतः ॥ शिलाकाष्ठाश्मनिर्घातान्
 क्षिपतोनिघ्नतःपरान् २५ अधीयानस्यचात्युच्चैर्दूरंवा
 व्रजतोद्भुतम् ॥ महानर्दीवातरतोहयैर्वासहधावतः २६
 सहसोत्पततोदूरं तूष्णींचातिप्रनृत्यतः ॥ तथान्यैःकर्मभिः
 क्रूरैर्भृशमभ्याहतस्यवा २७ ताडितैवक्षसिव्याधिर्वलवा
 न्समुदीर्यते ॥ स्त्रीषुचातिप्रसक्तस्य रूक्षालंप्रमिता
 शिनः २८ उरोविरुज्यतेत्यर्थं भिद्यतेथविभज्यते ॥ प्रः

होजाताहै २२ तीनप्रकार के व्रण अर्थात् घावोंके लक्षण—जो
 पुरुष रक्तक्षय होनेसे वा अन्य पीड़ाओंसे व कम भोजन पानेके
 कारण घाव होजानेसे सूखजातेहैं वे अत्यन्त असाध्य होजाते
 हैं २३ निदान सहित छाती के घावके लक्षण—बड़े जोर से धन्वा
 खींचनेसे बहुत गरुआ बोझा उठाने से अपने से बलाधिकों से
 कुदती आदि लड़नेसे बड़े ऊँचे किसी स्थानपर से गिरपड़ने से
 २४ दौड़तेहुये बैल घोड़े वा बछड़े ऊँट आदि के पकड़नेसे बड़ी
 शिला काष्ठ बड़े पत्थर के फेंकने से वा शत्रुको झपटकर मारने
 से २५ वा बड़े जोरसे चिल्लाकर पढ़ने से बहुत दूरतक दौड़ने से
 बड़ी नदियोंको तैरकर उतरने से वा घोड़ोंके साथ दौड़नेसे २६
 एकाएकी बड़े ऊँचे के कूदनेसे बहुत जल्दी २ नाचनेसे अथवा
 अन्यकुदती आदि क्रूर कर्मोंके करनेसे अत्यन्त थकजानेसे २७
 पुरुषकी छाती में बलवान् घावयुक्त व्याधि होजाताहै व अत्यन्त
 स्त्रियों में प्रसक्त होजानेसे रूपा अन्न खानेसे वा बहुत खटाई
 खाने से व क्षुधु भोजनकरनेसे वा कुसमयपर खाने से हृदय में

पीड्येतेततःपार्श्वे शुष्कत्यंगंप्रवेपते २६ क्रमाद्वीर्य्यवलं
वर्णोरुचिरग्निश्चहीयते ॥ ज्वरोव्यथामनोदैर्न्यं विद्धे
दोग्निवधस्तथा ३० दुष्टःस्यावोवदुर्गंधःपीतोविद्ग्रंथि
तोवहु ॥ काशमानस्यचातीक्ष्णं कफस्रावःप्रवर्त्तते ३१
सक्षतीक्षीयतेत्यर्थं तथाशुक्रौजसःक्षयात् ॥ अव्यक्तलक्ष
णंतस्यपूर्वरूपमितिस्मृतम् ३२ उरोरुक्शोणितच्छार्दिः
काशोवैशेषिकःक्षतः ॥ क्षीणैसरक्तमूत्रत्वं पार्श्वपृष्ठकटी
ग्रहः ३३ अल्पलिंगस्यद्गीप्ताग्नेरसाध्योबलवतोनवः ॥

रोगहोताहै २८ ऐसे पुरुषकी छाती अत्यन्त पीड़ित होने लगती
है वा फटतीसी जानपड़तीहै व फटकर दो टुकड़ेहोतीहुई जान
पड़ती है व फिर दोनों ओर की पशुलियां पिराने लगतीहैं अंग
सूखजाताहै व काँपने लगताहै २६ क्रमसे वीर्य्य बल शरीरका
रंग रुचि व अग्निहीन होजाते हैं ज्वर होने लगता व्यथाहोती
मनकी मलिनता मलपतला व अति मन्दाग्नि होजाताहै ३०
दुष्टकाला दुर्गन्धि युक्त पीला वा गांठें युक्त व बहुत मलहोताहै
व जत्र वह खांसताहै तोबहुत और रक्तसहित मल होताहै ऐसा
रोगी अत्यन्त क्षीण होजाताहै व ऐसेही वीर्य्य व पराक्रमेरुक्षय
से भी छातीका रोगी होताहै ३१ इसउरःक्षत अर्थात् छाती के
घाववाले रोगका पूर्वरूप इसरोग का अप्रकट लक्षण इसके
पूर्वरूपके वर्णन में कहचुके हैं ३२ अवक्षत क्षीणके असाध्य
लक्षण कहतेहैं— इसक्षतरो छातीमें पीड़ाहोतीहै रुधिरही वमन
होताहै व खांसीमें काला पीला आदि रुधिरढारताहै व क्षी-
णहोकर रक्तमूतने लगताहै पशुलियोंमें कटि व पीठमें जकड़सी
होजाती है ३३ इसके साध्य लक्षण—जिस मनुष्य में थोड़े से
लक्षणक्षर्हों व उसके उदरका अग्नि प्रदीप्त बनाहो मन्द न हुआ
होय वह बलवान्हो रोगभी थोड़े दिनोंकाहो तो साध्य सम-

परिसंवत्सरोयाप्यः सर्वलिंगविवर्जयेत् ३४ (सर्वैस्तं वृ
हणैर्हाल्यशक्यश्चप्रायशोभवेत् ॥ नान्यार्थंशमनोपायोभृ
शशक्यश्चकर्शनम् ॥ परंदिनसहस्रंतुयदिजीवतिमान
वः ॥ सुभिषग्भिर्रुपाक्रांतस्तरुणशोकपीडितः)

इतिराजपक्ष्म निदानम् ॥

धूमोपघाताद्रजसस्तथैव व्यायामरूक्षान्ननिषेवणा
च्च ॥ विमार्गगत्वाद्यथभोजनस्य वेगावरोधात्क्षवथोस्त
थैव १ प्राणोद्भ्युदानानुगतः प्रदुष्टस्संभिन्नकांस्यस्वन
तुल्यघोषः ॥ निरोतिवक्त्रात्सहसासदोषो मनीषिभिःका
सइतिप्रदिष्टः २ पंचकासास्स्मृतावातपित्तश्लेष्मक्षतक्ष

भ्रना चाहिये व जो लक्षणक्रमहों पर वर्षदिनसे अधिकका रोग
हो तो याप्य अर्थात् कष्टसाध्यजानो व जिसमें सबपूरेलक्षणहों
उसे तोवैद्यकोचाहिये कि छोड़दे क्योंकि वहमहाअसाध्यहै ३४॥

इति श्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेअयोरोगनिदानन्दशमम् १० ॥

दोहा ॥ ग्यरहैमहँ कहकासके साध्यासाध्य निदान ॥

खांसीजाको कहतहँ देखहिं लोग महान १

कास अर्थात् खांसीरोगके निदान इसरोगके कारण सम्प्राप्ति
व निरुक्तितीनों कहतेहैं—नाक मुखमें धुआं व धूलिपैठनेसे बहुत
बलकरनेसे रूपे अन्नके खानेसे बहुत जरदीके साथ भोजनकर
नेसे मलमूत्रके वेगके रोकनेसे व छाँकके रोकनेसे १ प्राणवायु
जो कि हृदयमें रहताहै वह दुष्टहोकर कण्ठमें रहनेवाले उदान
वायुके संगमिलकर और दुष्टहोजाताहै फिर कफपित्तकेसंग सु
खकी एकाएकी बाहर निकलने लगताहै व फूटेहुये कांसिकेपात्र
के शब्दके समान शब्दहोने लगताहै व दोपसहित मुखसे निक
लने लगताहै वस इसी रोगको पंडितलोग कास वा खांसी कहते
हैं २ वात पित्त कफ क्षत व क्षयसे उत्पन्नहोने के कारण खांसी

यैः ॥ क्षयायोपेक्षितास्सर्वेवलिनश्चोत्तरोत्तरमश्पूर्वरूपं
 भवेत्तेषांशूकपूर्णगलास्यता ॥ कंठकंडूश्चभोज्याना मव
 रोधश्चजायते ४ हृच्छंखपाश्वोदरमूर्द्धशूली क्षामाननः
 क्षीणवल्स्वरौजाः ॥ प्रसक्तवेगस्तुसमीरणेन भिन्नस्वरः
 कासतिशुष्कमेव ५ उरोविदाहज्वरवक्तशोषैरभ्यर्दित
 स्तिक्तमुखस्तृषार्तः ॥ पित्तेनपीतानिवमेत्कटूनि कासे
 त्सपांडुःपरिदह्यमानः६ प्रलिप्यमानेनमुखेनसीदन्नशिरो
 रुजार्तःकफपूर्णदेहः ॥ अभ्यक्तरुग्गौरवकंडुयुक्तः कासे

पांचप्रकार की होती है यदिशुग्निही इसके मिटाने का औषध न
 किया जाय तो यहरोग रोगीको मारहीडालताहै इन में वातसे
 पित्त प्रबलहोताहै पित्तसे कफ कफसे क्षत क्षत सेक्षय प्रबलहो-
 ताहै ३ खांसीका पूर्वरूप—यह कासरोग जबहोने पर होताहै
 तो गले व मुखमें धान वा गोहूँके सींकुर के समानकांटे से गड़ने
 लगतेहैं व गलेमें खजुलीहोने लगतीहै इससे गलासहराने ल-
 गताहै व अन्नआदि भोजनके पदार्थ भीतर नहीं जाने पाते ४
 वातज खांसीका पूर्वरूप—हृदय कनपटी पशुली पेट व शिरमें
 पीड़ाहोने लगतीहै मुखसूखने लगता वल स्वर व पराक्रमक्षी-
 णहोजातेहैं व सूखीखांसी आतीहै स्थँखार कुछभीनहीं आता५
 पित्तकी खांसीके लक्षण—पित्तकी खांसीमें छातीजलती रहतीहै
 ज्वरहोता मुखसूख जाताहै इससे पीड़ित पुरुषका मुख तिक्त
 होजाताहै व प्याससे अति पीड़ितहोताहै व कडू पित्तों को डाकता
 है रोगी पीलाहोजाताहै व उसके सत्र अंग जलते से रहते हैं ६
 कफकी खांसी के लक्षण—कफज कासरोगमें मुख में सबकहीं कफ
 लपटा रहताहै वनाय तारसा बंधजाताहै इससे बड़ी ग्लानिहोती
 है शिरमें पीड़ा होती कफ से देह पूर्ण होजाताहै अरुचि होतीहै
 वड़ी गरोई के साथ खजुली उठती व जब खांसता है बहुतगाढ़ा

द्वभृशंसान्द्रकफःकफेन ७ अतिव्यवायमाराध्वयुद्धाश्च
 गजविग्रहैः ॥ रुक्षस्योरःशतंवायुर्गृहीत्वाकासमावहेत् ८
 सपूर्वकासतेशुष्कततःष्टीवेत्सशोणितम् ॥ कंठनरुजतां
 त्यर्थविरुग्नेनेवचोरसा ९ शूचीभिरिवतीक्ष्णाभिस्तुद्य
 मानेनशूलिना ॥ दुःखरुपर्शेनशूलेनभेदपीडाभिनापिना
 १० पूर्वभेदज्वरश्वासतृष्णावैश्वर्यपीडितः ॥ पारावत
 इवाकूजनूकासवेगात्क्षतोद्भवात् ११ विषमांसात्म्यभो
 ज्यातिव्यवायाद्देगनिग्रहात् ॥ घृणिनांशोचतानूणां व्या
 पन्नेग्नौत्रयोमलाः १२ कुपिताःक्षयजंकासं कुर्युर्देहक्षय-

कफ गिरताहै ७ क्षतजकासकालक्षण—अतिमैथुन करने गरूभा-
 रउठाने बहुत मार्गचलने बलवान् से कुर्तीकरने हाथीघोड़े
 आदि के संग विग्रहकरने वा दौड़ने से रूपाहोकर पवन छाती
 में रोग करके खांसी को उत्पन्न करताहै ८ इस क्षतज खांसी
 वाला पुरुष प्रथम तो सूखा खांसताहै फिर रक्त सहित धूंकता
 है गले में अत्यन्त पीड़ाहोती है वजानो, उसकी छातीफटीजा-
 तीहै ९ व छातीमें अतितीक्ष्ण सूइयों के कोचने कीसी पीड़ा
 होने लगतीहै इससे छातीमें छूनहीं जाता मानों कोई फाड़े-
 हीडालताहै ऐसी पीड़ासे पीडित होजाताहै १० सबजोड़ों में
 पीड़ाहोती ज्वरहोता ऊपरको श्वासचढ़ती प्यासलगती बोल
 बदलकर खरखराने लगता व खांसी के वेग के मारे कवृत्तर के
 समानंशू २ करने लगता है ये सब लक्षण क्षतज खांसी के
 हैं ११ क्षयी की खांसी के लक्षण—विषम समय में वह भी कभी
 बहुत कभी थोड़ा भोजन करने से अति मैथुनकरने से मलमूत्र
 के रोकने से व धिनधिनी वस्तुओं के शोच करने से अग्नि के
 मन्द होजाने पर वात पित्त कफ तीनों कुपित होकर क्षयी की
 खांसी को उत्पन्न करते हैं जो कि शरीर के नाशनेवाली होती

प्रदम् ॥ सगात्रशूलज्वरदाहमोहान् प्राणक्षयंचोपलभे
 तकाशी ॥ शुष्कंविनिष्ठीवतिदुर्बलस्तुप्रक्षीणमांसोरु
 धिरंचपूयम् १३ तंसर्वलिङ्गभृशदुश्चिकित्स्वंचिकित्सि
 तज्ञाक्षयजंवदन्ति १४ इत्येवंक्षयजःकासःक्षीणानांदेह
 नाशनः ॥ साध्योबलवतांवास्थात्प्याप्यस्त्वेवंक्षतोत्थि
 तः १५ नवौकदाचित्साध्येतामपिपादगुणान्वितौ ॥
 स्थविराणांजराकासःसर्वोयाप्यःप्रकीर्तितः १६ त्रीन्पू
 र्वान्साधयेत्साध्यान् पथ्यैर्याप्यांस्तुयापयेत् ॥ पूयाभ

है १२ क्योंकि इस खांसीवाला प्राणी अंगों के सूजने शूल
 उठने ज्वर दाह होने चित्तभ्रम आदि को प्राप्तहोताहै जिनसे
 प्राणों काही नाशहोताहै व सूखा थूँकताहै अतिदुर्बल होजाता
 है मांस रुधिर व पीव सब क्षीणहोजातेहैं ऐसेतीनोंदोषोंके चिह्नों
 से युक्त अत्यन्त कष्टसे चिकित्साकरनेके योग्यरोगीको वैद्यलोग
 क्षयीकी खांसीसे युक्त कहतेहैं १३-१४ साध्य असाध्यके लक्षण-
 यह क्षयरोगसे उत्पन्न खांसी क्षीण पुरुषोंका तो नाशही करदेती
 है व बलवानों के लिये साध्य असाध्य भी होती है क्षतजकी
 खांसीवालेका भी यही हालहोताहै १५ यदि दोनोंरुसोंके रोगी
 युवावस्थाको प्राप्तहों व वैद्य अपनी विद्यामें अतिचतुर हो सब-
 रसादि उसके पास शुद्ध विद्यमानहों तो कदाचित् इन दोनों
 खांसियोंके रोगी साध्यभी होजायँ नहीं असाध्य तो होतेही हैं
 वृद्धलोगों के लिये सब क्षयी की खांसी असाध्यही होतीहै अन्य
 सबप्रकार की खांसियां वृद्धके लिये चाप्य अर्थात् साध्य असाध्य
 दोनों होसकी हैं प्रथम की तीन वात पित्त कफ वाली खांसियां
 साध्य होती हैं इससे औषधसे अच्छी होजातीहैं इससे उनको
 औषधों से दूरकरना चाहिये १६ व जो खांसी वाला पीवके रंग
 का लाल वा काला हरा पीला वा नीला थूँकताहै व जिसका

मरुणंश्यावंहरितनीलपीतकम् ॥ निष्ठीवेच्छ्वासका
सार्त्तोनजीवतिहतस्वरः १७ इत्तिकासनिदानम् ॥

विदाहिगुरुविष्टंभीरूक्षाभिष्यंदिभोजनैः ॥ शीतपा
नाशनास्थानरजोधूमातपानिलैः १ व्यायामकर्मभाराध्व
वेगघातापतर्पणैः ॥ हिक्काश्वासश्चकासश्चन्द्रणांसमुप
जायते २ मुहुर्मुहुर्वायुरुदेतिसस्वनोयकृत्प्रिहान्त्राणि
मुखादिवाक्षिपम् ॥ सघोषवानाशुहिनस्त्यसूनूयतस्तत
स्तुहिकेत्यभिधीयतेवुधैः ३ अन्नजायमलाक्षुद्रांगंभीरां

बोल बदलकर खरखराने लगताहै वह फिर किसी प्रकार नहीं
जीसक्ता है १७ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेकासनिदानमेकादशम् ११ ॥
दोहा ॥ वरहें महुँ कह पंचविध हुचकी केर निदान ॥

साध्यासाध्य विचारिकै करहिं वैय परमान १

दाह करनेवाले भारी पेट फुलानेवाले रूखे मांस महिपी
दुग्धादि गरिष्ठ वस्तु खानेसे बहुत ठण्डे पानीके पीनेसे ठण्डेही
भोजनकरनेसे बहुत शीतल जलमें स्नानकरनेसे अतिठण्डे स्था-
नमें रहने से नाकमुखमें धूलि व धुमां भरहोनेसे प्रचण्ड पवन
लगने से १ ढण्ड आदि अति परिश्रम करने से अधिकभार उ-
ठाने से बहुत मार्गचलनेसे मलमूत्ररोकने से व उपवास करने
से मनुष्यों के हुचकी दम व खांसी ये तीनरोग उत्पन्न होतेहैं २
हुचकीके स्वरूपके लक्षण—प्राण वायु वार २ ऊँचेको शब्द सहित
चलताहै व कलेजा पिलही आंतों में धकेदेता हुमा वाहर नि-
कलताहै व अधिक शब्दयुक्तहो जिससे वह पवन प्राणोंको
हरलेताहै इससे पण्डितलोग उसे हिक्का अर्थात् हुचकी कहते
हैं ३ भव हुचकी के भेदों व उसकी सम्प्राप्ति के लक्षण कहते हैं
अन्नजा यमला क्षुद्रा गम्भीरा व महती इन पांचप्रकारकी हुच-

महतीतथा ॥ वायुःकफेनानुगतःपंचहिक्काःकरोतिहि ४
 कंठोरसोर्गुरुत्वंचवदनस्यकषायता ॥ हिक्कानांपूर्वरूपा
 णिकुक्षेराटोपएवच ५ पानान्नैरतिसंयुक्तैःसहसार्पाडितो
 निलः ॥ हिक्कयत्यूर्ध्वगोभूत्वातांविद्यादन्नजांभिषक् ६
 चिरेणयमलैर्वैगैर्याहिक्कासंप्रवर्तते ॥ कंपयेच्चशिरोग्रीवां
 यमलांतांविनिर्दिशेत् ७ प्रकृष्टकालैर्याविगैर्मन्दैस्सम
 भिवर्तते ॥ क्षुद्रिकानामसाहिक्काजत्रुमूलात्प्रधावति ८
 नाभिप्रवृत्तायाहिक्काघोरागंभीरनादिनी ॥ अनेकोपद्रव
 वतीगंभीरानामसास्मृता ९ (विकृष्टकालैर्याविगैर्मन्दैःस
 मभिवर्तते ॥ क्षुद्रिकानामसाज्ञेयाजत्रुमूलात्प्रधाविता)
 मर्माण्यपीडयंतीवसतंतयाप्रवर्तते ॥ महाहिक्केतिसाज्ञेया
 कियोको पवन कफ में भाकर उत्पन्न करताहै ४ हुचकीका पूर्व-
 रूप कण्ठ व छाती की जकड़ाहट मुखमें कसैलापन व कुक्षिका
 फूलारहना येसबहुचकी जब भानेपर होती हैं तब प्रथमसे होते
 हैं ५ अन्नजानामहुचकीकेलक्षण—अति भोजनकरने व पानीपीने
 से एकाएकी पीड़ितहोकरपवनऊपरकोचलकरअव्यक्तशब्दहिक्
 कराने लगताहै उसको वैद्य अन्नजा हुचकीजाने ६ यमलानाम
 हुचकीके लक्षण—जिस हुचकीमें बड़ीदेरमेंएकहीबारमें दो २ बार
 हुचकीआवे व शिर और गलेको कँपावे उसको यमला हुचकी
 कहते हैं ७ क्षुद्रानाम हुचकीके लक्षण—जो हुचकी बहुत जल्द
 आवे पर धीरेरही आवे उसे क्षुद्राहुचकी कहते हैं व वह दोनों
 हैंसियोंकी जड़से गलेतक दौड़ती रहती है ८ गम्भीरानामहुचकी
 के लक्षण—जोहुचकी बड़े घोरनादसेनाभिसे उत्पन्नहोती है व
 उसमें अनेक उपद्रव जुड़ेहोतेहैं उसे गम्भीरा हुचकी कहते हैं ९
 महतीनाम हुचकी के लक्षण—जो हुचकीनाभि आदि सुकुमार
 अंगोंको पीड़ित करतीहुई बार २ आती है व सबअंगों को कँपा

वविपद्यते ६ ऊर्ध्वश्वासितियोदीर्घं नचप्रत्याहरत्यधः ॥
 श्लेष्मावृतमुखंश्रोताक्रुद्धगन्धवहादितः ७ ऊर्ध्वदृष्टिर्वि
 पश्यंश्च विभ्रान्ताक्षइतस्ततः ॥ प्रमुहयद्वेदनार्त्तश्च शु
 ष्कास्योह्यतिपीडितः ८ ऊर्ध्वश्वासेप्रकुपितेहयधःश्वासो
 निरुध्यते ॥ मुहयतस्ताम्यतश्चोर्ध्वश्वासस्तस्यैवहंत्यसूं
 न ९ यश्चश्वासितिविच्छिन्नं सर्वप्राणेनपीडितः ॥ नवां
 श्वासितिदुःखार्तो मर्मच्छेदरुगदितः १० आनाहस्वेद
 मूर्च्छार्तो दह्यमानेनवस्तिना ॥ विष्णुताक्षःपरिक्षीणःश्व
 सनरक्तैकलोचनः ११ विचेताःपरिशुष्कास्यो विवर्णाःप्र

वसइस रोगको महाश्वासकहतेहैं इससेयुक्तपुरुषशीघ्रहीमरजा-
 ताहै६ऊर्ध्वश्वासके लक्षण—जोरोगी ऊपरको तो बड़ेजोरसे श्वा-
 स खींचताहोवनीचेको फिर न लौटारसक्ताहो व मुख औरनसोंके
 मुखकफसे घिरेरहतेहैं व कोपकियेहुये वायुसे पीड़ितरहताहो ७
 बहुधाऊपरहीको दृष्टिकियेरहैचंचलनेत्रहोनेके कारण इधरउधर
 घबरायासा देखाकरै पीड़ासे पीड़ितहोमोहितरहै मुखसूखतारहै
 किसी वस्तुमें उसका चित्त न लगे—वस जिसमें ये लक्षण होते
 हैं उसे ऊर्ध्वश्वास कहतेहैं ८ इसश्वासके कारण जबऊर्ध्वश्वास
 कोपकरताहै तो नीचेका रूँकजाताहै इससे रोगी मोहित हो-
 ता व तवाँने लगताहै वस तब ऊर्ध्वश्वास उसरोगीके प्राणोंको
 हरलेताहै ९ छिन्नश्वासकेलक्षण—जोप्राणीरहकरश्वासलेताहो
 व सबप्राणोंसे पीड़ितहो वा किसी कष्टसे पीड़ितहोने पर श्वास
 न ले सक्ताहो हृदयमें ऐसी पीडाहो मानों कोई चीड़ेही डालता
 है इससे पीड़ितरहै १० पेट फूला रहै पसीना अधिक हो मूर्च्छा
 आने से पीड़ितरहै पेड़ूजलासा विदित हो नेत्र सजलहो घूमते
 रहैं वनायक्षीण होजाय श्वासलेते २ एक नेत्र बहुत लाल
 होजाय ११ चित्त विगड़ासा बनारहै मुखसूखाही बनारहै रंग

लपन्नरः ॥ छिन्नश्वासेनवैश्रीणः सशीघ्रविजहात्यसून्
 १२ प्रतिलोमंयदावायुः स्रोतांसिप्रतिपद्यते ॥ ग्रीवांशि
 रश्चसंगृह्यश्लेष्माणंसमुदीर्यच १३ करोतिपीनसंते
 न रुद्रोघुर्घुरकन्तथा ॥ अतीवतीव्रवेगंच श्वासम्प्राण
 प्रपीडकम् १४ प्रताम्यतिसवेगेन त्रस्यतेसन्निरुध्यते ॥
 प्रमोहंकासमानश्चसगच्छतिमुहुर्मुहुः १५ श्लेष्मणामु
 च्यमानेन भृशम्भवतिदुःखितः ॥ तस्यैवचविमोक्षान्ते
 मुहूर्त्तलभतेसुखम् १६ तस्योर्ध्वंश्वसतेकण्ठः कृच्छ्रा
 च्छक्रोतिभाषितुम् ॥ नचापिनिद्रांलभतेशयानः श्वास
 पीडितः १७ पाश्चैतस्यावगृह्णातिशयानस्यसमीरणः ॥
 आसीनो लभतेसौख्यमुष्णं चैवाभिनन्दति १८ उच्छ्र
 देहका विरंग होजाय अनर्थ वचन बरुता रहै इस छिन्नश्वास
 रोगसे जो पुरुष विच्छिन्न होजाताहै इससे सब अंगठीलेहोजाते
 है वस वह रोगी शीघ्रही प्राणोंको छोड़ देताहै १२ तमकश्वास
 के लक्षण—जबवायु ग्रीवा व शिरको जकड़के व कफको ऊपर
 को उभाड़कर नसोंमें उलटाचढ़ताहै १३ तबकफरुँककरपीनस
 रोगको करतावगला घुर्घुराने लगताहै वअत्यन्त पीड़ाकरनेवाले
 अतिवेगवान् श्वासको चलानेलगताहै १४ व वेगसे तर्बानेलगता
 है भयसे व्याकुलहोजाता श्वासको रुँक २ करलेनेलगताहै मोह
 होता बीच २ में खाँसीभी आनेलगती है ऐसावार २ होतारहता
 है १५ खाँसीआनेपर कफ गिरतेसमय बड़ादुःखपाताहै परन्तु
 उसके गिरजानेके पीछे एक दो घड़ी फिर सुखपाताहै १६ व
 उसरोगीके कण्ठसे ऊपरहीको श्वासचलता व गला स्वरस्वराया
 करताहै व बड़ेकष्टसे बोलसक्ताहै निद्राउसको नहींआती श्वासों
 से पीड़ितयोंही पड़ारहताहै १७ जब वह लेटताहै तो पशुरियों
 को पवन जकड़देताहै बैठनेपर कुछ सुखपाताहै व उष्णवस्तु

ताक्षोललाटेन खिद्यताभ्रशमार्त्तिमान् ॥ विशुष्कास्योमु
हुःश्वासोमुहुश्चेवावधम्यते १६ मेघान्नुशीतप्राग्वातेःश्ले
ष्मलैश्चविवर्द्धते ॥ सथाप्यस्तमकःसाध्योयदिवास्यान्न
वोत्थितः २० ज्वरमूर्च्छांपरीतस्यविद्यात्प्रतमकन्तुतम् ॥
उदावर्त्तरजोर्जाण्छिन्नकायनिरोधतः २१ तमसावर्द्धते
त्यर्थं शीतैश्चाशुप्रशाम्यति ॥ मज्जतस्तसीवास्य वि
द्यात्प्रतमकन्तुतम् २२ रूक्षायसोद्भवःकोष्ठे क्षुद्रोवात
मुदीरयेत् ॥ क्षुद्रश्वासो नसोत्यर्थदुःखेनांगप्रवाधकः २३
हिनस्तिनसगात्राणि नदुःखाययथेतरे ॥ नचभोजनपा

की चाहना सदास्वताहै १८ नेत्रऊपरको तनेसे रहतेहैं शिरकी
पीड़ासे अत्यन्त पीड़ितरहताहै मुखसूखाकरता वार२श्वासआते
हैं व वार २ उसकावेह हिलतारहताहै १९ यहश्वासरोंगवदरीबूँदा
शतिकाल वा ठण्डीबस्तुओंके खानेसे पुरवईहवालगनेसे बढ़ताहै
यह तमकनाम श्वास यदि थोड़े दिनोंका होतो साध्य होताहै पर
यदि बहुतदिनोंका होजाताहै तो साध्य असाध्य दोनोंहोताहै २०
इसी तमकश्वासवालेके ज्वर और मूर्च्छा आनेलगे तो उ-
सीका प्रतमकनाम होजाताहै प्रतमकके और लक्षण व कारण
ऐसे होते हैं—ऊपरको श्वासबढ़ने से धूलिनाकमें जानेसे अजीर्ण
होनेसे बहुतभीगनेसे मलमूत्ररोंकनेसे चहरोग बहुत बढ़ताहै २१
यह श्वासक्रोधादि तमोगुण युक्त होनेसे अधिक बढ़ताहै व शीत
पदार्थोंसे शान्तरहताहै व रोगीमानों तमोगुणमें डूबाहीकरताहै
वस जब ये लक्षणहों तो उसे प्रतमक नाम श्वासजानो २२
क्षुद्रनाम श्वासके लक्षण—रूखे पदार्थ खाने व अधिक परिश्रम
करनेसे कुछ छोटासा पवनऊपरको उठताहै उसीको क्षुद्रश्वास
कहते हैं यह अतिदुःखसे अंगोंको नहीं बाधितकरताहै २३ व न
अंगोंको तोड़ही डालताहै व न इसमें वैसादुःखही होताहै जैसा

नानांनिरुणद्धयुचितांगतिम् २४ नैन्द्रियाणां व्यथान्ना
पिकांचिदापादयेद्भुजम् ॥ ससाध्यउक्तो बलिनस्सर्वे चाव्य
क्तलक्षणाः २५ क्षुद्रः साध्यतमस्तेषां तमकः कृच्छ्र उच्य
ते ॥ त्रयःश्वासानसिद्ध्यन्ति, तमको दुर्बलस्य च २६ का
मम्प्राणहरारोगावहयो न तु ते तथा ॥ यथाश्वासश्चहिक्रा
च हरतः प्राणमाशुवै २७ ॥ इतिश्वासनिदानम् ॥

अत्युच्चभाषणविषाध्ययनाभिघात सन्दूषणैः प्रकुपि
ताः पवनादयस्तु ॥ स्रोतस्सुतेस्वरवहेषु गतः प्रतिष्ठां ह
न्युस्स्वरम्भवति चापि हिषड्विधः सः १ वातेन कृष्णानय

किं शरीरमें होता है व भोजन पानादिकोंके मार्गोंकोभी यह नहीं
रोंकता २४ इन्द्रियोंको व्यथित नहीं करता न कुछ पीड़ाही उ-
त्पन्न करता है यह यदि बलीपुरुषकेहो अवश्यही साध्यहो क्योंकि
इसके सब लक्षण साध्यहीके होतेहैं २५ वस सर्वोंमेंसे क्षुद्रनाम
श्वास अतिशय साध्यहोता है व तमक कष्टसे साध्यहोता है वाकी
तीनकभी सिद्ध नहींहोते असाध्यहीहोते हैं व यदि दुर्बल पुरुष
केहोता है तो तमकभी असाध्यही होजाता है २६ जैसे श्वास
व हुचकी ये दोनों रोग शीघ्रही प्राणहरलेने हैं इसप्रकार इतनी
जल्दीकोई भी रोग प्राणोंको नहींहरता है २७ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादेश्वासनिदानत्रयोदशम् १३ ॥
दोहा ॥ कह स्वरभेद निदान सब चौदहयें महुँ ठीक ॥

देखहिं लोग सुजानसब जो सबभाँति प्रवीन ?

स्वरभेदका निदान—बड़े ऊँचे शब्दके बोलनेसे—बिपत्ताने से
बड़े जोरसे वेदादि पढ़नेसे कण्ठमें—लौठी आदिके चोटलगजानेसे
वात पित्त कफादिक कुपितहोकरं स्वर निकलनेवाली चारोंन-
सोंमें जाकर स्वरको नाशकरदेते हैं वह स्वरभेद वात पित्त कफ
सन्निपात क्षय व भेद इनभेदोंसे ६ प्रकारका होता है १ वात से

नाननमूत्रवर्चाभिन्नंशनैर्वदतिगर्द्धभवत्स्वरंच ॥ पित्तेन
पीतनयनाननमूत्रवर्चाब्रूयाद्गलेनसविदाहसमन्वितेन २
ब्रूयात्कफेनसततंकफरुद्रकण्ठःस्वल्पंशनैर्वदतिचापिदि
वाविशेषात् ॥ सर्वात्मकंभवतिसर्वविकारसम्पत्तंचाप्य
साध्यमृषयःस्वरभेदमाहुः ३ धूम्येतवाक्क्षयकृतेक्षयमा
प्नुयाच्चवाक्येषुचापिहतवाक्परिवर्जनीयः ॥ अन्तर्गतंस्व
रमलक्ष्यंपदंचिरेणमेदोन्वयाद्ददतिदिग्धगलस्तृषार्त्तः ४
क्षीणस्यवृद्धस्यकृशस्यचापि चिरोत्थितोयः सहजोपजा

उत्पन्न स्वरभेद के लक्षण—त्रायुके स्वरभेदमें नेत्र मुख मूत्र मल
ये सब रोगीके कालेहोजाते हैं व रोगी फटेहुये स्वरसे वा गदहे
के समान बोलने लगता है पित्तके स्वरभेदके लक्षण—पित्तकेस्वर
भेदमें रोगीके नेत्र मुख मूत्र व मल सब पीलेहोजाते हैं व बोल-
नेके समय उसकागला जलनेलगताहै २ कफके स्वरभेदकेलक्ष-
ण—कफके स्वरभेदमें कफसे गला रूंधउठताहै व थोड़ा वहभी
धीरेसेरोगी बोलसक्ताहै वहभी दिनमें बहुत कमबोलताहै सन्नि-
पातजस्वरभेद के लक्षण—सन्निपातके स्वरभेदमें वात पित्त कफ
तीनों के सबलक्षणहोते हैं इसी से ऋषियों ने इस स्वर भेदको
असाध्यकहाहै ३ क्षयसे उत्पन्न स्वरभेद के लक्षण—धातुक्षयसे
उत्पन्न स्वरभेदवालेके बोलनेके समय मुखसे धुआँ निकलनेल-
गताहै व धातुभी क्षयहोजाताहै व बोलनेके समय वाणीहत हो
जाती है अन्त्रेप्रकार बोलानहीं जाताहै ऐसा रोगी असाध्यहोता
है इससे इसकी औषध न करनी चाहिये भेद अर्थात् चर्बी से
उत्पन्न स्वरभेदके लक्षण—रूखे स्वरभेद में भीतर से बड़ी देर में
स्वरबाहर निकलताहै व रोगी के गलेमें चर्बी आकर लपटजाती
इससे प्यास अधिकलगती है व बोलनहींसका ४ इसके असा-
ध्यलक्षण अतिक्षीण वृद्ध दुर्बल के जब यह रोगहो और बहुत

तः ॥ मेदस्विनःसर्वसमुद्भवश्च स्वरामयोयःसनासिद्धि
मेति ५
॥ इतिस्वरनिदानम् ॥

वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोधैर्मनोघ्नाशनरूप
गर्भैः ॥ अरोचकाःस्युःपरिहृष्टदंतकषायवक्रश्चमतो
निलेन १ कट्वम्लमुष्णांघ्रिसंचपूति पित्तेनविद्याल्लव
णंचवक्त्रम् ॥ माधुर्य्यपैच्छिल्यगुरुत्वशैत्यविवद्धसम्बद्ध
युतंकफेन २ अरोचकेशोकभयानिलोभ क्रोधाद्यहृद्याशु
चिगन्धजेस्यात् ॥ स्वाभाविकंचास्यमथारुचिश्चत्रिदो
षजेनैकरसंभवेत्तु ३ हृच्छूलपीडनयुतंपवनेनपित्तात्तृड

दिनों का होजाय वा जन्मके संगही से उसकेरोग उत्पन्नहुआहो
चर्बी के स्वरभेद वाले को वा सन्निपातज स्वर भेदवाले को
जब स्वरभेद रोगहोताहै महा असाध्यहीहोता है ५ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादे स्वरभेदनिदानञ्चतुर्दशम् १४ ॥
दोहा ॥ पन्दरहेमहँ कह अरोचक निदान बहुभांति ॥

देखार्हिसुजन विचारिकै निजमनगुनि २पांति १

अरोचक के निदान वातादिकों से अलग २ वा तीनों के
मिलनेसे सन्निपात से शोक भय अतिलोभ क्रोध मनविनाने
वाले अन्न रूप व गन्ध इन्हीं सबप्रकारोंसे अरोचकहोतेहैं उनमें
वायुसे उत्पन्न अरोचक में दांत गोंठिले व मुखकसैला होजाता
है १ व पित्तके अरोचकमें कडुआ खट्टाउष्ण रसरहित व दुर्गंधि-
युक्तमुखहोताहै व कफके अरोचकमें खारी मीठा फेना सहित
गरुआ ठण्डा बंधासा कफभराहुआ मुखहोजाताहै २ शोकादि
के अरोचकके लक्षण-शो^क अतिलोभ क्रोधअपवित्र दुर्गंध-
युक्त अरोचक में मुखजैसाका तैसा स्वाभाविक बनारहताहै व
सन्निपात के अरोचक में एकरसमुख का नहींरहता किन्तु खट्टा
मीठा कसैला भादि अनेक प्रकारका रस मुखमें होजाता है ३

नाननमूत्रवर्चाभिन्नं शनैर्वदति गद्गं भवत्स्वरंच ॥ पित्तेन
पीतनयनाननमूत्रवर्चात्रूयाद्गलेन सविदाहसमन्वितेन २
त्रूयात्कफेन सततं कफरुद्रकण्ठः स्वल्पं शनैर्वदति चापिदि
चाविशेषात् ॥ सर्वात्मकं भवति सर्वविकारसम्पत्तं चाप्य
साध्यमृषयः स्वरभेदमाहुः ३ धूम्येतवाक्क्षयकृते क्षयमा
ध्रुयाच्च वाक्येषु चापि हतवाक्परिवर्जनीयः ॥ अन्तर्गतं स्वर
रमलक्ष्यं पदं चिरेण मेदोन्वयाद्ददति दिग्धगलस्तृषार्त्तः ४
क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य चापि चिरोत्थितोयः सहजोपजा

उत्पन्न स्वरभेद के लक्षण—त्रायुके स्वरभेदमें नेत्र मुख मूत्र मल
ये सब रोगीके कालेहोजाते हैं व रोगी फटेहुये स्वरसे वा गदहे
के समान बोलने लगता है पित्तके स्वरभेदके लक्षण—पित्तके स्वर
भेदमें रोगीके नेत्र मुख मूत्र व मल सब पीलेहोजाते हैं व बोल-
नेके समय उसकागला जलनेलगताहै २ कफके स्वरभेदके लक्ष-
ण—कफके स्वरभेदमें कफसे गला रूंधउठताहै व थोड़ा वहभी
धीरेसेरोगी बोलसक्ताहै वहभी दिनमें बहुत कमबोलताहै सन्नि-
पातजस्वरभेद के लक्षण—सन्निपातके स्वरभेदमें वात पित्त कफ
तीनों के सबलक्षणहोते हैं इसी से ऋषियों ने इस स्वर भेदको
असाध्यकहाहै ३ क्षयसे उत्पन्न स्वरभेद के लक्षण—धातुक्षयसे
उत्पन्न स्वरभेदवालेके बोलनेके समय मुखसे धुआँ निकलनेल-
गताहै व धातुभी क्षयहोजाताहै व बोलनेके समय वाणीहत हो
जाती है अन्धेप्रकार बोलानहीं जाताहै ऐसा रोगी असाध्यहोता
है इससे इसकी औषध न करनी चाहिये मेद अर्थात् चर्बी से
उत्पन्न स्वरभेदके लक्षण—हृद्ये, प्यरभेद में भीतर से बड़ी देर में
स्वरबाहर निकलताहै व रोगी के गलेमें चर्बी आकर लपटजाती
इससे प्यास अधिकलगती है व बोलनहींसक्ता ४ इसके असा-
ध्यलक्षण अतिक्षीण वृद्ध दुर्बल के जब यह रोगहो और बहुत

तः ॥ भेदस्विनःसर्वसमुद्भवश्च स्वरामयोयःसनासिद्धि
मेति ५ ॥ इतिस्वरनिदानम् ॥

वातादिभिः शोकभयातिलोभक्रोधैर्मनोघ्नाशनरूप
गन्धैः ॥ अरोचकाःस्युःपरिहृष्टदंतकषायवक्रश्चमतो
निलेन १ कट्वम्लमुष्णांवरिसंचपूति पित्तेनविद्याल्लव
णंचवक्तुम् ॥ माधुर्य्यपैच्छिल्यगुरुत्वशैत्यविवद्धसम्बद्ध
युतंकफेन २ अरोचकेशोकभयानिलोभ क्रोधाद्यहृद्याशु
चिगन्धजेस्यात् ॥ स्वाभाविकंचास्यमथारुचिश्चत्रिदो
षजेनैकरसंभवेत्तु ३ हृच्छूलपीडनयुतंपवनेनपित्तात्तृड्

दिनों का होजाय वा जन्मके संगही से उसकेरोग उत्पन्नहुआहो
चर्बी के स्वरभेद वाले को वा सन्निपातज स्वर भेदवाले को
जब स्वरभेद रोगहोताहै महा असाध्यहीहोता है ५ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादे स्वरभेदनिदानञ्चतुर्दशम् १४ ॥
दोहा ॥ पन्दरहेमहँ कह अरोचक निदानं बहुभांति ॥
देखाहँसुजन विचारिकै निजमनगुनि २पांति १

अरोचक के निदान वातादिकों से अलग २ वा तीनों के
मिलने से सन्निपात से शोक भय अतिलोभ क्रोध मनघिनाने
वाले अन्न रूप व गन्ध इन्हीं सबप्रकारोंसे अरोचकहोतेहैं उनमें
वायुसे उत्पन्न अरोचक में दांत गोंठिले व मुखकसैला होजाता
है १ व पित्तके अरोचकमें कटुआ खटाउष्ण रसरहित व दुर्गंधि-
युक्तमुखहोताहै व कफके अरोचकमें खारी मीठा फेना सहित
गरुआ ठण्डा बंधासा कफभराहुआ मुखहोजाताहै २ शोकादि
के अरोचक के लक्षण—शोकेसे अतिलोभ क्रोधअपवित्र दुर्गंध-
युक्त अरोचक में मुखजैसाका तसा स्वाभाविक बनारहताहै व
सन्निपात के अरोचक में एकरसमुख का नहींरहता किन्तु खटा
मीठा कसैला आदि अनेक प्रकारका रस मुखमें होजाता है ३

दाहचोषबहुलंसकफप्रसेकम् ॥ इलेष्मात्मकं बहु रुजं बहु
भिश्च विद्याद्वैगुण्यमोहजडताभिरथापरंच ४ ॥

इत्यरोचक निदानम् ॥

दुष्टे दोषैः पृथक् सर्वैर्वा भित्तालोकनादिभिः ॥ हृदयः पं
चविज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्यते १ अतिद्रवैरतिस्निग्धैर
हृद्यैर्लवणैरपि ॥ अकाले चातिमात्रैश्च तथासात्म्यैश्च भो
जनैः २ श्रमाद्गयात्तथोद्वेगादजाणात्कृमिदोषतः ॥ ना
र्याश्चापन्नसत्वायास्तथातिद्रुतमश्नतः ३ वाभस्मैर्हतु
भिश्चान्यैर्द्रुतमुत्केशतोवलात् ॥ हृदयन्नाननवेगैरदय

वायुके अरोचकमें हृदयमें शूल व पीडा होती है व पित्तसे उत्पन्न
अरोचक में प्यास लगती दाह होता व चोंकना होता है व कफके
अरोचक में मुखसे कफ गिराकरता है व सन्निपात के अरोचक में
पीडा अधिक होती है मनकी व्याकुलता मोहजडतातभी होती है ४ ॥
इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे अरोचकनिदानम्पञ्चदशम् १५ ॥
दोहा ॥ सोलहवें मूँ छर्दि के कहे निदान विचारि ॥

जाहि वमन डाकन कहत सकल वैद्यनिर्दारि १

छर्दि अर्थात् डाकने के निदान अलग अलग दुष्टदोषों से वा
मिले हुये दोषोंसे वा बहुत विनविने सङ्घे वा आदि के देखने से
पांच प्रकारके वमनडाक वा रदहोते हैं उन सबोंके लक्षण कहते
हैं १ बहुत पतले पदार्थों के पीने खानेसे अति चिकने जिन के
खाने को जी नहीं चाहता बहुत खारी अकालमें भोजन करने
से बहुत खालेनेसे व जो अन्नादि अपने को न पचता हो उससे
खानेसे श्रमसे भयसे उबनेसे अजीर्णसे कृमियोंके दोषसे गर्भ-
वती स्त्रीके लडकेके होनेका समय आजानेसे व बहुत जल्द खाने
से ३ वामन्य वाभस्त विनविने कारणोंसे जैसे कि पीवमज्जाराधिर
अभक्ष्यमांसादिकों के देखनेसे उकलाई लगआती है वत मनुष्य

द्वंगभंजनैः ॥ निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्तव्यं प्रधावन्ति ४
 (अत्यतामपरीतस्य चर्द्वैर्देवसंभवो ध्रुवम्) । हृत्त्वा सोद्गार
 रोधश्च प्रसेको लवणस्तनुः ॥ द्वेषोन्नयाने च भृशं वमीनां
 पूर्वलक्षणम् ५ हृत्पाश्वर्षपीडामुखशोषशीर्षिनाभ्यर्तिकास
 स्वरभेदतादैः ॥ उद्गारशब्दप्रवलंसफेनं विच्छिन्नकृष्णंत
 नुकंकषायम् ६ कृच्छ्रेण चाल्पं महता च वेगेनात्तौ निलाच्छ
 दयतीह दुःखम् ॥ मूर्च्छापिपासामुखशोषमूर्द्धतात्वक्षिसं
 तापतमोभ्रमार्त्तः ७ पीतं भृशोष्णं हरितं सति कं धूमं चपि

के मुख गले को भीतरका मल आच्छादित कर लेता है अंगों
 को मानाँतोड़ने लगता है व मुखके मलको गिराने लगता है
 इसी रोग को छर्दि वमन वान्त डाकना वा रद करना कहते हैं
 ४ छर्दिके पूर्वरूपके लक्षण—उमन जब होने पर होता है तो
 मुँहमें पानी छूटने लगता है डकारना बन्दहोजाता है मुखमें
 नुनखारा पानी छूटने लगता है पसीना होआता है खाने पीनेमें
 अरुचि होजाती है यह सब प्रकारके वमनोंका पूर्व लक्षण है
 ५ वातज छर्दि के लक्षण—हृदय व पशुलियोंमें पीड़ाहोती मुख
 सूखतारहता है मुखमें व नाभिमें पीड़ाहोती खाँसी आती स्वर
 भेदहोजाता कोचने कीसी पीड़ाहोने लगती है वान्त करनेके
 समय अधिक ओ २ करनेलगता है फेनासहित डाकता है धँभ २
 करयोड़ा २ वमनहोता वा कसैला रदहोता ६ बड़े कष्टसे थो-
 ड़ासा वमनहोता पर वेगबड़ाभारी होता है इसप्रकार वायु वाला
 बड़ेदुःखसे डाकता है पित्तके वमनके लक्षण—मूर्च्छा आती प्यास
 लगती मुख सूखता जाता शिर तारू नेत्रजलने लगते आगे
 अंधेरासाहोजाता भ्रमहोता व पीड़ाहोती है ७ पीला भति गरम
 हरा तीत व धुआँसा जलताहुआ वमन पित्तवाला करता है
 कफकी छर्दिके लक्षण—तवाँतारहनां मुँहमीठावनारहना कफका

दाहचोषवहुलंसकफप्रसेकम् ॥ इलेष्मात्मकंवहुरुजंवहु
भिश्चविद्याद्वैगुण्यमोहजडताभिरथापरंच ४ ॥

इत्यरोचक निदानम् ॥

दुष्टदोषैः पृथक्सर्वैर्वाभत्सालोकनादिभिः ॥ हृदयःपं
चविज्ञेयास्तासांलक्षणमुच्यते १ अतिद्रवैरतिस्निग्धैर
हृद्यैर्लवणैरपि ॥ अकालेचातिमात्रैश्चतथासात्म्यैश्चभो
जनैः २ श्रमाद्गयात्तथोद्वेगादजीर्णात्कृमिदोषतः ॥ ना
र्याश्चापन्नसत्वायास्तथातिद्रुतमश्नतः ३ वाभत्सैर्हतु
भिश्चान्यैर्द्रुतमुत्केशतोवत्सात् ॥ छादयन्नाननवेगैरदय

वायुके अरोचकमें हृदयमें शूल व पीडा होतीहै व पित्तसेउत्पन्न
अरोचक में प्यास लगती दाहहोता व चांकना होताहै व कफके
अरोचक में मुखसे कफ गिराकरता है व सन्निपात के अरोचक में
पीडाभधिकहोतीहै मनकव्याकुलता मोहजडतातभीहोतीहै ४॥
इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेऽरोचकनिदानम्पञ्चदशम् १५ ॥
दोहा ॥ सोलहवें मँहँ छर्दि के कहे निदान विचारि ॥

जाहि वमन डाकन कहत सकल वैद्यनिर्द्धारि १

छर्दि अर्थात् डाकने के निदान अलग अलग दुष्टदोषों से वा
मिले हुये दोषोंसे वा बहुत धिनधिने सड़ेधाव आदि के देखने से
पांच प्रकारके वमनडाक वा रदहोतेहै उनसवोंके लक्षण कहते
है १ बहुत पतले पंदायों के पीने खानेसे अति चिकने जिन के
खाने को जी नहीं चाहता बहुत खारी अकालमें भोजन करने
से बहुत खालेने से व जो अन्नादि अपने को न पचताहो उससे
खानेसे श्रमसे भयसे ऊबनेसे अजीर्णसे कृमियोंके दोषसे गर्भ-
वती स्त्रीके लडकेके होनेका समय भाजानेसे व बहुतजल्द खाने
से ३ वा अन्य वाभत्स धिनधिनेकारणोंसे जैसे कि पीचमज्जारुधिर
अभक्ष्यमांसादिकों के देखनेसे उकलाई लगआती है वस मनुष्य

श्लेष्मभंजनैः ॥ निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्तव्यं प्रधावति ४
 (अत्यतामपरीतस्य चर्द्वैर्भवो ध्रुवम्) हृत्पासोद्गार
 रोधश्च प्रसेको लवणस्तनुः ॥ द्वेषोन्नपाने च भृशं वमीनां
 पूर्वलक्षणम् ५ हृत्पाश्वर्षीडा मुखशोषशीर्षनाभ्यर्तिकास
 स्वरभेदतोदैः ॥ उद्गारशब्दप्रवलंसफेनं विच्छिन्नकृष्णंत
 नुकंकषायम् ६ कृच्छ्रेण चालपंमहता च वेगेनात्तानिलाच्छ
 दयतीह दुःखम् ॥ मूर्च्छापिपासामुखशोषमूर्द्धता लवक्षिसं
 तापतमोभ्रमार्त्तः ७ पीतंभृशोष्णं हरितं सति कं धूमं चपि

के मुख गले को भीतरका मल आच्छादित कर लेता है अंगों
 को मानों तोड़ने लगता है व मुखके मलको गिराने लगता है
 इसी रोग को छर्दि वमन वान्त डाकना वा रद करना कहते हैं
 ४ छर्दिके पूर्वरूपके लक्षण—वमन जब होने पर होता है तो
 मुँहमें पानी छूटने लगता है डकारना बन्द होजाता है मुखमें
 नुनखारा पानी छूटने लगता है पसीना होभाता है खाने पीनेमें
 अरुचि होजाती है यह सब प्रकारके वमनोंका पूर्व लक्षण है
 ५ वातज छर्दि के लक्षण—हृदय व पशुलियोंमें पीड़ाहोती मुख
 सूखतारहता है मुखमें व नाभिममें पीड़ाहोती खाँसी आती स्वर
 भेदहोजाता कोचने कीसी पीड़ाहोने लगती है वान्त करनेके
 समय अधिक ओ २ करनेलगता है फेनासहित डाकता है थँभ २
 करथोड़ा २ वमनहोता वा कसैला रदहोता ६ बड़े कष्टसे थो-
 ढासा वमनहोता पर वेगबड़ाभारी होता है इसप्रकार वायु वाला
 बड़ेदुःखसे डाकता है पित्तके वमनके लक्षण—मूर्च्छा आती प्यास
 लगती मुख सूखता जाता शिर तारू नेत्रजलने लगते आगे
 अंधेरासाहोजाता भ्रमहोता व पीड़ाहोती है ७ पीला प्रति गरम
 हरा ताँत व धुआँसा जलताहुआ वमन पित्तवाला करता है
 कफकी छर्दिके लक्षण—तवाँतारहनां मुँहमीठावनारहना कफका

दाहचोषबहुलंसकफप्रसेकम् ॥ श्लेष्मात्मकंवहुरुजंवहु
भिश्चविद्याद्वैगुण्यमोहजडताभिरथापरंच ४ ॥

इत्यरोचक निदानम् ॥

दुष्टदोषैः पृथक्सर्वैर्वा भत्सालोकनादिभिः ॥ हृदयः पं
चविज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्यते १ अतिद्रवैरतिस्निग्धैर
हृद्यैर्लवणैरपि ॥ अकाले चातिमात्रैश्च तथा सात्म्यैश्च भो
जनैः २ श्रमाद्गयात्तथोद्वेगादजीर्णात्कृमिदोषतः ॥ ना
र्याश्चापन्नसत्वायास्तथातिद्रुतमश्नतः ३ वीभत्सैर्हृत्तु
भिश्चान्यैर्द्रुतमुत्केशतोवलात् ॥ छादयन्नाननवेगैरदय

वायुके अरोचकमें हृदयमें शूल व पीडा होती है व पित्तसे उत्पन्न
अरोचक में प्यास लगती दाह होता व चोंकना होता है व कफके
अरोचक में मुखसे कफ गिराकरता है व सन्निपात के अरोचक में
पीडा अधिक होती है मनकी व्याकुलता मोहजडतातभी होती है ४ ॥
इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे अरोचकनिदानम्पञ्चदशम् १५ ॥
दोहा ॥ सोलहवें मँ छर्दि के कहे निदान विचारि ॥

जाहि बमन डाकन कहत सकल वैद्यनिर्दारि १

छर्दि अर्थात् डाकने के निदान अलग अलग दुष्टदोषों से वा
मिले हुये दोषोंसे वा बहुत धिनधिने सड़े घाव आदि के देखने से
पांच प्रकारके बमनडाक वा रदहोते हैं उन सबोंके लक्षण कहते
हैं १ बहुत पतले पंदायों के पीने खानेसे अति विकने जिन के
खाने की जी नहीं चाहता बहुत खारी अकालमें भोजन करने
से बहुत खालेनेसे व जो अन्नादि अपने को न पचता हो उससे
खानेसे २ श्रमसे भयसे उबनेसे अजीर्णसे कृमियोंके दोषसे गर्भ-
वती स्त्रीके लड़केके होनेका समय आजानेसे व बहुत जल्द खाने
से ३ वा अन्य वीभत्स धिनधिने कारणोंसे जैसे कि पीवमज्जाराधिर
अभक्ष्यमांसादिकों के देखनेसे उकलाई लगजाती है वस मनुष्य

द्वंगभंजनैः ॥ निरुच्यते छर्दिरिति दोषो वक्तं प्रधावति ४
 (अत्यतांमपरीतस्य च्छर्देर्वसंभवो ध्रुवम्) हृत्पासोद्धार
 रोधश्च प्रसेको लवणस्तनुः ॥ द्वेषोन्नपाने च भृशं वमीनां
 पूर्वलक्षणम् ५ हृत्पाश्वर्षीडामुखशोषशीर्षनाभ्यर्तिकास
 स्वरभेदतोदैः ॥ उद्गारशब्दप्रवलंसफेनं विच्छिन्नकृष्णं त
 नुकंकषायम् ६ कृच्छ्रेण चाल्पं महता च वेगेनात्तो निलाच्छ
 दयतीह दुःखम् ॥ मूर्च्छां पिपासामुखशोषमूर्द्धता लवक्षिसं
 तांपतमोभ्रमार्त्तः ७ पीतं भृशोष्णं हरितं सति कं धूमं च पि

के मुख गले को भीतरका मल आच्छादित कर लेता है अंगों
 को मानों तोड़ने लगता है व मुखके मलको गिराने लगता है
 इसी रोग को छर्दि वमन वान्त डाकना वा रद करना कहते हैं
 ४ छर्दिके पूर्वरूपके लक्षण—वमन जब होने पर होता है तो
 मुँहमें पानी छूटने लगता है डकारना बन्दहो जाता है मुखमें
 नुनखारा पानी छूटने लगता है पसीना होभाता है खाने पीनेमें
 अरुचि होजाती है यह सब प्रकारके वमनोंका पूर्व लक्षण है
 ५ वातज छर्दि के लक्षण—हृदय व पशुलियोंमें पीड़ाहोती मुख
 सूखतारहता है मुखमें व नाभिमें पीड़ाहोती खाँसी आती स्वर
 भेदहोजाता कोचने कीसी पीड़ाहोने लगती है वान्त करनेके
 समय अधिक ओ २ करनेलगता है फेनासहित डाकता है धँस २
 करथोड़ा २ वमनहोता वा कसैला रदहोता ६ बड़े कष्टसे थो-
 ड़ासा वमनहोता पर वेग बड़ाभारी होता है इसप्रकार वायु वाला
 बड़ेदुःखसे डाकता है पित्तके वमनके लक्षण—मूर्च्छा आती प्यास
 लगती मुख सूखता जाता शिर तारू नेत्रजलने लगते आगे
 अंधेरासाहोजाता भ्रमहोता व पीड़ाहोती है ७ पीला भति गरम
 हरा तति व धुआँसा जलताहुआ वमन पित्तवाला करता है
 कफकी छर्दिके लक्षण—तवाँतारहनां मुँहमें माँठावनारहना कफका

त्तेन वमेत्सदा हिम् ॥ तंद्रास्यमाधुर्यकफप्रसेकसंतोषनिद्रा
 रुचिगौरवार्त्तः ॥ स्निग्धघनं स्वादुकफं विशुद्धं सरोमहषे।
 लपरुजं वमेत्तु = शूला विपाका रुचिदाह तृष्णाश्वासप्रमोह
 प्रबलाप्रसक्ता ॥ छर्दिस्त्रिदोषाल्लवणास्लनीलसांद्रोष्णर
 क्तं वमतां नृणां स्यात् ६ विड्भेदमूत्राम्बुवहानिवायुः स्रो
 तांसि संरुध्य यदोर्ध्वमेति ॥ उत्सन्नदोषस्य समाचितं तंदो
 षं समुद्धय नरस्य कोष्ठात् १० विण्मूत्रयोस्तत्समगन्धव
 णैत्त्वं श्वासकासार्तियुतं प्रसक्तम् ॥ प्रच्छर्दयेद्दुष्टमिहाति
 वेगात्तयादितश्चाशुविनाशमेति ११ वीभत्सजादौ हृद्

वहना सुस्ती आजाना नाँद अधिकभाना अरुचि सधीनी इनसे
 पीड़ितहोना चिकना गाढा स्वादुयुक्त दवेत वमन रोमों का खड़े
 होभाना वमनके समय थोड़ी पीड़ा = त्रिदोष वा सन्निपात
 की छर्दि के लक्षण-त्रिदोषके वमन में शूल अजीर्ण अरुचि दाह
 पिपासा दमा अतिमोह होते लोनखर खट्टी नीली गाढी उष्ण
 लाल ऐसी छर्दि त्रिदोषवालोंको होती है ६ छर्दि के असाध्यल-
 क्षण-जवपवन त्रिष्ठा पसीना मूत्र व जल इनके निकलनेवाले
 मार्गोंको रूँधकर ऊपरको चढ़ताहै तो पुरीपादिकों को उभाड़कर
 कोठे से बाहर करदेताहै १० उस वान्तकी दर्गन्धि मल व मूत्र
 क्रीसी होती है व रंगभी विषाही कासा होताहै प्यास बहुत लग
 गती दम भरभाती खाँसीभाती व शूल उठती व बड़े बेग से
 धार व वमन होता है व इस छर्दि से पीड़ित मनुष्य मृतकई
 होजाताहै ११ आगन्तुक अर्थात् भानेवाली छर्दि के लक्षण-
 वीभत्सजा १ दौहदजा २ आमजा ३ असात्म्यजा ४ व रुमि
 जा ५ ये पाँच प्रकारकी छर्दियाँ हैं १ वीभत्स घिनघिने पदाद्यं
 के देखने से उत्पन्न होती है २ दुष्टहृदयहोने से ३ अजी
 होनेसे ४ अधिक भोजनादिसे ५ उदरमें रुमि पड़जानेसे इ

जामजाच आसात्म्यजांचकृमिजाचयाहि ॥ सापञ्चमी
 तांचविभावयेत्तुदोषोच्छ्रयेणैवयथोत्तमादौ १२ शूलह
 ल्लासबहुलाकृमिजाचविशेषतः ॥ कृमिहृद्रोगतुल्येन
 लक्षणेनचलक्षिता १३ क्षीणस्ययाद्धर्दिरतिप्रसक्त्यासौ
 पद्रवाशोणितपूययुक्ता ॥ सचंद्रिकान्तांप्रवदेदसाध्यां
 साध्यांचिकित्सेनिरुपद्रवांच १४ कासःश्वासोज्वरोहि
 कात्तृष्णावैचित्यमेवच ॥ हृद्रोगस्तमकश्चैवज्ञेयाश्छर्दं
 रूपद्रवाः १५ ॥ इति छर्दिनिदानम् ॥

भयश्रमाभ्यां बलसंक्षयाद्वाप्यूर्ध्वचितम्पित्तविवर्द्धने

खों के लक्षण ऊपरभी कह आये हैं जिसमें जो लक्षण घटे
 उसे वह छर्दि जानो १२ कृमिजा छर्दिके विशेष लक्षण—कृमि
 योंसे उत्पन्न छर्दि में शूल उठती हृदयमें लासासा छपटाजा-
 नपड़ता व इसमें हृदय के व कृमियों के रोगों के जी मचला-
 ने थुँक थुँकी लगने आदि के लक्षण बहुत घटते हैं ३ इसके
 साध्यासाध्यके लक्षण—जो क्षीण पुरुषके बड़े जोर से विकराल
 छर्दि होती हो व खांसी दमा आदि उपद्रवों से युक्त हो वा
 रुधिर और पीवसे युक्त हो वा मोरके पंखों के समान चमचमाते
 रंगकी हो ऐसी छर्दि असाध्य होती है पर जब खांसी आदि उप-
 द्रवोंसे युक्त नहीं होती तो यही साध्य होजाती है १४ उपद्रवोंके
 लक्षण—खांसीश्वास ज्वर हुचकी प्यास चित्तभ्रम हृदयमें पट्टा
 व तमक अर्थात् अंधेरासा नेत्रोंके आगेहोआना वस येही छर्दि
 के उपद्रव हैं १५ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे छर्दि रोगनिदानं षोडशम् १६ ॥
 दोहा ॥ सत्तरहे महे कह भलो तृष्णा रोग निदान ॥

जाहि पिपासा प्यासहू भापत लोग महान १

तृष्ण पिपासा वा प्यासकी सम्प्राप्तिके लक्षण—भय व श्रम

इच ॥ पित्तसंवातंकुपितन्नराणां तालुप्रपन्नजनयेत्पिपा
 साम् १ स्रोतःस्वपांवाहिषुदूषितेषुदोषैश्चत्संभवती
 हजंतोः ॥ तिस्रःस्मृतास्ताःक्षतजाचतुर्थी क्षयात्तथान्या
 मसमुद्भवाच्च ॥ भक्तोद्भवासप्तमिकेतितासांनिबोधलिंगा
 न्यनुपूर्वशस्तु २ क्षामास्यतामारुतसम्भवायां तोदस्त
 थाशंखशिरस्सुचापि ॥ स्रोतोनिरोधोविरसंचवक्त्रंशीता
 भिरद्भिश्चविष्टद्विमेति ३ मूर्च्छान्नविद्वेषविलापदाहरक्ते
 क्षणत्वंप्रततश्चशोषम् ॥ शीताभिनंदामुखतित्कताच
 पित्तात्मिकायाम्परिदूयनंच ४ वाष्पावरोधात्कफसंचते

से बलक्षीणहोने से व पित्तको ऊपरको खींचनेवाले उपवासादि-
 कोंसे पित्तकोपकरके पिपासाके स्थानतालुमें आकर प्यासको
 उत्पन्न करताहै १ अन्नजादिक तृष्णाकी सम्प्राप्तिलिखतेहैं—जल
 बहानेवाली नसोंके दोषोंसे दूषितहोनेसे तीन प्रकारकी पिपासा
 लगती हैं व चौथी पिपासा-घावः लगनेसे लगतीहै पांचई क्षयी
 से उत्पन्न होतीहै छठीआमसे व सातई अन्नसे इनसबोंके चिह्न
 क्रमसे कहते हैं सुनो २ वातसे उत्पन्न पिपासाके लक्षण--वात
 से उत्पन्न पिपासामें मुख सूखताजाताहै चित्तमें दीनताहोती है
 कनपटी और मस्तकमें पीड़ाहोतीहै रस बहानेवाली नसों में
 रुँकावटहोजाती है मुखकास्वाद जातारहताहै शीतलजलपीनेसे
 यह तृष्णाअधिक बढ़तीहै ३ पित्तसे उत्पन्न तृष्णाके लक्षण—
 इसमें मूर्च्छा आती अरुचिहोती विलाप करनाबढ़ता दाहहोता
 नेत्रलालहोते अधिकशोष शीतलवस्तुपर प्रीतिहोती मुखकडुभा
 वनारहता परितापरहता दिशा पेशाव व नेत्र पीलेरहते हैं यह
 ग्रन्थान्तरमें लिखाहै ४ कफसे उत्पन्न पिपासाके लक्षण--कफ
 अपने कारणसे संकुपित होकर अग्निको भाङ्छादित करताहै
 फिर उष्णताको रोककर नीचे चलाजाताहै य जल बहानेवाली

ग्नौ तृष्णावलासेन भवेन्नरस्य ॥ निद्रागुरुत्वं मधुरास्य
 ताचतृष्णादितः शुष्यति चातिमात्रम् ५ क्षतस्य रुक्शो
 णितनिर्गमाभ्यां तृष्णाचतुर्थी क्षतजामतासा ॥ रसक्षया
 द्याक्षयसम्भवासातयाभिभूतस्तु निशादिनेषु ६ पेपीयते
 र्भः ससुखं नयाति सासन्निपातादितिकेचिदाहुः ॥ रसक्षयो
 क्तानि चलक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग्व्यवस्येत् ७ त्रि
 दोषलिङ्गाभसमुद्भवात्तु हृच्छूलनिष्ठीवनसादकर्त्री ८ स्नि
 ग्धं तथा म्लंलवणं च भुंक्ते गुर्वन्नमेवाशु तृष्णां करोति ९ दी-
 नस्वरः प्रताम्यन्दीनः संशुष्कवक्त्रगलतालुः ॥ भवति

नसोंको शोषकर कफज तृष्णाको उत्पन्न करता है इसतृष्णा में
 निद्राअधिक भाती है देहभारी रहताहै मुख मीठावना रहताइत
 पिपासासे पीड़ित मनुष्य अत्यन्त सुखजाताहै ५ घावसे उत्पन्न
 तृष्णाके लक्षण—घावलगनेसे पीड़ाउत्पन्न होने व रुधिर बहनेसे
 मनुष्यको जो तृष्णालगतीहै वह चौथी क्षतजातृष्णा कहातीहै ६
 क्षयसे उत्पन्न तृष्णाके लक्षण—रस क्षय होनेसे जो तृष्णा उत्पन्न
 होतीहै उसको क्षयजा तृष्णा कहतेहैं इससे पीड़ित पुरुष रात्रि
 दिन पानीही पियाकरताहै पर सन्तुष्ट नहीं होता इसीको कोई
 सन्निपातजा तृष्णा कहतेहैं रसक्षयके लक्षण जोकहेहैं सब इसमें
 होतेहैं रसक्षयके लक्षणयेहैं हृदयमेंपीड़ा शरीरमें कम्पशोप वधिर
 होना औरपिपासालगना ७ आमजातृष्णाके लक्षण येहैं यहतृष्णा
 अजीर्ण से उत्पन्न होतीहै अजीर्ण तीनों दोषों से होताहै उनमें
 जिस दोषकी अधिकता जानपड़े उसीका लक्षण जाननाचाहिये
 नहीं तो "सामान्यतः" इसतृष्णासे हृदयमें शूल होती लार अधि-
 क बहती ग्लानि बनी रहतीहै ८ अन्नजा तृष्णाके लक्षण ये हैं
 चिकना खटा खारी गरुमा पदार्थ और अधिक खाजानेसे शीघ्र-
 ही पिपासा बढ़तीहै वसइसी को अन्नजा तृष्णा कहतेहैं ९ उप-

खलुयोपसर्गात्तृष्णासाशोषिणीकष्टा ज्वरमोहक्षयकास
श्वासाद्यपसृष्टदेहानाम् १० सर्वास्त्वतिप्रसक्ताःरोगकृ
शानांविमिप्रसक्तान्यम् ॥ घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णामरणाय
विज्ञेयाः ११ ॥ इतितृष्णानिदानम् ॥

क्षीणस्यबहुदोषस्यविरुद्धाहारसैविनः ॥ वेगाघाता
दभीघाताद्दीनसत्वस्यवापुनः १ करणायतनेषुग्रावाह्ये
प्राभ्यंतरेषुच ॥ निवसंतियदादोषास्तदामूर्च्छतिमान
वाः २ सञ्ज्ञावहासुनाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः॥तमो

सर्गसे उत्पन्न तृष्णाके लक्षण—इस तृष्णावालेका बोल मध्यम
होजाताहै मोह होताहै मनमें ग्लानि होती मुख गल ताल सूख
जातेहैं शरीर सूखजाताहै यहरोग बड़े कष्टसे साध्य होताहै यही
तृष्णा यदि ज्वर मोह क्षय खांसी श्वास अतीसार रोग वालोंको
होतो अत्यन्त कष्ट साध्य समझना १० असाध्य तृष्णाके लक्षण
वातजादि सब तृष्णा कठिनहोती हैं परन्तु रोगसे अतिदुर्बलम-
नुष्य की तृष्णा वा वमन करने वालों की तृष्णा वा अन्य किसी
घोर उपद्रवमें तृष्णा का होना मरणही के लिये होता है ११ ॥
इतिश्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे तृष्णानिदानं सप्तदशम् १७ ॥

बोहा ॥ अट्ठरहें महें कह सुकवि मूर्च्छा प्रबल निदान ॥

लखहिं सुजन मन लायके चितगुनि तासु विधान १

अब मूर्च्छाकेनिदानकहतेहैं क्षीणहोनेसे अधिकदोष एकत्रहोने
से विरुद्ध आहारके सेवनकरनेसे मलमूत्रके वेगके रोकनेसे लाठी
आदि की चोटलगनेसे और सत्वके हीनहोजाने वालेको १ जब
बाहर भीतरकी इन्द्रियों में दोष प्रवृत्त होतेहैं तब पुरुषको मूर्च्छा
आजातीहै २ जबसञ्ज्ञा बहानेवालीनसे वायुआदिसं रूंधजातीहै
तबप्राणीको अज्ञान प्राप्तहोताहै उसमें सुख दुःखका स्मरण नहीं

भ्युपैतिसहसासुखदुःखव्यपोहकृत् ३ सुखदुःखव्यपोह
 चनरःपततिकाष्ठवत् ॥ मोहोमूर्च्छतितामाहुःषड्विधासा
 प्रकीर्तिता ४ वातादिभिःशोणितेनमद्येनचविषेणच ॥
 षट्स्वप्येतासुपित्तन्तुप्रभुत्वेनावतिष्ठते ५ हृत्पीडाजृम्भ
 णंग्लानिः संज्ञादौर्बल्यमेवच ॥ सर्वासांपूर्वरूपाणियथा
 स्वतांविभावयेत् ६ नीलंवायदिवाकृष्णमाकाशमथवा-
 रुणम् ॥ पश्यंस्तमःप्रविशतिशीघ्रंचप्रतिबुद्ध्यते ७
 वेपथुश्चांगमर्दश्च प्रपीडाहृदयस्यच ॥ काश्यंश्यावा
 रुणच्छाया मूर्च्छावैवातसम्भवा ८ रक्तंहरितवर्णवा
 वियत्पीतमथापिवा ॥ पश्यंस्तमःप्रविशतिसस्वेदश्चप्र
 बुद्ध्यते ९ सपिपासःससंतापोरक्तपीताकुलेक्षणः ॥ जा
 रहता ३ फिर सुखदुःखके नष्टहोनेसे पुरुष काष्ठके समान एका
 एकी गिरपड़ताहै इसीको मोह वा मूर्च्छा कहतेहैं वह मूर्च्छा ६
 प्रकारकीहोतीहै ४ वातपित्तकफसे रक्तसे मद्यसे और विषसे इन
 छःसे मूर्च्छाहोतीहै परन्तु पित्तकीप्रधानता इसरोगमेंरहतीहै ५
 मूर्च्छाका पूर्व रूप जब होता है हृदयमें पीडा जँभुआई आना
 ग्लानि धान्तिका होना येसबमूर्च्छाओं के पूर्वरूप हैं जिसमूर्-
 च्छामें वातादिकों की अधिकता जानपड़े उसे उसीकी मूर्च्छा
 जाननी चाहिये ६ वातकी मूर्च्छाके लक्षण येहैं जत्र वातकी मू-
 च्छा आती है तो माकाश नील वा कृष्ण अथवा अरुण दिखाई
 देताहै व अंधियारीछाजातीहै पर प्राणशीघ्र चैतन्यहोजाताहै ७
 देह काँपने लगताहै शरीर इधरउधर मुड़ताहै हृदयमें पीडाहो-
 ती है देह दुर्बल होजाताहै देहका रंग काला साँवला वा लाल
 होजाताहै वातजमूर्च्छाके येहीलक्षणहैं ८ पित्तजमूर्च्छाकेलक्षण—
 इसमूर्च्छामें लाल हरा वा पीलाआकाश दिखाईदेता है व अँ-
 धियारी छाजातीहै सावधानहोनेके समय पसीना भाजाताहै ९

तमात्रेचपततिशीघ्रंचप्रतिबुद्ध्यते ॥ संभिन्नवर्चाःपीता
 भोमूर्च्छावैपित्तसम्भवा १० मेघसंकाशमाकाशमावृतं
 वातमोघनैः ॥ पश्यंस्तमःप्रविशतिचिराच्चप्रतिबुद्ध्यते
 ११ गुरुभिःप्रावृत्तैरंगैर्यथैवाद्र्द्रेणचर्मणा ॥ सप्रसेकःसह
 ल्लासोमूर्च्छावैकफसम्भवा १२ सर्वाकृतिःसन्निपातादप
 स्मारद्वागतः ॥ सजन्तुम्पातयत्याशु विनावीभत्सचे
 ष्टितैः १३ पृथिव्यापस्तमोरूप रक्तगन्धस्तदन्वयः ॥
 तस्माद्रक्तस्यगन्धेन मूर्च्छंतिभुविमानवाः ॥ द्रव्यस्वभा
 वइत्येकेदृष्ट्वायदभिमुह्यति १४ गुणास्तीव्रतरत्वेनस्थि

देहमें सन्तापहोताहै पिपासा अधिक लगती है रक्त वा पीतनेत्र
 होजाते हैं शीघ्रही गिरपड़ता व शीघ्रही चैतन्यहोजाता है मल
 पत्रलाहोजाता और शरीर पीलाहोजाताहै १० कफज मूर्च्छाके
 लक्षणये हैं—इसमूर्च्छामें आकाश प्रथम मेघकेरंगका दिखाईदेता
 है वा अत्यन्त अंधियारीसे घिराहुआ दिखाईदेता है वस जबइस
 प्रकार आकाश दिखाई देता कि मूर्च्छा आजाती है और बड़ी
 देरमें चैतन्यहोताहै ११ अंगबहुतभारी होजाते हैं वा ओदेचमड़े
 से बंधेहुये विदितहोतेहैं मुखसे पानीछूटता वमनहोता वसकफ
 की मूर्च्छाके येही लक्षणहैं १२ सन्निपातज मूर्च्छाके लक्षण ये हैं
 इसमूर्च्छामें सवप्रायःसृगीरोगकेलक्षणहोतेहैं जैसेकि मुखसे फे-
 नाबहनेलगता दांतकटकटाने लगते नेत्र लौटपौट होजाते येसव
 सृगीके लक्षण होतेहैं मनुष्यफटकने लगताहै १३ रक्तज मूर्च्छा
 की सम्प्राप्ति ऐसी होती है पृथ्वी व जल दोनों तमोरूप होते हैं
 व रक्तगंधही पृथ्वीका अन्वय है इसी से रक्तकीगन्धि आनेसे म-
 नुष्यको मूर्च्छा आजाती है रक्तकी गन्धि नहीं आती तो रक्तके
 देखने से भी मूर्च्छा आजाती है द्रव्यका स्वभावही ऐसा है १४
 विप और मद्यसे उत्पन्न मूर्च्छा के लक्षण—विप और मद्य में सव

तास्तुविषमद्ययोः ॥ तएवतस्मात्ताभ्यांतुमोहौस्यातांयथे
रितौ १५ स्तब्धांगदृष्टिस्त्वसृजागूढोच्छ्वासश्चमूर्च्छितः ॥
मध्येनत्रिलपन्शेतेनष्टविभ्रांतमानसः ॥ गात्राणिविक्षि
पन्भूमौजरांयावन्नयातितत् १६ वेपथुस्वप्नतृष्णास्स्यु
स्तमश्चविषमूर्च्छिते ॥ वेदितव्यंतीव्रतरंयथास्वंविषल-
क्षणैः १७ मूर्च्छापित्ततमःप्रायारजःपित्तानिलाद्रूमः ॥
तमोवातकफात्तन्द्रानिद्राश्लेष्मतमोद्भवा १८ इंद्रियार्थेष्व
संप्राप्तिर्गौरवंजृम्भणंक्लमः ॥ निद्रात्तस्यैषयस्यैतेतस्यतं
द्रांविनिर्दिशेत् १९ योनायासःश्रमोदेहेप्रवृद्धश्श्वासव-

तैलादिकों के दशगुण बड़ी तीव्रता से रहते हैं उन्हींसे मूर्च्छाउ-
त्पन्न होतीहै इनमें विष से उत्पन्न दोष अपने आप बिना औ-
पध किये नहीं मिटता और मद्यसे उत्पन्न दोष अपने आपही
मिटजाताहै १५ रक्तजादि मूर्च्छा के लक्षण—रक्तमूर्च्छामें अंग
और नेत्र तनउठते हैं व प्रकट श्वास भाने लगताहै मद्यकी सू-
च्छा में प्राणी बकतारहताहै ज्ञान उसका नष्ट भ्रष्ट होजाता मन
विभ्रान्तहोजाताहै जबतक मदनहीं उतरता पृथ्वीपर पटारहता
है अंग पृथ्वीपर पटका करता है १६ शरीर कांपता रहताहै सो-
तारहता पिपासाबड़ीलगती अन्धकार साउसके आगे छाया र-
हताहै ये सब विपत्ती मूर्च्छा के लक्षणहैं मद्य के लक्षणोंसे विष
के लक्षणोंमें अधिक तीव्रताहोती है १७ मूर्च्छा भ्रम तन्द्रा व निद्रा
के भेद दिखातेहैं मूर्च्छामें पित्त और तमोगुण अधिक होते हैं
व भ्रम में रजोगुण पित्त और वायुकी अधिकता होतीहै तमो-
गुण वात और कफ से तन्द्राहोती है श्लेष्मा और तमोगुणकी
अधिकतासे निद्राहोती है १८ तन्द्राके विशेषलक्षण—इन्द्रियां जब
अपने २ विषयोंकाग्रहण नहीं करती शरीरमें गरुआई बनीरहती
अँभुआईआती ग्लानिहोती निद्रासे पीड़ितके समान गिरताप-

जिजतः ॥ क्लमस्सइतिविज्ञेयइन्द्रियार्थप्रवाधकः २० दोषे
 पुमदमूर्च्छायाःकृतवेगेषुदेहिनाम् ॥ स्वयमेवोपशाम्यंतिसं
 न्यासो नौषधैर्विना २१ वाग्देहमनसांचेष्टा आक्षिप्यातिव
 लावलात् ॥ संन्यस्यंत्यवलंतंतुंप्राणायतनमाश्रिताः २२
 सनासंन्याससंन्यस्तःकाष्ठीभूतोभृतोयमः ॥ प्राणैर्विमुच्यते
 शीघ्रममुक्तासद्यःफलक्रियाम् २३ इतिमूर्च्छातंद्रासंन्यासनिदानम् ॥

येविषस्यगुणाःप्रोक्तास्तेचमद्यस्यकीर्तिताः ॥ तेन
 मिथ्योपयुक्तेनभवत्युग्रोमदात्ययः १ किन्तुमद्यस्वभावेन

डंता रहतावसयेही लक्षण तन्द्राकेहैं १६ क्लमके लक्षण—जिसकेदेह
 में विनाश्रम कियेही थकवाही बनिरहै और श्वासअधिकनआवे
 इसीको क्लमकहते हैं यह इन्द्रियोंके अर्थोंका वाधरु होताहै २०
 मदमूर्च्छादिक सब दोष प्राणियोंके समय पाकर अपने आपशान्त
 होजातेहैं परन्तु संन्यासनामरोग विना औषधोंके किये नहीं
 शान्तहोता २१ संन्यासके लक्षण—वाणी देह और मनकी चेष्टा-
 ओंकोबलसे रोककर मल प्राणस्थानोंमें ठहरकर बलहीन प्राणी
 को सब कर्मों के करनेसे रोकतेहैं २२ तब वह पुरुष सब कामों
 कोछोड़ देताहै काष्ठरूपी मृतकके समानपड़ाहताहै सबक्रिया-
 ओंको छोड़ शीघ्रही मृतकहोजाताहै जैसे संन्यासी सबकर्मोंके
 फलों को छोड़ केवलमृतकही होजाता है ऐसेही यह रोगीभी
 मरने को छोड़ और कुछ कर्म नहीं करताइसी से इसका
 संन्यासरोग नामभी है २३ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेमूर्च्छानिदानमष्टादशम् १८ ॥
 दोहा ॥ उन्निशये महं कहमदात्यय लक्षण सविचार ॥

देखहिं सुजन लगाय चित अरुकरिकैनिरधार ?
 जो गुणविपके कहेहैं वेही मद्यके हैं इससे जैसे विषअधिक
 सेवन करनेसे हानिकारक होताहै ऐसेही मद्यभी प्रमाणसे अधिक

यथैवान्नन्तथास्मृतम् ॥ अयुक्तियुक्तरोगाययुक्तियुक्तं यथा
 स्मृतम् २ प्राणाः प्राणभृतामन्नंतदयुक्त्याहिनस्त्यमून् ॥
 विषंप्राणहरंतच्चयुक्तियुक्तरसायनम् ३ विधिनामात्रयाका
 लोहितैरत्तैर्यथात्रलम् ॥ प्रहृष्टोयःपिवेन्मद्यंतस्यस्यादमृतं
 यथा ४ स्निग्धैस्तदन्नैर्मांसैश्चभक्ष्यैश्चसहसेवितम् ॥
 भवेदायुःप्रहर्षायबलायोपचयायच ५ काम्यतामनस
 स्तुष्टिस्तेजोविक्रमएवच ॥ विधिवत्सेव्यमानेतुमद्योसं
 निहितागुणाः ६ बुद्धिस्मृतिप्रतिकरःसुखश्चपानान्ननि
 द्रारतिवर्द्धनश्च ॥संपातगीतरवरवर्द्धनश्चप्रोक्तोतिरम्यः

पीनेसे उग्रहोजाताहै १ किन्तुमद्य स्वभाव से जैसे अन्न है वैसाही
 है इससे जैसे अन्न अयोग्यता के संग खायाजाताहै तो रोग क-
 रताहै और यों गुण करताहीहै ऐसेही जब मद्य अयुक्तिके साथ
 पियाजाताहै तब रोगकरताहै जब युक्तिकेसाथ सेवन कियाजाता
 है तो अमृत के समान गुण करताहै २ इस विषयमें दृष्टान्त क-
 हते हैं प्राणियों के प्राण अन्नहीहै परन्तु वेहीअन्न जब अयुक्ति
 के साथभोजन कियेजातेहैं तो प्राणोंको नष्ट करदेतेहैं और वि-
 पप्राणोंको हरलेताहै परन्तु जब युक्तिके साथ सेवन कियाजाता
 है तो वही रसकास्थान होजाताहै शरीर को पुष्टकरताहै ३ वि-
 धिसे मद्य सेवन करनेका फल विधिपूर्वकरु प्रमाण सहित हि-
 तकारी अन्नोके संग अपने बलके अनुसार प्रसन्नतासे जो मद्य
 पानकरताहै उसे वह अमृत तुल्यफल देताहै ४ सो अच्छे चि-
 कने अन्नोकेसाथ अववा मांसोंकेसाथजो कोई मद्य सेवन करता
 है उसकी आयुवढाताहै हर्षकरताहै बलवढाताहै व वृद्धिकरता है
 नेत्रमें प्रकाश अधिक कराताहै ५ सुन्दर रूप होता मन सन्तुष्ट
 रहता तेज वढता और विक्रमहोता है विधिसेमद्य सेवन करनेसे
 ये सब गुण होतेहैं ६ मद्य चारप्रकारके होते हैं उनमें प्रथमका

प्रथमोमदोहि ७ अन्व्यक्तबुद्धिस्मृतिवाग्विचेष्टसोन्मत्तं
लीलाकृतिरप्रशांतः ॥ आलस्यनिद्राभिहितोमुहुश्चमं
ध्येनमत्तःपुरुषोमदेन ८ गच्छेदगम्यांचगुरून्नमन्येत्खा
देदभक्ष्याणिचनष्टसंज्ञः ॥ ब्रूयाच्चगुह्यानिहृदिस्थितानि
मद्येत्तृतीयेपुरुषोऽस्वतंत्रः ९ चतुर्थेचमदेमूढोभग्नदा
र्विवनिष्क्रियः ॥ कार्याकार्यविभागाज्ञोमृतादप्यप
रोमृतः १० कोमदंतादृशंगच्छेदुन्मादमिवचापरम ॥ वं
हुदोषमिवामूढःकांतारंस्ववशःकृती ११ निर्भुक्तमेकांतत

मद बुद्धि स्मरण व प्रीतिको करता है सुखकारी होता पान
अन्न निद्रा व रतिकी इच्छाको बढ़ाताहै अच्छे प्रकारपाठकरने
गतिगानि व स्वरके बढ़ाने वालाहोता है प्रथममद इसीसे अति
रम्य कहागयाहै ७ द्वितीयमद के लक्षण—इसमें मनुष्यकी बुद्धि
स्मृति व वाणी यथावस्थित नहीं रहती करचरणादिकोका
व्यापार अपने अधीन नहीं रहता मतवाले किसी लीला व आ-
कृति होजाती है चित्तअशान्त बनारहता है आलस्य व निद्रा
में पड़ा रहता है वस द्वितीय मद से पुरुष इस प्रकार मतवाला
होजाताहै ८ तृतीय मदके लक्षण—गुरुस्त्री आदि अगम्य स्त्रियों
के संग भी भोग करलेता अपने गुरु आदि बड़ों को भी नहीं दे-
खता न उनकी लज्जाकरताहै अभक्ष्य पदार्थों को भी खा
लेताहै स्मरण उसे किसी भी वस्तुका नहीं रहता अपने मनकी
गुप्तवाते भी सब से कहने लगता है ऐसा परार्थीन होजाताहै ९
चतुर्थमदके लक्षण—इस मदमें मनुष्य ऐसा मूढ होजाताहै कि
टूटे हुये काष्ठके समान पड़ा रहता व कुछ भी कर्म नहीं कर-
सक्ता कार्य अकार्य के भेदको नहीं जानता यहां तक कि मरे
से भी मरेके समान होजाताहै १० ऐसा कौन मनुष्य है जो
दूसरे उन्मादके तुल्य ऐसे चौथे मदको प्राप्तहो जैसे कि जो

एवमद्यं निषेव्यमानं मनुजेन नित्यम् ॥ उत्पादयेत्कष्टतमा
 न्विकारानापादयेच्चापिशरीरभेदम् १२ क्रुद्धेन भीतेनपि
 पासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षितेन ॥ व्यायामभाराध्वप
 रिक्षतेन वेगावरोधाभिहितेन चापि १३ अत्यन्नभक्ष्याव
 त्तोदरेण सजीर्णभुक्तेन तथा व्रत्तेन ॥ उष्णाभितप्तेन च
 सेव्यमानं करोति मद्यं विविधान्विकारान् १४ पानात्ययं
 परमदं पानाजीर्णमथापि वा ॥ पानविभ्रममत्युग्रं चैषां व
 क्ष्यामिलक्षणम् १५ वातात् ॥ हिक्काश्वासशिरःकंपपार्श्व
 शूलप्रजागरैः ॥ विद्यात्प्रलपनं तस्य वा तप्रायं मदात्ययं १६

पुरुष अपने वशमें है विक्षिप्तता आदिके अधीन नहीं है तो वह व्याघ्रा-
 दि से वित्त अनेक दोषों से युक्त बनको नहीं जाता सत्त्वरजस्तमो-
 गुणों से युक्त होने हीके कारण एक ही मद्यमें तीन गुण होते हैं चौथा इन
 तीनोंसे नष्ट निन्दित होता इससे उसका सेवन कोई न करे ११
 जो मनुष्य बिना कुछ अन्नादि भोजन किये नित्य केवल मद्य ही
 पान किया करता है उस पुरुषको वह मद्य नाना प्रकार के अति-
 कष्टदायक विकारोंको पहुँचाता है व उसके शरीरका नाश भी
 शीघ्र ही करा देता है १२ जो मनुष्य क्रोध युक्त होकर भय युक्त
 होकर पिपासित होकर शोक युक्त होकर भूखे होकर परिश्रम करने
 के पीछे वा भार ढोने मार्ग चलने के पीछे वा मलमूत्रके वेगको
 रोकनेके पीछे १३ बहुत अन्न खालेने पर पेट फूलमाने पर व अजी-
 र्ण में निर्व्वलना होने में बहुत गर्माने पर इन सब में तुरन्त
 मद्य पान करता है वह मद्य ऐसे पुरुषको अनेक विकार कराता
 है १४ अनेक विकारोंका विवरण यों है पानात्यय परमदपाना जीर्ण
 और पान विभ्रम इन नामोंसे प्रसिद्ध अति भयंकर व उग्र
 विकारोंके लक्षण कहते हैं १५ वातमदात्ययके लक्षण—हुचकी
 श्वास शिरकांपना पशुडियोंमें पीड़ा नाँदन आना व मनर्थवकने

पित्तात् ॥ दाहत्पणाज्वरश्वासमोहातीसारविभ्रमैः ॥ वि
 घाद्वरितवर्णस्यपित्तप्रायमदात्ययम् १७ कफात् ॥ छर्द्य
 रोचकहृत्लासतन्द्रास्त्यैमित्यगौरवैः ॥ विद्याच्छीतपरीत-
 स्यकफप्रायमदात्ययं १८ ज्ञेयस्त्रिदोषजश्चापिसर्वलिङ्गे
 र्भेदात्ययः ॥ श्लेष्मोच्छ्रयोद्गुरुताविरसास्यताचत्रिण्मू
 त्रशक्तिरथतद्विररोचकस्य ॥ लिङ्गपरस्यतुमदस्यवदंति
 तंज्ञास्तृष्णारुजाशिरसिसंधिषुचापिभेदः १९ आध्मान
 मुग्रमथवोद्गिरणंविदाहंपानेत्त्रजीर्णमुपगच्छतिलक्षणा
 नि २० हृद्गात्रतोदकफसंश्रवकंठधूममूर्च्छावमिज्वरशि

से वाताधिक्यमदात्यय जानना चाहिये १६ पित्तमदात्यय के
 लक्षण—पिपासा दाह ज्वर पसीना मोह अतीसार भ्रमहोना व
 हरित वर्ण होजाना इन लक्षणोंसे जो युक्तहो उसके पित्ताधिक
 मदात्यय जानना १७ कफ मदात्ययके लक्षण—वमन होना
 अरुचि मुखमें पानी छूटना तन्द्रा शरिर गीलासारहना गरुआ-
 पन व शीत युक्त देहरहना कफाधिक्य मदात्यय के ये लक्षण
 होतेहैं १८ त्रिदोष युक्त मदात्यय के लक्षण—जिसमें वातपित्त
 कफ तीनों दोषोंके लक्षण मिले हुये पाये जायँ उसे त्रिदोष-
 ज मदात्यय जानना चाहिये पर मद के लक्षण—श्लेष्माकी
 बढ़ती अंगमें गुरुता रस रहित मुख विष्ठा व मूत्रका अवरोध
 होना तन्द्रा अरुचि पिपासा शिरमें पीडा सन्धियों में पीडा ये
 परमदके लक्षणहैं १९ पानाजीर्णके लक्षण—अधिक पेटफूलना
 वमन होना गण्डही जलना मदपीने का अजीर्ण होना ये सब
 लक्षण मदिरा पीने के अजीर्ण से होते हैं इसीको पानाजीर्ण
 कहते हैं २० पान विभ्रमके लक्षण—हृदय और अंगों में कोंचने
 कीसी पीडा कफका अधिक गिरना धुआँइध आना मूर्च्छा वमन
 ज्वरहोना शिर में पीडा मुख में कफलपटा रहना सब प्रकारकी

रोरुजनप्रदेहाः ॥ द्वेषस्सुरःत्रविकृतेषुचतेषुतेषु पानंच
विभ्रममशंत्यखिलेनधीराः २१ हीनोत्तरोष्ठमतिशीतम
मंददाहंतैलप्रभारयमतिपानहनंत्यजेत्तं ॥ जिह्वोष्ठदंतम
सितंतत्वथवापिनीलं पीतेचयस्यनयनेरुधिरप्रभेवा २२
हिक्काज्वरोवमथुवेपथुपाश्वशूलाः कासभ्रमावपिचपानह
तंभजंते २३ इतिमदात्ययनिदानम् ॥

त्वचंप्राप्तस्सपानौष्मापित्तरक्ताभिमूर्च्छितः ॥ दाहंप्र
कुरुतेघोरंपित्तवत्तत्रभेपजम् १ कृत्स्नदेहानुगंरक्तमुद्रितं
दहतिध्रुवम् ॥ शुष्यतेतृष्यतेचैवताद्याभस्ताम्रलोचनः २

मदिरा व सब प्रकारके भ्रमोंमें अरुचि होजाना ये लक्षण जिसमें
होतेहैं धीर लोग उसे पानविभ्रम कहते हैं २१ इसके असाध्य
लक्षण—ऊपरके ओष्ठका बहुत बढ़जाना उसके ऊपरका भाग
अत्यन्त शीतल रहना भीतर अतिदाह होना मुख में तैलकी
चिकनाई जानपड़े जिह्वाओष्ठ व दांतकाले वा नीले और नेत्रोंका
रंग पीला वा रुधिरके रंगका ऐसे अतिपानसे हत रोगीको वैद्य
छोड़देवे क्योंकि वह असाध्य होने के कारण जी नहीं सक्ता २२
नीचे लिखेहुये उपद्रव अति मद्यपके होते हैं हुचकी ज्वर ओकाई
देहकांपना पगुड़ियोंमें शूलखांसी भ्रम और वमन २३ ॥
इतिश्रीमाधवनिदानेभायानुवादेमदात्ययनिदानमेकोनविंशम् १६
दोहा ॥ विशयैमहं कहदाहकर सवनिदानकरि ठीक ॥

मदज क्षतज मुख भेदहैं जासुबहुतविधिनीक १

प्रथम मद्यज दाहके लक्षण कहते हैं पित्त रक्तसे युक्तहोकर
जब मदिरा पानकी उष्णता त्वचामें प्राप्तहोतीहै तो घोरदाहको
उत्पन्नकरातीहै इसमें पित्तकेप्रमाणकेयोग्य औषधकरनाचाहिये १
रक्तज व पित्तजदाहके लक्षण—देहभरमें कुपितहोकर रक्त अत्यन्त
दाह करताहै रोगी सुखता जाताहै और पिपासा अधिक लगतीहै

पूर्वो मनोभिधातो विषमाश्च चेष्टाः ४ तैरल्पसत्त्वस्त्रमलाः
 प्रदुष्टा बुद्धेर्निवासं हृदयं प्रदूष्य ॥ स्रोतांस्वधिष्ठाय मनो
 वहानि प्रमोहयंत्याशुनरस्य चेतः ५ धीविभ्रमः सत्त्वपरि
 ष्ववश्च पर्याकुलादृष्टिरधीरता च ॥ अत्र च वाक्यं हृदयं च शू
 न्यं सामान्यमुन्मादगदस्य लिंगम् ६ रूक्षाल्पशीतान्नविरं
 कधातुक्षयोपवासैरनिलोतिवृद्धः ॥ चिन्तादिदुष्टं हृदयं प्रवि
 श्य बुद्धिं स्मृतिं चाप्युपहंति शीघ्रम् ७ अस्थानहास्यस्मित
 नृत्यगीतवागंगविक्षेपणरोदनानि । पारुष्यकाष्ण्यरुण
 वर्णताचर्जीर्णत्रलं चानिलजस्य रूपम् ८ अर्जीर्णकट्वम्ल
 विदाह्यशीतेर्भोज्यैश्चितं पित्तमुदीर्णवेगम् ॥ उन्मादमत्यु
 बलवान् के संग मल्लयुद्धादि करना इत्यादि उन्माद होने के
 कारण हैं ४ इन कारणोंसे अल्पपराक्रमी पुरुष के मल दुष्ट हो जाते
 हैं वे फिर बुद्धिके रहनेके स्थान मनको दूषित करके मनमें लगी
 हुई सब नसोंमें व्याप्त होकर मनुष्यके पित्तको अत्यन्त मोहित क-
 राते हैं ५ उन्माद रोगके सामान्य लक्षण—बुद्धिका विभ्रम होना
 मनकी अचलता दृष्टिकी अस्थिरता अधीर होना भ्रम्य वाँच साँच
 बकना मनकी शून्यता वस ये इस रोग के सामान्य लक्षण हैं ६
 विशेष लक्षण ये हैं रूपा अल्प शीत अन्न दस्तावर अन्न खाने से
 व धातु क्षय होनेसे व उपवास करनेसे पवन अति बद्धके चिन्ता-
 दिकोंसे दूषित हृदयमें प्रवेश करके बुद्धि और स्मरण शक्ति को
 शीघ्र ही नाश कर देता है ७ उनमें वातज उन्माद के लक्षण ये हैं
 विनाकारणके हँसना मुत्तुकराना नाचना गाना भ्रमोंको घुमाना
 मटकाना रोदन करना कठोर काला वा अरुण शरीरकारंग हो जाना
 अन्नपचनेपर रोगकी अधिकता ८ पित्तज उन्माद के लक्षण ये हैं
 अथकज्ञा कटुभा आमिल दाहकारी व शतिल भोजन करने से
 संचित पित्त उफलाकर अल्प उन्मादको बलहीन पुरुष

अमनात्मकस्य हृदि स्थितं पूर्ववदाशुकुर्व्यात् ६ अमर्षसंरंभे
 विनग्नाभावाः संनर्जनाभिद्रवणोष्णरोषाः ॥ प्रच्छायाशी
 तान्नजलाभिलापाः पीताचभाः पित्तकृतस्य लिंगम् १० स
 म्पूरणैर्मंदविचेष्टितस्य सोष्माकफो मर्मणि संप्रवृद्धः ॥ वु
 द्विस्मृतिचाप्युपहंति चित्तं प्रमोहयन्संजनयेद्विकारम् ११
 वाक्चेष्टितं मंदमरोचकश्च नारीविविक्तप्रियताचनिद्रा ॥
 द्यद्दिश्चलालाचत्रलंचभुंक्ते नखादिशौक्ल्यंचकफात्मके
 स्यात् १२ यस्सन्निपातप्रभवो हि घोरः सर्वस्समस्तैस्सतु
 हेतुभिः स्यात् ॥ सर्वाणिरूपाणि विभर्ति तादृक् विरुद्धभै
 पज्यविधिर्विवर्ज्यः १३ चौरैर्नरेन्द्रपुरुषैररिभिस्तथान्यै

शीघ्र उत्पन्न करताहै ६ इसमें असहन शीलता क्रुद्धता नग्न
 होजाना भयदेना भागना शरीर उष्ण रहना रोप बनारहना
 छायामें रहना शीतल अन्नजलकी इच्छा व देहका रंग पीला
 ये सबलक्षण होते हैं १० कफज उन्माद के लक्षण—तृप्तिकारीं
 पदार्थोंके भोजन करने से परिश्रम हीन पुरुषके पित्तयुक्त कफ
 मर्मस्थल में अत्यन्त बढ़कर उसकी वृद्धि और स्मृतिका नाश
 करताहै व सम्मोहित कराताहुआ विकारको उत्पन्नकरताहै ११
 इसमें बोलना थोड़ा होजाताहै भोजनमें अरुचिहोती स्त्री सेवन
 और एकान्त बैठनेमें बड़ी प्रीतिहोती निद्रा अधिकआती घमनहो-
 तामुखसे रालबहाकरती व नखआदिशुक्करहतेहैं कफज उन्मादके
 येहीलक्षणहैं १२ सन्निपातज उन्मादके लक्षण—जो उन्मादसन्नि-
 पातसे उत्पन्नहोताहै वह बड़ा घोरहोताहै क्योंकि चहवातपित्तकफ
 सबके हेतुओंसे उत्पन्नहोताहै इसरोइनसबोंके रूपोंको धारणकर-
 ताहै इसके औषध का विधान उलटाप्रलटा होताहै इससेवैद्यको
 चाहिये कि इसरोगीको छोड़े क्योंकि यह असाध्यहोताहै १३ शोक
 से उत्पन्न उन्माद के लक्षण—जो पुरुष चौरराज पुरुष शत्रु वा

प्रेतानांसदिरातिसंस्तरेपुपिंडान् भ्रान्तात्माजलमापेचा
 पसव्यहस्तः ॥ मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिकामस्तद्ग
 क्तो भवति पितृग्रहाभिजुष्टः २२ यस्तूवर्षीप्रसरतिसर्पव
 त्कदाचित्स्मृक्किण्यौविलिहतिजिक्रयातथैव ॥ क्रोधात्तुर्गु
 ङमधुदुग्धपायसेप्सुर्धिज्ञेयो भवति भुजंगमेन जुष्टः २३
 मांसासृग्धिविधसुराविकारलिप्सुर्निलज्जोभृशमतिनिष्ठ
 रेशितिशूरः ॥ क्रोधात्तुर्धिपुलवलोनिशाविचारीशौचद्विड्
 भवति हिराक्षसाभिजुष्टः २४ उद्धस्तः कृशपरुषो विरुद्ध
 लापीदुर्गोधोभृशमशुचिस्तथातिलोत्तः ॥ बह्वाशीविज

जिसमें हों उसे यक्ष ग्रह से पीड़ित जानना चाहिये २१ पितृ ग्रह
 के लक्षण—जो उन्माद वाला कुश विछाकर उसपर प्रेतोंको पि-
 गड देने लगे सदा भ्रान्त चित्त रहै व जल भी अपसव्यहो भौं-
 गौछालेकर देने लगे मांस खाने की इच्छा करे अथवा तिलगुड
 खीर खाने की अभिलाषाकरे वस जिसके ऐसे लक्षण हों उसे
 पितृग्रहसे पीड़ित जानना चाहिये २२ सर्पग्रहसे सेवित के
 लक्षण—जो मनुष्य कभी२ सर्प के समान पृथ्वीपर लोटते हुये
 चलनेलगे व जिह्वासे गल ऋडे चाटने लगे सदा क्रोधयुक्त बना-
 रहै व गुड मधु दुग्ध खीराखानेकी सदा इच्छा करतारहै वस जि-
 सके ऐसे लक्षणहों उसे सर्पग्रहसे सेवित जानना चाहिये २३
 राक्षस ग्रहसे पीड़ित के लक्षण—जो उन्मादवाला मांस रुधिर व
 त्रिविध प्रकारकी मदिरासे बनेहुये पदार्थोंकी इच्छा करतारहै
 निर्लज्जरहै अत्यन्त निष्ठुर स्वभावहो अति शूरतायुकरहै क्रोध
 युक्तरहै अधिकभलवान् जानपड़े रात्रिमें विचरा करै पवित्रता से
 वैररक्खे-वस जिसके ये लक्षणहों उसे राक्षसोंसे सेवित जानो २४
 पिशाचग्रहसे सेवित के लक्षण—जो उन्मादवाला ऊपरको हाथ
 उठायेरहै दुर्बल कठोरचित्तरहै उल्टी पलटी बहुतसी बातें बका-

नवनांतरोपसेवी व्याचेष्टनश्चमतिरुदन्पिशाचजुष्टः २५
 स्थूलाक्षोद्भुतमटनःसफेनलेहीनिद्रालुः पततिचकंपतेच
 योऽति ॥ यश्चाद्रिद्विरदनगादिविच्युतस्स्यात्सोसाध्यो
 भवतितथात्रयोदशेव्दे २६ देवग्रहाःपूर्णमास्या मसुराः
 संध्ययोरपि ॥ गंधर्वाःप्रायशोष्टम्यां यक्षाश्चप्रतिप्रद्यथ
 २७ पितृग्रहारतथादर्शं पंचम्यामपिचोरगाः ॥ रक्षांसि
 रात्रौपैशाचाश्चतुर्दश्यांविशंतिच २८ दर्पणादीनूयथा
 छाया शीतोष्णंप्राणिनोयथा ॥ स्वमणिभास्कारार्च्चिश्च
 यथादेहंचदेहधृक् ॥ विशंतिनचदृश्यंते ग्रहारतद्वच्चरी
 रिणाम् २९ (प्रविश्याशुशरीरंहिपीडां कुर्वंतिदुस्सहा

करै उसके शरीरसे दुर्गन्ध आया करै व अत्यन्त अपवित्र रहै व
 बड़ाचञ्चल चित्त रहै भोजन बहुतकरै निर्जनस्थान बनादिका
 बैठना प्रसन्नकरै व इ वरउधर रीतेहुये घूमतारहै वस जिसकेऐसे
 लक्षणहों उसेपिशाच सेवितजानो २५ इसके विशेष लक्षणनेत्र
 मोटे बहुतगीघ्र दौड़ताफिरे फेनासहित पदार्थों को चाटे बहुधा
 सोयाकरै बहुधाचलते २ गिरपड़े वा काँपने लगैहाथी वृक्षपर्वत
 पर चढ़के गिरनाचाहे इसप्रकार १३ वर्षतकरहै तो वह उन्मादी
 असम्य होजाताहै २६ देवग्रहोंकेग्रहणकरने के लक्षण—देवग्रह
 बहुधा पूर्णमासीको लगते हैं दैत्य दोनोंसन्ध्याओंमेंगन्धर्व बहु-
 धा अष्टमीको व यक्षप्रतिपदाको २७ व पितृग्रह बहुधा अमावा-
 स्याको प्रवेश करते हैं व सर्पग्रह पञ्चमी को राक्षस रात्रिमें व
 पिशाच बहुधा चतुर्दशी को प्रवेश करते हैं २८ दर्पणादिकों में
 जैरो छाया प्रवेश करती है परउसका रूपनहीं दिखाईदेतावजैसे
 शीत गर्मी मनुष्यादिकों के शरीरमें व्याप्त होजाती है परदिखाई
 नहींदेती जैसे सूर्यक्रांति मणिमें सूर्यके किरण प्रवेश करजाते
 हैं पर उनका रूपनहीं दिखाई देता जैसे देह में जीवरहताहै पर

देवेवर्षत्यपियथाभूमौबीजानिकानिचित् ॥ शरदिप्रति
रोहन्ति तथाव्याधिसमुद्भवः ६ ॥ इत्यपस्मारनिदानम् ॥

रूक्षशीताल्पलघ्वन्न व्यवायातिप्रजागरैः ॥ विपमा
दुपचाराच्च दोपासृक्श्रवणादपि १ लंघनप्लवनात्यध्व
व्यायामातिविचेष्टितैः ॥ धातूनांसंक्षयाञ्चिता शोक्रो
गादिकर्षणात् २ वेगसंधारणादामादभिघातादभोज

मल कोपकरके पित्तवालेको पन्द्रहें दिन मृगीभाती है वातवाले
को चारहेंदिन व कफवालेको महिनये भरपर यद्यपि ऐसा निय-
म बाँधाहै पर कभी २ नियत समयसे प्रथम व पीछेभी आजा-
ती है इसलिये इसका ठीक २ नियमनहीं होसक्ता ८ जैसे मेघ
वरसते भी रहते हैं पर बहुत से बीज पृथ्वी पर शरद ऋतुमेंही
जमते हैं वर्षा में नहीं ऐसेही रोगभी अपने समयपरही उत्पन्न
होतेहैं सदा नहीं होते ६ ॥

इतिश्रीसाधवनिदानेभाषानुवादेऽपस्माररोगनिदान

न्दाविंशतितमम् ॥ २२ ॥

दोहा ॥ तेइसयें महँ कह सकल वातव्याधि निदान ॥

देखहिं सुजन लगायचित अरुत्यहिकराहिंप्रमान १

अथ वातव्याधि निदानम्-रूपा शीतल थोड़ा व हलका अन्न
खानेसे अति मैथुनकरने से अत्यन्त जागने से भवेर सवेर कुसम-
यपर भोजन करने से कफ पित्तमल मूत्र रुधिर आदि एकाएकी
बहुत निकालडालने से १ खावाँ आदि लाँघने से ऊँचे पर से
नीचे कूदनेसे वा नीचेसे ऊँचेको उछलने से अति मार्ग चलनेसे
दण्ड मुद्गर कुश्ती आदि बहुतकरने से करचरणादि के अति
विरुद्ध चलाने से रसरक्तादि धातुओंके बहुत क्षयहोने से चिन्ता
रोग शोकादिकोंसे अति दुर्बलहोजाने से २ मलमूत्र के वेग के
रोकने से आमहोने से सुकुमारस्थान में चोटलगजाने से अच्छे

नात् ॥ मर्मवाधाद्गजोष्ठांश्चशीघ्रमानादिसेवनान् ३
 देहेस्त्रोतांसिरिक्तानि पूरयित्वा निलोबली ॥ करोतिविवि
 धानुव्याधीन् सर्वरोगैकांगसंश्रयान् ४ अव्यक्तलक्षणं
 तेषां पूर्वरूपमिति स्मृतम् ॥ आत्मरूपं तु यद् व्यक्तं मपा
 योलघुतापुनः ५ संकोचः पर्वणांस्तंभो भंगोरथनां पर्वणाम
 पि ॥ लोमहर्षः प्रलापश्च पाणिपृष्ठशिरोग्रहः ६ स्वांज्यपां
 गुल्यंकुब्जत्वं शोथो गानामनिद्रता ॥ गर्भशुक्ररजोनाशः
 स्पंदनं गात्रसुप्ततां ७ शिरोनाशाक्षियत्रूणां ग्रीवायाश्चापि

भले चंगे होने में उपास करने से सुकुमार स्थल में किसी बल-
 वानका धक्का लग जाने से हाथी ऊँट घोड़े आदि पर चढ़कर बहुत
 दौड़ने से ३ इन सब कारणों से बलवान् वायु देहकी सब
 खाली नसों को भरके विविध प्रकार के बात रोगों को करता है
 सो चाहे सब अंगोंमें एकाएकी करता है चाहे किसी एकही अंगमें
 करता है ४ बात व्याधिका पूर्वरूप—उन बात व्याधियों के जो
 अप्रकटलक्षण कहे हैं उन्हींका पूर्वरूपनाम है व जो उनका प्र-
 कटरूप है वह आत्मरूपकहाता है कहीं वायुको परकरके नाशही
 करदेता है कभी २ रोगकी लघुता करता है ५ जैसे कि इसरोगमें
 अंग सिकुड़जाते हैं जोड़ोंका हिलना चलना झुकना बन्दहो
 जाता है हड्डियां टूटने लगती हैं जोड़भी टूटने लगते हैं रोमखड़े
 हो २ जाते हैं अनर्थ बकर प्राणी करने लगता है हाथ पीठ शिर
 जकड़जाते हैं ६ लँगड़ा पँगुला व कुबड़ा रोगी होजाता है अंगों
 में शोथ आजाता है निद्रानहीं आती स्त्री हो तो उसके गर्भकी
 धारणा नहीं होती पुरुषका वीर्य नष्टहो जाता स्त्रीका रजोदर्शन
 बन्दहोजाता है गात्र कुछ चलायमान होते रहते हैं कभी २ अंग
 बनाय सोजाते हैं किञ्चिन्मात्र भी चलायमान नहीं होते ७ शिर
 नाशिका नेत्र हँसिया गला ये सब टेढ़ेहोजाते हैं व ये टूटते भी

हुण्डनम् ॥ भेदस्तोदात्तिराक्षेपोमोहश्चायासएवच= (ए
 वंविधानिरूपाणि करोतिकुपितोनिलः ॥ हेतुस्थानविशे
 षाच्च भवेद्रोगविशेषकृत ६) तत्रकोष्ठाश्रितेदुष्टे निग्रहो
 मूत्रवर्चसोः ॥ वर्धमहद्रोगगुल्मार्शः पार्श्वशूलचमारुते
 १० सर्वांगकुपितेवाते गात्रस्फुरणभंजने ॥ वेदनाभिःप
 रीताश्चस्फुरन्तीवास्यसन्धयः ११ ग्रहोविण्मूत्रवातानां
 शूलाधमानाश्मशर्कराः ॥ जंघोरुत्रिकहृत्पृष्ठ रोगशोफौ
 गुदस्थिते १२ रुक्पाश्वोदरहृत्त्राभौ तृष्णोद्गारविसूचि
 काः ॥ काशोहृत्कण्ठशोषश्च श्वासश्चामाशयस्थिते १३

रहते हैं कोंचने कीसी पीड़ाहोती चिलकने की पीड़ाहोती अंग
 फ़ैलते नहीं मोह और भ्रम बनारहता है = कोष्ठ में रहनेवाले
 वायु के कार्य्य जब कोठे का वायु दुष्ट होजाताहै तो मलमूत्र
 का अवरोध होजाता है दिशा पेशाव नहीं उतरता अण्डवृद्धि
 हृदयरोग पिलही वायु गोलादि गुल्म रोग ववाशीर पशुलियोंमें
 शूल येसवरोग होते हैं ६-१० सबअंगोंके कुपित वायुके कार्य्यये
 हैं जबसब अंगों में टिकाहुआ वायु कोप करताहै तो अंगफरकने
 लगतेहैं व टूटने लगतेहैं व पीड़ाओंसे युक्तसी सब संधियां फूटने
 टूटने लगतीहैं ११ गुदमें स्थित पवनकेकार्य्य जबगुदमें टिकाहुआ
 पवन दुष्टहोजाताहै तो विष्ठा मूत्रव अधोवायुका अवरोधहोजाता
 है शूलहोती पेटफूलता पथरीरोगहोता शर्करारोगदूरहोता जंघा
 ऊरू पखौड़े की सन्धि हृदय पीठ इनमें शोथ ये सब होते हैं-१२
 आमाशयमें टिके हुये वायुके कार्य्य जब आमाशयका वायु दुष्ट
 होजाता है तो पशुली पेटहृदय व नाभिमें पीड़ाहोताहै पिपासा
 अधिक लगतीहै उबकाई आती है विसूचिका जिसे महामारी
 और हैजा भी कहतेहैं होतीहै खांसीआती हृदय व कण्ठ सूखता
 जाता है व श्वास भी आने लगताहै १३ व पफाशय में टिके

पक्वाशयस्थोत्रकूजं शूलाटोपीकरोति च ॥ कृच्छ्रमूत्रपुरी-
षत्वमानाहंत्रिकवेदनाम् १४ श्रोत्रादिष्विन्द्रियबंधं कुर्यात्
क्रुद्धः समीरणः ॥ त्वग्रूक्षास्फुटितासुप्ता कृशाकृष्णा चतुद्य-
ते ॥ आतन्यते स रोगा च सर्वरुक्त्वग्गतेनिले १५ रुज
स्तीन्त्राः ससंतपिवैवर्ण्यं कृशतारुचिः ॥ गात्रे चारूषिभु-
क्तस्य स्तंभश्चासृग्गतेनिले १६ गुर्वंगंतुद्यते स्तब्धदंडं
मुष्टिहृतं यथा ॥ सरुक्श्मितिर्मर्त्यर्थं मांसमेदोगतेनिले १७

हुये वायुके कार्य्ये जब पक्वाशय में टिकाहुआ वायु दुष्ट होजाता
है तो पेट घलघलाने लगता है शूलहोती मलमूत्र बड़ी कठिनता
से उतरता है पेट फूला बना रहता पखौड़ों के जोड़ों में पीड़ा
होती है १४ कान आदि इन्द्रियों में टिकेहुये वायुके कार्य्ये कान
नेत्र नासिका मुख आदि इन्द्रियों में टिके हुये वायु जब कोप
करते हैं तो अपने २ स्थानों का नाश करते हैं रस धातु में प्राप्त
वायुके लक्षण—जब त्वचारूप रसमें रहनेवाला पवन दुष्ट होजाता
तो त्वचारूपी होजाती है मानो फटी जाती है काटने से उसमें
कुछ जाननेही पड़ता व दुर्बल होजाती है काली होजाती फिर
कोई उसमें मानो काँचने लगता है तन उठती है वा लाल भी
होजाती है व सेवअंगोंके ऊपरकी खाल में पीड़ाहोने लगती है १५
रक्तमें गत वायुके लक्षण—जब रुधिर में गतवायु दुष्ट होजाता है
तो सन्ताप सहित अति तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है देह में विव-
र्णता होजाती है दुर्बलता आजाती व अरुचि होजाती है भोजन
करने पर अंगों में पीड़ा होने लगती व पेट जकडसा जाता
है १६ मांसगत पवनके लक्षण—जब मांस व मेदा में दुष्टपवन
प्रवेश करता है तो बहुत अंगमें काँचने कीसी पीड़ा होती है व
अंग जकड जाते हैं दण्ड व मुकाके मारने कीसी पीड़ा होने
लगती है हाथ पैर उठते पसरते नहीं ऐसे अचल होजाते

मेदोस्थिपर्वणांसंधौशलंमांसवलक्षयः ॥ अस्वप्नःसत-
 तंरुकचमज्जास्थेकुपितेनिलः १८ क्षिप्रमुंचतिवध्नाति-
 शुक्रगर्भमथापिवा ॥ विकृतिजनयेच्चापिशुक्रस्थःकुपि-
 तोनिलः १९ कुर्याच्छिरोगतःशलशिराकुचनपूरणम् ॥ स-
 वाह्याभ्यंतसायामखल्लीकुञ्जत्वमेवच २० सर्वांगैका-
 गरोगाश्चकुर्यात्स्नायुगतोनिलः ॥ हंतिसंधिगतःसं-
 धीन्शलशोफो करोतिच २१ प्राणपित्तावृतेश्चिदाहश्चै-
 वोपजायते ॥ दौर्बल्यंसदनंतद्रावैरस्यंचकफावृते २२

है १७ मज्जामें स्थित वायुके लक्षण—जब मज्जामें स्थितपवन
 दुष्ट होजाता है तो हड्डियों व सन्धियों में पीडा होती है व
 जोड़ों में शूल होती है मांस व बलका नाश होताहै निद्रा नहीं
 आती व निरन्तर सब अंगों में पीडा हुआ करती है १८
 शुक्रगत वायु के लक्षण—जब शुक्रमें स्थित होके वायु काप कर-
 ता है तो पुरुष-वा स्त्री का धातुशीघ्रही गिर पडता है व स्त्री को
 गर्भ शीघ्रही धारण कराता है व गर्भ व धातुमें कुछ विकार उ-
 त्पन्न कराताहै १९ नसमें प्राप्त कुपित वायुके लक्षण—जबनस
 में कुपित वायु स्थितहोताहै तोशूल को उत्पन्नकराता है व नस
 को जकड़ाता व फुलाताहै बाहरभीतर दोनों ओर को नस फूल
 उठती है कुबड़ापन भी करता है व खल्लीरोगको करता है २०
 स्नायु व सन्धिगत वायुके लक्षण—स्नायु में गत संकुपित वायु
 सबअंगोंमें अथवा एकही किसी अंगमें रोगको करताहै व सन्धि
 अर्थात् जोड़ोंमें स्थित पवन जोड़ोंमें शूल और शोथको करता
 है २१ प्राण वायु जब पित्तसे आच्छादित होजाताहै तो वमन
 और दाहको उत्पन्नकराताहै व जब कफसे वही प्राणवायु आच्छो-
 दितहोताहै तो दुर्बलता ग्लानि तन्द्रा व मुखको विरसताको
 करताहै २२ जब उदानवायु पित्तसे आच्छादित होता है तो श-

उदानेपित्तसंयुक्तेदाहामूच्छ्रांभ्रमःकुमः॥ अस्वदहर्षामदा-
ग्निःशीतताचक्रफावृते २३ स्वददाहोष्णामच्छ्राःस्युःस-
मानेपित्तसंयुते ॥ कफेनसंगोविणमत्रेगात्रहर्षश्चजायते
२४ अपानेपित्तयुक्ततुदाहोष्णयरक्तमत्रता ॥ अद्धकाये
गुरुत्वञ्चशीतताचक्रफावृते २५ व्यानेपित्तावृतेदाहोष्णा-
त्रविक्षेपणकुमः ॥ स्तम्भनादडकञ्चापिशोथश्लोकफा-
वृते २६ यदातुधमनीस्सर्वाःकुपितोभ्येतिमारुतः ॥ त-
दाक्षिपत्याशुमुहुमुहुर्देहमुहुस्स्वरः ॥ मुहुमुहुस्तदाक्षेपादा-
क्षेप्रकइतिस्मृतः २७ कुद्धस्त्रैःकोपनेर्वायुस्थानादूर्ध्वप्र-

रीरमें दाह मूच्छ्रांभ्रम व ग्लानिहोताहै व जब वही उदानवायु
कफसे आच्छादित होताहै तो पसीना नहीं निकलता पर रीमे
खड़े होजातेहै मन्दाग्नि होजाताहै व शरीरमें शीतलता होजा-
तीहै २३ जब समानवायु पित्तसे संयुक्त होताहै तो पसीना
दाह उष्णता व मूच्छ्रां ये सर्व होतेहै व जब कफकेसंग समान
वायुका संयोग होताहै तो विष्ठा मूत्र अधिक होते और रीमेख-
ड़ेहोजाते हैं २४ जब अपानवायु पित्त से संयुक्त होता है तो दाह
उष्णताहोती और लालपेशाब होताहै वा रक्तही मूतताहै व जब
कफसे वही अपानवायु आच्छादित होता है तो आधशरीरमें गर-
आपन रहताहै और उसी आधेशरीरमें शीतलताभी रहतीहै २५
व व्यानवायु जब पित्त से आच्छादित होताहै तो शरीर में दाह
भंगों में फटक व ग्लानिहोताहै जब वही व्यान कफसे युक्तहोती
है तो शरीरमें स्तम्भन सृजन और शूलहीतीहै २६ जब पवन
कुपितहोकर सबनसोंमें प्रसिंहोताहै तब वह प्राणी वार २ अपने
देहको फटकने लगताहै व वार २ उछालताहै इसीसे इसरोगको
आक्षेपकनामहै २७ वही आक्षेपक वायु जब अपने कोपकराने
वालोंसे क्रुद्धहोताहै तो अपने स्थानसे ऊंचेकी चलताहै फिर

पद्यते ॥ पीडयन् हृदयं गत्वा शिरःशंखौ च पीडयेत् २८ ध-
 नुर्वन्नामयेद्रात्रा एयाक्षिपेन्मोहयेत्तथा ॥ सकृच्छ्रादुच्छ्वसे
 च्चापिस्तब्धाक्षोथनिमीलकः २९ कपोतइव कूजे च्चनिः
 संज्ञः सोपतंत्रकः ॥ दृष्टिसस्तभ्यसंज्ञा च हत्वा कठेन कूजति
 ३० हृदि मुक्तेनरः स्वास्थ्ययाति मोहवृते पुनः ॥ वायुनादारु
 णं प्राहुरेकेतमपतानकम् ३१ कफान्वितो भृशं वायुस्ता-
 स्वेव यदि तिष्ठति ॥ सदंडवत्स्तभयति कृच्छ्रोदंडापतान
 कः ३२ मर्माश्रितत्रणं प्राप्य वायुर्यस्य सर्वदेहगः ॥

हृदयको पीडित करातेहुये ऊपरजाकर शिर और कनपटीको
 पीडित कराता है २८ व ध-वा के तुल्य-देहको त्रवाता है फिर उ-
 छालताहुआ अंगोंको मोहित कराता है यहाँतक कि वह रोगी
 बड़ेकष्टसे ऊपरको श्वासलेता है नेत्र उसके अचलहोजाते बड़ी
 देरतक पलक नहींमारसका फिर नेत्र मूँदलेता है ३९ व कबूतर
 कीनाई कूजेने लगता है फिर मूर्च्छित होजाता है इसरोगको अप-
 तन्त्रक कहते हैं फिर जब मूर्च्छाजागती है तो दृष्टिको अकटक
 करलेता है और गलाघरघराने लगता है ३० जब वायु हृदय
 को छोड़देता है तो फिर रोगीको ज्ञानहोजाता है जब फिर वायु
 हृदय में व्याप्त होजाता है तो फिर मोहित होजाता है वायु के
 कारण इस रोगको लोग बड़ा दारुण कहते हैं कोई इस रोग
 को अपतानकरोग कहते हैं ३१ दण्डापतानक रोगके लक्ष-
 ण-कफयुक्त होकर वायु अत्यन्त कोपकरके जब सब नसों में
 ठहरता है तब दण्डकीनाई सब देहभरको जकड़कर कड़ाकरदेता
 है इससे इसरोगका दण्डापतानक नामहै व यह बड़ेकष्टसे साध्य
 होता है ३२ सब शरीर में जो व्यानवायु रहता है वह जब सुकु-
 मारस्थानों के त्रणमें पहुँचता है तो अपने वेगोंसे देहको झुँका
 देता है इसरोगको त्रणायाम कहते हैं यह असाध्यहोता इससे

वेगोरानमयेद्देहं व्रणायामन्तु तन्त्यजेत् ३३ धनुस्तुल्यं
 मेघस्तु सधनुस्तभसजितः ॥ अंगुली गुल्फजठरहृद्दक्षो
 गलसंश्रितः ॥ स्नायुप्रतानमनिलायदाक्षिपतिवेगवान्
 ३४ विष्टव्याक्षस्तब्धहनुभग्नपाश्वः कफवमन् ॥ अभ्य
 तरधनुरिवयदानमात्मानवः ॥ तदासाभ्यतरायामकुरु
 तेमारुतोवली ३५ बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करो-
 ति च ॥ तमसाध्यवुधाः प्राहुः कटीपाश्वोरुभजनम् ३६
 (हृदयं यदि वा पृष्ठमुन्नतं क्रमशस्सरुक् ॥ क्रुद्धो वायुर्यदा
 कुर्यात्तदा तं कुब्जमादिशेत्) कफपित्तान्वितो वायुर्वायु

वैद्यकी चाहिये कि इसे छोड़ दे ३ जो वायु कफ मिश्रित होकर
 नसोंके भीतर चलाकरता है चलते २ फिर नसोंके मुख बन्दकर
 देता है तब देह धन्वाके आकार तनिजाता है इसलिये इसरोगको
 धनुस्तम्भ कहते हैं अन्तरायामके लक्षण—अंगुली घुटना पेट हृ-
 दय छाती व गला इनस्थानोंमें आकर वेगवान् वायु इनकी नसों
 को जालतुल्य तानदेता है ३४ तब उसके नेत्र तनजाते हैं दाढ़ी
 जकड़जाती है व पशुडियाँ मुड़जाती हैं व मुखसे कफ उगिलने
 लगता है व भीतर उसमनुष्यका धन्वाकार कुंकनेलगता है तब
 वह वली पवन अभ्यन्तरायामनाम रोगको उत्पन्न करता है ३५
 बाह्यायामके लक्षण ये हैं बाहरकी नसोंमें जो पतलीनसे होती है
 उनमें जाकर वायु बाह्यायामनाम रोगको करता है यह रोग कटि
 पशुली और फोलीको तोड़ता है व पण्डित लोग इसको असाध्य
 कहते हैं ३६ कफ पित्तयुक्त वायु वा केवलही वायु आक्षेपरोग
 को उत्पन्न करता है इसके लक्षण २७ वाले श्लोक में कहचुके हैं
 व दूसरा दण्डापतानका वि रोगोंको उत्पन्न करता है व चौथा अ-
 भिघातज आक्षेपक रोगकरता है ये आक्षेपक चार प्रकारके होते हैं
 एक कफान्वितवायु दूसरा पित्तान्वितवायु तीसरा केवल वायु

पद्यते ॥ पीडयन् हृदयं गत्या शिरः शंखौ च पीडयेत् २८ ध-
 नुवन्नामयेद्रात्राण्याक्षिपन् मोहयेत् तथा ॥ सकृच्छ्रादुच्छ्रस
 च्चापिस्तब्धाक्षोथनिमीलकः २९ कपोतइव कूजचचनिः
 संज्ञः सोपतंत्रकः ॥ दृष्टिसस्तभ्यसंज्ञा च हत्वा कठेन कूजति
 ३० हृदि मुक्तेनरः स्वास्थ्ययाति माहृते पुनः ॥ वायुनादारु
 णं प्राहुरेकेतमपतानकम् ३१ कफान्विता भृशं वायुस्ता-
 स्वेव यदि तिष्ठति ॥ सदृशवत्स्तंभयति कृच्छ्रादं डापतान
 कः ३२ मर्माश्रितं व्रणं प्राप्य वायुर्ध्वं सर्वदेहगः ॥

हृदयको पीडित करातेहुये उपरजाकर शिर और कनपटीको
 पीडित कराता है २८ व धन्वा के तुल्य देहको नवाता है फिर उ-
 छालताहुआ अंगोंको मोहित कराता है यहां तक कि वह रोगी
 बड़ेकपटेसे उपरको श्वासलेता है नेत्र उसके अचल होजाते बड़ी
 देर तक पलक नहीं मारसका फिर नेत्र मूंदलेता है २९ व कूजतर
 कीनाई कुजने लगता है फिर मूर्च्छित होजाता है इसरोगको अप-
 तन्त्रक कहते हैं फिर जब मूर्च्छाजागती है तो दृष्टिको अकटक
 करलेता है और गलाघरघराने लगता है ३० जब वायु हृदय
 को छोड़देता है तो फिर रोगीको ज्ञानहोजाता है जब फिर वायु
 हृदय में व्याप्त होजाता है तो फिर मोहित होजाता है वायुके
 कारण इस रोगको लोग बड़ा दारुण कहते हैं कोई इस रोग
 को अपतानकरोग कहते हैं ३१ दगडापतानक रोगके लक्ष-
 ण—कफयुक्त होकर वायु अत्यन्त कोपकरके जब सब नसों में
 ठहरता है तब दगडकीनाई सब देहभरको जकड़कर कड़ाकरदेता
 है इससे इसरोगका दगडापतानक नामहै व यह बड़ेकपटेसे साध्य
 होता है ३२ सब शरीर में जो व्यानवायु रहता है वह जब सुकु-
 मारस्थानों के व्रणमें पहुँचता है तो अपने वेगोंसे देहको झुँका
 देता है इसरोगको व्रणायाम कहते हैं यह असाध्यहोता इससे

वेगेरानमयेद्देहं व्रणाग्रामन्तुतन्त्यजेत् ३३ धनुस्तुल्यं न
 मेघस्तुसधनुस्तभसंज्ञितः ॥ अंगुलीगुल्फजठरहृक्षो
 गलसंश्रितः ॥ स्नायुप्रतानमनिलोद्यदाक्षिपतिवेगवान्
 ३४ विष्टव्राक्षस्तब्धहनुभङ्गनपाश्वः कफवमन् ॥ अभ्य
 तरंधनुरिवयदानमतिमानवः ॥ तदासोभ्यतरायामंकुरु
 तेमारुतोवली ३५ बाह्यस्नायुप्रतानस्थोवाह्यायामंकरो-
 तिच ॥ तमसाध्यं वृधाः प्राहुः कटीपाश्वोरुभजनम् ३६
 (हृदयं यदिवापृष्ठमुन्नतं क्रमशस्सरुक ॥ क्रुद्धोवायुर्यदा
 कुर्यात्तदातंकुब्जमादिशेत्) कफपित्तान्वितोवायुर्वायु

वैद्यकी चाहिये कि इसे छोड़ दे ३३ जो वायु कफ मिश्रित होकर
 नसोंके भीतर चलाकरता है चलते २ फिर नसोंके मुख बन्दकर
 देता है तब देह धन्वाके आकार तनिजाता है इसलिये इसरोगको
 धनुस्तम्भ कहते हैं अन्तरायामके लक्षण—अंगुली घुटना पेट हृ-
 दय छाती व गला इनस्थानोंमें आकर वेगवान् वायु इनकी नसों
 को जालतुल्य तानदेता है ३४ तब उसके नेत्र तनजाते हैं दाढ़ी
 जकड़जाती है व पशुडियाँ मुडजाती हैं व मुखसे कफ उगिलने
 लगता है व भीतर उसमनुष्यका धन्वाकार कुंकनेलगता है तब
 वह वली पवन अभ्यन्तरायामनाम रोगको उत्पन्न करता है ३५
 बाह्यायामके लक्षण ये हैं बाहरकी नसोंमें जो पतलीनसे होती है
 उनमें जाकर वायु बाह्यायामनाम रोगको करता है यहरोग कटि
 पशुली और फीलीको तोडता है व पण्डितलोग इसको असाध्य
 कहते हैं ३६ कफ पित्तयुक्त वायु वा केवलही वायु आक्षेपरोग
 को उत्पन्नकरता है इसके लक्षण २७ वाले श्लोक में कहचुकेहैं
 व दूसरा दण्डापतानकादि रोगोंको उत्पन्नकरता है व चौथा अ-
 भिघातज आक्षेपरु रोगकरता है ये आक्षेपक चारप्रकारके होते हैं
 एककफान्वितवायु दूसरा पित्तान्वितवायु तीसरा केवल वायु

पद्यते ॥ पीडयन् हृदयं गत्वा शिरःशंखौ च पीडयेत् २८ ध-
 नुर्वन्नामयेद्वात्राप्याक्षिपेन्मोहयेत्तथा ॥ सकृच्छ्रादुच्छ्वसे
 च्चापिस्तब्धाक्षोथनिमीलकः २९ कपोतइवकूजेच्चनिः
 संज्ञःसोपतंत्रकः ॥ दृष्टिसंस्तभ्यसंज्ञाचहत्वाकठेनकूजति
 ३० हृदिमुक्तेनरःस्वास्थ्ययातिमोहयतेपुनः ॥ वायुनादारु
 णंप्राहुरेकेतमपतानकम् ३१ कफान्वितोभृशंवायुस्ता-
 स्वेवयदितिष्ठति ॥ सदंडवत्स्तंभयतिकृच्छ्रादंडापतान
 कः ३२ मर्माश्रितंत्रणंप्राप्यवायुर्यस्सर्वदेहगः ॥

हृदयको पीडित करातेहुये ऊपरजाकर शिर और कनपटीको
 पीडित कराता है २८ व धन्वा के तुल्य देहको जवाता है फिर उ-
 छालताहुआ अंगोंको मोहित कराता है यहाँतक कि वह रोगी
 बड़ेकपटे ऊपरको श्वासलेताहै नेत्र उसके अचलहोजाते बड़ी
 देरतक पलक नहींमारसका फिर नेत्र मूँदलेताहै ३९ व कूजेतर
 कीनाई कूजेने लगताहै फिर मूर्च्छित होजाताहै इसरोगको अप-
 तन्त्रक कहतेहैं फिर जब मूर्च्छाजागती है तो दृष्टिको अकटक
 करलेताहै और गलाघरघराने लगताहै ३० जब वायु हृदय
 को छोड़देताहै तो फिर रोगीको ज्ञानहोजाताहै जब फिर वायु
 हृदय में व्याप्त होजाता है तो फिर मोहित होजाता है वायुके
 कारण इस रोगको लोग बड़ा दारुण कहते हैं कोई इस रोग
 को अपतानकरोग कहते हैं ३१ दण्डापतानक रोगके लक्ष-
 ण—कफयुक्त होकर वायु अस्यन्त कोपकरके जब सब नसों में
 ठहरताहै तब दण्डकीनाई सब देहभरको जकड़कर कड़ाकरदेता
 है इससे इसरोगका दण्डापतानक नामहै व यह बड़ेकपटे साध्य
 होताहै ३२ सब शरीर में जो व्यानवायु रहताहै वह जब सुकु-
 मारस्थानों के व्रणमें पहुँचताहै तो अपने वेगोंसे देहको झँका
 देता है इसरोगको व्रणायाम कहते हैं यह असाध्यहोता इससे

वेगेरानमयेद्देहं व्रणायामन्तुतन्त्यजेत् ३३ धनुस्तुल्यं न
 मेद्यस्तुसधनुस्तभसंज्ञितः ॥ अंगुलीगुल्फजठरहृद्क्षो
 गस्तसंश्रितः ॥ स्नायुप्रतानमनिलाद्यदाक्षिपतिवेगवान्
 ३४ विष्ट्वधाक्षस्तब्धहनुर्भग्नपाश्वः कफवमन् ॥ अभ्य
 तरंधनुखिवयदानमतिमानवः ॥ तदासोभ्यंतरायामंकुरु
 तेमारुतोबली ३५ बाह्यस्नायुप्रतानस्थोवाह्यायामंकरो-
 तिच ॥ तमसाध्यंबुधाः प्राहुः कटीपाश्वोरुर्भजनम् ३६
 (हृदयं यदिवापृष्ठमुन्नतं क्रमशस्सरुक् ॥ क्रुद्धोवायुर्यदा
 कुर्यात्तदातंकुब्जमादिशेत्) कफपित्तान्वितोवायुर्वायु

वैद्यकी चाहिये कि इसे छोड़ दे ३३ जो वायु कफ मिश्रित होकर
 नसोंके भीतर चलाकरता है चलते २ फिर नसोंके मुख बन्दकर
 देता है तब देह धन्वाके आकार तनिजाता है इसलिये इसरोगको
 धनुस्तम्भ कहते हैं अन्तरायामके लक्षण—अंगुली घुटना पेट ह-
 दय छाती व गला इनस्थानोंमें आकर वेगवान् वायु इनकीनसों
 को जालतुर्य तानदेता है ३४ तब उसके नेत्र तनजाते हैं दाढ़ी
 जकड़जाती है व पशुडिर्घी मुडजाती है व मुखसे कफ उगिलने
 लगता है व भीतर उसमनुष्यका धन्वाकार भूकनेलगता है तब
 वह बली पवन अभ्यन्तरायामनाम रोगको उत्पन्न करता है ३५
 बाह्यायामके लक्षण ये हैं बाहरकी नसोंमें जो पतलीनसें होती हैं
 उनमें जाकर वायु बाह्यायामनाम रोगको करता है यहरोग कटि
 पशुली और फीलीको तोडता है व पण्डितलोग इसको असाध्य
 कहते हैं ३६ कफ पित्तयुक्त वायु वा केवलही वायु आक्षेपरोग
 को उत्पन्नकरता है इसके लक्षण २७ वाले श्लोक में कहचुकेहैं
 व दूसरा दण्डापतानकादि रोगोंको उत्पन्नकरता है व चौथा अ-
 भिघातज आक्षेपरु रोगकरता है ये आक्षेपक चारप्रकारके होते हैं
 एककफान्वितवायु दूसरा पित्तान्वितवायु तीसरा केवल वायु

रेवचकेवलः ॥ कुर्यादाक्षेपकत्वन्व्यचतुर्थमभिघातजम् ३७
 गर्भपातनिमित्तश्चशोणितातिस्रवाच्चयः ॥ अभिघात
 निमित्तश्चनसिध्यत्यपतानकः ३८ ग्रहीत्वाद्धेतनवायुः
 शिरास्नायुविशोष्यच ॥ पक्षमन्यतरहृत्तिसधिवन्धान्वि
 मोक्षयत ३९ कृत्स्नाद्धिकायस्तस्यस्यादकर्मण्योविचेत-
 नः ॥ एकांगरोगतकेचिदन्येयक्षत्रधविदुः ४० सर्वांगरा-
 गतकेचित्सर्वकायाश्रितेनिले ॥ दाहसन्तापमूच्छास्स्यु
 र्वायुपित्तसमन्विते ॥ शैत्यशोफगुरुत्वानि तस्मिन्नेवक
 फावृते ४१ शुद्धवातहतम्पक्षकृच्छ्रसाध्यतमविदुः ॥ सा
 ध्यमन्येनसंसृष्टमसाध्यक्षयहेतुकम् ४२ गर्भिणीसूति

व चौथा दण्डाभिघात आक्षेप ३७ इसके असाध्यलक्षण—गर्भ
 पातही जिसका निमित्तहै अथवा जो अति रुधिर बहने से होता
 वा जो लाठी दण्डा आदि के अभिघातसे होता ऐसा अपतानक
 रोग साध्यनही होताहै ३८ वायुदेहके आधे भागमें फिरकरदानों
 प्रकारकी मोटी मझाली नसोंको सुखाकर दहिने वा वायु आधे
 शरीरको नष्टकरदे उसमेंकुछशक्तिनरखे ३९ यहाँतक कि उसका
 सम्पूर्ण आधाअंग ऐसाअचेत होजाय कि कुछभी कर्म न करसके
 तो उसको कोई एकांगरोग कहते हैं व कोई २ पक्षध्रुवापक्षाघात
 कहते हैं ४० ऐसेही जबसब अंगोंमें वायु व्याप्तहोजाय और सब
 अंगमारजानेसे सूखजायें तो उसे सर्वांगरोग कहते हैं वह वायु
 जबपित्तयुक्त होकर सबनसोंमें व्याप्तहोता है तो दाह सन्ताप व
 मूच्छा होती है व जब कफ युक्त होता है तो शीतलता शोथ व
 अंगों में गरुआपन होता है ४१ जो शुद्ध वातसे पक्षाघात होता
 है वह अतिशय कष्ट साध्य होता है व जब अन्य किसी पित्त
 कफ से युक्त होता है तब साध्य होता है और जब तीनों एक
 संग होजाते हैं तो असाध्यहोतेहै ४२ गर्भिणी सूतिका बालवृद्ध

कावालवृद्धश्रीणेष्वसृकक्षये ॥ पश्चाद्यत्तम्परिहरेद्वेदनाः
 रहितो यदि ४३ उच्चैर्व्याहस्तोऽत्यर्थं खादतः कठिनानि
 च ॥ हसतो जृम्भमाणस्य विषमाच्छयतादपि ४४ शि-
 रोनासौष्ठुचिबुकललाटेश्चणसंधिगः ॥ वर्त्तमानो निलस्ते
 षु वक्त्रममर्दयति द्रुतम् ४५ (तस्याग्रजोरोमहर्षो वैपशु
 नेत्रमाविलस ॥ वायुरुद्धन्त्वचस्सुप्तिस्तोदोमन्याहनुग्र
 हः ॥ लालातिप्रस्रवःकम्पः स्फुरणंहन्तुसंग्रहः ॥ ओष्ठ
 योऽश्वयथुःशूलः मर्दिते वातजं भवेत् ॥ पीतमंगंज्वरस्त
 ष्णा पित्तजमोहधूपने ॥ वातात्पित्तात्कफाच्चैव त्रिविध
 स्स्यात्समासतः ॥ लालातिप्रस्रवःकम्पः स्फुरणंहन्तुसं
 ग्रहः ॥ गण्डेशिरसिमन्यायांशोभस्तम्भःकफात्मके ॥
 वक्री भवति वक्राद्धं ग्रीवाचाप्यप्रवर्त्तते ॥ शिरश्चलति
 वाक्संगो नेत्रादीनाञ्च वैकृतम् ४६ ग्रीवाचिबुकदन्ता
 नान्तस्मिन्पाशुवैचरेदना ॥ तमर्दितमिति प्राहुर्व्याधिं

क्षीण व जिसके रक्तक्षय हो इन के जब पक्षाघात हो और पीड़ा
 न हो तो ऐसे रोगीको छोड़ देना चाहिये क्योंकि वह असाध्य
 होजाता है व असाध्य की औपध करनी न चाहिये ४३ बड़े ऊँचे
 स्वर से पढ़ने से कठिन कुड़े पदार्थोंके खाने से हसन से जंभोई
 लेने से ऊँचे स्थानसे उतरनेसे कुममय में शयन करने से ४४
 शिर नासिका ओष्ठ दाढ़ी लिलार नेत्र और सब जोड़ोंमें पहुँच
 कर पवन मुखको पीड़ित करता है उससे अर्दित रोग उत्पन्न
 होताहै ४५ इसअर्दित रोगसे आधा मुख टेढ़ा होजाता है और
 ग्रीवा भी टेढ़ी होजाती है शिर कांपने लगता है मुखसे बोलना
 नहीं जाता भौंह आंख दाढ़ी आदि टेढ़े होजाते हैं व पीड़ा भी
 इनमें होने लगती है ४६ व ग्रीवा ठुड्डी दांत व पशुलिपों में

व्याधिविशारदाः ४७ क्षीणस्यानिमिषाक्षस्यप्रसक्ताव्यक्त
 भाषिणः ॥ नसिध्यत्यादितगाढं त्रिवर्षवेप्रनस्य च ॥ गते
 वेगे भवेत्स्वास्थ्यं सर्वेष्वक्षपकादिषु ४८ जिह्वानिलेखना
 च्छुष्क भक्षणादिभिघातनः ॥ कुपितो हनुमूलस्थः स्वस
 यित्वानिलो हनुम् ४९ करोति विवृतास्यत्वमथवासंवृता
 स्यताम् ॥ हनुग्रहससतेन स्यात्कृच्छ्राच्चोर्वणभाषणम् ५०
 दिवास्वप्नाशनस्नान विकृत्योर्ध्वनिरीक्षणः ॥ मन्यास्त
 म्भम्प्रकुरुते स एव श्लेष्मणावृतः ५१ धाग्वाहिनीशिरा
 भी पीडा होती है जो लोग रोगों को जानते हैं वे इस रोग को
 अर्हित कहते हैं ४७ इस अर्हित रोग के प्रसाध्य लक्षण—क्षीण
 होने के कारण जब पुरुषकी आंख खुल, मूढ़, न सक, न जिससे
 स्पष्ट शब्द न बोला जाय व जो तीन वर्ष तक इस रोगसे कापता
 रहा हो ऐसे मनुष्य के यह अर्हित रोग असाध्य होता है इन
 आक्षेपकादि सब रोगों में वेग उतर जाने के पीछे फिर स्वास्थ्य
 मिलती है ४८ किसी कड़े काण्ठ के दांतुनसे जीभी करनेसे चना
 आदि रूपी वस्तुओं के चवाने से क्योंकि जब दांतों में कहीं
 भर होता है तो जीभ जोरसे घुमाकर निकालने से जिह्वाकी
 जड़में मुड़क आजाती है अथवा जीभमें कभी चोट लग जाने से
 चौहड़ी की जड़में स्थित वायु कुपित होकर दाढ़को नीचे बैठ
 देता है ४९ जो कि तो मुखको फैला देता है फिर सिकुड़ने नहीं
 देता वा सिकुड़ देता है फिर फैलने नहीं देता इस रोगको हनुग्रह
 कहते हैं चवना बोलना मसकाना आदि कठिन होजाते हैं ५० ग
 र्हन स्तम्भके लक्षण—दिनमें सोनेसे भोजन करनेसे स्नान करनेसे
 इन सबके अप्रमाण करनेसे व ऊपरको देखनेसे वायुकुपित होकर
 गर्हन के ऊपरी भागको तन देता है जबकि वह श्लेष्मा से युक्त
 होजाता है तब ऐसा करता है इस रोगको मन्यास्तम्भ कहते हैं ५१

संस्थो जिह्वास्तम्भयतेनिलः ॥-जिह्वास्तम्भस्तत्तेनात्र
 पानंवाक्येष्वनीशता ५२, रक्तमाश्रित्यपवनः कुर्यान्मूर्ध
 धराशिराः ॥ रूक्षारसवेदनाः कृष्णाः सोसाध्यः स्याच्छि
 रोग्रहः ५३, स्फिक्पूर्वाकटिपृष्ठोरुजानुजंघाप्रदक्रमात् ॥
 गृध्रसीस्तम्भरुक्तोदैर्गृह्णातिस्पन्दतेमुहुः ॥ वाताद्वातक
 फात्तंद्रा गौरवारोच्चक्रान्विताः ५४, तलं प्रत्यंगुलीनांयाः
 कंडूरावाहुपृष्ठतः ॥ चाहोः कर्मक्षयकरी विश्वाचीतिचसा
 स्मृता ५५ वातशोणितजः शोफो जानुमध्येमहारुजः ॥
 ज्ञेयः क्रोष्टुकशीर्षश्चस्थूलः क्रोष्टुकशीर्षवत् ५६ वायुः क

बोलने चाली नस-में टिकाहुआ वायु जिह्वाको रोकता है इस
 रोगको जिह्वास्तम्भ कहते हैं इसरोगमें अन्नपानी लीलने व बो-
 लने में कष्ट होता है ५२ ऊपर शिरकी नसों के रक्तमें पहुँचकर
 पवन सवनसों को रूषी काली व पीड़ितकर देता है यहरोग अ-
 साध्य होता है और शिरोग्रह उसका नाम है ५३ प्रथम कटिके
 ऊपरके भागसे प्रारम्भ होकर फिर कटि, पृष्ठ ऊरु, जानु, जंघा, प्रद
 इन स्थानों में क्रमसे पवन कड़ापन-करता है होते-वना प्र-
 तन देता है इस रोगको गृध्रसी कहते हैं इनमें कोंचने, कीसी
 व्यथा होती वार २ कम्प होता पीड़ा भी बहुत होती है अंगभारी,
 जान पड़ते भरुचि सब पदार्थों से, हो जाती है यहरोग वात से
 होता है और वातकफ दोनोंसे, मिलकर भी, होता है इस लिये
 दो प्रकार का होता है ५४ पखौद्यके पीछे से अंगुलियों के ऊपर
 तक जो मोटी २ नसें चली जाती हैं उनमें दुष्टपवन प्रविष्ट होकर
 उन्हें ग्रहणकर, लेता है इस कारण हाथसिकुड़ पसुर, नहीं सकते;
 वनाथ तने रहते हैं इसरोगको विश्वाची कहते हैं ५५ वातरक्त से,
 उत्पन्न होकर जो शोथ मोटी जाँवके मध्यमें शिमारके मूँडके आ-
 कारकाहो उसरोगको क्रोष्टुकशीर्ष कहते हैं ५६ कटिमें रहनेवाला

व्याश्रितश्शक्यः ॥ कण्डूरामाक्षिपेद्यदा ॥ खञ्जस्तदाभ
 वञ्जन्तुः पंगुश्शक्यो द्वयोर्व्यधात् ॥ ५७ ॥ प्रक्रामन्वेपतेय
 स्तु खंजन्निवचगच्छति ॥ कलापखंजंतं विद्यान्मुक्तसन्धि
 प्रबंधनम् ॥ ५८ ॥ रुक्पादे विषमन्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा ॥
 वातेन गुल्ममाश्रित्य तमाहुर्वातकंठकम् ॥ ५९ ॥ पादयोः कुरुते
 दाहं पित्तासृक्सहितानिलः ॥ ६० ॥ विशेषतश्चक्रमतः पाद
 दाहंतमादिशेत् ६० ॥ हृष्येते चरणौ यस्य भवेतां वा प्रसुप्त
 कौ ॥ पादहर्षस्स विज्ञेयः कफवातप्रकोपजः ॥ ६१ ॥ असं
 देशस्थितो वायुः शोषयित्वां सबंधनम् ॥ शिराश्चाकुंच्यत

वायु जब एकपैरकीं नसोंको रोकलेताहै तब मनुष्यलंगड़ाहो जा-
 ताहै इसको संस्कृतमें खञ्ज कहते हैं व यहारोग जबदोनों पैरोंकी
 मोटी नसोंमें होजाताहै तो प्राणी पंगुला कहाता है इसे संस्कृत
 में पंगु कहतेहैं ५७ जो मनुष्य चलनेके समय काँपनेलगे फिर
 कुछ लंगड़ाताहीहुआ चले उसेकलापखंज कहतेहैं इसमें जोड़ों
 के सब बन्धन ढीले होजाते हैं ५८ वातकण्ठकरोग के लक्षण-
 तिरछा उलटाभादि विषमतासे पैरधरनेसे वा श्रमकरने से पाद
 में पीड़ाहोती है औरपवनगाँठिको पकड़लेताहै चलने नहींदेता
 तो इसरोगको वातकण्ठक कहतेहैं ५९ पाददाहरोगके लक्षण-
 रक्तपित्त युक्तहोकर जब पवन दोनोंपादोंमें दाहकराने लगताहै व
 थोड़ाचलनेपरभी अधिक पैरगरमा उठतेहैं इसरोगको पाद दाह
 कहतेहैं ६० पादहर्षरोगके लक्षण-कफ और वातके अतिकोपकरने
 से जिसके पैरोंमें कभी २ तो भ्रूणनाइट व कभी २ बनाय शिथि-
 लता होजाय उस रोगको पादहर्ष कहतेहैं ६१ जिस अंगके ऊपर
 गलासहित शिररहता है उसको भंसकहतेहैं वस भंसमें जो वायु
 रहताहै वहदुष्टहोकर कभी भंसके सबबन्धनोंकोशोषलेताहै व नसों
 को सिकोड़कर वहीं स्थितहोजाता है तब अपवाहुकनाम रोगको

त्रस्थो जनयत्यपवाहुकम् ६२ आतृत्यवायुस्सकफोधस
नीःशब्दवाहिनीः ॥ नरोन्करोत्यक्रियकानू मूकमिन्मिनग
द्वन्द्वान् ६२ अधोयावेदनायाति त्रत्तोमूत्राशयोत्थिताः ॥
भिनत्तीवगुदोपस्थः सातूनीनामनामेतः ६४ गुदोपस्थो
त्थिताचैव प्रतिलोमं प्रधावति ॥ वेगैः पक्वाशयं याति प्रतू
नीति च सोच्यते ६५ सांक्षेयमत्युग्रं रुजमाध्मानमुद्वरं भृश
म् ॥ अध्मात्तमिति जानीयात् घोरवातनिरोधजम् ६६ वि
मुक्तपाशैर्वहदयंत देवामाशयोत्थितम् ॥ प्रत्याध्मानं विजा
नीयात् कफव्याकुलितानिलम् ६७ नाभेरधस्तात्संजातः

उत्पन्न करता है ६२ जिह्वासे शब्दनिकालनेवाली नसोंको सिकोड़
कर कफयुक्त वायु मनुष्योंको कार्यरहित करदेता है उसमें तीन
रोग उत्पन्न होते हैं एक मूक दूसरा मिन्मिन तीसरा गदगद अर्थात्
कितो मूक अर्थात् गुँगा होजाता वा पुकारनेपर मिन्मिनाकर बो-
लता है वास्पष्टशब्द नहीं निकलता गें २ करेनेलगतता वा हक-
लाने लगता है ६३ तूनीनाम रोगके लक्षण—पक्वाशय व मूत्राशय
में पीड़ाकरती हुई जो पुरुष वा स्त्रीके गुद व लिंग वा भगकोमा-
नो चाँडती फाड़ती चलीजाती है, उसे तूनी कहते हैं ६४ प्रतू-
नीरोगके लक्षण—जो गुद और लिंग वा भगसे पीड़ाउठे और
उलट्टी ऊपरको पक्वाशयतक चढ़ती चलीजाय उसरोगको प्रतूनी
कहते हैं ६५ अध्मानके लक्षण—जिसरोगमें पेट अधिक फूल आवे
मल मूत्र अधोत्रायु न खुलें उसे अध्मान कहते हैं यह बड़ा कठि-
नरोग वातके रूँकजानेसेही होता है ६६ प्रत्याध्मान रोगके ल-
क्षण—यह अध्मान आमोशयमें उत्पन्न होताही है जब जैसापूर्व
में कहभाये है पेट बैसाही फूल पुरन्त पशुलियोंमें पीड़ानहो तो
उसीको प्रत्याध्मान कहते हैं यह भी कफवातके इकट्टे होकर वि-
गड़नेसे होता है ६७ वाताप्लेखारोगके लक्षण—नाभि के नीचे

संचारीयदिवाचलः ॥ अष्टीलावद्घनोग्रंथिरुद्ध्वमायत
 मुन्नतः ॥ वाताष्टीलांविजानीयाद्बहिर्गानिरोधिनीम्दन्
 एतामेवुरुजायुक्तांवातविषेमुन्नरोधिनीम् ॥ प्रत्यष्टीलामि
 तिवदेज्जठरतिर्य्यगुत्थिताम् ६६ मारुतेविंगुणेष्वस्तौमू
 त्रसंम्यक्प्रवर्तते ॥ विकारांविविधाश्चापिप्रतिलोमेभव
 तिहि ७० सर्वांगकंपःशिरसेवायुर्वपथुसंज्ञकः ॥ खल्ली
 तुपादजंघोरुकरमूलावमोदिनी ७१ अधःप्रतिहतोवायुः
 श्लेष्मणामारुतेनच ॥ करोत्युद्गारवाहुल्यमूद्ध्वंवातःस
 ल्च्यते ॥ स्थाननामानुरूपैश्चलिगैःशेषान्विनिर्दिशत् ॥
 सर्वेष्वेषुचसंसर्गं पित्ताद्यैरुपलक्षयेत् ७२ हनुस्तम्भार्दि-

उत्पन्नहोकर जो वायु अचलरहै वा चलहोवे व पंथरके वटखरेके
 समान कठोर गाँठिको उत्पन्नकरे वह ऊपरकीओर चौड़ीहो व
 नीचेसे ऊँचको कभी २ चट्टे व बाहरके मार्गको रोकतीरहै उसे
 वाताष्टीलारोग कहतेहैं ६२ प्रत्यष्टीलारोगके लक्षण—इसीवाता-
 ष्टीलाको प्रत्यष्टीला कहतेहैं जब कि इसमें पीड़ाहोनेलगे ओर
 अधोवायु विष्ठा मूत्रको अधिकरोंके यह पेटमें तिरछी रहती है
 और वाताष्टीला नीचेसे ऊपरको सीधी रहती है ६६ मूत्ररोधरो-
 गके लक्षण—जब पेटपर पवन सीधारहताहै तो मूत्र बिनापीड़ा
 किये सुखसे उतरता है जब उसके विपरीत उलटा पलटा च-
 लता है तो भ्रमरा (पथरी) मूत्ररुच्छादि अनेक विकारउत्पन्न
 होजाते हैं ७० कम्पवायुके लक्षण—जिसरोगमें शिरसे लेकर पैर
 तक सबभग कांपकरे उसे कम्पवायुनाम रोग कहते हैं खल्ली
 रोगके लक्षण—जिसरोगमें पाद जंघा ऊरु पखोंडामें कूटनेकीसी
 पीड़ाहो उसे खल्लिकहते हैं ७१ जिनवातरोगोंके लक्षणनहींकहे
 उनको स्थाननाम आरुति और चिह्नसे जानलेनाचाहिये व सर्वा
 में पित्तादिकोंके संसर्गों से उपलक्षित करलेना चाहिये ७२ वात

ताक्षेप/पक्षाघातापतानकाः ॥ कालेनमहतावाता यत्ना
 त्सिध्यन्तिवानवा ७३ तत्रान्वलवतस्त्वेतान् साध्येन्निरु
 पद्रवान् ७४ विसर्पदाहरुक्संगमूर्च्छारुच्यग्निमार्दवैः ॥
 क्षीणमांसबलंवाताघ्नेन्तिपश्रवधादयः ७५ शूनंमुपतत्र
 चम्भनं कं पाधमाननिपीडितम् ॥ रुजार्तिमन्तञ्चनरंवा
 तव्याधिर्विनाशयेत् ७६। अव्याहतागतिर्यस्यस्थान
 रथःप्रकृतोस्थितः ॥ वायुःस्यात्सोधिकंजीवेद्द्वीतरोगः
 समाःशतम् ७७ ॥

इतिवातव्याधिनिदानम् ॥

रोगों की सधियासाध्य परीक्षा हनुस्तम्भ अर्द्धित आक्षेपक पक्षा-
 घात अपतानक ये रोग जब बहुत दिनों के होजाते हैं तो बड़े
 कठिन यत्न से कभी साध्यभी होजाते हैं नहीं तो असाध्य तो
 होतेही हैं ७३ जब ये रोग नये हों और बलवान् पुरुषके हों और
 कोई उपद्रव भी इनकेसंग नहो तब जोइनमेंमौपय कियाजाय-
 गा चाहिये कि साध्यहीहों ऐसोंकी चिकित्सा अवश्य करनी चा-
 हिये ७४ उपद्रवों के लक्षण—विसर्प जो रोग फैलता जाता हो
 दाह जिसमें बढ़तीहो पीड़ा अधिक होती हो मलमूत्रका निरोध
 हो मूर्च्छा आजाती हो अरुचिहो अग्निकी मन्दताहो मांस बल
 क्षीणहोगयेहों ऐसे उपद्रवोंसे युक्त रोगीको पक्षाघातादिरोग अ-
 द्य मारडालते हैं ७५ असाध्यके लक्षण—जिस रोगीकाशरीरब-
 नाय शोथआयाहो जिसकी त्वचामें छूने से न जानपड़े हाड़टूट
 गयेहों सबशरीर कांपताहो अध्मानयुक्तहो पेटफूत्तगयाहो पीड़ासे
 अधिक पीड़ितहो बस ऐसेनरको वात व्याधि मारहीडालताहै ७६
 जिसपुरुषका पवनअव्याहतागतिहो अर्थात् विनारोंकटोंक अपने
 मनमाना चलताहो व अपनेस्थानमें स्थितरहै व अपने स्वभाव
 पर स्थितरहै व उसे कोई रोग कभी न हुआहो तो वह प्राणी

ते ॥ स्निग्धैःरुक्षैःसमंनेतिकण्डूकेद्रसमेन्वितः ११ पित्तविदाहःसंमोहःस्वेदामूर्च्छामदःसत्त्वः ॥ स्पर्शाक्षमत्वं
 रुग्रागःशोफःप्रकोभृशोष्णता १२ कफस्तैमित्यगुरुता
 सुप्तिस्निग्धत्वशीतताः ॥ कण्डूर्ममद्राचरुग्द्वन्द्वसर्वालं
 गचसंकरात् १३ पादयोर्मूलमास्थाय कदाचिद्दस्तयोर
 सि ॥ आखोर्विपमिवकुद्धंतद्देहमनुसर्पति १४ आजानु
 स्फुटितंयच्च प्रभिन्नम्प्रसृतञ्चयत् ॥ उपद्रवैर्यच्चजुष्टंप्रा
 णमांसक्षयादिभिः ॥ वातरक्तमसाध्यस्याद्याप्यसंत्रप्त
 रोत्थितम् १५ अस्वप्नारोचकश्वासमांसकोथशिरोग्रहाः ॥

रक्तके लक्षण—जब वातरक्त रोगमें रक्त अधिक होता है तो शरीर में शोथ अति पीड़ा कोंचना व ताम्बूके रंगका शोथसे रुधिर बहना व सुहरानेकीसी पीड़ा होती है चिकनी वारूपी वस्तुसे पीड़ाका न मिटना व उस शोथमें खजुलीभी होती है व मुखमें पानी छूटाकरताहै ११ पित्ताधिक रक्तके लक्षण—पित्ताधिक रक्तमें दाह सम्मोह पसीना मूर्च्छा मद प्यास स्पर्श न सहजाना पीड़ा ललाई शोथ पकना अति उष्णता ये सब होते हैं १२ कफाधिक रक्तके लक्षण—कफाधिक में शीतलता गरुआपन लूनेपर न जानपडना चिकनापन अति शीतता खजुली थोड़ी पीड़ा इसप्रकार दो रके मिलनेसे द्वन्द्व और तीनों के मिलनेसे सन्निपातज जानना १३ जब पैरोंकी जड़से वातरक्त चट्टे व कदाचित् हथिया तक पहुंचे व मूसके विपके समान देहभरमें फैल जाय तो असाध्य होताहै १४ व जो गांठितक जानेसे जिसकी रचना सव फटजाय व विधर विधर होजाय व बलमांस क्षयआदि उपद्रवों से युक्तहो ऐसा वातरक्त असाध्य होता है पर जो वर्ष दिनके भीतर फूटहीतो औपध करनेके योग्य है पर जब ऊपर के फटजाने आदि लक्षण न हों तो वर्ष दिनके भीतर साध्य होताहै

मूर्च्छासोमंदरुक्त्वृष्णाज्वरमोहप्रवेपकाः १६ हिक्कापांगु-
 ल्यवीसर्पपाकतोदभ्रमहमाः १७ अंगुलीवक्रतास्फोट-
 दाहमर्मग्रहार्बुदाः ॥ एतेरुपद्रवैर्युक्तस्मोहेनैकेनवापिय-
 त् १८ वातरक्तमसाध्यंस्याद्यच्चातिक्रान्तवत्सरम् ॥ अ-
 कृत्स्नोपद्रवंयाप्यं साध्यंस्यान्निरुपद्रवम् १९ एकदोषा-
 नुगंसाध्यं नवंयाप्यं द्विदोषजं ॥ त्रिदोषजमसाध्यंस्या-
 द्यस्यचस्युरुपद्रवाः २० ॥ इतिवातरक्तनिदानम् ॥

नहीं तो नहीं १५ उपद्रवयेहैं नाँदिका न आना अरुचि श्वास
 मांसगलना माथजकड़ना वानसोंकातन उठनामूर्च्छा थोड़ीपीड़ा
 पिपासा ज्वर मोह कांपना १६ हुचकी पंगुलापन रोगका फें-
 लना पकना कोंचना भ्रम ग्लानि ये सब होते हैं १७ अंगुलियों
 का टट्टाहोजाना फोड़ाहोना दाहउठना मर्मस्थानों में पीड़ा
 गांठियों में गांठियोंका होना इन उपद्रवों सहित वातरक्त असा-
 ध्यहोता है अथवा एक मोहही से युक्तहो तो भी असाध्यहीहोता
 है १८ साध्यासाध्य विचार जो वातरक्त एक वर्ष से अधिक
 होजाताहै वह असाध्य होजाताहै जिस में सब उपद्रव नहीं कुछ
 थोड़ेहों तोवह औपध करनेके योग्य होताहै परकष्ट साध्यहोताहै
 व जिसमें उपद्रव कोई नहीं होते वह साध्यहोता है १९ फिर
 जिसमें कोई वात पित्तादिकों में एकही दोपते युक्त रक्त होता है
 वह साध्य होता है व जिसमें दो दोप होते हैं पर नवीन होता है
 वह कष्टसाध्यहोता है व जिस में तीन दोप मिलेहुये होते हैं वह
 असाध्यही होता है व जिसमें सब उपद्रव होते हैं वह भी असा-
 ध्यही होता है २० ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेवातरक्तनिदानञ्चतुर्विंश-
 शतितमम् ॥ २१ ॥

शीतोष्णद्रवसंशुष्कगुरुस्निग्धैर्निषेवितैः ॥ जीर्णा
 जीर्णतथाग्राससंक्रोधस्वप्नजागरेः १ सश्लेष्ममेदःपवनः
 सामसत्यर्थसंचितम् ॥ अभिभूयेतरदोषमूरुचेत्प्रतिपद्य
 ते २ सक्स्थ्यस्थीनिप्रपूर्यातःश्लेष्मणास्तिमितेनच ॥
 तदास्तम्नातितेनोरुस्तब्धोशीतावचेतनो ३ परकीयावि
 वगुरुस्यातामतिभृशव्यथौ ॥ ध्यानागिमर्दस्तैमित्यतंद्राञ्च
 र्द्यरुचिज्वरैः ४ संयुक्तौपादसदनकृच्छ्रोद्धरणसुप्तिभिः ॥
 तमूरुस्तंभमित्याहुराढ्यवातमथापरे ५ प्राग्रूपंतस्यनिद्रा

दो० पञ्चिसयें मह है कही ऊरुस्तम्भ निदान ॥

देखहिंसुजनलगायंचित अरुत्यहिकरहि प्रमान ?

ऊरुस्तम्भके कारण शीत उष्ण गीली सूखी गरु चिक्कण इन
 परस्पर विरुद्ध पदार्थों के भोजन करने से कच्चा अथवाका पदार्थ
 खाने से ऐसेही शक्ति से अधिक जोर करने से अतिक्रोध करने
 दिनमें सोने व रात्रिभर जागने से ? इन कारणों से कफमेद-
 युक्त पवन अत्यन्त सञ्चित आम व अन्य दोष पित्तका अनादर
 करके जायमें प्राप्त होता है २ तब जायके हाड मन्द कफसे भर
 जाते हैं उससे जायोंको पवन धांभलताहै इस से दोनों जायें ज-
 कड़कर फिर निज्जीव होजातीहैं ३ मानों ऐसी गरुई होजाती है
 जैसे विरानी हागई है अपनी नहीं है और अत्यन्तव्यथा होतीहै
 उठायेसे उठती नहीं भंग मर्दनेसे कुछ जान नहीं पडता ऐसी अ-
 चलहोजातीहै तन्द्राआती धमनहोता अरुचिहोती ज्वरआताहै ४
 इन लक्षणों से संयुक्त पैरोंमें बड़ाकण्ट बडेकण्टसे पैरोंका उठना
 शून्यहोजाना वसे ऐसे रोगको ऊरुस्तम्भ कहते हैं अथवा कोई २
 लोग आढ्यवात कहते हैं ५ इसरोग का पूर्वरूप ज्वर यह रोग
 होने पर होता है तो निद्रा अधिक आती है चिन्ता भी बहुत
 होती है देह भरभराने लगताहै ज्वर होता रोमाञ्चहोता अरु-

तिध्यानंस्तिमितताज्वरः॥, रोमहर्षोरुचिउद्धर्दिर्जघोर्वोः
 सदनंतथाद्वातशंकिभिरज्ञानात्तस्यस्यात्स्नेहंजातंपुनः॥
 पादयोःसदनंसुप्तिःकृच्छ्रादुद्धरपांतथा ७ जंघोरुग्लानि
 रत्यर्थशश्वद्वादाहवेदना ॥ पादंचव्यथ्रतेन्यस्तं शीतस्पर्श
 शनवेत्तिच ८ संस्थानेपीडनेर्गत्यांचलनेचाप्यतीश्वरः॥
 अन्यानेयौहिसंभग्नावूरूपादौचमन्यते ९ यदादाहाक्षि
 तोदातो वेपनःपुरुषोभवेत् ॥ ऊरुस्तंभस्तदाहन्यात्सा
 धयेदन्यथानवम् १० ॥ इत्युरुस्तपनिदानम् ॥

चिहोजाती वमन होनेलगता जांघ व फीलियों में कण्टहोता व-
 स ऊरुस्तम्भ रोग का यही पूर्वरूप है ६ इस रोग के लक्षण ऐसे
 होते हैं—अज्ञानसे वातकी शंकारहनेसे शोष्य करनेसे यह रोग अ-
 धिक बढ़जाताहै पैरों में पीड़ाहोती है कुछ स्पर्श करनेसे नहीं वि-
 दित होता बड़ेकण्टसे पैर उठते हैं ७ जांघ व फीलियों में अति
 ग्लानि होती है अथवा निरन्तर दाहसहित पीड़ावनीरहती है
 पैरधरतेही पीड़ाहोनेलगती है शीत वस्तुका स्पर्श नहीं जान प-
 दता ८ पादस्थिर रखने से पीड़ा होती चलने में पीड़ाहोती होते, र-
 फिर चलने की सामर्थ्यही जाती रहती है पाद ऐसे टूटसे जातेहैं
 कि जब कोई अन्यटिकाकर-लेचले तो वा, उठाकरलेचले तो
 चले और जब पैरों को बटोरना चाहे तो जानों अन्य किसी के हैं
 अपने आप बटोर न सके ९ इस ऊरुस्तम्भ के असाध्य लक्षण-जब
 दाहसहित पीड़ाहो मानों कोई कौंचताहै ऐसाजानगड़े व पुरुष
 कांपने लगे तब जानों कि अब यह ऊरुस्तम्भरोगमासही, डालेगा
 जब ये लक्षण न हों और रोग नवीन हो बहुत पुराना हो-
 गयाहो तो साध्य जानना चाहिये १० ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेऊरुस्तम्भनिदानम्बच-
 -विंशतितमम् ॥ २५ ॥

दोषोयाप्युच्यते ॥ सर्वदेहचरः शोथः सकृच्छूः सान्निपा-
तिकः १२ ॥ इत्यामवातनिदानम् ॥

दोषैः पृथक्समस्तामहं द्वैः शूलोऽप्राभवेत् ॥ सर्वेष्वे-
तेषु शूलेषु प्रायेण प्रवृत्तः प्रभुः १ व्यायामघानादतिमैथुनाच्च-
प्रजागरच्छीतजलातिपानात् ॥ कलायमुद्गाढकिकोरदृ-
षादत्यर्थरूक्षाध्यशनाभिघातात् २ कषायतिक्ता निविरू-
ढजान्निविरुद्धवज्ज्वरकशुष्ककोशात् ॥ विट्शुकमूत्रानि-
लसन्निरोधाच्छोकोपवासादतिहास्यभाष्यात् ३ वायः प्र-
वृद्धोजनयेद्विशूलं हृत्पाश्वर्यपृष्ठत्रिकत्रस्तिदेशे ॥ जीर्णं प्र-

ध्य होता है दो दोषों से युक्त कष्टसाध्य व जितमें सब देहभरमें शोथ
भागया हो वह सन्निपातज आमवात असाध्यही होता है १२ ॥
इति माधवनिदाने भाषानुवादे आमवातनिदानं पट्विंशतितमम् २६
दो० ॥ सत्ताइसमें महँ कह्यो शूल निदान अनुप ॥

देखहिं सज्जन लायचित्त कविकह मति अनुरूप १
वात पित्त कफ तीनों दोषों से अलग २ व सन्निपातसे एक
आमसे एक और दो २ से तीन इस प्रकार ८ प्रकारके शूल होते
हैं इन सब प्रकारके शूलों में बहुधा वातकी प्रधानता होती है १
घात शूलके कारण व्यायाम कहे मल्लयुद्धादि करने से घोड़े रथ
पर अधिक चढ़ने से अति मैथुन करने से रात्रिमें बहुत जागने
से बहुत शीतल जल पाने से मटर वा क्यराव मूँग अर्दी कोदों
आदि अति रूखे अन्नों के खाने से भोजन करने पर तुरन्त फिर
भोजन करनेसे व चोटलंगनेसे २ कसेलीवस्तु तीखीवस्तु भँखुमा
निकला अन्न विरुद्ध पदार्थ सूखांमांस व सूखाशाक खाने से
मलमूत्र वीर्यअधोवायुके रोकने से शोक करने से उपवास करने
से बहुत हँस ३ कर घतलाने से ३ वायुप्रवृद्ध होकर हृदय पीठ
पशुलियों में व कटिदेश में व पैरु में शूलको उत्पन्न करता है

दोषेचधनागमेच शीतेचकोपसमुपेतिगाढम् ४ मुहुर्मुहु
 श्चोपशयप्रकोपौ विद्धुतिसंस्तंभनतोद्भेदैः ॥ संस्वेद
 नाभ्यंजनमर्दनाद्यैः स्निग्धोष्णभोज्यैश्चशमंप्रयाति ५
 क्षारातितीक्ष्णोष्णविदाहितैल निष्पावपिण्याककुलत्थ
 यूपैः ॥ कट्वम्लसौवीरसुराविकारैः क्रोधानलायास
 रविप्रतापैः ६ ग्राम्यातियोगादशनैर्विदग्धैः पित्तप्रकु
 प्याशुकरोतिशूलं ॥ तृणमोहदाहार्तिकरंहिनाभ्यां संस्वेद
 मूर्च्छाभ्रमदोषयुक्तम् ७ मध्यंदिनेकुप्यतिचार्द्धरात्रे निदा
 धकालेजलदात्ययेच ॥ शीतेचशीतैस्समुपैतिशान्तिसु

आहार पचजानेपर संध्या समयमें वर्षाकालमें व शीत काल में
 बहुधा शूल अधिक कोप करताहै ४ वार २ यह रोग शान्त भी
 होजाता है और कोप भी करता रहताहै मल मूत्र अधो वायु के
 रोकने से कोंचने व फटने लगता है व पसीना होने उबटन ल-
 गाने व मर्दन करने से व चिकनी गरमी वस्तु के खाने से कुछ
 शान्त होजाताहै ५ पित्तशूल के लक्षण—यवाखार आदि क्षार
 पदार्थों के खानेसे अतितीक्ष्ण लाल मिरचादि खाने से उष्ण
 पदार्थों के खाने से व वाँशआदि केभंकुर जो अत्यन्त विदाहीहोते
 हैं उनकेखानेसे तेलपीने वालाखाजाने तिलका पीना खाने कुल-
 धीखानेवाकिसीका घूपपीनेसे कड़ु खट्टाखानेसे सौवीरएकप्रकार
 के सन्धान करने से मदिराके विकार सिरकां आदि पीने से क्रोध
 करने अग्नि अधिक तापने से घाम में अधिक फिरने से ६ अत्य-
 न्त मैथुन करने से जले भूने अन्नके खाने से पित्त कोप करके
 अतिशीघ्र शूलको करता है तत्र तृण मोह दाह पीड़ा नाभि में
 होने लगती है पसीना मूर्च्छाभ्रम कोंचना इन से युक्त होजाता
 है ७ यह शूल दोपहरको कोप करता है व अर्द्धरात्र में भी कोप
 करताहै व ग्रीष्म ऋतु में व वर्षावृत्तने पर कार के महीनेमें वह

स्वादुशीतैरपि भोजनैश्च ८ आनुपवारिजकिलाटपत्रे
 विकारैर्मासेक्षुपिष्टकृशरातिलशष्कुलीभिः ॥ ९ अन्ये
 र्वलासजनकैरपि हेतुभिश्च श्लेष्माप्रकोपमुपगम्यं करो
 तिशूलं ६ हृत्लासकाससदनारुचिसंप्रसेकैरामाश
 येस्तिमितकोष्ठशिरोगुरुत्वैः ॥ भुक्तेसदैवहिरुजंकुरुते
 तिमात्रं सूर्योदयेचशिशिरेकुसुमागमेच १० सर्वेषुदोषे
 पुचसर्वलिङ्गं विद्याद्भिषकसर्वभवंहिशूलं ॥ सुकष्टमेनंवि
 षवज्जतुल्यं विवर्जनीयंप्रवदंतितज्ज्ञाः ११ आटोपहृत्ला
 सवमीगुरत्वस्तैमित्यमानाहकंफप्रसेकैः ॥ कफस्थलिङ्गे

शीतकाल में, वशीतमीठे पदार्थों के खाने से व स्वादुयुक्त ठण्डे
 पदार्थों के खानेसे शान्त होता है ८ कफ शूल के लक्षण—जल
 समीपी पक्षी वा मछलियों का मांस खाने से नई व्याईगाय भैंस
 की खिभरी मट्ठा दही दूध घी आदिके खाने से मांस ऊखकारसं
 खाने पानेसे पीठीके बने पदार्थ, वा खिचड़ी खाने से व तिल
 पूदी खानेसे अथवा अन्य कफकारी पदार्थों के खाने से श्लेष्मा
 कोप करके शूलको करता है ९ यह शूल बहुधा जी मचलवाता
 खांसी देह टूटना अरुचि मुखमें पानी छूटना पेट में गजवज शिर
 भारी रहना इन लक्षणों को करताहै भोजनके पीछे सदा देह में
 अधिकपीड़ा होती है व सूर्योदयके समय जाड़े में व वसन्तऋतु
 में अधिक कोप करता है १० सन्निपात शूल के लक्षण—जिसमें
 वात पित्त कफ तीनोंके लक्षण मिलें उसको वैद्य तीनों दोषों से
 मिलने के कारण सन्निपात शूल जाने यह अति कष्टदायकविष
 पञ्जके तुल्य होताहै, इससे वैद्य लोग इसे त्याज्य कहते हैं, अर्थात्
 इसके रोगीको औषध करनेका निषेध करते हैं ११ आमशूल के
 लक्षण—पेटका गड़गड़ाना जी मचलाना वमन होना शिर गरु
 रहना मन्दता उदरफूलना कफका वेग अधिकरहना इनलक्षणों

नसमानेलिंगमामोद्भवंशूलमुदाहरन्ति १२ द्विदोषलक्ष
 णैरेतौविद्याच्छूलंद्विदोषजम् ॥ वस्तीहृत्कण्ठपाईवेषु सशू
 लःकफवातिकः १३ कुक्षौहृत्नाभिमध्येतुसशूलःकफपैत्ति
 कः ॥ दाहज्वरकरोघोरो विज्ञेयोवातपैतिकः १४ एक
 दोषोत्थितःसाध्यः कृच्छ्रसाध्योद्विदोषजः ॥ सर्वदोषोत्थि
 तोघोरस्त्वसाध्योभूर्युपद्रवः १५ ॥ इतिशूलनिदानम् ॥

स्वैर्निदानैःप्रकुपितो वायुःसन्निहितस्तदाः ॥ कफपित्ते
 समावृत्यशूलकारीभवेद्बली १ भुक्तेर्जीर्यतियच्छूलतदे
 से युक्त अथवा कफके लक्षणों से युक्तको आमशूल कहते हैं १२
 द्वन्द्वजशूलके लक्षण—जो इन दोषों में से दो दोषोंसे उत्पन्नहोताहै
 उसे द्विदोषज शूल कहते हैं उनमें भी जिसमें पेड़ हृदय गला व
 पशुलियों में शूल होता है उसे कफ वातिक शूल कहते हैं १३ व
 जिसमें कोख हृदय नाभि में शूलहो उसे कफ पैतिक कहते हैं
 व जिसमें दाह और ज्वरहोताहै वह वात पैतिकशूल कहाता है १४
 इनमें एक दोष से उत्पन्न शूल तो साध्य होताहै व दो दोषों में
 उत्पन्न कष्टसाध्य होता है व जो सब तीनों दोषों से उत्पन्न हो
 ताहै वह असाध्य होता है और जो पीड़ा पिपासा मूर्च्छा पेट
 फूलना भारीहोना अरुचि खांसी श्वांस व हुचका इन उपद्रवों
 सहित शूलहोता है वहभी असाध्यहोता है १५ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेशूलनिदानसप्तविंशतितमम् २७

दो० ॥ अट्ठाइसवेंमहं कह्यो है परिणाम विशूल ॥

देखाहैसुजन लगाय चित्त तजिके सिगरीभूल १॥

परिणाम शूलका वर्णन—घपने कारणों से कुपितहोकराज्य
 वायु कफ व पित्तके निकटजाकर और उनको आच्छादित करके
 बली होजाता है तो शूलकारी होताहै १ फिर अन्न पचने के स-
 मय वही शूल करता है वत इसीको परिणामज शूल कहते हैं

वपरिणामजम् ॥ तस्य लक्षणमप्येतत्सर्मासेन विधीयते २
 आध्मानाटोपविण्मूत्र विवन्धारतिवेपनैः ॥ स्निग्धोष्णो
 पशमप्रायं वातिकं तद्भेदद्विषक् ३ तृष्णादाहारुचिस्वेद
 कट्वम्ललवणोत्तरम् ॥ शूलं शीतसमप्रायं पैत्तिकं लक्षये
 द्वुधः ४ अर्दिहृन्नाससंमोहं स्वल्परुग्दीर्घसंततिः ॥ कं
 टुतिकोपशांतिश्च ज्ञेयं तच्च कफात्मकम् ५ संसृष्टं लक्षणं
 द्वुवा द्विदोषं परिकल्पयेत् ॥ त्रिदोषं जमसाध्यं स्यात्क्षीण
 मांसवत्तानलम् ६ जीर्णं जीर्ण्यत्यजीर्णं वा यच्छूलमुपजा

उसका लक्षण भी यह संक्षेप रीतिसे विधान किया जाता है २
 वातिक परिणाम शूलके लक्षण—पेटका फूलना गड़गड़ाना मल-
 मूत्रका अवरोध अप्रीति कांपना इन कारणोंसे युक्त हो व चिकनी
 और उष्ण वस्तुके खाने से कुछ शान्त होजाय, वेंद्य उसे वातिक
 शूल कहते हैं ३ पैत्तिक परिणाम शूलके लक्षण—जिस शूल में
 तृष्णा दाह भरुचि व पसीना ये लक्षण होते हैं और कड़ू खटा
 खारी इन वस्तुओं से जो बढ़ता है, व शीतल पदार्थों से शान्त
 होता है ऐसेको पैत्तिक परिणाम शूल कहते हैं ४ श्लैष्मिक परि-
 णामशूलके लक्षण—जिस शूलमें चमन जोमचलाना इन्द्रियों में
 मोहहोना थोड़ीपीड़ा शूल अधिकहो कड़ू व तिक वस्तुसे शान्ति
 होतीहो उस शूलको कफ परिणाम शूल कहते हैं ५ द्विदोषज व
 त्रिदोषज परिणाम शूलके लक्षण—मिलेहुये लक्षणको जानकर
 द्विदोषज परिणाम शूल कल्पित करना चाहिये व जिसमें तीनों
 दोष मिलेहों उसे त्रिदोषज परिणाम शूल जानना चाहिये यह
 असाध्य होता है व मांस बल अग्नि जिस रोगीके क्षीण होगयेहों
 उस शूलको अत्यन्त असाध्य जानना चाहिये ६ अन्नद्रव शूलके
 लक्षण—अन्न पचने पर वा पचजाने पर वा अजीर्णके समय सदा
 शूल बना रहै पथ्य खानेपर व अपथ्य खाने पर भोजन करनेपर

यते ॥ पथ्यापथ्यप्रयोगेण भोजनाभोजनेन च ॥ नशमं
यातिनियमात्सोन्नद्रवउदाहृतः ७ ॥

इतिशूलपरिणामनिदानम् ॥

वातविण्मूत्रजृम्भाश्रुक्षवोद्गारवर्माद्रियैः ॥ क्षुत्तृष्णो
च्छ्वासनिद्राणांधृत्योदावर्तसंभवः १ वातमूत्रपुरीषाणां
संगाध्मानकृमोरुजः ॥ जठरेवातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वा
तनिग्रहात् २ आटोपशूलोपरिकर्तिकाचसंगःपुरीषस्य
तथोद्धर्वात् ॥ पुरीषमास्यदथवानिरेतिपुरीषवेगेभिर्ह
तेनरस्य ३ वस्तिमेहनयोःशूलंमूत्रकृच्छ्रंशिरोरुजां ॥ वि
व भूखे रहने पर कभी शान्तही नहो कुछ शान्तभी हीतो नियम
से न शान्तहो कभी किसीसमय कभी किसीसमय ऐसे शूलको
अन्नद्रवशूल कहते हैं ७ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेपरिणामशूलान्नद्रवशूलनिदान
१०८ मष्टाविंशम् २८ ॥

दो० ॥ उन्तिसयें महँ है कहो उदावर्त निदान ॥

लखहिंसुजनमनलायपुनिताकरकरहिप्रमान ?

उदावर्तरोगके लक्षण—वायु विष्टा मूत्र जंभुमाई आंशु छोकनो
डकार आना घमन होना शुक्रपात क्षुधा तृष्णा ऊथीसांस व निद्रा
इत्यादिको व वात रोगोंको जो रोकता है उसके उदावर्तरोगहोता
है १ अथवावायुके रोकनेसे वात मूत्र पुरीष इनकी रुँकावट होती है
पेट फूलता है, ग्लानिहोती है पेट में पीड़ाहोती है पेटमें अन्यभी
वातजरोग होतेहैं २ व विष्टाके वेगके रोकनेसे पेट गडगड़ाता है
शूलउठतीहै गुदमें कतरनीके कतरनेकीसी पीड़ाहोतीहै मलका
भवरोधहोता ऊपरको पवन चढ़ता डकारआती व मुखकी भी
मल निकलपड़ता है ३ व मूत्रके वेगके रोकनेसे पेट व लिंगमें
शूलउठती है, बड़ी कठिनतासे मूत्र उतरताहै शिरमें पीड़ाहोती

नामो वंक्षणात्ताहः स्यात्सिंगं मूत्रनिग्रहे ४ प मन्यागलस्तं
 भशिरो विकाराज्जृम्भोपघातात्पवनात्मकास्स्युः ॥ तथा शि
 नासावदनामयाश्च भवन्ति तीव्राः सहकर्णरोगैः ५ आन
 न्दजंवाप्यथ शोकजंवातित्रोदकम्प्राप्तममुञ्चतोहि ॥ शि
 रोगुरुत्वन्नयनामयाश्च भवन्ति तीव्रास्सहपीनसेन ६ म
 न्यास्तम्भशिरश्शूलमर्हिताद्वा विभेदकौ ॥ इन्द्रियाणा
 ऽञ्चदोषत्रयक्षयथोस्स्याद्विधारणात् ७ कण्ठास्यपूर्ण
 त्वमतीवतोदःकजश्चवायोरथवा प्रवृत्तिः ॥ उद्गारवेगे
 ऽभिहते भवन्ति घोरविकाराः पवनप्रसूताः ८ कण्ठकोठा
 रुचिव्यङ्गशाफ्फपाण्डामयज्वराः ॥ कुष्ठहृत्त्वासर्वासर्पा

है देह भूकजाता है पेटका जोड़ लकड़जाता है पेट फूलता है ये सब
 चिह्न मूत्रके अवरोध करनेसे होते हैं ४ व जैभुमाईके रोकने
 से गलेकी नसे तनजाती है शिरमें पीड़ा होने लगती है व अन्य
 भी वाजत रोगहोते हैं व ऐसेही नेत्र नासिका व मुखमेंभी व का
 नोंमेंभी बहुतसे वातज रोग होते हैं ५ आनन्दसे वा शोकसे
 उत्पन्न आंशुओंको जो नहीं गिरने देता हठसे रोकलेता है उसके
 शिरमें पीड़ाहोती है व नेत्रोंमें रोगहोते हैं व बड़ा तीव्र व्यथाहोती
 है तथा पीनस रोग होता है ६ छोकके रोकनेसे गर्दन तनजाती है
 शिरमें पीड़ाहोती है आधामुख टेढ़ाहो जाता है व आधीशीशी
 पीड़ाहोती है व सब इन्द्रियां दुर्जल होजाती हैं ७ डकारके रोकने
 से गला व मुख भरासा होजाता है अत्यन्त कोंचनेकीसी पीड़ा
 होने लगती है पेट घलघलाने लगता है व वायुकी प्रवृत्ति बाहरको
 होती जिससे इवासादिकोंकी रुँकावटहोती है व पवनके सम्ब
 न्धी घोरविकार उत्पन्नहोते हैं ८ ओकाईके रोकनेसे खजुलीहो
 ती है ददरा पड़जाते हैं अरुचिहोती है व्यंगहोता शोथहोता पाण्डु
 रोग व ज्वरहोता है कुष्ठरोग जीमचलाना व विसर्परोग मकड़ी

इच्छिनिग्रहजागदाः ॥ ९ ॥ सूत्राग्नेयवैगुदमुष्कयोश्चशो
 फोरुजामूत्रविनिग्रहश्च ॥ शुक्राश्मरीतच्छ्रवणंभवेच्चते
 तेविकाराभिहतेचशुक्रे १० ॥ तंद्रांगेमर्दाविरुचिश्मश्च
 क्षुधाभिघातात्कृशताचट्टेः ॥ कण्ठस्यशोषःश्रवणावरो
 धस्तृष्णाभिघाताद्दृढव्यथाच ११ ॥ श्रांतस्यनिश्वास
 विनिग्रहेण हृद्रोगमोहावथेवापिगुल्मः ॥ ॥ जृम्भांगेमर्दा
 क्षिशिरोभिजाड्यं निद्राभिघातादथवापितंद्रा १२ ॥ वायुः
 कोष्ठानुगोरुक्षैःकषायकटुतिक्तकैः ॥ भोजनैःकुपितस्सद्य
 उदावर्त्तकरोतिहि १३ ॥ वातमूत्रपुरीषाश्रुकफमेदोवहानि
 वै ॥ स्रोतांस्युदावर्त्तयतिपुरीषंचातिवर्त्तयेत् १४ ॥ ततोहृ

अधेगी आदिहोते हैं ९ मैथुन करनेके समय वा अन्य किसीसमय
 वीर्य न गिरनेदेनेसे सूत्राशयमें गुदमें व अण्डकोशों में सूजन
 होआती है पीड़ाहोती सूत्रनहीं उतरता चिलकहोने लगती है
 (शुक्राश्मरी) वीर्यकी पथरी होजाती है व फिर प्रमेह होजाता
 है १० व भूखके रोकनेसे तन्द्रा देह ऐंठना वा टूटना अर्थात्
 बिनाश्रमके थरुवाही और दृष्टिकी दुर्बलता होती है व पिपासा
 के रोकनेसे गला व मुख सूखजाताहै कानसे सुनरुमपड़ता है व
 हृदयमें पीड़ा होनेलगती है ११ थकाहुआ मनुष्य जब अपने
 श्वासोंको हठसे रोकलेताहै तो उससे हृदयमें रोगहोताहै मोह
 अथवा कोई गुमरीदेहमें निकलआतीहै व निद्राके रोकनेसे जं-
 भोई अंगोंका टूटना नेत्र व शिरमें जड़ता व तन्द्राहोती है १२
 रूपे कसैले कडुये व तीपे भोजन करनेसे कोष्ठगतहो कुपितहो-
 करवायु उदावर्त्तरोगको करताहै १३ व वात मूत्र मल आंशु
 कफ मेदाओंके वहानेके सांगोंको बन्दकरके पवनमलको सूखा
 करदेताहै १४ तब रोगीहृदय व पेट की शूल से पीड़ित होताहै
 जीमचलाने लगताहै सुस्ती आजाती है वात मल व मूत्र फिर

द्वस्तिशूलार्तोहृत्सासारतिपीडितः ॥ वातमूत्रपुरीषाणि
 कृच्छ्रेणलभतेनरः १५ इवासकासप्रतिश्यायदाहमोहव
 मिष्वरान् ॥ तृष्णाहिकाशिरोरोगमनःश्रवणविभ्रमान्
 १६ बहूनन्यांश्चलभतेविकारान्वातसंभवान् १७ ॥ इत्युक्तं
 वर्तनिदानम् ॥ अथानाहः ॥ आमंशकृद्धानिचितंक्रमेणभूयोत्रिविद्धं
 विगुणानिलेन ॥ प्रवर्त्तमानन्नयथास्वमेनं विकारमानाहः
 मुदाहरन्ति १८ तस्मिन्भवत्यामसमुद्भवेतुं तृष्णाप्रति
 श्यायशिरोविकाराः ॥ आमाशयेशूलमथोगुरुत्वं हृत्सा
 समुद्धारविघातनं च २ स्तम्भः कटीपृष्ठपुरीषमूत्रे शूलोथ

उस मनुष्यके बड़े कष्ट से उतरते हैं १५ वः श्वासः खोली नाक
 बहना दाहहोना मोह तृष्णा व ज्वर वमन हुचकी शिरपीडा मन
 की भ्रान्ति १६ वः अन्य बहुत वातज विकारोंको मनुष्यप्रांता है
 इस प्रकारका उदावर्त्त रोगहोताहै १७ ॥ इति श्रीमाधवनिदाने
 भाषानुवादे उदावर्त्तरोग निदानमेकोनत्रिंशत्तमम् २६ ॥

दो० ॥ तिसयें माहें अनाहके कहें निदान अशेष ॥
 लपहिसुजन चितलायके लहें न दुःख विशेष १
 अनाह रोगके निदान कहते हैं—आम व मलमूत्र इकट्ठे हो
 कर कुपित वायुसे बहुधा बंधकर सूखजाते हैं इसलिये अपनेमार्गसे
 यथावस्थित बाहर नहीं आनेपाते इसरोगको अनाहरोग कहते हैं १
 आमसे उत्पन्न उस अनाहरोग में तृष्णा नाकबहना शिरोविकार
 आमाशयमें शूल अंगोमेंगारोई जीमचलाना डकारकान आना ये
 उपद्रव होते हैं २ कटी पीठ मूत्र मलके स्थानों में पीडा मूर्च्छा
 मलकी वमन श्वास येसब लक्षण पक्षाशयसे उत्पन्न अनाहरोग
 में होते हैं व अलस रोग में जो लक्षण कहमाये हैं वेभी होते हैं

मूर्च्छाशकृतोवमिश्च ॥ श्वासश्चपक्वाशयर्जंभवन्ति त
थालसोक्तानिचलक्षणानि ३ तृष्णार्दितम्परिहृष्टक्षीणशू
लेरुपद्रुतम् ॥ शकृद्मन्तंमतिमानुदावर्तिनमुत्सृजेत् ४
इत्युदावर्तानाहनिदानम् ॥

दुष्टावातादयोत्यर्थमिथ्याहारविहारतः ॥ कुर्वन्तिपंच
धागुल्मंकोष्ठान्तग्रन्थिरूपिणम् ॥ तस्यपंचविधंस्थानंपा-
श्चहन्नाभिवस्तयः १ हन्नाभ्योरंतरेग्रन्थिः संचारीयदि
वाचलः ॥ वृत्तश्चयोपचयवान्सगुल्मइतिकीर्तितः २
सव्यस्तैर्जायतेदोषैः समस्तैरपिचोच्छ्रितैः ॥ पुरुषाणां

अर्थात् पेट फूलना अधोवायु का रूंकना इत्यादि रोगहोते हैं ३
उदावर्त रोग वाले के असाध्यलक्षण—इस रोगवाला जब तृष्णा
से पीड़ितहो बहुत क्लेशितहो क्षीण शरीर शूलादिकों से युक्त च
विष्ठा वमन करताहो ऐसे उदावर्त वालेको बुद्धिमान् वैद्यकोचा-
हिषे कि छोड़दे औषध नकरै ४ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेऽनाहरोरनिदानंत्रिंशत्तमम् ३० ॥
दो० ॥ इकतिसयें महुँ गुल्म प्रथ रोगनिदान कहेव ॥

देखहिंसुजन लगायचित क्यातिकअहैंयहिभेव ?

मिथ्या आहार विहार करनेसे अत्यन्त दुष्ट वात पित्त और कफ
कोष्ठके भीतर पांचप्रकार के गुल्म अर्थात् गाँठियों को उत्पन्नक-
रतेहैं उसके पांचप्रकार के स्थान ये हैं दोनोंओर की पशुलियांह-
दय नाभि और पेडू १ हृदय और नाभि के बीचमें चलती हुई
अथवा अचल जो ग्रन्थिहोतीहै आकार मेंगोल व प्रतिदिन कुछ
बढ़तीहीजाती है ऐसी गाँठिको गुल्मरोग कहते हैं २ गुल्मकेहोने
का कारण-सोपुरुषों के पांच प्रकारके गुल्महोते हैं एक वातपित्त
का दूसरा वातकफका तीसरा कफ पित्तका व चौथा-वात पित्त
कफतीनों का पांचवां धातुरूपरक्तज और स्त्रियों के छः प्रकार के

तथास्त्रीणां ज्ञेयोरक्तेन चापरः ३ । उद्गारवाहुल्यपुरीषवन्ध
 स्तृप्त्यक्षमत्वांत्रविकूजनानि ॥ आटोप्रमाध्मानमपक्तिश
 क्तिमासन्नगुल्मस्य वदन्ति चिह्नम् ४ । अरुचिः कृच्छ्रवि
 एमत्रवातश्चांत्रविकूजनम् ॥ आनाहश्चोर्ध्ववातश्च स
 र्वगुल्मेषु लक्षयेत् ५ । रूक्षान्नपानं विषमातिमात्रं विचेष्टनं
 वेगविनिग्रहश्च ॥ शोकाभिघातोतिमलक्षयश्च निरन्त
 ताचानिलगुल्महेतुः ६ । यः स्थानसंस्थानरुजाविकल्पं वि
 ड्वातसंगं गलवक्तशोषम् ॥ श्यावारुणत्वं शिशिरज्वरं च
 हृत्कुक्षिपाश्वीसशिरोरुजश्च ७ । करोति जीर्णैर्भ्यधिकं

होते हैं अर्थात् रक्तज एक गुल्म अधिक होता है और पांच जो
 पुरुषों के होते हैं वे तो होते ही हैं ३ गुल्मका पूर्वरूप—गुल्म जब
 होने पर होता है तो डकारें अधिक आतीं मल नहीं उतरता
 अन्न खाने को मन नहीं चलता आँते घलघलाती हैं पेट फूलता
 मन्दाग्नि होता है वस ये ही लक्षण होते हैं ४ गुल्म के साधारण
 रूप के लक्षण—अरुचि कष्ट से मलमूत्र अधोवायुका उतरना
 आँतोंका घलघलाना पेटका फूलना ऊपर को वायु चढ़ना ये
 लक्षण सब गुल्मों में होते हैं वातज गुल्मके कारण रूपा अन्न
 पान विषम समयपर सेवन करने से अपने से अधिक बलवाले
 के संग सल्लयुद्ध करने से मलमूत्र वातके वेगोंके रोकने से अति
 शोक करने से अतिदस्त होने व बहुत उपवास करने से वातज
 गुल्म होता है ६ वं जिस गुल्म में कभी पेट पर कभी कोख में पीड़ा
 होती व वह कभी छोटा कभी बड़ा हो जाता है कभी गोल कभी
 लम्बा हो जाता है व पीड़ा भी उसकी कभी अधिक कभी कम हो
 जाती है मल व वात जिस में अच्छे प्रकार नहीं होते गला व
 मुख जिसमें सूखतारहता है शरीर जिसमें नील व लाल हो जा
 ता है शीतज्वर बनारहता है हृदय पशुली कोख गर्दना व शिर

प्रकोपंभुक्तेमृदुत्वेसमुपैतियश्च ॥ वातात्सगुल्मान् चतत्र
 रुक्षं कषायतिक्तंकटुचोपशेते ८ कट्वम्लतीक्ष्णोष्णवि
 दाहिरुक्षंक्रोधातिमद्यार्कहुताशसेवा ॥ आमाभिघातोरु-
 धिरंचदुष्टपैत्तस्यगुल्मस्यनिदानमुक्तम् ९ ज्वरःपिपासा
 वदनांगरागः शूलंमहज्जीर्यतिभोजनेच ॥ स्वैदोविदाहो
 व्रणवच्चगुल्मः स्पर्शासहःपैत्तिकगुल्मरूपम् १० शीतं
 गुरुस्निग्धमचेष्टनंचसंपूरणप्रस्वपनंदिवाच ॥ गुल्मस्य
 हेतुःकफसंभवस्य सर्वस्तुदुष्टोनिचयात्मकस्य ११ स्ते
 मित्यशीतज्वरगात्रसाद् हृत्त्वासकासारुचिगौरवाणि ॥

में पीड़ा रहती है ७ व जो गुल्म अन्न पच जाने पर अधिक पीड़ा क-
 रता व उछलता है व जो भोजन करने पर उष्णता पाकर कुछ
 कोमल होजाता है ऐसे गुल्मको वातप्रधान जानना इसमें रुषा
 कसैला तीपा व कटुमा पदार्थ खाने से अधिक कष्ट होता है ८
 पित्तप्रधान गुल्मके लक्षण—कटु खट्टी तीषी उष्ण दाहकारक
 रूषीवस्तुओं के खाने से अति क्रोध करने अति मद्यपीने घाम
 में अधिक रहने व अति अग्नि की सेवा करनेसे जलेहुये अन्न के रस
 के सेवनसे अधिक चोट लगनेसे रुधिरदुष्ट हो जानेसे वसइन्हीं का-
 रणों से पैत्तिक गुल्म होता है ९ इसमें बहुधा ज्वरवना रहता है
 पिपासा लगती है मुख व शरीर भरभी लाल रहता व भोजन प-
 चने के समय बड़ी पीड़ाहोती है पसीना बहुत होता दाहहोता
 गुल्ममें घावके समान पीड़ाहोती इससे छुमानहीं जाता वसयही
 पैत्तिक गुल्मका रूप होता है १० कफज व सन्निपातज गुल्मों
 के लक्षण—रहतेहैं शीत गुरु चिकना पदार्थ खानेसे परिश्रम न
 करने से अघाने पर फिर कुछखालेने पर दिनमें बहुत सोने से
 कफज गुल्म उत्पन्न होता है व इन तीनों के लक्षणों से युक्त
 सन्निपातज गुल्महोता है यह बड़ाहीदुष्ट होता है ११ कफज गु-

शैत्यरुगल्पाकठिनोन्नतत्वं गुल्मस्यरूपाणिकफात्मकस्य
 १२ निमित्तलिगान्युपलक्ष्यगुल्मे द्विदोषजदोषवलात्र
 लच ॥ व्यामिश्रलिगानपरास्तुगुल्मास्त्रिदोषज
 कल्पनार्थम् १३ महारुजंदाहपरीतमश्मवद्धनोन्नतंशी
 ग्रविदाहिदारुणः ॥ मनश्शरीराग्निबलापहारिणं त्रिदो
 षजगुल्ममसाध्यमादिशेत् १४ नवप्रसूताहितभोजनाया
 याचामगभैविसृजेदृतावा ॥ वायुहितस्याःपरिगृह्यरक्तं
 करोतिगुल्मंसरुजंसदाहम् १५ पैतस्यलिगेनसमानलिग

ल्मके लक्षण—देह ऐसा गिला मानों कपोत्याहुआहै शीतज्वर व-
 नारहताहै अंग विशीर्ण हुआकरते हैं जीमचलायाकरताहै खांसी
 आतीहै अरुचि रहता अंग गरु वनेरहते हैं शीतलता रहती है
 थोड़ा पीड़ाहोतीहै गुल्मऊंचा व कड़ाहता है वस ये सब कफके
 गुल्मके रूप हैं १२ द्वन्द्वज गुल्मके लक्षण—द्वन्द्वज अर्थात् वात
 पित्त कफादिकों में से दो २ जिसमें मिलेहुये होते हैं उनमें
 कारण लक्षण व दोष के वलाबल देखकर तब औषध करनाचा-
 हिये व मिलेहुये तीनों ये और अन्यभागुल्मों में ऐसेही विचारांश
 करना चाहिये १३ सन्निपातज गुल्मके लक्षण—जिसगुल्ममें बड़ा
 पीड़ाहो व दाह बहुतहो व परस्पर के समान कठोरताहो व व-
 हुतऊंचा भी हो व एकाएकी बहुत जलनेलगे व अति दारुणहो
 मन शरीर व अग्निका नाशकहो ऐसे गुल्मको त्रिदोषज अर्थात्
 सन्निपातज जानना चाहिये यह गुल्म असाध्य होता है १४ ॥
 स्त्री के रक्तज गुल्म के लक्षण—नवीन प्रसूता स्त्री के अपथ्य भो-
 जने करने से वा कच्चे पर गर्भ गिरनेसे अथवा ऋतुकालमें अ-
 पथ्य भोजन करने से वात कुपित होकर स्त्री के रक्तको इकट्ठे
 करके गुल्मको उत्पन्न करता है उस गुल्ममें पीड़ाहोती है व दा-
 हहोता है १५ इस गुल्म के सब लक्षण पैतक गुल्म के समान

विशेषणंचाप्यपरंनिबोध ॥ यःस्पंदतेपिंडितएवनांगैश्चि
 रात्सशूलःसमगर्भलिंगः ॥ सरौधिरस्त्रीभवएवगुल्मोसा
 सेव्यतीतेदशमेचिकित्स्यः १६ -संचितःक्रमशोगुल्मो
 महावस्तुपरिग्रहः ॥ कृतमूलशिरानद्धो यदाकूर्मइवोन्न
 तः १७ दौर्वल्यारुचिहल्लासकासच्छर्करुचिज्वरैः ॥
 तृष्णातंद्राप्रतिश्यायैर्युज्यतेनमसिध्यति १८ गृहीत्वास
 होते हैं व कुछ विशेष लक्षण होताहै वह भी सुनो जो स्त्री को
 रक्तज पिण्ड ऐसी, ब्रैसी चलतारहे पर हाथ पैर, शिर आदि अंग
 न जानपड़ें व बहुत दिनोंके पीछे कभी-पीड़ा,भी,उठै पर स्त्रीके
 गर्भके जो लक्षण होते हैं, वे सबहों जैसे किस्तनों से, दूध, उ-
 तरना उनका मोटा होजाना ऊपरका भाग काला, प्ररजाना
 इत्यादि व गर्भ के संग फिर रुधिर नहीं गिरता और रक्त गुल्म
 में कभी २ रुधिर गिरता जाताहै ऐसे गुल्मका औपध, दशमहीने
 बीतजाने के पीछे करना चाहिये क्योंकि दशमासतक गर्भ की
 शंका बनी रहती है इसके सिवाय जब गर्भ के लक्षणोंसे कुछ
 विरुद्धता पाने से निश्चय भी होजाय कि यह गर्भ नहीं है गु-
 ल्महीहै तौ भी दशमास के पीछेही इस रक्त गुल्मका औपध क-
 रना चाहिये क्योंकि-दशमासके भीतर औपध करने से, गर्भा-
 शयनपटहोजाता है, व जब तक दशमास नहीं होते, यह गुल्मभी
 परिपक नहीं होता इससे औपध करने से अच्छा नहीं होता १६
 अवस्था के अनुसार, रक्त गुल्म के असाध्य होने का लक्षण-जब
 क्रमसे रक्त गुल्म बहुत दिनोंका होजाताहै, व धातुमें व्याप्त होकर
 बहुत नसे उसके ऊपर फैलजाती हैं, इससे तसों, से बंधजाता
 है व कलुआ के समाप्त, ऊंचा होजाता है १७ तब उसस्त्री को
 दुर्बलता आजाती है अरुचि, होती जीम, चलाता खांसी आती
 आंकाई लगती असन्तोष होजाता, ज्वर आता तृष्णा-तन्द्रा
 नाकगहना ये सब उपद्रव होजातेहैं तब यह रोग सिद्ध नहीं होता

ज्वरंश्वासंश्छद्यतीसारपीडितम् ॥ हन्नाभिहस्तपादेषुशो
फःकर्षतिगुल्मिनम् १६ श्वासशूलोपिपासान्न विद्वेषो
ग्रंथिमूढता ॥ जायंतेदुर्बलत्वंच गुल्मिनोमरणायवे २०
इतिगुल्मनिदानम् ॥

अत्युष्णगुर्वम्लकषायतिक्त श्रमाभिघाताध्ययनप्र
संगैः ॥ संचिन्तनैर्वेगविधारणैश्च हृदामयःपंचविधः प्र
दिष्टः १ दूषयित्वारसदोषा विगुणाहृदयंगताः ॥ हृदि
वाधांप्रकुर्वन्ति हृद्रोगंतप्रचक्षते २ आयम्यतेमारुतजे
असाध्य होजाता है १= इसके औरभी असाध्यलक्षण—ज्वज्वर
सहित दमभाने लगती है वमनहोता और दस्तभी आनेलगतेहैं
उसमें पीडाभीहोती है हृदय नाभि हाथ व पैरोंमेंशोथआजाताहै
तब उसमें रोगिणी स्त्रीको यहरोग खींचहीलेता जीतीनहीं १६
इसमेंक्या जिसीकिसी गुल्मवाले को जब श्वास व शूल संगही
संगहों व पिपासालगतीहीरहै भन्नउधिठिजाय गांठिवहुतकड़ीहो
जाय व शरीर दुर्बलहोजाय तो फिरउसगुल्मवालेका मरणही
होजाता है २० इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेसर्वगुल्मनिदान
मेकत्रिंशत्तमम् ॥ ३१ ॥

दोहा ॥ वत्तिसयें महँ कहँ हृदय रोग निदान विधान ॥

सोहै पञ्चप्रकार कर देखहि लोग महान १

अब हृदय के रोगका निदान कहते हैं अतिउष्ण अतिभारी
अतिखिटा अतिकसैला अतिकडू ऐसे पदार्थों के खानेसे बहुत
श्रमकरनेसे लाठीआदिकी चोटलगजाने से बहुत जोरसे पढ़ने
से बहुत चिन्तवन करनेसे मलमूत्र व अधोवायुके वेगके रोकने
से हृदयमें रोगहोताहै वहपंचप्रकारका होताहै १ उसकी सम्प्रा-
प्ति और सामान्य लक्षण—पवनादिक दोष कुपित होकर रसकी
दूषितकर हृदय में जाय नानाप्रकारकी वाधाकरते हैं उसीको
हृदय रोगकहते हैं २ वायुज हृदय रोगके लक्षण—वातज हृदय

हृदयं तु घटे तथा ॥ निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोटयते पाठ्यं
 तपिच ३ तृष्णोष्मदाहमोहास्युःपैतिके हृदये कृमः ॥ धू
 मायनं च मूर्च्छा च क्लेदः शोषो मुखस्य च ४ गौरवं कफसंस्त्रा
 वोरुचिस्तं भोग्निमार्दवम् ॥ माधुर्यमपि चास्यस्यत्र लासा
 वर्त्तते हृदि ५ विद्यात्त्रिदोषादपि सर्वलिंगतीव्रार्त्तितोदं कृ
 मिजंसकण्डुम् ॥ उत्क्लेदः प्रीवनंतोदः शूलं हल्लासकस्त
 मः ॥ अरुचिः श्यावनेत्रत्वं शोषश्च कृमिजं भवेत् ६ कृमः
 रोगमें हृदयतनतासा रहता कौचतासारहता मथने के समान
 खल्लभलाता रहता दोखण्ड होनेके समान फटाजाता चीरने के
 तुल्य चर्त्ता कुठारादिसे फाड़नेके तुल्य पीड़ितहोताहै ३ पित्त-
 ज हृदय रोगके लक्षण—पित्तज हृदय रोगमें हृदयमें तृष्णा उष्ण-
 ता दाह मोह ग्लानि धुआँइधंभाना मूर्च्छा पसीना व मुख का
 सूखना ये सब लक्षणहोते हैं ४ कफज हृदय रोगके लक्षण—जब
 कफज हृदय रोगहोता है तो शरीरमें गरुआपन रहताहै कफमु-
 खसे अधिक गिरता रहताहै अरुचि रहती हृदयभारी अग्नि की
 मन्दता मुख मीठारहना ये सब लक्षण होते हैं ५ सन्निपातज
 और कृमिज हृदय रोगके लक्षण—जिसमें वात पित्त कफ तीनों
 के लक्षणहों उसे त्रिदोषज अर्थात् सन्निपातका हृदयरोग जानना
 चाहिये इसमें कुपथ्य करने से गुल्म उत्पन्न होता है उससे कृमि
 उत्पन्न होताहै वह कृमिज रोग तीव्रपीड़ाको करताहै मानों कोई
 सुईसे कौचताहै ऐसा विदित होताहै इसमें खुजली भी उठती
 है ओकाई आती धुकुधुकी लगती कौचनेकीसी पीड़ाहोती है
 शूलउठती जीमंचलाता आगे अंधेरासा छाजाता अरुचिहोजाती
 नेत्र कालेहोजाते शरीर सूखजाताहै वस ये सब लक्षण इस कृ-
 मिज हृदयरोगमें होते हैं ६ इनसब हृदयरोगोंके उपद्रव ग्लानि
 शरीर विशीर्णहोना भ्रम और शरीर का सूखना ये सब इनहृदय
 के सब रोगों के उपद्रव हैं व कृमिज हृदयरोग में जो कफज

सादोश्रमः शोषोज्ञेयास्तेषामुपद्रवाः ॥ कृमिजेकृमिजाती
नांश्लेष्मजानांचयेमताः ७ ॥ इति दृद्रोगनिदानम् ॥

व्यायामतीक्ष्णोषधरूक्षमद्यः प्रसंगन्त्यद्रुतपृष्ठयाना
त् ॥ अनूपमत्स्याध्यशनादजीर्णात्स्युर्मूत्रकृच्छ्राणि नृणां
तथाष्टौ १ पृथग्मलाः स्वैः कुपितानिदाने रसवैथवाकोप
मुपेत्यवस्तौ ॥ मूत्रस्य मार्गपरिपीडयन्ति यदा तदा मूत्र
यतीह कृच्छ्रात् २ तीव्राचरुक्वंक्षणवस्तिमेदेष्वल्पमु
हुर्मूत्रयतीहवातात् ॥ पीतंसरक्तंसरुजंसदाहं वेगान्मुहु

हृदयरोगमे उपद्रव कहते हैं वेही होते हैं जैसे कि मुखसे राल
बहना जीमचलाना अन्न न पचना व अरुचिहो जाना ७ ॥
इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे हृदयरोगनिदानं द्वात्रिंशत्तमम् ॥
दोहा ॥ त्येति सयमहं कह सुखवि मूत्रकृच्छ्र निदान ॥

देखिं सुजन लगायचित जो यहिमाहि प्रधान १
अथ मूत्रकृच्छ्ररोगका निदान कहते हैं— प्रतिपरिश्रम करनेसे
तीक्ष्ण औषध सेवन करनेसे रूपावस्तु बहुत स्वाजाने से अधिक
मदिरा पानेसे अति मैथुन करनेसे नाचनेसे घोड़े हाथी बग्यीआ-
दि शीघ्र चलनेवालेके पीछे दौड़नेसे वा बहुत घोड़ेपर चढ़के दौ-
ड़नेसे जलचरके मांसके खाने व जलसमीपी जीवके मांसके खाने
से अजीर्ण होनेसे मनुष्योंको आठ प्रकारके मूत्रकृच्छ्र होते हैं १
अपने २ कारणोंसे संकुपित यात पित्त कफ अलग ३ वा सत्र
के सब इकट्ठे होकर पीड़के भीतर जाकर मूत्रके मार्गको जत्र
परिपीडित करते हैं तो मनुष्य बड़ेकष्टसे मूत्रता है इसीको मू-
त्रकृच्छ्र कहते हैं २ वातज और पित्तज मूत्रकृच्छ्रके लक्षण वात
के मूत्रकृच्छ्रमें अण्डसन्धिमें मूत्राशयमें वलिंगमें तीव्र पीड़ा
होती है व बार न थोड़ा सा मूत्रता है और पित्तज मूत्रकृच्छ्रमें
पिस्ता लाल लिये दाह सहित पीड़ाकरतेहुये मूत्रको वार २ बड़े

मूत्रयतीहपित्तात् ३ वस्तेस्सलिंगस्यगुरुत्वंशोथोमूत्रं
संपिच्छं कफमूत्रकृच्छ्रे ॥ सर्वाणिरूपाणिचसन्निपाताद्
वतितत्कृच्छ्रतमंचकृच्छ्रम् ४ मूत्रवाहिषुशल्येनक्षतेष्व
भिहतेषुच॥मूत्रकृच्छ्रन्तदाघाताज्जायतेभृशदारुणम् ॥
वातकृच्छ्रेणतुल्यानि तस्यलिंगानिनिर्दिशेत् ५ शकृत
स्तुप्रतीघाताद्वायुविगुणतांगतः ॥ आध्मानिवातशूलौ
च मूत्रसंगं करोति च ६ अश्मरीहेतुतत्पूर्वं मूत्रकृच्छ्रमु
दाहरेत् ॥ शुक्रदोषैरुपहते मूत्रमार्गविधारिते ॥ सशुक्रं
मूत्रयेत्कृच्छ्राद्वास्तिमेहनशूलवान् ७ अश्मरीशर्करांचैव

वेग से छोड़ता है ३ कफज व सन्निपातज मूत्रकृच्छ्र के लक्षण-
कफके मूत्रकृच्छ्र में मूत्राशय व लिंग में गुरुता और शोथ दोनों
होते हैं व मूत्रमें बिकनाई होती है व सन्निपात के मूत्रकृच्छ्र में
वात पित्त कफतीनोंके सब लक्षण होते हैं यह मूत्रकृच्छ्र अत्यन्त
कष्टदहता है ४ शल्यजमूत्रकृच्छ्रके लक्षण—जबमूत्रनिकलनेवाली
नसों में कभी किसीकी चोट अधिक लगजाती है तो उसके
आघातसे अतिदारुण मूत्रकृच्छ्र रोग उत्पन्न होजाता है इसके
सब लक्षण वातकृच्छ्रके तुल्य होते हैं ५ पुरीषजन्य मूत्रकृच्छ्रके
लक्षण—जबकभी मलमेंकिसीप्रकारका अभिघातहोताहै तोवायु
डलटा चलने लगता है वस उसीसमय पेटको फुलादेता और
उलठताहै व मूत्रकी रोकदेताहै इसीको पुरीष अर्थात् मलसे
त्पन्न मूत्रकृच्छ्र कहते हैं ६ अश्मरीजन्य व शुक्रजमूत्रकृच्छ्रों के
लक्षण—पथरीरोगके होनेके कारण जोकण्ड से मूत्रजाताहै उसे
अश्मरीजन्य मूत्रकृच्छ्रकहते हैं जब शुक्र अर्थात् काममें दोषका
ग होताहै इससे शुक्र अभिहत होजाताहै मूत्र के मार्गमें
तो घाव करदेता है अथवा मांस बढ़ाकर उसे रोकताहै तब
इ कष्ट से मूत्रजाताहै अथवा मूत्र के साथ धातुजाने लगताहै

तुल्यसंभवलक्षणे ॥ विशेषणंशर्करायाःशृणुकीर्तयतो
मम- ८ पच्यमानाश्मरीपित्ताच्छोष्यमाणाचवायुना ॥
विमुक्तकफसंधानाक्षरंतीशर्करामता ६ हृत्पीडावेपथुः
शूलकुक्षावग्निश्चदुर्बलः ॥ तथाभवतिमूर्च्छाचिमूत्रकृ
च्छंसुदारुणम् १० ॥ इतिपूत्रकृच्छ्रनिदानम् ॥

जायंतेकुपितैर्दोषैर्मूत्राघातास्त्रयोदश ॥ प्रायोमूत्रवि
घाताद्यैर्वातकुण्डलिकादयः १ रौक्ष्याद्वेगविघाताद्वावायु
र्वस्तौसवेदनः ॥ मूत्रमाविश्यचरतिविगुणःकुंडलीकृतः २

इसमें मूत्राशय और लिंग में पीड़ा होती है ७ अश्मरीरोग व
शर्करा रोग इन दोनों के लक्षण—व उत्पत्ति एकही हैं परन्तु शर्क-
रा रोग में जो विशेषता है उसे हम कहते हैं सुनो ८ पित्त से
पककर और वायु से शोषित होकर जबतक कफ का जोर न
होने से बँधतीनहीं तबतक अश्मरी जिसे पथरी कहते हैं नहीं
बनती व उसी बीचमें मूत्रके संग कुछ खरखराहटके साथ गिरने
को शर्करारोग कहते हैं ९ इसशर्करा रोगमें हृदयमें पीड़ाहोतीहै
शरीर कांपने लगताहै कोखमें शूलउठती है और अग्निमन्द
होजाताहै मूर्च्छा होती है यह मूत्ररुच्छ्र अतिदारुण होताहै १० ॥

इति श्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेमूत्ररुच्छ्र

निदानन्त्रयस्त्रिंशत्तमम् ३३ ॥

दोहा ॥ चोतिसयैमहं कह सुकवि मूत्राघात निदान ॥

सब वे तेरह होत हैं यहाँ कहे सविधान १

बहुधा मूत्रमल व शुक्रके रोकने से दोषोंके कुपित होने से
वात कुण्डलिकादिक तेरहप्रकार के मूत्राघातनाम रोगहोतेहैं १
वातकुण्डलिका नाम मूत्राघातके लक्षण—हवाई से अथवा मू-
त्रादिकों के वेगों के रोकनेसे वायु मूत्राशयमें जाय पीड़ाकरता
हुआ मूत्रमें प्रवेशकरके कुण्डलाकार विगड़कर घूमने लगताहै १

मूत्रमलाल्पमथवासरुजंसंप्रवर्त्तते ॥ वातकुंडलिकांतां
तुव्याधिविद्यात्सुदारुणम् ३ आध्यापयन्वस्तिगुदंरु
द्धवावायुश्चलोन्नताम् ॥ कुर्यात्तीव्रार्त्तिमष्ठीलामूत्रविण्मा
र्गरोधिर्नाम् ४ वेगंविधारयेद्यस्तु मूत्रस्याकुशलोत्तरः ॥
निरुणद्धिमुखंतस्यवस्तेर्वस्तिगतोत्तिलः ५ मूत्रसंगोभवे
त्तेन वस्तिकुक्षिनिपीडितः ॥ वातवस्तिस्सविज्ञेयो व्या
धिःकृच्छ्रप्रसाधनः ६ चिरंधारयतोमूत्रंत्वरयानप्रवर्त्तते ॥
मेहमानस्यमंदंवा मूत्रातीतःसउच्यते ७ मूत्रस्यवेगेभि
हते तदुदावर्त्तहेतुकः ॥ अपानःकुपितोवायुरुदरंपूरये
द्रुशम् ८ नाभेरधस्ताद्वाध्मानंजनयेत्तीव्रनेदनम् ॥ तन्मू
तव मूत्र थोड़ा २ होनेलगतता है अथवा पीड़ा सहित होता है
इसरोगको वातकुण्डलिका कहते हैं इसे अतिदारुण जानना चा-
हिये ३ अष्ठीला मूत्राघात के लक्षण—वायु मूत्राशय और गुदको
फुलाकर व रोंककर चलतीहुई ऊँची बड़े कष्टदेनेवाली व मूत्र
मलके रोकनेवाली अष्ठीलानामवाली पत्थर सरीखी गांठिकी
करता है ४ वातवस्तिनाम मूत्राघातके लक्षण—जो पुरुष योगा-
भ्यास नहीं जानता वह अकुशल मनुष्य पेशाब लगने पर जव
नहीं करता उसे रोंकलेताहै तो मूत्राशयमें रहनेवाला वायु फिर
मूत्राशयके मुखको बन्दकरलेताहै ५ इससे फिर मूत्र बन्दहोजा-
ताहै उसीसे मूत्राशयमें व कोठे में वह वायु पीड़ाकरने लगताहै
इसरोगको वातवस्तिनाम मूत्राघात कहते हैं यह रोग बड़े कष्ट
से साध्य होताहै ६ मूत्रातीतनाम मूत्राघात के लक्षण—जवबड़ी
देरतक मूत्रको रोंकेरंहते हैं तो फिर शीघ्रताकेसाथ मूत्र नहीं खु-
लता वरन जव मूतने लगते हैं तो धीरे २ मूताजाता है इस
रोगको मूत्रातीत कहते हैं ७ मूत्रजठरनाम मूत्राघात के लक्षण—
मूत्रके वेगकेरोंकनेसे उससे उदावर्त्तरोग होताहै जिसका कारण

त्रजठरंविद्यादधोवस्तिनिरोधनम् ६ वस्तौवाप्यथवानाडे
 मणौवायस्यदेहिनः ॥ मूत्रंप्रवृत्तंसज्येतसरक्तंवाप्रवाहतः
 १० स्रवेच्छनैरल्पमल्पंसरुजंवाप्यनीरुजम् ॥ विगुणा
 निलजोव्याधिःसमूत्रोत्संज्ञसंज्ञितः ११ रूक्षस्यछांतदेह
 स्यवस्तिस्थौपित्तमारुतौ ॥ मूत्रक्षयंसरुग्दाहंजनयेतांत
 दाहयम् १२ अन्तर्वस्तिमुखेवृत्तःस्थिरोल्पःसहसाभवेत्
 अश्मरीतुल्यरुग्रन्थिमूत्रग्रन्थिःसउच्यते १३ मूत्रितस्य
 स्त्रियंयातोवायुनाशुकमुद्धतम् ॥स्थानाच्च्युतंमूत्रयतःप्रा
 कपश्चाद्वाप्रवर्त्तते ॥ भस्मोदकप्रतीकाशंमूत्रशुकंतदुच्य

गुदमें रहनेवाला अपानवायु है वह कुपित होकर पेटको भरदेता है = व नाभिके नीचे पेटको फुलादेता व बड़ीभारी पीड़ाकरने लगताहै इसरोगका मूत्रजठरनाम है यह नाभिकेनीचे मूत्राशय को रोंकरखता है ६ मूत्रोत्संगनाम मूत्राघात के लक्षण—जब पेशाव लगताहै व किसी प्राणी के किसी कुयोग से मूत्राशयमें वा लिंगमें वा लिंगके अग्रिम भागमें अड़जाताहै वह रक्तसहित वा ऐसेही जब थोड़ा २ होताहै १० व धीरे २ बहुत थोड़ा होता है वह चाहे पीड़ाकेसाथहो अथवा बिना पीड़ाकाहो तब इसकुपित वायुसे उत्पन्न रोगको मूत्रोत्संग कहते हैं ११ मूत्रक्षयनाम मूत्राघात के लक्षण—रूपे व अतिभ्रमसे थकेहुये पुरुष के मूत्राशय में टिकेहुये पित्त व पवन पीड़ा व दाहसहित मूत्रकानाश करदेते हैं इससे इसरोगका मूत्रक्षयनाम कहाजाता है १२ मूत्रग्रन्थि नाम मूत्राघात के लक्षण—मूत्राशयके मुखपर गोल २ अबल छोटासा जो एकाएकी होभावे व पयरी रोगकेतुल्य पीड़ाकरे इस गाँठिरूप रोगको मूत्रग्रन्थि कहते हैं १३ मूत्रशुकनाम मूत्राघात के लक्षण—जिस पुरुषके पेशाव लगाहोताहै व उसीसमय बिना पेशाव कियेही स्त्रीप्रसंग करने लगताहै तो पवन शुकको उसके

ते १४ व्यायामाध्वातपैःपित्तं वस्तिं प्राप्या निलान्वितम् ॥
 वस्तिं मेढ्रं गुदं चैव प्रदहन् स्रावयेदधः १५ मूत्रं हरिद्रमथवा
 सरं क्तरक्तमेव वा ॥ कृच्छ्रात्पुनः पुनर्जंतोरुष्णवातं वदंति त
 म् १६ पित्तं कफो वा द्वावापि संहन्येते निलेन चेत् ॥ कृच्छ्रा
 न्मूत्रं तदा पीतं रक्तं श्वेतं घनं सृजेत् १७ सदा हंरोचना शंख
 चूर्णवर्णं भवेत्ततः ॥ शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसादं वदंति त
 म् १८ रूक्षान्नभुग्दुर्बलयोर्वातेनाधोवृत्तं शकृत् ॥ मूत्र
 स्रोतोनुपद्येत विट्संसृष्टं तदानरः १९ विड्गंधं मूत्रयेत्कृ
 च्छ्राद्विड्विघातं विनिर्दिशेत् २० द्रुताध्वलं घनायासैरभि

स्थानपरसे हटादेताहै फिर जब वह पेशाव करने लगता है तो
 किंतौ उसके प्रथमही वा पीछेको वह काम गिरताहै उसकारंग
 राखमिलेहुये पानीकासाहोताहै इसरोगको मूत्रशुक्रकहते हैं १४
 उष्ण वातनाम मूत्राघातके लक्षण—अधिकभ्रम दगड मुद्गरादि
 करनेसे वा बहुत मार्गचलने से अथवा अधिक धाम लूक लग
 जानेसे वायुसहित पित्त मूत्राशय में पहुँचकर मूत्राशय लिंग व
 गुदको जलतेहुये पित्तवायु १५ हरिद्राके रंगका वा रक्तकेरंगका
 वा रक्तही मूत्रके स्थानसे चुआते हैं यह रक्त वा हरिद्राके रंगका
 मूत्र बड़े कण्ट से बार२ पुरुषके होताहै इसरोगको उष्णवातकहते
 हैं १६ मूत्रासादके लक्षण—जब पित्त वा कफ वा दोनों जाकर
 वायु में बनाय मिलजाते हैं तब बड़े कण्टसे पीला लाल अथवा
 श्वेत व गाढा पेशाव होताहै १७ अथवा जलताहुआ होता है
 फिर पृथ्वीपर गिरनेके पीछे जमकर गोरोचन व शंखके चूर्णकेरंग
 काहोजाताहै अथवासूखनेपर सवरंगका होजाताहै इस रोगको
 मूत्रासाद कहते हैं १८ विड्विघातके लक्षण- रूखान्न खानेवाले
 व दुर्बल पुरुषके मलकोवायु आच्छादित करके लेआय मूत्र के
 स्थानमें करवेता तब वह पुरुष विष्ठांमिला मूत्र मूतताहै १९

घातात्प्रपीडनात् ॥ स्वस्थानां द्वस्तिरुद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठ
 तिगर्भवत् ॥ २१ ॥ शूलरूपं दनदाहात्तौ विडुं विडुं सूक्त्यपि ॥
 पीडितस्तु सृजेद्वारं संस्तं भोद्वेष्टनार्त्तिमान् ॥ २२ ॥ वस्तिकुंड
 लमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् ॥ पवनप्रवलं प्रायोदुर्निव्रा
 रमंत्रद्विभिः ॥ २३ ॥ तस्मिन् पित्तान्विते दाहः शूलमूत्रविवर्ण
 ता ॥ शोथः श्लेष्मयुते गौरं स्निग्धमूत्रं दुग्धनंसितम् ॥ २४ ॥
 श्लेष्मरुद्धविलोचस्तिः पित्तो दीर्घो न सिध्यति ॥ अविभ्रा
 न्तविलस्साध्यो न वयः कुण्डलीकृतः ॥ २५ ॥ स्याद्वस्तौ कुंड

जिसकी गन्धि विषाकीसी आती है इसके मूतने में बड़ाही कष्ट
 होता है व इसका विडुविघातनाम कहना चाहिये ॥ २० ॥ वस्तिकु-
 ण्डलके लक्षण—बहुत दौड़कर मार्ग चलनेसे उपवास करनेसे
 बहुत श्रम करने से लाठीआदिकी चोट लगनेसे कहीं दबजानेसे
 वा कुचलजानेसे मूत्राशय अपने स्थानसे कुछेक ऊपर जाकर
 पेडूको फुलाकर गर्भकी नाई करदेता है ॥ २१ ॥ इससे शूल कुछ ब-
 लना दाह व पीड़ा ये सत्र होते हैं मूत्र बूँद ३ होता है जब मूत्रा-
 शय पर जोर परता है तब मूत्रकी धारा वहने लगती है जबस्तम्भन
 होजाता है पेशाब रुँकता है तो बड़ी पीड़ा होती है २२ इसरोगको
 वस्तिकुण्डल कहते हैं यह शस्त्र और विषके तुल्य घोर होता है
 इसमें प्रायः पवन की प्रवलता होती है व थोड़ी बुद्धिवाले वैद्योंसे
 बड़े कष्टसे इसका निवारण होता है २३ चहरोग जब पित्तयुक्त होता
 है तो दाह शूल होती है व मूत्र रंगविरंगका होता है व जब कफसे युक्त
 होता है तो पेशाब उजला होता पर मूत्राशयमें शोथ होआता है व
 मूत्र चिकना व गाढ़ा व बहुत श्वेत होता है २४ साध्यासाध्यका
 विचार—जिस मूत्राशयका छिद्रकफसे रुँधजाता है अथवा पित्तयुक्त
 होता है वह सिद्धनहीं होता किन्तु असाध्य होता है व जिस मूत्राश-
 यका मुहँ खुला रहता है वह साध्य होता है और जो कुण्डली

लीभूतेतृणमोहःश्वासएवच २६ ॥ इतिमूत्राघातनिदानम् ॥

वातपित्तकफैस्तिक्ष्णचतुर्थीशुक्रजास्मृता ॥ १ प्राय
श्श्लेष्माश्रयास्सर्वाश्चर्मर्यस्स्युर्यमोपमा १ विशेषये
द्वस्तिंगतंसशुक्रंमूत्रंसपित्तंपवनःकफंवा ॥ यदातदाश्म
र्युपजायतेतुक्रमेणपित्तोष्विवरोचनर्गाः २ नैकदोषाश्र
याःसर्वाश्चथासांपूर्व्वलक्षणम् ॥वस्त्याधमानंतदासन्नदेशे
षुपरितोतिरुक् ३ मूत्रेवस्तस्यगंधत्वंमूत्रकृच्छ्रंज्वरोरु
चिः४सामान्यलिंगंरुग्नाभिसेवनीवस्तिमूर्द्धसु ॥विशीर्ण
कृतनहीं है वह भी साध्य होता है २५ जब मूत्राशय कुण्डली
भूत होजाता है तो तृष्णा मोह और श्वास होते हैं ॥ २६ ॥ इति
श्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेमूत्राघातनिदानंचतुस्त्रिंशत्तमम् ३४॥
दोहां ॥ पैतिसर्थे महे अश्मरी रोग निदान बखान ॥

लपहिं सुजन सीखहिं भले त्यहि निष्काश विधान ३
अश्मरी अर्थात् पथरी रोग के लक्षण--वात पित्त व कफ से
तीन प्रकारकी अश्मरियां होती हैं व चौथी शुक्र से उत्पन्न होती
है बहुधा सब अश्मरियों में कफहीकी प्रधानता होती है व सब
यमराज के तुल्य होती हैं १ इस के सम्प्राप्तिके लक्षण--जब पवन
मूत्राशय में जाकर शुक्र सहित वा पित्त सहित मूत्रको अथवा
कफको सुखाता है तब जमकर अश्मरी अर्थात् पथरी होजाती
है जैसे गाय के पित्त में जमकर गोरोचना बनजाती है २
अश्मरी का पूर्व्वरूप-सब अश्मरियोंमें अनेक दोष होतेहैं अब
इन के पूर्व्व का लक्षण कहते हैं- सर्षों में वस्ति फूलजाती है व
वस्तिके चारों ओर पीड़ा हुआकरती है ३ मूत्र में छागके मूत्रकी
सी गन्धि आती है व पेशाव बड़े कष्ट से उतरता है ज्वर होता
भोजनादि में अरुचि रहती है ४ अश्मरी रोग के सामान्य लक्षण
ये हैं पथरी के सामान्य लक्षण हैं कि नाभि में व मूत्राशय के
ऊपरी भाग से पीडा होती है और जब पथरी से मूत्र का मार्ग रुक

घातात्प्रपीडनात् ॥ स्वस्थानाद्वास्तिरुद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठ
 तिगर्भवत् २१ शूलरूपदंनदाहार्तोविदुंविदुंसर्वत्यपि ॥
 पीडितस्तुसृजेद्वारंसस्तंभोद्वेष्टनार्त्तिमान् २२ वस्तिकुंड
 लमाहुस्तंघोरंशस्त्रविषोपमम् ॥ पवनप्रचलंप्रथोदुर्निवा
 रमंत्रुद्धिभिः २३ तस्मिन्नपित्तांश्वितेदाहः शूलमूत्रविवर्ण
 ता ॥ शोथःश्लेष्मयुतेगौरस्निग्धम्मूत्रंङ्घनंसितम् २४
 श्लेष्मरुद्धविलोवस्तिःपित्तोदीर्णो नसिध्यति ॥ अत्रिभ्रा
 न्तविलस्साध्यो नत्रयःकुण्डलीकृतः २५ स्याद्वस्तौकुंड

जिसकी गन्धि विष्टाकीसी आती है इसके मूतने में बड़ाही कष्ट
 होताहै व इसका विद्विधातनाम कहना चाहिये २० वस्तिकु
 ण्डलके लक्षण—बहुत दौड़कर मार्ग चलनेसे उपवास करनेसे
 बहुत श्रम करने से लाठीआदिकी चोट लगनेसे कहीं दंभजानेसे
 वा कुचलजानेसे मूत्राशय अपने स्थानसे कुछेक ऊपर जाकर
 पेडूको फुलाकर गर्भकी नाई करदेताहै २१ इससे शूल कुछब
 लना दाह व पीडा ये सब होतेहैं मूत्र वैद ३ होताहै जत्र मूत्रा
 शयपर जोर परताहै तत्र मूत्रकीधारा बहने लगतीहै जत्रस्तम्भन
 होजाताहै पेशाब रूँकताहै तो बड़ीपीडा होती है २२ इसरोगको
 वस्तिकुण्डल कहते हैं यह शस्त्र और विषके तुल्य घोर होता है
 इसमें प्रायः पवन की प्रचलता होतीहै व थोड़ी बुद्धिवाले वैद्योंसे
 बड़े कष्टसे इसकानिवारण होताहै २३ यहरोग जत्र पित्तयुक्तहोता
 है तो दाह शूलहोतीहै वमूत्र रंगविरंगकाहोताहै व जत्र कफसेयुक्त
 होताहै तो पेशाब उजला होता पर मूत्राशयमें शोथहोआताहै व
 मूत्र चिकना व गाढा व बहुत श्वेत होताहै २४ साध्यासाध्यका
 विचार—जिस मूत्राशयका छिद्रकफसे रूँधजाताहै अथवा पित्तयुक्त
 होताहै वह सिद्धनहींहोता किन्तु असाध्य होताहै वजिसमूत्राश
 यका मुँहखुला रहताहै वह साध्य होताहै और जो कुण्डली

लीभूतेतृणमोहःश्वासएवच २६ ॥ इतिमूत्राघातनिदानम् ॥

वातपित्तकफैस्त्रिचतुर्थीशुक्रजास्मृता ॥ प्राय
इत्लेष्माश्रयास्सर्वाअश्मर्यस्स्युर्यमोपमा १ विशोपये
द्वस्तिगतंसशुक्रंमूत्रंसपित्तंपननःकफंवा ॥ यदातदाश्म
र्युपजायतेतुक्रमेणपित्तोष्विवरोचनार्गाः २ नैकदोषाश्र
याःसर्वाअथासांपूर्व्वलक्षणम् ॥वरत्याध्मानंतदासन्नदेशे
षुपरितोतिरुक् ३ मूत्रेवस्तस्यगंधत्वंमूत्रकृच्छ्रंज्वरोरु
चिः४सामान्यलिंगंरुग्नाभिसेवनीवस्तिमूर्द्धसु ॥विशीर्ण
कृतनहीं है वह भी साध्य होता है २५ जब मूत्राशय कुण्डली
भूत होजाता है तो तृष्णा मोह और श्वास होते हैं ॥ २६ ॥ इति
श्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेमूत्राघातनिदानंचतुस्त्रिंशत्तमम् ३४॥

दोहा ॥ पैतिसर्थे महँ अश्मरी रोग निदान बखान ॥

लपहिं सुजन सीखहिं भले त्यहि निष्काश विधान ३

अश्मरी अर्थात् पथरी रोग के लक्षण वात पित्त व कफ से
तीन प्रकारकी अश्मरियां होती हैं व चौथी शुक्र से उत्पन्न होती
है बहुधा सब अश्मरियों में कफहीकी प्रधानता होती है व सब
यमराज के तुल्य होती हैं १ इस के सम्प्राप्तिके लक्षण--जब पवन
मूत्राशय में जाकर शुक्र सहित वा पित्त सहित मूत्रको अथवा
कफको सुखाता है तब जमकर अश्मरी अर्थात् पथरी होजाती
है जैसे गाय के पित्त में जमकर गोरोचना बनजाती है २
अश्मरी का पूर्वरूप-सब अश्मरियोंमें अनेक दोष होतेहैं अब
इन के पूर्वं का लक्षण कहते हैं- सर्वा में वस्ति फूलजाती है व
वस्तिके चारों ओर पीड़ा हुआकरती है ३ मूत्र में छागके मूत्रकी
सी गन्धि आती है व पेशाव बड़े कष्ट से उतरता है ज्वर होता
भोजनादि में अरुचि रहती है ४ अश्मरी रोग के सामान्य लक्षण
ये हैं पथरी के सामान्य लक्षण हैं कि नाभि में व मूत्राशय के
ऊपरी भाग से पीड़ा होती है और जब पथरी से मूत्र का मार्ग रुक

घातात्प्रपीडनात् ॥ स्वस्थानां द्वस्तिरुद्वृत्तः स्थूलस्तिष्ठ
 तिगर्भवत् २१ शूलस्पंदनदाहात्तोविदुंविदुंसर्वत्यपि ॥
 पीडितस्तुसृजेद्वारंसंस्तंभोद्वेष्टनार्त्तिमान् २२ वस्तिकुंड
 लमाहुस्तंघोरंशस्त्रविषोपमम् ॥ पवनप्रबलंप्रायोदुर्निवा
 रमंबुद्धिभिः २३ तस्मिन्नपित्तांन्वितेदाहः शूलमूत्रविवर्ण
 ता ॥ शोथःश्लेष्मयुतेगौरंस्निग्धम्मूत्रब्धनंसितम् २४
 श्लेष्मरुद्धविलोवस्तिःपित्तोदीर्णानसिध्यति ॥ अत्रिभ्रा
 न्तविलरसाध्योनवयःकुण्डलीकृतः २५ स्याद्वस्तौकुंड

जिसकी गन्धि विष्टाकीसी आती है इसके मूतने में बड़ाही कष्ट
 होताहै व इसका विद्विषातनाम कहना चाहिये २० वस्तिकु-
 ण्डलके लक्षण-बहुत दौड़कर मार्ग चलनेसे उपवास करनेसे
 बहुत श्रम करने से लाठीआदिकी चोट लगनेसे कहीं दबजानेसे
 वा कुचलजानेसे मूत्राशय अपने स्थानसे कुछेक ऊपर जाकर
 पेड़को फुलाकर गर्भकी नाई करदेताहै २१ इससे शूल कुछेक
 लना दाह व पीड़ा ये सब होतेहैं मूत्र बूंद ३ होताहै जब मूत्रा-
 शयपर जोर परताहै तब मूत्रकीधारा वहने लगतीहै जबस्तम्भन
 होजाताहै पेशाब रूकताहै तो बड़ीपीड़ा होती है २२ इसरोगको
 वस्तिकुण्डल कहते हैं यह शस्त्र और विषके तुल्य घोर होता है
 इसमें प्रायः पवन की प्रबलता होतीहै व थोड़ी बुद्धिवाले वैद्योंसे
 बड़े कष्टसे इसकानिवारण होताहै २३ यहरोग जब पित्तयुक्तहोता
 है तो दाह शूलहोतीहै वमूत्र रंगविरंगकाहोताहै व जब कफसेयुक्त
 होताहै तो पेशाब उजला होता पर मूत्राशयमें शोथहोआताहै व
 मूत्र बिकना व गाढा व बहुत द्रवत होताहै २४ साध्यासाध्यका
 विचार-जिस मूत्राशयका छिद्रकफसे रूंधजाताहै अथवा पित्तयुक्त
 होताहै वह सिद्धनहींहोता किन्तु असाध्य होताहै वजिसमूत्राश-
 यका मुहँखुला रहताहै वह साध्य होताहै और जो कुण्डली

लीभूतेतृणमोहःश्वासएवच २६ ॥ इति मूत्रावातनिदानम् ॥

वातपित्तकफैस्तिक्लश्चतुर्थीशुक्रजास्मृता ॥ प्राय
इलेष्माश्रयास्सर्वाअश्मर्यस्स्युर्यमोपमा १ विशोपये
द्वस्तिंगतंसशुक्रंमूत्रंसपित्तंपवनःकफंवा ॥ यदातदाश्म
र्युपजायतेतुक्रमेणपित्तोष्विवरोचनार्गोः २ नैकदोषाश्र
याःसर्वाअथासांपूर्वलक्षणम् ॥ वस्त्याधमानंतदासन्नदेशे
षुपरितोतिरुक् ३ मूत्रेवस्तस्यगंधत्वंमूत्रकृच्छ्रंज्वरोरु
चिः४सामान्यलिंगंरुग्नाभिसेवनीवस्तिमूर्द्धसु ॥ विशीर्ण
रुतनहीं है वह भी साध्य होता है २५ जब मूत्राशय कुण्डली-
भूत होजाता है तो तृष्णा मोह और श्वास होते हैं ॥ २६ ॥ इति
श्रीमाधवनिदाने भोपानुवादे मूत्रावातनिदानं चतुस्त्रिंशत्तमम् ३४ ॥

दोहों ॥ पैंतिसथें महुँ अश्मरी रोगं निदान बखान ॥

लपहिं सुजन सीखहिं भले त्यहि निष्काश विधान ३

अश्मरी अर्थात् पथरी रोग के लक्षण--वात पित्त व कफ से
तीन प्रकारकी अश्मरियां होती हैं व चौथी शुक्र से उत्पन्न होती
है बहुधा सब अश्मरियों में कफहीकी प्रधानता होती है व सब
यमराज के तुल्य होती हैं १ इस के सम्प्राप्तिके लक्षण--जब पवन
मूत्राशय में जाकर शुक्र सहित वा पित्त सहित मूत्रको अथवा
कफको सुखाता है तब जमकर अश्मरी अर्थात् पथरी होजाती
है जैसे गाय के पित्त में जमकर गोरोचना बनजाती है २
अश्मरी का पूर्वरूप-सब अश्मरियोंमें अनेक दोष होतेहैं अब
इन के पूर्व का लक्षण कहते हैं- सर्वा में वस्ति फूलजाती है व
वस्तिके चारों ओर पीड़ा हुआकरती है ३ मूत्र में छागके मूत्रकी
सी गन्धि आती है व पेशाब बड़े कष्ट से उतरता है ज्वर होता
भोजनादि में अरुचि रहती है ४ अश्मरी रोग के सामान्य लक्षण
ये हैं पथरी के सामान्य लक्षण हैं कि नाभि में व मूत्राशय के
ऊपरी भाग से पीडा होती है और जब पथरी से मूत्र का मार्ग रुकं

घातात्प्रपीडनात् ॥ स्वस्थानाद्भिस्तिरुद्धृतः स्थूलस्तिष्ठ
तिगर्भवत् २१ शूलस्पंदनदाहार्तो विटुं विटुं सूवत्यपि ॥
पीडितस्तु सृजेद्वारं संस्तं भोद्वेष्टनार्त्तिमान् २२ वस्तिकुंड
लमाहुस्तं घोरं शस्त्रविषोपमम् ॥ पवनप्रबलं प्रायोदुर्निवा
रमंबुद्धिभिः २३ तस्मिन्पित्तां वितेदाहः शूलं मूत्रविवर्ण
ता ॥ शोथः श्लेष्मयुते गोरं स्निग्धं मूत्रं द्रव्यं नसितम् २४
श्लेष्मरुद्धविलोवस्तिः पित्तो दीर्घो नसिध्यति ॥ अत्रिभ्रा
न्तविलस्साध्यो नवयः कुण्डलीकृतः २५ स्याद्दस्तौ कुंड
लित्तौ गन्धि विष्टाकीसी आती है इसके मूत्रने में बड़ा ही कष्ट
होता है व इसका विटुं विवातनाम कहना चाहिये २० वस्तिकु
ण्डलके लक्षण—बहुत दौड़कर मार्ग चलनेसे उपवास करनेसे
बहुत श्रम करनेसे लाठीआदिकी चोट लगनेसे कहीं दबजानेसे
वा कुचलजानेसे मूत्राशय अपने स्थानसे कुछेक ऊपर जाकर
पेडूको फुलाकर गर्भकी नाई करदेता है २१ इससे शूल कुच्छव
लना दाह व पीड़ा ये सब होते हैं मूत्र बूँद ३ होता है जब मूत्रा
शयपर जोर परता है तब मूत्रकी धारा बहने लगती है जबस्तम्भन
होजाता है पेशाब रुकता है तो बड़ी पीड़ा होती है २२ इसरोगकी
वस्तिकुण्डल कहते हैं यह शस्त्र और विषके तुल्य घोर होता है
इसमें प्रायः पवन की प्रबलता होती है व थोड़ी बुद्धिवाले वैद्योंसे
बड़े कष्टसे इसकानिवारण होता है २३ यह रोग जब पित्तयुक्त होता
है तो दाह शूल होती है व मूत्र रंगविरंगका होता है व जब कफसे युक्त
होता है तो पेशाब उजला होता पर मूत्राशयमें शोथ होआता है व
मूत्र चिकना व गाढ़ा व बहुत श्वेत होता है २४ साध्यासाध्यका
विचार—जिस मूत्राशयका छिद्रकफसे रूंधजाता है अथवा पित्तयुक्त
होता है वह सिद्धनर्ही होता किन्तु असाध्य होता है व जिस मूत्राश
यका मूहखला रहता है वह साध्य होता है और जो कुण्डली

लीभूतेतृणमोहःश्वासएवच २६ ॥ इतिमूत्राघातनिदानम् ॥

वातपित्तकफैस्तिक्ष्णचतुर्थीशुक्रजास्मृता ॥ प्राय

श्श्लेष्माश्रयास्सर्वाअश्मर्यस्स्युर्यमोपमा १ विशोषये

द्वस्तिगतंसशुक्रंमूत्रंसपित्तंपवनःकफंवा ॥ यदातदाश्म

र्युपजायतेतुक्रमेणपित्तोष्विवरोचनार्गाः २ नैकदोषाश्र

याःसर्वाअथासांपूर्व्वलक्षणम् ॥वस्त्याध्मानंतदासन्नदेशे

षुपरितोतिरुक् ३ मूत्रेवस्तस्यगंधत्वंमूत्रकृच्छ्रंज्वरोरु

चिः४सामान्यलिंगंरुग्नाभिसेवनीवस्तिमूर्धसु ॥विशीर्ण

कृतनहीं है वह भी साध्य होता है २५ जब मूत्राशय कुण्डली

भूत होजाता है तो तृष्णा मोह और श्वास होते हैं ॥ २६ ॥ इति

श्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेमूत्राघातनिदानंचतुस्त्रिंशत्तमम् ३४॥

दोहा ॥ पैंतिसयें महँ अश्मरी रोग निदान बखान ॥

लपहिं सुजन सीखहिं भले त्यहि निष्काश विधान १

अश्मरी अर्थात् पथरी रोग के लक्षण -वात पित्त व कफ से

तीन प्रकारकी अश्मरियां होती हैं व चौथी शुक्र से उत्पन्न होती

है बहुधा सब अश्मरियों में कफहीकी प्रधानता होती है व सब

यमराज के तुल्य होती हैं १ इस के सम्प्राप्तिके लक्षण-जब पवन

मूत्राशय में जाकर शुक्र सहित वा पित्त सहित मूत्रको अथवा

कफको सुखाता है तब जमकर अश्मरी अर्थात् पथरी होजाती

है जैसे गाय के पित्त में जमकर गोरोचना बनजाती है २

अश्मरी का पूर्वरूप-सब अश्मरियोंमें अनेक दोषहोतेहैं अब

इन के पूर्व्व का लक्षण कहते हैं- सर्वां में वस्ति फूलजानी है व

वस्तिके चारों ओर पीड़ा हुआकरती है ३ मूत्र में छागके मूत्रकी

सी गन्धि आती है व पेशाब बड़े कष्ट से उतरता है ज्वर होता

भोजनादि में अरुचि रहती है ४ अश्मरी रोग के सामान्य लक्षण

ये हैं पथरी के सामान्य लक्षण हैं कि नाभि में व मूत्राशय के

ऊपरी भाग से पीडा होती है और जब पथरी से मूत्र का मार्ग रूँ

धारंमूत्रंस्यात्तयामार्गंनिरोधिते ५ तद्व्यंपायासुखंमे
हेदच्छंगोमेदकोपमम् ॥ तत्संक्षोभाक्षतेसासूमायासाञ्चा
तिरुग्भवेत् ६ तत्रवाताद्द्रुशात्यार्त्तोदंतान्खादतिवेषते ॥
मृथ्नातिमेहनंनानिपीडयत्यनिशंक्षणम् ७ सानिलंमुंच
तिशकृन्मुहुर्महतिविंदुशः ॥ श्यांवारुणाश्मरीवास्यात्स
ञ्चित्ताकंठकैरिव ८ पित्तेनदह्यतेवस्तिःपच्यमानइवोष्म
वान् ॥ भस्नातकास्थिसंस्थानरक्तापीतासिताश्मरी ९ व
स्तिर्निस्तुद्यतइवश्लेष्मणाशीतलोगुरुः ॥ अश्मरीम

जाता है तो पेशाब थोड़ा २ पथरी धारा से होता है ५ जब प-
थरी मूत्रके मार्ग से हटजाती है तो सुख से मूत्र उतरता है कुछ
भी कष्ट नहीं होता व मूत्रका रंग अच्छा गोरोचन के तुल्य होता
है व जब अश्मरी के चलायमान होनेसे घाव होजाता है तब रु-
धिर सहित मूत्र निकलता है जब बड़ा जोर किया जाताहै तो
पेशाब केसमय बड़ी पीड़ा होती है ६ वात से उत्पन्न पथरी के
लक्षण—वातकी पथरीवालारोगी अत्यंत दुःख से पीड़ित होता
है यहां तक कि दांत पीसने लगता व कांपने लगता है व मूत्रनेके
समय नाभि व लिंग को सुहराने लगताहै व निरन्तर कांखता
हाय २ करता रहताहै ७ मल उतरनेके समय शब्द बहुत होताहै
व मूत्र वार २ घूंट २ करके उतरताहै उसके भीतर से जब निकाली
जाताहै तो लाल काली मिलीहुई पथरी निकलती है वह मानों
कांटों से बिन्हीं हुई होती है ८ पित्तकी अश्मरी के लक्षण—
पित्तकी अश्मरी में मूत्राशय में दाहहोताहै मानों इतनी उष्णता
होती है कि कोई पकाये डालताहै उसमें से जब पथरी निकाली
जातीहै तो भयंलावां के डौलकी लाल पीली व काली निकल
तीहै ९ कफकी पथरीके लक्षण—कफकी पथरीमें मूत्राशयमें मानों
कोंचनेकी पीड़ा होती है वह स्थान शीतल व भारी जानपड़ताहै

हृतीश्लक्षणा मधुवर्णाथवासिता १० एता भवंति बालानां
 तेषामेव च भूयसा ॥ आश्रयोपचयाल्पत्वाद्ग्रहणाहरणेषु
 खाः ११ शुक्राश्मरी तु महतां जायते शुक्रधारणात् ॥ स्था
 नाच्च्युतमभुक्तं हि मुष्कयोरन्तरेनिलः १२ शोषयत्युपसं
 हृत्य शुक्रं तच्छुक्रमश्मरी १३ वस्तिरुक्कृच्छ्रमूत्रत्वमुष्क
 श्वपथुकारिणी ॥ तस्यामुपन्नमात्रायां शुक्रमेति विलीयते
 १४ पीडिते त्वक्काशोस्मिन्नश्मर्यैव च शर्करा १५ अणु

व पथरी घड़ी चिकनी मधुके रंगकी अथवा उजली होती है १०
 बहुधा ये सब प्रकारकी पथरियां बालकोंकेही होती हैं इसका हेतु
 यह जानाजाता है कि बहुधा उन लोगों का भोजन भारी शीतल
 मीठा और चिकना होता है इससे ग्रन्थिबंध जाती है व उनकी व-
 स्ति छोटी व नम्र होती है इससे उसके ग्रहण करने में सुखहीरहता
 बड़ी कठिनता नहीं पड़ती ११ शुक्राश्मरीके लक्षण-यह शुक्राश्मरी
 जिनके वीर्य उत्पन्न होआता है उन सयानों केही होती है बालकों
 के कभी नहीं जब कभी पुरुष वीर्यको रोकता है तबहोती है जैसे
 कि जब मैथुन करने लगा व किसी कारण से विना वीर्य च्युति
 के बन्दकर दिया तो वह अपने स्थान से अलग चला पर नि-
 कल कर बाहर नहीं आया इससे पवन उसे लिंग व अण्डकोशों
 में लोजाकर १२ शुष्क कर डालता है इसलिये वही वीर्य सूख
 कर अश्मरी रोग होजाता है पत्थर की सी गांठि बंधजाती है
 १३ इसरोगके कारण मूत्राशय में पीड़ा व मूत्रोत्सर्ग करने में
 बड़ा कष्ट होता है व अण्डकोशों में शोध आजाता है इस अश्मरी
 रोग के होतेही फिर अन्य शुक्रमाता पर नष्ट होजाता है अर्थात्
 पतला होकर बहजाता है १४ पतलाहोने का कारण यह है कि
 मारेपीड़ा के उसके अवकाशके दवाते २ वह पतला होजाता है वह
 इसी अश्मरीहीको शर्कराभी कहते हैं व सिकताभी कहते हैं यह

शोवायुनाभिन्नासात्वस्मिन्ननुलोमगे १६ तिरेतिसहमू
त्रेणप्रतिलोमेविबध्यते ॥ मूत्रस्रोतःश्रितासानुसक्ताकुर्या
दुपद्रवान् १७ द्रौत्रत्यंसदनकाश्यकुक्षिशूलमथारुचिम् ॥
पांडुत्वमुष्णवातं चतृष्णाहृत्पीडनं वमिम् १८ प्रशूननाभि
वृषणं वद्धमूत्ररुजातुरम् ॥ अश्मरीक्षप्रयत्याशुसिकताश
र्करान्विता १९ ॥ इत्यश्मरीनिदानम् ॥

आस्यासुखस्वप्नसुखंदधीनिग्राम्योदकानूपरसाः प्यां

प्रथम-कहआये हैं कि जबतक पित्त व वातमें कफनहीं मिलता
तबतक बिना जमेहुये अश्मरी नहीं बनती वस इसके पूर्वही
शर्करा के समान कुछ खर खरासा पदार्थ पेशाबके संग गिरता है
उसीको शर्करा कहते हैं १५ जब पवन मूत्राशयमें सीधारहताहै
तो वायुसे प्रेरित थोड़ा २ सूत्र उतरता रहताहै १६ व जब वायु
उलटा चलताहै तो एकाएकी बन्दहोजाता है तब वह अश्मरी
मूत्रकी नसोंके भीतरजाकर रहती है व वहाँ रहकर नानाप्रकार
के उपद्रवों को करती है १७ जैसे कि शरीरकी दुर्बलता ग्लानि
सूखजाना कोठाला सूजना अरुचि पीलापन उष्णवात तृ
ष्णा हृदय में पीडा व ओकाई ये सब उपद्रवहोते हैं १८ इसके
असाध्य लक्षण—जिस पथरीरोगमें नाभि अण्डकोश सूजउठे मूत्र
बन्द होजाय पीडा अधिकहो ऐसी अश्मरी सिकता वा शर्करा
रोगीको नाशही करडालती है १९ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेऽश्मरीरोगनिदान

स्पष्टत्रिंशत्तमम् ३५ ॥

दोहा ॥ छत्तिसयें महीं कह सुकवि सुभग प्रमेह निदान ॥

देखहिं युवालागाय चित यह कैसे वलवान १

प्रमेह के कारण कहते हैं बैठने में दुःख मिलना सुखपूर्
व्वक सोना दही खाना गवई के जीवोंके मांसादिकारस जलके

सि ॥ नवाश्रपानंगुडवैकृतंचप्रमेहहेतुः कफकृच्चसर्वम् १
मेदश्चमांसंचशरीरजंचक्लेदंकफोवस्तिगतंविदूष्य ॥ करो
तिमेहान्समुदीर्णमुष्णेस्तानेवपित्तंपरिदूष्यचापि २ क्षीणे
पुदोषेष्ववकृष्यधातून्संदूष्यमेहान्कुरुतेनिलश्च ॥ सा
ध्याः कफोत्थादशपित्तजाः षट् चाप्यानसाध्याः पवनाच्चतु
ष्काः ॥ समक्रियत्वाद्धिषमक्रियत्वान्महात्ययत्वाच्चयथाक्र
मंते ३ कफः सपित्तः पवनश्चदोषामेदोस्थिशुक्रांबुवसा
लसीकाः ॥ मज्जारसौजः पिशितंचदूष्याः प्रमेहिनांविंश
तिरेवमेहाः ४ दन्तादीनांमलाढ्यत्वंप्राश्रूपंपाणिपादयोः ॥

जन्तुओं के मांसादिकारस व जलके समीपके रहनेवाले पदार्थों
का रस वा दूध नवीन जलपीना गुड़के विकारखाना व सब
कफकारी पदार्थ वस ये सब प्रमेहरोग के कारण हैं १ कफ
पित्त वातकी सम्प्राप्ति—कफ मूत्राशयमें गत मेद मांस व शरीर
से उत्पन्नरसरूप जलको दूषितकरके सबप्रकारके प्रमेहोंको करता
है ऐसेही उष्ण पदार्थोंके खानेसे कफ कोषकरके मांसादिकोंको
दूषितकरके प्रमेहोंको करताहै व इन सबोंको दूषितकरके पित्त
भी प्रमेहोंको करता है २ व जब दोष क्षीण होजाते हैं तो वायु
भी मज्जा मांसादि धातुओंको खींचकर व दूषितकरके प्रमेहोंको
करताहै सो कफसे दशप्रकार के प्रमेह होतेहैं वे साध्य होते हैं व
पित्तसे ६ प्रकारके होते हैं वे कष्टसाध्य होतेहैं व वायुसे चारप्र-
कार के होते हैं वे साध्य नहीं होते कफवालोंकी क्रिया समहोती
है इससे वे साध्यहोतेहैं पित्तवालों की विषम होती है इससे वे
कष्टसाध्य होते हैं व वातवालोंकी क्रिया अतिनाशकृती होती है
इससे वे असाध्यहोतेहैं ३ कफ पित्त वायु ये दोष हैं मेदा लघिर
शुक्र जल वसा लासां मज्जा रस श्लेष्म और मांस ये दूष्य हैं व
सब कफ पित्त वायु इनसबको दूषितकरके बीसप्रकार के प्रमेहों

दाहश्चिक्वणतादेहेत्स्वाद्वास्यंचजायते ५ सामान्यलक्षणंतेषांप्रभूताविलमूत्रता ६ दोषदूष्याविशेषेपितत्संयोगविशेषतः ॥ मूत्रवर्णादिभेदेनभेदोमेहेषुकथ्यते ७ अच्छं बहुसितंशीतंनिर्गन्धमुदकोपमम् ॥ मेहत्युदकमेहेन किंचिदाविलपिच्छिलम् = इक्षोरसमिवात्यर्थमधुरंचेक्षुमेहतः ॥ सांद्रीभवेत्पर्युषितंसांद्रमेहेनमेहति ६ सुरामेही सुरातुल्यमुपर्यच्छमधोघनम् ॥ संहृष्टरोमापिष्टेन पिष्टवद्बहलंसितम् १० शुक्राभंशुक्रमिश्रंवाशुक्रमेहीप्रमेहति ॥ मूत्राणून्सिकतामेही सिकतारूपिणामलान् ११

को करते हैं ४ प्रमेहोंका पूर्वरूप—जबकोई प्रमेह होनेपर होता है तोदांत जीभ व तालु में अधिकमल लपटताहै हाथोंपैरोंमेंदाह होताहै देहमें चिकनाई आजाती है मुखमें प्रत्येक वस्तुके खानेमें स्वादु बहुत जानपड़ताहै ५ प्रमेहके सामान्य लक्षण—सबप्रमेहों का यह सामान्य लक्षण है कि मूत्र बहुत उत्तरे वह भीढवैलेरंग काहो ६ प्रमेहहोनेके कारण दोष और दूष्योंमें कुछ विशेषता नहीं है पर उनके संयोग विशेषसे मूत्रके रंगादिके भेदसे प्रमेहों में भेद कहाजाताहै ७ कफज दशप्रकार के प्रमेहों के लक्षण कहतेहैं—उदक मेहमें अच्छा बहुत उजला ठण्डा गन्धरहित जल के तुल्य कुछ ढबैला और चिकना मूत्र होताहै = व इक्षुप्रमेहमें ऊपकेरसके समान अत्यन्त मीठा मूत्र होताहै व सान्द्र प्रमेह में मूत्ररस छोड़नेपर जमजाता है ९ व सुराप्रमेहमें मदिरा के समान ऊपर स्वच्छ नीचेकुछ गाढा पेशाव होताहै व पिष्ट प्रमेह में पेशाव करनेके समय रोमाञ्च होआता है व चौरैठाके समान गाढा व बहुत उजला मूत्र उतरताहै १० व शुक्र प्रमेहमें शुक्र के तुल्य वा शुक्र मिलाहुआ मूत्र उतरताहै व सिकताप्रमेह में मूत्र रेत मिलाहुआ होताहै कुछ खसखसाता रहताहै ११ व शीत

शीतमेहीसुव्रहुशो मधुरंभृशशीतलम् ॥ शनैश्शनैःशनैर्मे
 ही प्रमेहतिप्रमेहति १२ गंधवर्णरसस्पर्शैः क्षारेणक्षार
 तोयवत् ॥ नीलमेहेननीलाभं कालमेहीमपीनिभम् १३
 हारिद्रमेहीकटुकं हरिद्रासन्निभंदहत् ॥ विस्रम्मांजिष्ठमे
 हेन मंजिष्ठासलिलोपमम् १४ विस्रमुष्णंसलवणंरक्ता
 भंरक्तमेहतः ॥ वसामेहीवसामेश्रवसाभंमूत्रयेन्मुहुः १५
 मज्जाभंमज्जामिश्रंवा मज्जामेहीमुहुर्मुहुः ॥ कषायंमधु
 रंरूक्षं क्षौद्रमेहेनमेहति १६ हस्तीमत्तइवाजसूम्मूत्रंवे

प्रमेहमें अत्यन्त शीतल मीठा व बहुतसा पेशाब होताहै व शनैः
 प्रमेहमें धीरे २थंभ २ कर पेशाब होताहै व लाला प्रमेहमें लार
 के समान चटचटाता चिकना पेशाब होता है १२ पित्तज ६ प्र-
 कारके प्रमेहों के नाम व लक्षण—क्षार प्रमेहमें गन्ध रंग रस व
 स्पर्शमें क्षार पानीहीकीनाई पेशाब होताहै व नील प्रमेहमें नील
 के रंगका मूत्रहोताहै व कालप्रमेहमें मपीके समान काला पे-
 शाब होताहै १३ हारिद्र मेहमें हरदी के समान कडू व जलता
 हुआ पेशाब होताहै व मांजिष्ठ प्रमेहमें कच्चे मांसादिकके सड़ने
 के गन्धकेतुल्य गन्वाताहुआ व मंजीठ के काढेके रंग का पेशाब
 होताहै व रक्त प्रमेहमें उसी कच्चे मांसके सड़ने के गन्धकाखारी
 और रक्त सरीखा पेशाब होताहै १४ वात प्रमेह चार होतेहैं उन
 के नाम व लक्षण—वसाप्रमेहमें वसामिलाहुआ वसाकेही रंगका
 पेशाब वार २ वह रोगी करता रहताहै व मज्जा प्रमेहमें रोगी
 मज्जा के रंगका व मज्जा मिश्रित वारवार मूतताहै १५
 क्षौद्र प्रमेहमें गेहूके रंगे कपड़े के रंगका मीठा और रूपा पे-
 शाब होताहै व हस्ति प्रमेहमें मतवाले हाथी के समान वार २
 धीरे २ लसगढ बंधा हुआ पेशाब रोगी करता है १६ कफ से उ-
 त्पन्न प्रमेहों के उपद्रव कफज प्रमेहों में अन्नका न पचना अरु-

गविवर्जितम् ॥ सलसीकंविबद्धं च हस्तिमेहीप्रमेहति
 १७ अविपाकोरुचिश्चर्दि ज्वरःकासःसपीनसाः ॥ उप
 द्रवाःप्रजायंते मेहानांकंफजन्मनाम् १८ वस्तिमेहनयोः
 शूलं मुष्कावदरणज्वरः ॥ दाहस्तृष्णाक्लमोमूर्च्छा विड्
 भेदःपित्तजन्मनाम् १९ वातजानामुदावर्तं कंपहृद्ग्रह
 लोलताः॥शूलमुन्निद्रताशोषःकासश्वासश्चजायते २०
 यथोक्तोपद्रवाविष्ट मतिप्रस्रुतमेववा ॥ पिडिकापीडितं
 गाढं प्रमेहोहंतिमानवम् २१ जातःप्रमेहीमधुमेहिनांवा
 नसाध्यरोगःसहिबीजदोषात् ॥ येचापिकेचित्कुलजा

चि वमन ज्वर खाँसी पीनस वा नाक बहना ये उपद्रव होते
 हैं १७ पित्तज प्रमेहों के उपद्रव—पित्तज प्रमेहों में मूत्राशय व
 लिंग में पीड़ा होती है अण्डकोशों में खाल फटजाने की सी
 पीड़ा होती है ज्वर होता दाह तृष्णा ग्लानि मूर्च्छा व मल पतला
 ये उपद्रव होते हैं १८ वातज प्रमेहोंके उपद्रव—वातज प्रमेहों
 में उदावर्त कांपना हृदयका अवरोध सत्र पदार्थों के भक्षण
 की इच्छा शूल नाँदका उचटना देह सूखना खाँसी श्वास ये
 उपद्रव होते हैं १९ प्रमेहोंके असाध्य लक्षण—प्रथम वातज प्रमेहों
 के जो अन्न न पचने आदि उपद्रव कह आये हैं वे विद्यमानहों
 और उनमें फिर पेशाव बहुत २ बार २ होताहो व फोड़ा फुनसी
 भी बहुतहों उनसे अत्यन्त पीड़ितहो वस ऐसा प्रमेह रोगीको
 मारही डालताहै २० अन्यरीतिका असाध्य लक्षण—मधु प्रमेह
 वालों को जब कोई और प्रमेह होता है तो उनके बीज में ऐसा
 दोष आजाता है कि बीज मारहीजाताहै वस फिर यहरोग साध्य
 नहीं होता अथवा जिसके कुलपरम्परासे जो प्रमेहादि विकार
 चले आतेहैं उन सबोंको असाध्य कहते हैं २१ सब प्रमेहों की
 जब उपेक्षा कीजाती है कुछ औषधादि नहीं की जाती तो वे

विकाराभवंतितांश्चप्रवदंत्यसाध्यान् २२ सर्वएवप्रमेहां
स्तु कालेनाप्रतिकारिणः ॥ मधुमेहत्वमायांति तदासा
ध्याभवंतिहि २३ मधुमेहोमधुसमंजायतेसकिलद्विधा ॥
क्रुद्धेधातोःक्षयाद्वायौ दोषावृत्तपथेथवा २४ आवृतोदो
षलिंगानि सोऽनिमित्तंप्रदर्शयन् ॥ क्षीणःक्षणात्क्षणात्
पूर्णो भजतेकृच्छ्रसाध्यताम् २५ मधुरंयच्चमेहेषु प्रायोम
ध्विवमेहति॥सर्वेचमधुमेहारूपा माधुर्याच्चतनोरतः २६

इतिप्रमेहनिदानम् ॥

शराविकाकच्छपिकां जालिनीविनतालजी ॥ मसूरि

सब मधुप्रमेह होजाते हैं व वे फिर असाध्य होजाते हैं २२ मधु-
प्रमेह में पेशाब मधु के समान होता है यह प्रमेह दो प्रकारका
होता है एक तों वायु के क्रुद्ध होने से इसमें धातुओंका क्षय हो-
जाता है दूसरा जब कि दोष से वायुका मार्ग रुकजाता है २३
आवरण के लक्षण-आवृत वात से उत्पन्न मधुप्रमेह जिन २ पि-
त्तादि दोषोंसे उत्पन्न होता है उनके लक्षणोंको दिखाता रहताहै
क्षण भर में क्षीण होजाता है और क्षणभर में पूर्ण सो यह प्रमेह
कष्टसाध्य होता है २४ मधुप्रमेह शब्द का यद्यार्थ ज्ञान इस
मधुप्रमेह में बहुधा रोगी मधुही के समान सूत्रोत्सर्ग करता है
व देह भर में मधुरता आजाती है इसी से वैद्य लोग इसे मधु-
प्रमेह कहते हैं २५ ॥

इति श्रीमाधवनिदानेभापानुवादेप्रमेहरोगानिदानं

पट्टत्रिंशत्तमम् ३६ ॥ २

दोहा ॥ सैतिसयें महुँ मेहकृत पिटिका केर निदान ॥

दशप्रकारकी होत जो तिनकर कीन बखान १

शराविका । कच्छपिका । जालिनी । विनता । अल्लजी

क्षुद्राश्वासतृषामोहस्वप्नक्रथनसादनैः ॥ युक्तःक्षुत्स्वेद
 दौर्गन्ध्यैरल्पप्राणोल्पमैथुनः ३ मेदस्तुसर्वभूतानामुदरेष्व
 स्थिषुस्थितम् ॥ अतएवोदरेवृद्धिः प्रायोमेदस्विनोभवेत् ४
 मेदसावृतमार्गत्वाद्वायुःकोष्ठेविशेषतः ॥ चरन्सन्धुक्ष्य
 त्यग्निमाहारंशोषयत्यपि ५ तस्मात्सशीघ्रंजरयत्याहारं
 चापिकांक्षति ॥ विकारान्कुरुतेघोरान्कांश्चित्कालव्य
 तिक्रमात् ६ एतावुपद्रवकरौ विशेषादग्निमारुतौ ॥
 एतौहिदहतस्थूलंवनंदाघोनलोयथा ७ मेदस्यतीवसं
 वृद्धेसहसैवानिलादयः ॥ विकारान्दारुणान्कृत्वानाशं
 यंत्याशुजीवितम् ८ मेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चलास्किगुदरः

इससे मेदस् बढ़ के मनुष्य को सब कर्मों के करने से अशक्त
 कर देता है २ जब पुरुष की चर्मा बहुत बढ़ जाती है तो उसके
 क्षुद्राश्वास रोगके सब लक्षण हो जाते हैं तृषा बहुत लगती है मोह
 होता है निद्रा बहुत आती है अकस्मात् श्वास रुक जाती है शरीर
 शिथिल हो जाता है छाँक व पसीना में दुर्गन्धि आने लगती है
 निर्व्वल हो जाता है व मैथुन करने की शक्ति थोड़ी रह जाती है ३
 मेदस् सब प्राणियों के पेटों में व हाडोंमें स्थित रहता है इसी से
 जब वह बढ़ जाता है बहुधा ऐसे मनुष्य के उदरकी वृद्धि हो जाती
 है ४ मेदस् से मार्गोंके रुँक जाने से वायु बहुधाकोठेके भीतर ही
 घुमाकरता है इससे अग्निको बहुत प्रचण्ड कर देता है व आहार
 को शीघ्र सूखा कर देता है ५ इससे वह आहार को शीघ्र ही पचा
 देता है व फिर तुरन्त ही और भोजन करनेकी इच्छा करता है व
 कालके उपतिक्रम होनेके कारण बड़ेघोर बहुतसे विकारोंको कराता
 है ६ ये अग्नि और पवन दोनों विशेष उपद्रव करते हैं इससे मोटे
 मनुष्य को शीघ्र ही जला देते हैं जैसे दावानल वनको जला देता है ७
 जब मेदस् अत्यन्त बढ़ जाता है तो एकाएकी पवनदिक वारुण

स्तनः ॥ अथथोपचयोत्साहोनरोतिस्थूलउच्यते ६ ॥

इतिमेदोनिदानम् ॥

रोगाःसर्वेपिमंदेश्नोसुतरामुदराणिच ॥ अजीर्णान्म
लिनैश्चान्यैर्जायन्तेमलसंचयात् १ रुद्धास्वेदाम्बुवाही
निदोषःस्रोतांसिसंचिताः ॥ प्राणान्ग्न्यपानान्संदूष्यजन
यंत्युदरंनृणाम् २ आध्मानंगमनेशक्तिदोर्वल्यदुर्वलाग्नि
ता ॥ शोथःसदनमंगानांसगोवातपुरीषयोः ॥ दाहस्तं
द्राचसर्वेषुजठरेषु भवतिहि ३ पृथग्दोषैःसमस्तेश्चष्ठीह
वृद्धक्षतोदकैः ॥ संभ्रंत्युदरान्यष्टौतेषांलिंगमृथंक्पृथ

विकारोकोकरके शीघ्र उसप्राणीकोमारडालतेहैं ८ स्थूलमनुष्यके
लक्षण—मेढस् व मांस बहुत अधिक बढजानेके कारण मनुष्यके
चूतर पेट व स्तन थलथलानेलगते हैं व उत्साह औरतेजीजाती
रहती है वस ऐसे पुरुषको अतिस्थूल कहते हैं ६ ॥ इतिश्री
माधवनिदानेभाषानुवादेमेदोवृद्धिनिदानमष्टत्रिंशत्तमम् ॥ ३८ ॥
डोहा ॥ उनतालिसयें महें उदर रोग अनेक निदान ॥

कहेसुकविदेखहिं सुजन पुनितिनकरहिंप्रमानं ?

अब उदरके सबरोगोंके निदान कहतेहैं उदरके सबरोग म-
न्दाग्नि होनेपर होतेहैं व अजीर्ण से मलिन अन्नोके भोजनों से
व अधिकमल इकट्ठ होजाने से भी होते हैं ? उदररोग की स-
म्प्राप्ति के लक्षण—बहुत दिनों के सञ्चित वात(विदोष) पत्तीना
ब्रह्मनेवाली नसोंके मुखबन्दकरके अग्नि प्राण व अपान वायुको
अतिदूषितकरके मनुष्योंके उदररोग उत्पन्न करताहै २ उदररोग
के सामान्यरूपके लक्षण—सबउदररोगोंमें पेटफूलना चलने में
अशक्ति दुर्बलता मन्दाग्निता शोथ अगोंसे सुस्ती अधोवायु व
मलका अवरोध दाह तन्द्रा ये सब उपद्रव होतेहैं ३ उदररोगों

क ४ तत्रवातोदरेशोथःपाणिपान्नाभिकुक्षिषु ॥ कुक्षिपा
 श्वोदरकटीपृष्ठरुक्पर्वभेदनम् ५ शुष्ककासोगमर्दोधोगु
 रुतामलसंग्रहः॥श्यावारुणत्वगादित्वमकस्माद्दृष्टिहा
 सवत् ६ सतोदभेदमुदरंतनुकृष्णशिराततम् ॥ अधमानंद
 तिवच्छब्दमाहंतंप्रकरोतिच ॥ वायुश्चात्रसरुक्शब्दो
 विचरेत्सर्वतोगतिः ७ पित्तोदरेज्वरोमूर्च्छादाहस्तट्क
 टुकास्यता ॥ भ्रमोतिसारःपीतत्वत्वगादावुदरंहरित् ८
 पीतताद्यशिरानद्धंसत्वेदंसोष्मदहयते ॥ धूमायतेमृदुस्प
 शंक्षिप्रपाकंप्रदूयते ९ श्लेष्मोदरंगसदनंस्वापःश्वपथुगौ
 रवम् ॥ निदाह्नेदोरुचिःश्वासःकासःशुक्लत्वगादितां १०

की गिनती तीन वायुआदि दोपोंसे व एकसन्निपातसे ४ ये व प्ली-
 होदर बद्धोदर क्षतोदर व जलोदर ४ ये सब ८ प्रकारके उदर
 होतेहैं इनके अलग २ लक्षण सुनो ४ वातोदरके लक्षण—उनमें
 वातोदरमें हाथ पैर नाभि व कोपमें शोथहोताहै व कोपि पशुली
 पेट कटि व पीठमें पीड़ाहोतीहै सब जोड़ोंमें भी हड्डीफूटन हुआ
 करतीहै ५ सूखी खांसी आती है अंगोंमें पीड़ाहोती है अधोभाग
 में गरोई रहतीहै मल बंधारहता साफ नहीं उतरता श्याम व
 लालमिला देहके चमड़ेका रंग रहता है पेट अकस्मात् फूलता
 पचतारहताहै ६ पेट कोंचता रहता व उसकी सबओरों में छोटी
 छोटी कालीनसंतन उठती हैं पेट फूलनेपर ठोंकनेपर ढोलकी
 नाई कुछ शब्द करता है पवन भी पीड़ा व शब्दकरताहुआ सब
 कहीं धूमाकरताहै ७ पित्तोदरके लक्षण—पित्तोदरमें ज्वर मूर्च्छा
 दाह तृष्णा मुखकड़ु भ्रम अतीसार त्वचा नखादि पीले उदर
 हरा ८ नसें पीली वा लाल होजाती हैं पसीना होता उष्णता
 सहित दाह धुआँइध आती छूनेमें नम्रहोता अन्न शीघ्र पचता
 पीड़ा अधिक होतीहै ९ कफोदरके लक्षण—कफोदर में हाथ पैर

उदरंस्तिमितंस्निग्धंशुक्लराजीचितंमरुत् ॥ चिराभिवृ
द्धिःकठिनंशीतस्पर्शगुरुस्थिरम् १ १ स्त्रियोन्नपानंनखरोम
मूत्रविडार्त्तवैद्युक्तमसाधुवृत्ताः ॥ यस्मैप्रयच्छंत्यरयोगरां
श्चदुष्टांबुदूषीविषसेवनाद्वा १ २ तेनाशुरक्तंकुपिताश्चदो
षाःकुर्युस्तुघोरंजठरंत्रिलिंगम् ॥ तच्छीतवातेभृशदुर्दिने
चविशेषतःकुप्यतिदह्यतेच १ ३ सचातुरोमूर्च्छतिहिप्रस
क्तंपाण्डुकृशःशुष्यतितृष्णायः ॥ दुष्योदरंकीर्तितमेतदे
वप्लीहोदरंकीर्त्तयतोनिबोध - १ ४ विदाह्यभिष्पंदिरतस्य
जंतोःप्रदुष्टमत्यर्थमसृक्कफश्च ॥ प्लीहाभिवृद्धिकुरुतःप्रवृ

आदि अंग शिथिल होजाते निद्राबहुत आती है आलस्य बनी
रहती शरीर गरूरहता नेत्रों पर झपान पड़ा रहता है अरुचि
होती श्वास आती खौंसी आती त्वचा आदि श्वेतहोजाती १०
पेट निश्चल चिकना सपेद रहता नसें ऊपर निकलआती पवन
छूटाकरता बहुत कालतक पेट फूला रहता है कड़ारहता छूनेपर
ठण्डाजानपड़ता गरूजानपड़ता है ११ सन्निपातोदरके लक्षण—
दुष्ट स्त्रियां जिसपुरुषको नख रोम मूत्र मल व स्त्रियोंके ऋतुकालके
रुधिरसे युक्त अन्न वा जल खवा पियादेतीहैं अथवा जिसको
शत्रुलोग विष खिलादेते हैं वा दुष्टजल जिनको पिला दियाजा-
ता है अथवा कुछ विपारी पदार्थोंके सेवन करने से १२ शीघ्रही
रक्त व वातादिदोष कुपितहोकर उदरको घोरकरदेते हैं जो कि
वात पित्त कफ तीनों दोषोंसे युक्त होजाता है यह सन्निपातोदर
शीतकालमें अथवा अधिक पवन चलनेके दिन वा जिसदिन अ-
धिक बदरी होती है तब विशेष कोप करताहै व जलने लगता है
१३ उससमय ऐसरोगी अति मूर्च्छित होजाता है पीला दुबला
होकर प्याससे सूखने लगताहै यह दूष्योदर कहागया अब प्ली-
होदर कहते हैं सुनो १४ प्लीहोदरके लक्षण—जो पुरुष दाहक-

क्षौण्डीहोत्थमेतज्जठरं वदन्ति १५ तद्वामपाश्वर्यपरिवृद्धि
 मेति विशेषतःसीदतिचातुरोत्रिणा मन्दज्वराग्निःकफ
 पित्तलिङ्गै रूपद्रुतःक्षीणवलोतिपाण्डुः १६ संव्यान
 पाश्वर्यकृतिप्रदुष्टे ज्ञेयं यकृद्दाल्युदरंतदेव १७ उदाव
 र्त्तरुजानाहैर्मोहतृट्दहनज्वरैः ॥ गौरवारुचिकाठिन्यै
 विद्यात्तत्रमलानूक्रमात् १८ यस्यांत्रमन्यैरुपलेपिभि
 र्वा बालाश्मभिर्वापिहितंयथावत् ॥ संचायतेतस्यम
 लःसदोषः शनैःशनैःसंकरवच्चनाब्ध्याम् १९ निरुध्य

रनेवाले पदार्थ खाताहै वा अभिष्यन्दी अर्थात् दधिमादिक गी-
 ली-चिकनी वस्तु अधिकखाताहै उसके दुष्टहोकर रक्त और कफ
 बढ़कर प्लीहा अर्थात् पिलही की वृद्धि करादेते हैं इसरोगी को
 प्लीहोदर अर्थात् पेटमें पिलहीवाला कहते हैं १५ यह प्लीहो-
 दर वा पिलहीरोग पेटमें बाईंओर होताहै व बढ़तारहताहै इसमें
 रोगी बहुत व्याकुल होता गलता चलाजाताहै मन्दर कुछ ज्वर
 होतारहता है मन्दाग्नि होजाता इससे जो खाता पचता नहीं
 कफ व पित्त के लक्षणों से युक्त होजाता है बलक्षीण होजाता है
 देह अतिपीला होजाताहै १६ यकृद्दाल्युदर रोगके लक्षण—व इसी
 प्रकारकारोग जब पेटमें दहिनीओर होताहै तो उसरोगको यकृ-
 द्दाल्युदर कहते हैं दोष और यकृद्दाल्युदर में कुछ भेद होताहै १७
 इसरोगमें दोषका संयोग बताते हैं उदावर्त्त शूल और आनाहसे
 वातका सम्बन्ध जानना चाहिये मोह तृष्णा दाह और ज्वर से
 पित्तके दोषका सम्बन्ध समझना चाहिये गरुभापन अरुचि
 व कठिनता से कफ के दोषका सम्बन्ध जानना चाहिये १८
 बद्धगदोदररोगके लक्षण—जिसपुरुषकी आँत चिकने अन्न शाका-
 दिकों से वा छोटी २ परिरियों से मुँदजाती है धीरे २ दोष स-
 दित मल वहाँ उस आँतकी नाड़ी में इकट्ठा होजाता है जैसे

तेतस्यगुदेपुरीषं; निरेतिकृच्छ्रादपिचालप्रमल्पम् ॥ हन्ना
 भिमध्येपरिवृद्धिमेति तस्योदरं वद्धे गुदं वदंति २० ॥ शो
 ल्यंतथान्नोपहितं यदन्नं भुक्तं भिनस्यागतमन्यथावागात् त
 स्मात्क्षतांत्रात्सलिलप्रकाशः स्रावः स्रवेद्वैगुदतस्तुभूयः
 २१ नाभेरधश्चोदरमेतिवृद्धिं निस्तुद्यतेदाल्यतिचाति
 मात्रम् ॥ एतत्परिस्राव्युदरंप्रदिष्टं दकोदरं कीर्त्तयतोनि
 बोध २२ यः स्नेहपीतोप्यनुवांसितोवावांतो विरक्तोप्यथवा
 निरूढः ॥ पिवेज्जलेशीतलमाशुंतस्य स्रोतांसिदुष्यंति
 हितद्वहानि २३ स्नेहोपलिप्तेष्वथवापितेषु दकोदरंपूर्वं

वदनी भाडू से भारने से कूड़ा करकट् इकट्ठां होजाता है १६
 ऐसे होने से उसके गुद में मल रुँक जाता है वबड़े कपसे थो-
 डा २ निकलता है वह हृदय नाभि के बीच में बढेजाता है
 वस इसीरोगको वद्धगुदोदर कहते हैं जबतक दोप इस के संग
 नहीं कुपित होकर रहते तबतक यरुदाल्युदरही कहाता है २०
 क्षतोदर के लक्षण—कँकरोटी पथरौटी काँटा आदि से युक्त अन्न
 खाजाने से पक्काशय में उलटने पलटनेसे आँतमें घ्रावकेर देता
 है उसघाव सहित आँत से जलका प्रकाश होने लगता है फिर
 जलचूकर बहने लगता है पीछे वही गुद्रमार्ग से बाहरआता है
 २१ व जो वही इकट्ठा होतारहता है वहनाभि के नीचे बढताजा-
 ता है इसमें सुई आदिसे काँचने कीसी पीडाहोती है वस इसी
 को क्षतोदर वा परिस्राव्युदर कहते हैं अबहम जलोदरके लक्षण
 कहते हैं सुनो २२ जलोदरकी उत्पत्ति व लक्षण—जो पुरुष किसी
 रोग के मिटाने के लिये तैल पीता है अथवा अनुवासन करता है
 वा वान्तकरता है अथवा जुलावलेता है अथवा निरूढ वस्तिंकर-
 ता है व तुरन्तही अतिशीतलजलपीता है उसकी जलबहानेवाली
 नसेदुष्टहो जाती है २३ व उननसोंमें वहतैलादिक जलपटजाता है

वदभ्युपैति ॥ स्निग्धं महत्त्परिवृत्तनाभिसमानतं पूर्ण
 मिवाम्बुनाच ॥ यथा दृतिः क्षुभ्यतिकंपते च शब्दायते चापि
 दकोदरंतत् २४ जन्मनैवोदरं सर्वं प्रायः कृच्छ्रतमं विदुः ॥ व
 लिनस्तदजाताम्बुयत्नसाध्यं नवोत्थितम् २५ पक्षाद्बद्धगु
 दंतूर्ध्वं सर्वजातोदकंतथा ॥ प्रायो भवत्यभावाय त्रिद्रांत्रं चो
 दरं नृणाम् २६ शूनाक्षिकुटिलोपस्थमुपच्छिन्नतनुत्वचम् ॥
 बलशोणितमांसाग्निपरिक्षीणं च वर्जयेत् २७ पाश्वभंगा
 न्नविद्वेषशोधातीसारपीडितम् ॥ विरक्तं चाप्युदारिणं पू
 र्यमाणं विवर्जयेत् २८ इत्युदरनिदानम् ॥

तत्र जलोदर पूर्व कहीहुई रीतिसे बढताहै व ऊपर बडा चिकना
 होजाताहै नाभिको सबभोरसे तनदेताहै व मानोंजलसे वहपेट
 भरजाताहै व इसीसे जैसे मशकके भीतर पानी इधरउधरचल
 तारहताहै व काँपता शब्दकरताहै वैसेहीपहजलोदरभी काँपता
 थलथलाता व शब्दकरतारहता है २४ साध्यासाध्यका विचार—
 जो उदररोग जन्मके साथहीसेहोतेहै वेसब कष्टसाध्य होतेहै पर
 जो वे किसी बलीपुरुषकेहों व आँतमें पानी नपहुँचाहो औरनये
 हों तो यत्नसे साध्य भी होते हैं २५ असाध्यलक्षण—बद्धगुदोदर
 रोग पन्द्रह दिनोंमें असाध्य होजाताहै व जबजलआँत में पहुँच
 जाताहै तो सबउदररोगअसाध्यहोजातेहै व जिसउदररोगमेंघाव
 होजाताहै वह बहुधा असाध्यहीहोताहै पर चीरनेसे वा शस्त्र से
 औपधकरनेसे साध्यभी होजाताहै २६ असाध्यके लक्षण—जिस
 उदररोगीके नेत्रोंपर सूजन होगईहों व लिंग टेढ़ाहोगयाहो उदर
 कीखालनीरसहोगईहो वल रुधिर मांस व अग्निसे हीन होगया
 हो ऐसेरोगी को वैद्यछोड़दे औपधनकरे २७ दूसरे प्रकारकेअसा
 ध्यके लक्षण—जिसकी पशुडियाँ टूटगई हों अन्नसे वरहोगयाहो
 देहशोथ गयाहो व भतीसारसेभी पीडितहो जुंलावभादिदेनेपर

रक्तपित्तकफान्वायुर्दुष्टोदुष्टान्वाहिश्शिराः ॥ नीत्वारु
द्धगतिस्तैर्हि कुर्यात्त्वग्मांससंश्रयम् ॥ उत्सेधसंहतंशो
फंतमाहुर्निचयादतः १ सर्वहेतुविशेषस्तु रूपभेदान्न
वात्मकम् ॥ दोषैः पृथक्द्वयैः सर्वैरभिघाताद्विषादपि २
तत्पूर्वरूपंक्षवथुः शिरायामंशगौरवम् ३ शुद्ध्योमया
भक्तकृशावलानांक्षाराम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा ॥ दध्याम
मृच्छ्राकविरोधिदुष्टगरोपसृष्टान्ननिषेवणञ्च ४ अर्शास्य

वा फस्तखोलनेके पीछे फिर उदररोग ज्योंका त्यों होजाताहो
ऐसे रोगीको वैद्यछोड़दे औपथ न करे २८ ॥

इतिश्रीमाधवनिदाने भापानुवादेउदररोगनिदानमेकोन-
चत्वारिंशत्तमम् ॥ ३६ ॥

दोहा ॥ चालिसयें महँ कहभिषक शोधनिदान बहूत ॥

देखहिंसुजन लगायचित ताके सरुल सबूत १

अब शोधका निदानकहतेहैं शोधकीउत्पत्तिके लक्षण-दुष्टवायु
अपने कारणोंसे दुष्ट रक्तपित्त कफोंको ऊपरकी नसोंमें भरके व
उनके मार्ग को दुष्टकरके चर्म व मांसकेआश्रितहोताहै व शोध
को करताहै वह शोधऊँचा व कड़ाहोताहै यहरक्त व वातपित्तकफ
इनचारोंकेसंयोगसे होताहै इससे सन्निपातात्मक कहाजाताहै १
वे सब शोधहेतु विशेषोंके रूप भेदहोनेसे नवप्रकारके होतेहैं वात
पित्त कफइनसे ३ व दो २ मिलकर ३ सन्निपातका १ अभिघा-
तज १ विपज १ ये सब ९ हुये ३ इनकापूर्वरूप सन्तप्तनसों के
तननेकीसी पीड़ाशरीरभारी जबये लक्षणहों तो जानना चाहिये
किशरीरमें शोधहोगा ३ इसकेहेतु विरेक वमन आदि शरीरशुद्ध
करने ज्वरादिरोग होने व उपवास करनेसे दुर्बल व बलहीनपु-
रुष जब खारी खटी तीक्ष्ण उष्ण व गरुवस्तुओंकी सेवाकरताहै
व दधि कच्चीवस्तुभिष्टीशाकादि दुग्धमछली आदि पदार्थोंकोए-

चेष्टानं च देहशुद्धिर्मर्मोपघातो विपमा प्रसूतिः ॥ मिथ्या च
 चारः परिकर्मणां च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ५ सगौर
 वंस्याद न वस्थितत्वं सोत्सेधमूष्माथशिराकृशत्वम् ॥ सलो
 महर्षश्च विवर्णता च सामान्यलिंगश्वयथोः प्रदिष्टम् ६
 चरंस्तनुत्वं कूपरुपोरुणोसितः प्रसुप्तिहर्षात्तियुतो निमित्त
 तः ॥ प्रशास्यति प्रोन्नमति प्रपीडितो दिवावली च श्वयथु
 रसमीरणात् ७ मृदुस्सगन्धोसितपीतरागवान् भ्रमज्वरौ
 खेदतृषामदान्वितः ॥ य उप्यते स्पर्शरुगक्षिरोगकृतसपित्त
 शोफो भृशदाहपाकवान् ८ गुरुस्थिरः पांडुरो च कान्वितः

कसंगभोजनं करता है अथवा अन्यपरस्पर विरुद्धदुष्ट पदार्थों का
 सेवन करता है वा विपदुपित अन्नखाता है ४ व ववासीर तुल्यप-
 रिश्रमरहित शोधन करने के योग्य दोषमें शोधन करना जो कि आदि
 लगाना अथवा हृदयादि सुकुमार स्थानोंमें लाठी शस्त्रादिका अ-
 भिघात होने से अथवा स्त्रियों के कच्चे गर्भ के गिरने से व व-
 मन विरेक वस्ति आदि पांचों कर्मों के मिथ्या करने से शोध होता
 है वस येही सब शोध के कारण हैं ५ शोधके सामान्य लक्षण-
 शरीरका भारी रहना व्याकुलता ऊंचीसूजन उष्णता नसोंका प-
 तलाहोना रोमखड़े होना शरीर का रंग विपरीत हो जाना वस
 शोध के ये सामान्य लक्षण हैं ६ वातज शोध के लक्षण- पायु
 से उत्पन्न शोधमें चञ्चलता त्वचा पतली होजानी कठोरता व
 खरखरोंहट रंगलाल व कालाहोना शरीर झूठापड़ना रोमखड़े
 होना पीड़ाहोनी व देवानेसे देवजाता है फिर उठजाता है दिनमें
 अधिक धलीरहता है व रात्रिमें कुछर शान्त होजाता है ७ पित्तज
 शोध के लक्षण- पित्तज शोध मृदु कुष्ठगन्धयुक्त काला व पीला
 होता है व उसमें भ्रम ज्वर खेद तृषा वामद होते हैं दाह होता है
 स्पर्श करने से पीड़ाहोती है नेत्रलालरहते हैं अतिदाह होकर वह

प्रसेकनिद्रां वमिवह्निमांघकृत ॥ सकृच्छ्रजन्मप्रशमोनि
पीडितो न चोन्नमेद्रात्रिवलीकफात्मकः ६ निदानाकृति
संसर्गात्श्वयथुः स्यात् द्विदोषतः ॥ सर्वाकृतिः सन्निपाता
तशोथो व्यामिश्रलक्षणः १० अभिघातेन शस्त्रादिच्छे
दभेदक्षतादिभिः ॥ हिमानिलोदध्यनिलैर्भस्त्रातकपिक
च्छुजैः ११ रसैः शुकैश्च संस्पर्शात्श्वयथुः स्याद्विसर्पवा
नू ॥ भूशोष्णालोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः १२ वि
षजः सविषप्राणिपरिसर्पणमूत्रणात् ॥ दंष्ट्रादंतनखाघा
तादविषप्राणिनामपि १३ विषमूत्रशुक्रोपहतमलवद्भस्तु

पकजाता है = कफज शोथ के लक्षण—कफसे उत्पन्न शोथ गुरु
स्थिर पाण्डुरंगका अरुचियुक्त लारयुक्त निद्रा वमन व अग्निकी
मन्दता इसकी उत्पत्ति व नाश शीवही होजाते हैं यह दबाने से
फिर बराबर नहीं होजाता व रात्रि में अधिक बली होता ९ द्व-
न्द्वज व सन्निपातज शोथों के लक्षण—जिनमें दोर दोषोंके लक्षण
व आकृति मिलेहुये विदित हों वहद्वन्द्वजशोथ कहाताहै जिसमें
तीनोंदोषोंके लक्षण मिलतेहों वह सन्निपातज शोथ कहाताहै १०
अभिघातज शोथ के लक्षण—जाठीदंडा आदि के घाव लगने से
शस्त्रादिकों से कटने छिदने से शीतलपवनके लगने से समुद्र के
पवनके लगने से भ्यलावा वा क्यवांचके वायुवाधूमके लगने से ११
क्यवांचादिका रस वा उसके कांटों के लगजाने से शोथहोजाता
है वहं सब ओर फैलतारहताहै व अत्यन्त उष्णता उसमें होती
हैउंवं उसका रंग लालहोताहै व पित्त के शोथके सब लक्षण इस
में भी होते हैं १२ विषज शोथ के लक्षण—विषज शोथ विष-
धर जीव के ऊपर रंगजाने से व ऊपर मूतने से और अविष-
धर जीव के दांत दाढ़, नखों के घात से भी १३ व विषधारी
जीवकी विष्ठा मूत्र शुक के स्पर्शहोजाने से वा मलिन वस्त्र धा-

संकरात् ॥ विषवृक्षानिलरूपशार्दूलरयोगावचूर्णनात् १४
 मृदुश्चलोऽवलंबीचशीघ्रोदाहरुजाकरः १५ दोषाःश्वयं
 थुमुद्ध्वैहिकुर्वत्यामाशयस्थिताः ॥ पक्काशयस्थामध्येतु
 वचस्थानगतास्त्वधः ॥ कृत्स्नदेहमनुप्राप्ताःकुर्युःसर्वसरं
 तथा १६ योमध्यदेशेऽवयथुः संकष्टःसर्वगश्चयः ॥ अ
 र्द्धांगेरिष्टभूतःस्याद्यश्चोद्ध्वैपरिसर्पति १७ श्वासःपिपा
 साऽर्द्धिश्चदौर्वल्यंज्वरएवच ॥ यस्यचान्नेरुचिर्नास्तिशो
 थिनंपरिवर्जयेत् १८ अनन्योपद्रवकृतःशोथःपादसमु

रणकरने से व विपारी वृक्षके पवनलगने से वा विप मिलीहुई
 वस्तुओं के देहमें लगजाने से जो शोथहोताहै वह विपज कहाता
 है १४ वह विपज कोमल चलायमान फेलाव अधिक शीघ्रबढ़ने
 वाला दाह व पीड़ाकरने वालाहोता १५ दोष जव आमाशय
 में स्थितहोते हैं तो छातीमें शोथ करते हैं व जव पक्काशयमें स्थि-
 तहोते हैं तो छाती और पक्काशय दोनों में शोथ उत्पन्न करते हैं
 व मलस्थानमें स्थितहोकर दोपनीचे और अण्डकोशों में सूजन
 करते हैं व जव सबदेहमें दोष स्थितहोजाते हैं तो देहभरमें शोथ
 करते हैं १६ जो शोथ बीचदेह में होता है अथवा सब देहमें हो-
 ताहै वह कष्ट साध्यहोता है व जो शोथ नीचे के भाधे अंगमें हो-
 कर ऊंचेको चढ़ताहै वह मरणकारी होताहै १७ असाध्यके ल-
 क्षण जिस शोथ वाले के श्वास पिपासा वमन दुर्बलता ज्वर
 और भन्नमें अरुचिहो उसशोथवालेको वैद्यवरादे औषध न करे १८
 अन्य उपद्रवों का कियाहुआ न हो किन्तु शोथही के उपद्रवों से
 युक्त शोथ जब पैरों में प्रथम होकर फिर ऊपर को चढ़ता है तो
 पुरुषको नष्ट करदेता है व जो मुखमेंहोकर फिर नीचे को चल-
 ताहै वह स्त्रीको नष्ट करताहै व जो गुदसे प्रारम्भ होकर फिर
 देहभरमें होजाताहै वह चाहे पुरुषही वा स्त्री दोनोंको मारडालता

त्थितः ॥ पुरुषंहंतिनारीतुमुखजोगुह्यजोद्वयम् ॥ नवो
नुपद्रवःशोथःसाध्योऽसाध्यःपुरेरितः १६ इतिशोथनिदानम् ॥

क्रुद्धामूर्द्धगतिर्वायुःशोथशूलकरश्चरन् ॥ मुष्कौवंक्ष
णतःप्राप्यफलकोशाभिवाहिनीः १ प्रपीड्यधमनीवृद्धिं
करोतिफलकोशयोः २ दोषास्त्रमेदोमूत्रांत्रैः सवृद्धिःसप्त
धागदः ॥ मूत्रांत्रजावप्यनिलाद्धेतुभेदश्चकेवलः ३ वा
तपूर्णवृत्तिरुपशो रूक्षोवातादहेतुरुक् ॥ पकोदुम्बरसं
काशः पित्तादाहोष्मपाकवान् ॥ कफाच्छीतोगुरुःस्निग्धः
कण्डूमानुकठिनोल्परुक् ४ कृष्णस्फोटावृतः पित्तवृद्धि

है नया व उपद्रव रहित शोथ साध्यहोताहै व साध्यप्रसाध्य सव
इत्त अध्याय के प्रथम श्लोकमें कहचुके हैं देखो १६ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेशोथनिदानंचत्वारिंशत्तमम् ४० ॥

दो० ॥ इकतालिसयें महें कह्यो अण्ड प्रवृद्धि निदान ॥

देखहिं विज्ञ विचारि यहि कैसो है बलवान् ?

अण्ड वृद्धिकी सम्प्राप्ति का वर्णन क्रुद्ध वायु ऊँचे से नीचे की
चलकर शोथ और शूलकरते हुये कोष्ठ में जाकर अण्डकोश
के सन्धियों से अण्डकोश तक चली गई हुई नाडियों की र
भति पीड़ित करके दोनों अण्डों को वा एक अण्ड को बटोरेता
है २ वातज पित्तज कफज रुधिर भेदस् मूत्र और आंत इन भेदों
से अण्ड वृद्धि सात प्रकार की होती है उनमें मूत्रज और अ-
न्त्रज कहे आंत से उत्पन्न ये दोनों अण्ड वृद्धियां वायु से होती हैं
केवल हेतु मात्रका भेद है ३ वायु से भरीहुई चमड़े की थैली
की तरह जो छूने पर विदितहो व विना कारण पीड़ाहुआ करे व
रूपी रहती हो उसे वातज अण्ड वृद्धिकहते हैं व जो पकीहुई
गूलर के रंगकी हो और उसमें दाह हुआ करे तथा गरम बनी
रहै और पकउठे, उसे पित्तज अण्ड वृद्धि जाननी चाहिये ४

लिंगश्चरक्तजः ॥ कफवन्मेदसोवृद्धिमृदुस्तालफलो
 पमः ५ मूत्रधारणशीलस्यमूत्रजःसतुगच्छतः ॥ अम्भो
 मिःपूर्णवृत्तिवत् क्षोभंयातिसरुग्मृदुः ॥ मूत्रकृच्छ्रमथ
 स्ताच्चचलयन्फलकोशयोः ६ वातकोपिभिराहारैःशीत
 तोयावगाहनैः ॥ धारणेरणभाराध्वविषमांगप्रवर्त्तनैः ७
 क्षोभणैःक्षुभितान्यैश्चक्षुद्रांत्रावयवयदा ॥ पवनोविगुणी
 कृत्य स्वनिवेशादधोनयेत् ॥ कुर्याद्विक्षणसंधिस्थो ग्रंथ्यां
 भंश्चयथुंतदा ८ उपेक्ष्यमाणस्यचमुष्कवृद्धिमाध्मानरुक्

व जो अंड वृद्धिकफसे होती है वह भारी रहती है व ढंडी चि-
 कनी खजुली सहित कड़ी व थोड़ी पीड़ाकी होती है कालेफोड़ों
 से युक्त व जिसमें पित्तज अंड वृद्धिके लक्षण हों—उसे रक्तज
 अंड वृद्धिजानो, व जो मेदस् से अंडवृद्धिहोती है वह कफज अंड
 वृद्धिकीनाई मृदु व तारके फलकीनाई आकार में होती है ५
 मूत्रज अण्डवृद्धि पेशाब लगनेपर हठसे रोकने से होती है व जब
 रोगी चलताहै तो जलभरीहुई मशकके समान वह बोलती है
 पीड़ा हुआ करती है व लूनेसे नरम जानपड़तीहै पेशाब कण्ट से
 उतरता है व अंडकोशकी थैलियां इधर उधर चलायमान रहती
 हैं ६ अन्त्रज अंडवृद्धिके लक्षण—वातकोपकरानेवाले भोजनों के
 करने से बड़े शीतल जलमें स्नानकरने से मल मूत्र के वेग के
 रोकने से व मलमूत्र विनालागेहुये जोरसे उनके करने से भारी
 बोझा ले चलने से रणमें धवड़ाकर भांगनेसे बहुत झपटकर मार्ग
 चलने से वा टेढे मेढे होकर ऐंठते गँठते चलने से ७ वा अन्य
 चलायमान मनुष्यों के संगचलायमान होनेसे कुपितहोकर वायु
 छोटी २ आँतोंमें जाकर विकार उत्पन्न करके आँतोंको उनके
 स्थान से नीचेको उतारदेता है व अंडकोशके ऊपर गाँठिसा
 शोध करादेताहै ८ इसरोगकी उपेक्षाकरनेका परिणाम यह होता

स्तंभयतीववायुः ॥ प्रंपीडितोन्तःस्वनवान्प्रयाति प्र
ध्मापयन्नेतिपुनर्विमुक्तः ६ यस्यांत्रावयवाश्लेषान्मुष्कयो
रतिसंचयात् ॥ ज्वरशूलाङ्गसादाढ्यतम्बधर्ममितिनिर्दिशे
त् ॥ अत्रवृद्धिरसाध्यायं वातवृद्धिसमाकृतिः १० ॥

इतिअन्त्रवृद्धिनिदानम् ॥

निवद्धःश्वयथुर्यस्य मुष्कवल्लम्बतेगले ॥ महान्वा
यदिवाह्रस्वोगलगण्डतमादिशेत् १ वातःकफश्चापिग
लेप्रदुष्टोमन्यांसमाश्रित्यतथैवमेदः ॥ कुर्वतिगंडकमशः

है कि जब ऐसे रोग में जो कि फूलताहै पीड़ा करताहै व कड़ा-
रहता है उसके औपय करने में उपेक्षा कीजाती है तो जब अण्ड
कोश दबाये जाते हैं तो उसमेंका पवन आँतों सहित ऊपर को
चढ़जाता है व धुलधुलाता रहता है व छोड़ देनेसे पवन आँतों
सहित फिर अपने स्थानपर ज्यों का त्यों आजाताहै १ इसरोग
के असाध्य लक्षण—जो अण्डवृद्धि वायु व कफ से उत्पन्न होता
है व वात के लक्षण बहुत पायेजाते हैं व आँतों के अंगों के पृथक्
करनेसे वा अण्डकोशोंमें वातके सञ्चयसे ज्वर शूल अंगोंका टूट-
ना ये युक्त होते हैं उसे चर्म्म कहते हैं यह वातवृद्धि के समानचर्म्म
नाम अण्डवृद्धि असाध्यहोती है १० ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेऽण्डवृद्धिनिदान-

मेकचत्वारिंशत्तमम् ४१ ॥

दो० बयालिसें मँहें हैं जिखे गलगण्डादि निदान ॥

अधम रोग यहि जानहीं जो हैं बैद्य महान १

गलगण्डरोगका निदान-जिसके गले में अण्डकोशके समान
बड़ा वा छोटा १ शोध होकर लटकने लगताहै व बँधारहताहै उसे
गलगण्ड वा घेयाकहना चाहिये १ इसरोगकी सम्प्राप्ति-वात कफ
व मेदस् दुष्टहोकर अपने २ लक्षणोंसे युक्तहोकर गले में क्रम ३

स्वालिङ्गैः समन्वितं तद्गलगण्डमाहुः २ तोदान्वितः कृ
 ष्णाशिरावनद्धः श्यावारुणो वापवनात्मकस्तु ॥ पारुष्य
 युक्ताश्चिरवृद्धिपाको यदृच्छयापाकमियात्कदाचित् ॥ वै
 रस्यमास्यस्य चतस्यजंतोः भवेत्तथातालुगलप्रशोषः ३
 स्थिरः सवर्णो लपरुग्गुप्रकंडूः शीतोमहांश्चापिकफात्मक
 स्तु ४ चिराभिवृद्धिं भजते चिराद्वा प्रपच्यते मंदरुजः क
 दाचित् ॥ माधुर्यमास्यस्य चतस्यजंतोर्भवेत्तथातालुग
 लप्रलेपः ५ स्निग्धोगुरुः पांडुरनिष्टगंधो मेदोभवः कंडु
 युतोऽतिरुक्च ॥ प्रलम्बतेऽलावुवदल्पमूलो देहानुरूपः
 क्षयवृद्धियुक्तः ॥ स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तोर्गलेऽ

से गाँडा की नाई शोधको करते हैं उसे वैद्यलोग गलगण्ड कहते हैं २
 वातज गलगण्डके लक्षण ॥ वातिक गलगण्ड रोग में कोंचने की सी
 पीड़ा होती है काली नसों से बंधा हुआ होता है श्याम वा अरुण
 रंगका होता कड़ापन रहता है पकता नहीं जब कभी पकता है तो
 अपनीही इच्छासे ही किसी विकार से नहीं इसके रोगवाले के
 मुखका स्वादुजाता रहता है व तालु और गले में शोष होता है ३
 कफज गलगण्ड के लक्षण--कफसे उत्पन्न गलगण्ड रोगमें स्थि-
 रता रहती है व जैसा उस रोगीके सब शरीर के चर्मका रंग होता
 है वैसा ही उसका भी पीड़ा इसमें थोड़ी होती है पर खजुहट बड़ी
 उग्र होती है सदा ठंडा बनारहता है और बहुत बड़ा होता है ४
 बढ़ता बहुत दिनोंमें है व बहुत ही दिनोंमें पकता भी है पीड़ा इस
 में मन्दहोती है सोभी कभी २ इस रोगीका मुख मीठा बनारहता है
 व तालु और गलेमें सदा कफलपटा रहता है ५ मेदसे उत्पन्न
 गलगण्डके लक्षण--इस गलगण्डरोगमें चिकनाई गरुभापन रहता
 है पीलारंगका होता है दुर्गन्धि प्रांती है खजुभाता रहता है पीड़ा
 थोड़ी होती है लौकीकी नाई लम्बा होता जड़में पतला रहता है

नुशब्दंकुरुतेचनित्यम् ६ कृच्छ्राच्छ्वसंतंसृष्टुसर्वगात्रं
 संवत्सरात्तमरोचकार्त्तम् ॥ क्षीणञ्चैद्योगलगंडजुष्टंभि
 न्नस्वरश्चापिविवर्जयेत्तु ७ कर्कधुकोलामलकप्रमाणैःक
 क्षांसमन्यागलवक्षणेष्ु ॥ मेदःकफाभ्यांचिरमंदपाकैः
 स्याद्गण्डमालाबहुभिश्चगण्डैः ८ तेग्रन्थयःकेचिद्वाप्त
 पाकाः सूत्रंतिनश्यंतिभवंतिचान्ये ॥ कालानुबंधंचिरमा
 दधाति सैवापचीतिप्रवदतिकोचित ९ साध्यास्मृतापी
 नसपाश्वशूलकाशज्वरच्छर्दियुनात्वसाध्या १० वाता

रंग बहुधा देहकासाही रहताहै कभी अपने आप घटजाताहै कभी
 फिर बढ़जाताहै रोगीका मुहँ चिकना बनारहताहै व बोलते समय
 शब्द घेवँ १ निकलताहै ६ इसके असाध्य लक्षण—जो घेवावाला
 बड़े कष्टसे श्वास ले सकाहो अंग उसके सब कोमलहों व वर्षभर
 से रोग अधिक दिनोंका होगयाहो अरुचिके मारे रोगी पीड़ितहो
 व वलादि से क्षीण होगयाहो जिसकाबोल भनभनाने लगाहो
 वस ऐसे गलगण्डा को वैद्य छोड़दे औपय न करे ७ गलगण्ड के
 आकार और लक्षण इसी गलगण्डही से फिर गण्डमाला रोग
 होताहै जब मेदस् व कफसे काँख काँधा गहन गला व अण्डों के
 जोड़पर छोटी वा बड़ी बेरभर २ बहुतसे गण्ड होजाते हैं व बहुत
 दिनों में धीरे २ पकउठते हैं व भँवलेभर २ के भी होते हैं जो ऐसा
 रोग होताहै उसे गण्डमाला कहतेहैं ८ इसी के भेद अपचीरोग
 के लक्षण—कोई कोई आचार्य कहते हैं जब वे गण्डमालावाली
 गाँठियाँ कभी २ पकती हैं व बढ़नेलगती हैं कभी अपने आप मि-
 टजाती हैं व और होआती हैं इसप्रकार बहुत दिनोंतक रहती हैं
 वही अपचीरोग कहाता है ९ अपची के साध्यासाध्य लक्षण—अ-
 पचीरोग साध्य कहाजाताहै परन्तु जब पीनस पशुलियों में शूल-
 खाँसी ज्वर व वमन से युक्त होतीहै तो वही असाध्य होजाती,

दंयोमांसमसृक्प्रदुष्टाः संदूष्यभेदश्चतथाशिराश्च ॥ च
 तोन्नतंविग्रथितंतुशोफं कुर्वत्यतोग्रंथिरितिप्रदिष्टः ११
 आयम्यतेवृश्च्यतितुद्यतेचप्रत्यस्यतेमथ्यतिभिद्यतेच ॥
 कृष्णोमृदुर्वस्तिरिवाततश्च भिन्नसूवेच्चानिलजोसूमच्छ
 म् १२ दंदह्यतेधूम्यतिचूप्यतेचपापच्यतेप्रज्वलतीवचा
 पि । रक्तःसपीतोप्यथवापिपित्ताद्भिन्नःसूवेदुष्टमतीवचा
 सूम् १३ शीतोविवर्णोल्परुजोतिकंडूःपाषाणवत्संहननो
 पपन्नः ॥ चिराभिवृद्धिश्चकफप्रकोपाद्भिन्नःसूवेच्छुक्लचनं
 चपूयम् १४ शरीरवृद्धिक्षयवृद्धिहानिःस्निग्धोमहान्कंडुयु

है १० वात पित्त कफ जबदृष्टहोकर मांस और रक्तको दूषितकर
 के मेदस्को भी दूषित करते हैं व इनमें लगीहुई नसोंको भी दू-
 पित करते हैं फिर गोल और ऊँची गाँठि सदृश शोथ करदेते हैं
 वह ग्रन्थि वा गाँठि कहाती है ११ वातज ग्रन्थि के लक्षण-यह
 ग्रन्थि फैलती है छेदती रहती है कोंचने कीसी व्यथाकरती है
 जानो कोई उखेड़कर फेंकेदेताहै मानो मथेडालताहै जानो कोई
 फोड़े डालताहै उसका रंग काला होताहै छुने में कोमल जानप-
 डती है व वस्तिके तुल्य फैलीहोती है जब फूटती है तो अञ्छा रु-
 धिर उसमें से निकलताहै १२ पित्तजग्रन्थिमें अतिशयकरके दाह
 होताहै व धुआँसा उसमें निकलनेलगताहै मानो कोई चुसेलेताहै
 व जानो कोई अतिशयतासे कोई पकायेडालताहै व जानो जलउ-
 ठने चाहती है इसकारं लाल पीलामिलाहोताहै व ऐसी ग्रन्थिके
 फूटनेसे अतिदुष्टरुधिर निकलताहै १३ कफज ग्रन्थिके लक्षण-यह
 गाँठि शीत शरीरके रंगसे कुछ भेदयुक्त थोड़ीपीड़ाकी बहुत खज्जली
 युक्त पत्थरसीकड़ी ऊँची बहुत दिनों में बढ़ने वाली होती है और
 फूटजाने पर कोदो के चावलके समान उजली २ पीव निकलती
 है १४ मेदासे उत्पन्न ग्रन्थिके लक्षण-यह गाँठि शरीर के मुँदाने

तोलपरुक्च ॥ मेदःकृते गच्छति चात्र भिन्ने पिरया कसर्पिः
 प्रतिमञ्चमेदः १५ व्यायामयातैरवलस्यतैस्तैराक्षिप्यवा
 युर्हि शिराप्रतानम् ॥ संकोच्यसंपीड्यविशोप्यचापिग्र
 न्थिकरोत्युन्नतमाशुवृत्तम् १६ ग्रन्थिः शिराजः सतुकृच्छ्र
 साध्यो भवेद्यदि स्यात्सरुजश्चलश्च ॥ सचारुजश्चाप्य
 चलोमहांश्च मर्मोत्थितश्चापि त्रिवर्जनीयः १७ गात्रप्रदे
 शे क्वचिदेव दोषाः समुच्छ्रिता मांसमसृक्प्रदूष्या ॥ वृत्तं मृदुं मं
 दरुजं महांतमनल्पमूलं चिरवृद्धिपाकम् ॥ कुर्वति मांसोच्छ्र
 यमत्यगाधंतद्वुदंशास्त्रविदो वदन्ति १८ वातेन पित्तेन क

से बढ़ती है व दुब्राने से दुर्बल होजाती है चिकनी मोटी खजु-
 ली सहित थोड़ी पीड़ावाली होती है व फूटनेपर इसमें से तिल्ली
 के पीनाके तुल्य वा जमेहुये धाँके समान मेदस् अर्थात् चर्वी
 निकलती है १५ नसोंकी गाँठिके लक्षण—निर्बल पुरुष जब
 अनेक प्रकारके काम अधिक जोरसे करता है तो उन उन कामोंसे
 कुपित होकर पवन नसोंके जालको तनकर फिर इकट्ठी करके
 व बनाय बटोरकर व सुखाकर बड़ी ऊँची गोल गाँठि बनादेता है
 १६ शिरासे उत्पन्नग्रन्थि के साध्यासाध्य के लक्षण—शिराओं से
 उत्पन्नग्रन्थि कष्टसाध्यहोती है व जो वह पीड़ासहितहो और
 घञ्चलहो व पीड़ा रहित हो तो अचल और बड़ीहो व किसीसु-
 कुमारस्थान में उत्पन्नहुईहो तो त्यागने के योग्य है औपचरनेकी
 आवश्यकता नहीं है १७ अन्नअर्बुद रोगके लक्षण कहतेहैं—प्रथम
 अर्बुदकी सम्प्राप्तिका वर्णन करतेहैं—देहके किसीस्थानपर वाता-
 विदोप उठकर मांस व रक्तको अत्यन्त दूषितकरतेहैं उससे गोल
 कोमल थोड़ी पीड़ा युक्त बड़ी भारी जड़में अधिक फैलाववाली
 बहुत दिनों में बढ़नेवाली व पकनेवाली मांसकी गोली निकल
 आती है वैद्य उसे संस्कृत में अर्बुद व भाषामें बतौरी कहतेहैं १८

फेनचापिरक्तेनमांसेनचमेदसाच ॥ यज्जायतेतस्यचल
 क्षणानि ग्रंथेसमानानिसदाभवन्ति १६ दोषःप्रदुष्टोरुधि
 रंशिराइच संकुच्यसंपीड्यगतस्त्वपाकम् ॥ सास्त्रावमुन्न
 ह्यतिमांसपिण्डं मांसांकुरैरोचितमाशुवृद्धम् २० करोत्य
 जस्वरुधिरप्रवृत्तिमसाध्यमेतद्रुधिरात्मकन्तु ॥ रक्तक्ष
 योपद्रवपीडितत्वात्पाण्डुर्भवेत्सोऽर्बुदपीडितस्तु २१
 मुष्टिप्रहारादिभिरर्दितेगे मांसञ्चदुष्टंजनयेत्तुशोथम् ॥
 श्रवेदनंस्निग्धमनन्यवर्णं सपाकमाश्मोपममप्रचाल्यम्
 २२ प्रदुष्टमांसस्यनरस्यगाढमेतद्भवेन्मांसपरायणस्य ॥
 मांसार्बुदत्वेतदसाध्यमुक्तंसाध्येष्वपीमानिविवर्जयेत्तु २३

वे अर्बुद वात पित्त कफ मांस रक्त व मेदस इनसे उत्पन्न होने
 के कारण ६ प्रकारकी होती है इनके लक्षण वातजादि ग्रन्थियों
 केही समानहोते हैं १९, दुष्टवातादिक दोषरुधिर और नसों को
 सिकोड़कर वा सम्पीडितकरके मांसके पिण्डको ऊपरको उठाता
 है वह पहिले कच्चारहताहै फिर कभी पकताहै तो रुधिर बहने
 लगताहै मांसके अंकुरउसके किनारे २ निकलआते हैं और बहुत
 शीघ्र वह बढ़जाताहै २० यदि उसमें से निरन्तर रक्त बहता रहै
 तो वह रक्तार्बुद असाध्य होजाताहै और रक्तार्बुद से पीडित
 पुरुष रक्तक्षयहोनेसे व उपद्रवसे पीडित होनेके कारण पीलाहो-
 जाताहै २१ मांसके अर्बुद रोगकी सम्प्राप्ति—मूकाआदिसे पीडित
 करनेसे मांस अति दुष्टहोकर शोथको उत्पन्न करताहै उसशोथ
 वा सूजनमें पीडानहींहोती चिकनीहोती रंगशरीरही कासाहोता
 है पकती नहीं है व पत्थरके समान कड़ीहोने के कारण अचल
 होजाती है २२ जिस मनुष्यका मांस विगड़जाताहै अथवा जो
 नित्यमांस भक्षण करता रहताहै उसके जब मांसार्बुद होताहै
 तो असाध्यकहाताहै व साध्यों के बीचमें भी जो अर्बुद कहे हैं

संप्रसृतमर्मसुयच्चजातं स्रोतस्सुवायच्चभवेदचाल्यम् ॥
 यज्जायतेन्यत्खलुपूर्वजाते ज्ञेयंतदध्यर्बुदमर्बुदज्ञैः २४ य
 द्वन्द्वजातंयुगपत्क्रमाद्वा द्विरर्बुदंतच्चभवेदसाध्यम् २५
 नपाकेमायांतिकफादिकत्वान्मेदोबहुत्वाच्चविशेषतस्तु ॥
 दोषस्थिरत्वाद्द्रुथनाच्चतेषांसर्वार्बुदान्येवनिसर्गतस्तु २६

इतिगलगण्डमालाग्रन्थ्यर्बुदनिदानम् ॥

मेदोमांसाश्रयंशोफम्पादयोश्श्लीपदम्भवेत् ॥ स्व
 लिङ्गदर्शिभिर्दोषैस्त्रिधास्याच्चकफोत्तरम् १ यस्सज्वरो

वेभीप्रायः असाध्यहीहोते हैं २३ साध्यासाध्य जाननेका प्रकार
 जो अर्बुद सदा बहतारहताहै अथवा जो किसी सुकुमार स्थानमें
 उत्पन्नहोताहै वा नसोंमें जोउत्पन्नहोताहै वहकिसीके चलायेनहीं
 चलताअर्थात् असाध्यहोताहै व जिसस्थानमें प्रथमअर्बुदहुआहै
 उसीपरजो दूसराहोतो उसकाअध्यर्बुद नामजाननाचाहिये २४
 जब द्वन्द्वज अर्बुद जो एकही साथ एकही स्थानपर हों वा एक
 दूसरे के पीछेहों तो उन्हें द्विरर्बुद कहतेहैं ये द्विरर्बुद असाध्य
 होतेहैं २५ अर्बुद के न पकनेका कारण कफाधिक होनेसे मद्
 बहुत होनेसे व दोषके स्थिर होनेसे अथवा इनकी गांठि परजाने
 से सब अर्बुदों का स्वभाव है कि फिर वे अपने आपनहीं पं-
 कते हैं २६ ॥

इति श्रीमाधवनिदानेभापानुवादेगलगण्डगण्डमालाऽपची

ग्रन्थिशिराग्रन्थ्यर्बुदादिनिदानन्द्विचत्वारिंशत्तमम् ॥ ४२ ॥

दो० ॥ त्वेतालिसयं महं कह्यो श्लीपदरोग निदान ॥

करि विचार बहुभांति सों भायत जाहि सुजान १

श्लीपद रोगका निदान कहते हैं पैरों में मेदस् और मांसके
 आश्रयसे जो शोथ होताहै उसे श्लीपदरोग कहतेहैं वह अपने २
 चिह्नों के दिखानेवाले दोषों के कारण तीन प्रकारका होता है

षड्विधश्चसः २ पृथग्दोषैःसमस्तैश्च क्षतेनाप्यसृजा
 तथा ॥ षण्णामपीहतेषांहिलक्षणंचप्रचक्षते ३ कृष्णो
 रुणोवाविषमो भृशमत्यर्थवेदनः ॥ चित्रोत्थानप्रपाक
 इच विद्रधिर्वातसंभवः ४ पक्वोदुम्बरसंकाशः श्यावोवा
 ज्वरदाहवान् ॥ क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिःपित्तसंभ
 वः ५ सएवसदृशःपांडुःशीतःस्निग्धोऽल्पवेदनः ॥ चिरो
 त्थानप्रपाकश्च सकण्डुश्चकफोत्थितः ६ तनुपीतासिता
 इचैषा मास्त्रायाःक्रमशःस्मृताः ॥ नानावर्णरुजास्त्रावोघंटा
 लोविषमोमहान् ॥ विषमंपच्यतेचापि विद्रधिःसान्निपा

बड़ी चौड़ी होती है व पीड़ा बहुत होती है चाहे वह गोलहो वा
 लम्बीहो उसे लोग विद्रधि कहते हैं सो वह ६ प्रकारकी होती है
 २ वात पित्त कफ तीनों दोषोंसे तीनप्रकारकी व सर्वा के मिलने
 से एकसन्निपातकी पांचई क्षतज छठी रक्तज इनछमाके लक्षण
 कहते हैं ३ वातज विद्रधि के लक्षण—जो काले वा लालरंग की
 होती है चाहे छोटीहो वा भारीहो पर पीड़ा बहुतहो उसका उ-
 ठना और पकना अनेक प्रकारकाहो वस वायुसे उत्पन्न विद्रधि
 के येही लक्षण होते हैं ४ पित्तज विद्रधि के लक्षण—पित्तज वि-
 द्रधि पकीहुई गूलर के रंगकी होती है अथवा श्यामता लियेहुये
 होती है ज्वर व दाह भी इसमें होताहै उसका उठना व पकना
 शांतिही होताहै ५ कफज विद्रधि के लक्षण—कफकी विद्रधि दिया
 के तुल्य बड़ी व पाण्डुरंग और ठण्डीहोतीहै चिकनी व अल्पपी-
 डायुक्त होतीहै बहुत कालमें उठती और पकती है ६ पकने पर
 वहनावातकी विद्रधिमें पतली पीव बहती है पित्तकीमें पीली व
 कफकी में उजली सन्निपातकी विद्रधि के लक्षण—सन्निपातकी
 विद्रधिका नानाप्रकारका रंगहोताहै व नानाप्रकार की पीड़ाहोती
 है व नानाप्रकार से वहनाहोताहै व घण्टाकी नाई लम्बाई होती

तिकः ७ तैस्तैर्भावैरभिहते क्षतेवापथ्यकारिणः ॥ क्षतो
 ष्णोवायुविसृतः सरक्तंपित्तमीरयेत् ८ ज्वरस्तृष्णाचदा
 हृश्च जायतेतस्यदेहिनः ॥ आगंतुविद्रधिस्त्वेष पित्त
 विद्रधिलक्षणः ९ कृष्णःस्फोटावृतःश्यावस्तीव्रदाहरुजा
 ज्वरः ॥ पित्तविद्रधिलिंगस्तुरक्तविद्रधिरुच्यते १० पृथ
 कसंभूयवादोषाःकुपितागुल्मरूपिणम् ॥वलमीकवत्समुन्न
 द्धमन्तःकुर्वन्तिविद्रधिम् ११ गुदेवस्तौमुखेनाभोकुक्षोर्वंक्ष
 णयोस्तथा ॥ वृकयोःश्लिन्हियकृतिहृदयेकौस्त्रिवाप्यथ १२
 एषामुक्तानिलिंगानिवाह्यविद्रधिलक्षणेः ॥ अधिष्ठानवि
 शेषेणलक्षणानिनिबोधमे १३ गुदेवातनिरोधस्तुवस्तौ

है विषम स्वभावकी बड़ी भारी होती है कोई तो पकती है कोई
 पकतीही नहीं यह भी विषमता उसमें होती है ७ विद्रधिकी सं-
 म्प्राप्तिका वर्णन—लोहे पत्थर काठ आदिकों के घावके लगने से
 वा किसी अन्य प्रकार के घाव में जब रोगी अपथ्य करता है तो
 घावका उष्णवायु कोपकरके रक्तसहित पित्तको कोप कराताहै ८
 ज्वर तृष्णा व दाह उस रोगी के होतेहैं इस आनेवाली विद्रधि
 के लक्षण प्रायःपित्तकी विद्रधि के होते हैं ९ रक्तज विद्रधि के ल-
 क्षण—रक्तकीविद्रधि कालेफोड़ोंसे घिरीहुई होती है कुछ श्यामता
 लिये उसका रंगहोताहै दाह पीडा व ज्वर तीव्रहोते हैं पित्त वि-
 द्रधि के सब लक्षण रक्तकी विद्रधिमें होते हैं १० अन्तर्विद्रधि के
 लक्षण—वातपित्त कफकोपकरके अलग २ वाएकसंग होकर गुल्म-
 रूप व्यंघ्रौरी की नाई लंबी विद्रधि अन्तःकरणमें करते हैं ११
 स्थान २ परके पृथक् २ लक्षण—गुद वस्तिमुख नाभि कोपि अण्डः-
 कोशोंकी सन्धिमें अण्डकोशोंमें पिलहीके स्थानमें यकृतके स्था-
 नमें हृदयमें व पिपासाके स्थानमें विद्रधि होती है १२ इनके
 विह वाहरकी विद्रधिके लक्षणोंसे कहा अवस्थान विशेषसे लक्ष-

कृच्छ्राल्पमूत्रता ॥ नाभ्यांहिकातथाटोपःकुक्षोमारुतको
 पनम् १४ कटीपृष्ठग्रहस्तीत्रोवक्षणोत्थेतुविद्रधौ । वृक्क
 योःपार्श्वसंकोचःस्त्रीह्युच्छ्वासावरोधनम् १५ सर्वांगप्रग्र
 हस्तीत्रोहृदिकासश्चजायते ॥ श्वासोयकृतिहिकाचछो
 म्निपेपीयतेपयः १६ नाभेरुपरियाःपक्वायांत्यूर्ध्वमितरे
 त्वधः ॥ अधःस्रुतेषुजीवेच्चस्रुतेषूर्ध्वनजीवति १७ ह्र्नां
 भिवस्तिवर्ज्यायेतेषुभिन्नेषुत्राह्यतः ॥ जीवेत्कदाचित्पुरु
 प्रोनेतरेषुकदाचन १८ साध्याविद्रधयःपंचविवर्ज्यःसन्नि

ण विशेष हमसे सुनो १३ गुद में विद्रधिहोने से वायुका निरोध
 होताहै वस्तिमें होनेसे कण्ठसे थोड़ा पेशाव उतरता है नाभि में
 होनेसे हुचकीआती व पेटफूलताहै कोपिमें होनेसे वायुकाकोप
 होताहै १४ अण्डकोशके जोड़में विद्रधिहोनेपर कटि और पीठ
 जकड़कर भतिपीडित होती है कोपिके पिण्डमें होनेसे पशुड़ियां
 सिंकर जाती हैं व पिलहीके स्थानमें होनेसे श्वासरुँकने लगती
 है १५ हृदयमें विद्रधिनाम फोड़ाहोनेसे सबभंग जकड़जातेहैं व
 खांसी आनेलगती है यकृत के स्थान में अर्थात् कलेजेमें होनेसे
 श्वास और हुचकी आतीहै व पिपासा के स्थानमें होनेसे फिर २
 पिपासा लगती है इससे पानी अधिक पियाजाताहै १६ नाभि
 के ऊपर जो विद्रधियां होती हैं फूटनेपर उनकी पीवमुखकीहो-
 करबहतीहै व जोनाभिके नीचेहोतीहैं वे गुदमार्गहोकर बहती हैं
 जोनीचेहोकर बहतीहैं उनमें रोगीजीताहै व ऊपरको घंढने से
 नहीं जीताहै १७ साध्यासाध्यके लक्षण—हृदयनाभि वस्ति इन
 स्थानोंको छोड़कर पिलही पिपासादि स्थानोंकी विद्रधियां जब
 बाहरहोकर बहती हैं तो कदाचित् पुरुषजीभीजाताहै पर अन्य
 स्थानोंमें होनेपर फिरकभी नहीं जीता १८ पांच विद्रधियांसाध्य
 होतीहैं व सन्निपातजमसाध्य होतीहै इससे श्याज्यहै इनमेंकच्ची

पातिकः ॥ आमपक्वविदग्धत्वत्तेषांशोफवदादिशेत् १६
 आध्मानं वद्धनिष्पन्दं ह्रदिहिकात्पान्वितम् ॥ रुजाश्वास
 समायुक्तं विद्रधिर्नाशयेन्नरम् २० ॥ इति विद्रधिनिदानम् ॥

एकदेशोत्थितः शोथो व्रणानां पूर्णलक्षणम् ॥ षड्विधः
 स्यात्पृथक्सर्वैरक्तजागंतुजैतथा १ शोफा षडेते विज्ञेयाः
 प्रागुक्तैः शोफलक्षणैः ॥ विशेषः कथ्यते चैषां पक्वापक्वविनि
 श्चयै २ विषमेपच्यते वातात्पित्तोत्थश्चाचिरंचिरम् ॥ क
 फजः पित्तवच्छोफोरक्तागंतुसमुद्भवः ३ मन्दोष्णतालपशो

पक्वी विदग्धता ये तीन शोथके समान जानना चाहिये १९ अ-
 साध्यके लक्षण—जिस विद्रधिमें पेटफलता है पेशाव रुककर होता
 है ओकाई आती वा जी मचलाता है वान्त होता है हुचकी आती
 है पिपासा लगती है पीड़ा होती और श्वास अधिक आती है वह
 विद्रधि रोगीको नाश कर देती है २० ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे विद्रधिनिदानं

चतुश्चत्वारिंशत्तमम् ४४ ॥

दोहा ॥ पैतालिसयें मँहँ कह्यो बहु व्रण शोथ निदान ।

लखिँहि सुजनमनलायकै गुनिरमहितविधान ॥१॥

व्रण अर्थात् घावके निदान कहते हैं एक किसी स्थानपर जब
 शोथहो आवे तो उसको व्रणों का पूर्व लक्षण जानना चाहिये
 वह ६ प्रकार का होता है वात पित्त कफ इनका अलग २, व
 सर्वोंके मिलने से सन्निपातज पांचवां आगन्तुक छठा रक्तज १-६
 शोथ पूर्वोक्त शोथोंके लक्षणों से जानने चाहिये इनके कश्चेकके
 के निश्चय के विषयमें विशेष कहा जाता है २ वातज का पकना
 विषम होता है इससे कहीं पकजाता है कहीं नहीं भी पकता है
 पित्तज बहुत शीघ्र पकता है व कफज विलम्ब से पकता है रक्तज
 और आगन्तुक शोथ पित्तज के समान शीघ्र पकता है ३ थोड़ी

थत्वंकाठिन्यंत्वक्सर्वणता ॥ मद्देदनताचेतिशोफाना
 मामलक्षणम् ४ दह्यतेदहनेनेवक्षरिणेवचपच्यते ॥ पिपी
 लिकागणेनेवदश्यतेद्विद्यतेतथा ५ भिद्यतेचवशस्त्रेणदं
 डेनेवचताड्यते ॥ पीड्यतेपाणिनेवांतःसूचीभिरिवतुद्य
 ते ६ शोषचोषोविवर्णःस्यादंगुल्येवावपाट्यते ॥ आस
 निशयनेस्थानेशांतिवृश्चिकविद्धवत् ७ नगच्छेदाततः
 शोफोभवेदाध्मातवस्तिवत् ॥ ज्वरस्तृष्णारुचिश्चेतत्
 पच्यमानस्यलक्षणम् ८ वेदनोयःशमःशोफोलोहितोवा
 ल्पवेदनः ॥ प्रादुर्भावोत्रलीनांचतोदःकण्डूर्मुहुर्मुहुः ९ उ
 पद्रवाणांप्रशमोनिम्नतास्फुटनत्वचः॥वस्ताविवाम्बुसंचा
 रःस्याच्छोफोगुलिपीडिते १० पूयस्यपीडयत्येकमंतमंते
 उष्णता थोड़ा सूजना कड़ापन देहके चर्महीका सा रंग होना
 थोड़ीपीड़ा ये शोथोकेकच्चेहोने के लक्षणहैं ४ जब शोथमें अग्नि
 के समान जलन उत्पन्नहो व जलन के तुल्य पकनेलगे च्युटियों
 के काटने कीसी पीड़ा होनेलगे व जानों कोई चीरेडालताहै ५
 जानों शस्त्रसे कोई काटताहै जानों दगडासे पीटाजाताहै जानों
 हाथ से पीडित होता है भीतरमानों कोई सुइयासे चोंकता है ६
 सूखना अग्निसे जलाने के समान जलन रंग बदलजानामानों
 कोई अंगुलीडाले फाड़ताहै ऐसा जानपड़ना बैठने सोने मेंशांति
 नहोनी वीछीके काटेकी नाई पीड़ाका विदितहोना ७ वह शोथ
 जब न जाय व पेड़केशोथके तुल्य होजाय ज्वर तृष्णाअरुचि यहाँ
 ये सब लक्षण जब सूजन पकजातीहै तो उसके लक्षण होतेहैं ८
 पकेहुये द्रवणके लक्षण—पीड़ाका मिटजाना सूजनका रंग कुछ
 मैला लाल होजाताहै कुछथोड़ा पीड़ारहजाती है खालमें सिकुड़े
 पड़जातेहैं कोंचना और खजुलाना बार २ होताहै ९ सबउपद्रव
 शान्तहोजातेहैं शोथ में गढ़ेपड़जाते हैं खालफूटजाती है वस्तिसे

चपीडिते ॥ ११ ॥ भक्ताकांक्षाभवेच्चैतच्छ्लोफानांपकलक्षणम्-
 ११ नर्त्तनिलाद्रुग्नाविनाचपित्तंपाकःकफाद्याधिविनानपू-
 यः ॥ तस्मात्तुसर्वपरिपाककालेषचंतिशोफाल्लिभिरेव दो-
 षैः १२ कालान्तरेणाभ्युदितंतुपित्तंकृत्वावशेवातकफौप्र-
 सह्य ॥ पचत्यतःशोणितमेषमाकोमतोपरेषांविदुषांद्विती-
 यः १३ कक्षंसमाश्रित्ययथैववह्निर्वाय्वीरितःसंदहतिप्र-
 सह्य ॥ तथैवपूयोप्यविनिःसृतोहिमांसंशिरास्नायुचखाद्-
 तीह १४ आमांविदह्यमानंचसम्यक्पाकंचयोभिषक् ॥
 जानीयात्सभवेद्वैद्यःशेषास्तस्करवृत्तयः १५ यःत्रिनत्या

मानों पानी बहने चाहता है और सूजनपर अंगुलीके दबानेसे १०
 पीव इधर उधर हटजाती है इससे कुछगड़ेसे होजाते हैं वगन्नखाने
 की इच्छाहोती है बसपकेहुये शोधोंकायही लक्षण है ११ एकदोष से
 उत्पन्न शोधमें पकनेके समय तीनोंदोषोंके होजानेके लक्षण बिना
 वायुके दोषकेपीड़ा नहींहोती व बिनापित्तके शोध वा घावपकताही
 नहीं व बिनाकफके पीवहोतीहीनहीं इससे सबशोध पकनेकेसमय
 तीनोंदोषोंसे युक्तहोते हैं १२ इसविषय में दूमरामत ऐसा है कोप
 कियेहुये पित्त कालान्तर पाकरहठसे वातकफको अपनेवशमें कर
 के रुधिरको पकाता है इसीसे अन्यपण्डितोंका यहदूसरामत है १३
 जैसे सूखे खरमें प्राप्तअग्नि जववायुसेप्रेरित होता है तो हठसे उसे
 जलाता है इसीप्रकार जबतक पीव घावसे बाहर नहीं निकलता
 तबतक मांस व छोटी बड़ी सब नसोंको खाती रहती है १४ आमा-
 दि लक्षणों के जानने के अर्थ इस के गुण और दोष दिखाते हैं
 लक्षणोंसे जो वैद्य ब्रगका कच्चापन पकनेके योग्य व अच्छेप्रकार
 से पकजाना जानलेता है वहवैद्यहोता है अन्यजो नहीं जानते यां-
 ही वैद्यकीकरते हैं व चोर हैं वैद्यनहीं हैं १५ जो अज्ञान से कच्चेफोड़े
 आदिको चीड़डालता है व जो पकेहुयेके चीड़ने वा फोड़नेके उपाय

ममज्ञानाद्यश्चपक्वमुपैक्षते ॥ इवपचाविवमंतव्योतावनि
श्चितकारिणी १६ ॥ इतिशोथव्रणनिदानम् ॥

द्विधाव्रणःपरिज्ञेयःशारीरागंतुभेदतः ॥ दोषैराद्यस्त
योरन्यःशस्त्रादिक्षतसंभवः १ स्तब्धःकठिनसंस्पर्शोमं
स्त्रावोमहारुजः ॥ तुद्यतेस्फुटतिश्यावोव्रणोमारुतसंभ
वः २ तृष्णामोहज्वरक्लेददाहदुष्ट्यवदारणैः ॥ व्रणंपित्त
कृतविद्याद्गन्धैः स्रावैश्चपूतिकैः ३ बहुपिच्छोगुरुःस्नि
ग्धःस्तिमितोमंदवेदनः ॥ पाण्डुवर्णोल्पसंक्लेदश्चरपाकी
कफव्रणः ४ रक्तोरक्तस्रुतीरक्तात्द्वित्रिजःस्यात्तदन्वयैः ५

की उपेक्षा करताहै भटनहीं चीड़ता वा फोड़ता तो वेदोनोंभनि
श्चितकारी होनेकेकारण डोमड़ेके समान मानने चाहिये १६ ॥

इतिश्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे व्रणशोथनिदानं
पञ्चचत्वारिंशत्तमम् ॥ ४५ ॥

दो० ॥ छयालिसयें महेँ हेँ कहे व्रणके सकल निदान ॥

पिछलेमहेँ व्रणशोथके कहे लखें गुणवान ॥ १ ॥

शारीरक और आगन्तुक के भेदसे व्रण दो प्रकार के जानने
चाहिये उनमें पहिला शारीरक शरीरके वात पित्त कफादिकों के
दोपसे होताहै व दूसरा आगन्तुक शस्त्रादिकोंकी चोटके लगने से
होताहै १ वातजव्रणकेलक्षण-वायुसेउत्पन्नव्रण अचलकड़ाहोताहै
थोड़ा बहताहै पीड़ाबड़ीहोती है कोंचनेकीसी भी पीड़ा होती है
फुटजाताहै यह व्रणकुछ ललाई लिये मटमैले रंगका होता है २
पित्त व्रणका लक्षण-पित्तजव्रणमें पिपासा मोह ज्वर गीलापन
दाह सड़जाना विदीर्णहोना दुर्गन्धिमाना बहनेपरभी दुर्गन्धिही
का आना ये लक्षण होते हैं ३ कफात्मक व्रण के लक्षण ये हैं
बहुत चमकना गुरु चिकना अचल थोड़ी पीड़ा पीलारंग थोड़ा
बहना विलम्ब से पकना ४ रक्तज व्रणके लक्षण-रक्तसे उत्पन्न

त्वग्मांसतःसुखेदेशैतरुणस्यानुपद्रवः ॥ धीमतोभिनवः
 कालेसुखेसाध्यःसुखव्रणः ६ गुणैरन्यतमैर्हीनस्ततःकृच्छ्रो
 व्रणःस्मृतः ॥ सर्वैर्विहीनोसाध्यस्तुतथैवोपद्रवान्वितः ७
 पूतिपूयातिदुष्टासूक्ष्माव्युत्संगीचिरस्थितिः ॥ दुष्टव्रणो
 तिगन्धादिःशुद्धलिंगविपर्ययः ८ जिह्वातलाभोऽतिमृदु
 इशुक्लोविगतवेदनः ॥ सुव्यवस्थोनिरास्रावइशुद्धोव्रणइ
 तिस्मृतः ९ कपोतवर्णप्रतिमायस्यांताःछेदवर्जिताः ॥
 स्थिराश्चपिडिकावंतोरहतीतितमादिशेत् १० रुढवर्त्मा

व्रणका रंग लाल होताहै व उससे रक्त बहताहै वह जब वाता-
 दिकों में से किसी एक दोपके संग हो तो द्विज और जब दो
 औरों के संग हो तो त्रिज व जब तीन औरों के संग हो तो चतु-
 र्ज कहताहै ५ सुख व्रणके लक्षण—जो व्रण त्वचा मांस और
 अमुकुमार स्थानों में युवापुरुष के उपद्रव रहित होकर होताहै,
 सो भी बुद्धिमान् मनुष्य के होताहै और नयाहोताहै व सुखद
 काल हिम शिशिरही में होताहै वह सुख से साध्यहोता है इसीसे
 उसका सुख व्रण नाम भी है ६ कृच्छ्रसाध्य और असाध्य व्रणों
 के लक्षण—कहेहुये गुणों में से कुछहों और कुछ जिसमें न हों
 वह व्रण कष्ट साध्यहोताहै व जो गुण कहे हैं उनमें से जिसमें
 एकभी नहो तो वह असाध्य होताहै उसकी औपथ न करनी चा-
 हिये ७ दुष्ट व्रणके लक्षण—जिस व्रणमें दुर्गन्ध सहित पीव व
 अति दुष्ट रुधिरबहै व जो ऊपरकी ओर अधिक ऊँचाहो व बहुत
 दिनों का होगयाहो व गँधाता बहुतहो शुद्धताका कोई चिह्न जि-
 समें नहो वह दुष्ट व्रण कहाताहै ८ जो व्रण जिह्वा के नीचे के
 भागकी नाई विकनाहो छूनेपर कोमल जानपड़े उजलाहो पी-
 डारहित हो व्यवस्था अच्छीहो बहुत न बहताहो उसको शुद्धव्रण
 कहते हैं ९ व्रणके भर भानेके लक्षण—जिम व्रणका रंग ललाई

नमग्रंथिमशूनमरुजंत्रणम् ॥ त्वक्सवर्णसंमत्तलंसम्यग्रूढं
 विनिर्दिशेत् ११ कुष्ठिनां विषजुष्टानां शोषिणां मधुमेहिना
 म ॥ व्रणाः कृच्छ्रेण सिद्धयन्ति तेषां चापित्रणैर्व्रणाः १२ वसामे
 दोथमज्जानंमस्तुलुंगंचयः स्रवेत् ॥ आगंतुजोत्रणः सिद्धये
 न्नसिद्धयेदोषसंभवः १३ मद्यागुर्वाज्यसुमनापन्नचंदनं
 चंपकैः ॥ सुगंधादिव्यगंधाश्चमुमूर्षाणां व्रणाः स्मृताः १४
 ये चर्मस्त्रसंभूता भवंत्यत्यर्थवेदनाः ॥ दह्यंते चांतरत्यर्थं

लिये मट मैले कबूतर कासाहो व उसमें से पीव भादि कुछ ब-
 हती न हो स्थिरता विद्यमान हो ऊपर रवासे पड़गयेहों वस ऐसे
 व्रणको जानलेंना चाहिये कि यह अब भरता चलाआताहै १० व-
 नायभरआयेहुये घावके लक्षण-जित व्रणका मार्ग भर आयाहो
 मुँहपर गाँठिनरहगईहो सूजन बन्दहोगईहो पीड़ाभी जातीरही
 हो देहके चर्मका सारंग उसके चर्मकाभी होगयाहो व बराबर
 होगयाहो खाली ऊँचा न रहगयाहो वस ऐसे व्रणको अच्छेप्रकार
 भरआयाहुआ समझनाचाहिये ११ जिनके व्रण असाध्यहोतेहैं
 उनको गिनातेहैं कुष्ठरोग वालेके विषमक्षण करनेवालोंके शोष
 रोग होनेवालोंके मधुप्रमेहवालोंके व जिनके प्रथम घावरहाहो
 उसीस्थानपर दूसरीवारहुआहो उनलोगोंके भी व्रणअसाध्यहोते
 हैं १२ व्रणोंके साध्या साध्यकाविचार जितव्रणसे वसा मिदस् और
 मज्जा बहतीहो वमट्टेकेपानीकी तरह का पानीबहताहो ऐसे आ-
 गन्तुक व्रणको साध्यजाननाचाहिये व जो व्रणवातादि दोषसे हो-
 ताहै वह सिद्धनहींहोता १३ असाध्यव्रणके लक्षण-मदिरा अगुरु
 घृतमालती पुष्प कमल चन्दन चम्पा अन्यसुगन्धितपुष्प वा अन्य
 दिव्यगन्धयुक्त ऐसे सुगन्धित व्रणमरनेपर उद्यतपुरुषोंकेहीहोते
 हैं १४ दूसरे प्रकारके असाध्यके लक्षण-जो व्रणमर्म स्थानोंमें उ-
 त्पन्नहुयेहों और पीड़ाअधिककरतेहों वजोव्रणभीतरबहुतजलतेहों

वहिःशीताश्चयेव्रणाः १५ दह्यन्तेवाहिरत्यर्थम्भवन्त्य
 न्तश्चशीतलाः ॥ प्राणमांसक्षयश्वासकासारोचकपीडि-
 ताः १६ प्रवृद्धपयरुधिरा व्रणायेषांचमर्मसु ॥ क्रियाभिः
 सम्यगारब्धानसिद्ध्यंतिचयेव्रणाः ॥ वर्जयेत्पितानूवैद्यः
 संरक्षन्नात्मनोयशः १७ ॥

इतिशरीरव्रणनिदानम् ॥

नानाधारमुखैःशस्त्रैर्नानास्थाननिपातितैः ॥ भवति
 नानाकृतयोव्रणांस्तांस्तांस्त्रिबोधमे १ छिन्नंभिन्नंविद्वंक्षतं
 पिच्चितमेवच ॥ घृष्टमाहुस्तथाषष्ठंतेषावक्ष्यामिलक्ष-
 णम् २ तिर्यक्छिन्नञ्चजुर्वापियोव्रणस्त्वायतोभवेत् ॥

और ऊपर अत्यन्त शीतलरहतेहों १५ व जो बाहर अत्यन्त जलते
 हों व भीतर अत्यन्त शीतलरहतेहों व जिनमें बलमांसक्षीणहोग-
 याहो व श्वास खाँसी अरुचि की बड़ी पीड़ा होती हो १६ व जो
 व्रण मर्मस्थानों में हुये हों और पीव रक्त बहुत बहतेहों व जिन
 की अच्छीरीतिसे औपधहोतीहो पर कुछ सिद्धिनहोतीहो वस जो
 वैद्य अपनेयशकी रक्षाचाहताहो ऐसे व्रणोंकी औपध न करे १७ ॥

॥ इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेशरीरव्रणनिदानं ॥
 पृथक्त्वारिंशत्तमम् ॥ ४६ ॥
 दो० ॥ सैतालिसयें मैं कहेव्रण के भेद अनेक ॥
 तिनकेलक्षणबहुभने देखहुंसहितविवेक ॥ १ ॥

आगन्तुकव्रण नानाप्रकारकी धार और मुखवाले शस्त्र नाना
 प्रकारके स्थानोंपर निपातित करने से नानाप्रकारकी आकृति
 के व्रणहोते हैं उन २ को हमसे सुनो १ छिन्न-भिन्न विद्वंक्षत
 पिच्चित और घृष्टव्रण ६ प्रकार के होतेहैं उनके लक्षण कहते हैं २
 छिन्नधावके लक्षण—जो व्रण ऊपर तिरछा वा सीधा कैसाही हो
 पर भीतर जाकर फैल गयाहो उसे छिन्न व्रण कहतेहैं और यह गात्र

गात्रस्यपातनंताद्विःत्रिन्नमित्यभिधीयते ३ शक्तिकुनेषु
खड्गाग्रविषाणैराशयोहतः ॥ यत्किञ्चित्प्रसवेत्तद्विभि
न्नलक्षणमुच्यते ४ स्थानान्यामाग्निपक्वानां मूत्रस्यरु
धिरस्यच ॥ हृदुदुकःफुस्फुसश्च कोष्ठइत्यभिधीयते ५
तस्मिन्भिन्नेरक्तपूर्णं ज्वरोदाहश्चजायते ॥ मूत्रमार्गगुदा
स्येभ्यो रक्तंघ्राणाच्चगच्छति ६ मूर्च्छाश्वासतृषाध्मानम
भक्तच्छंदएवच ॥ विण्मूत्रवातसंगश्च स्वेदास्त्रावोऽक्षि
रक्तता ७ लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदौर्गन्ध्यमेवच ॥ ह
च्छूलंपार्श्वयोश्चापि विशेषंचात्रमेशृणु ८ आम्राशय
स्थरुधिरं रुधिरञ्छर्दयत्यपि आध्मानमतिमात्रञ्च शू
लंचभृशदारुणम् ९ पकाशयगतेरक्ते रूजागौरवमेवच

का पातन करताहै ३ भिन्नव्रणके लक्षण—सांग भाला वाण तल-
वारकी नोक दांत वा शींग इनसे पेटमें चोंकजाने से जो थोड़ा २
रुधिर वहे उसव्रणको भिन्नव्रण कहते हैं ४ कोष्ठ वा कोठे के
लक्षण—आमाशय अग्न्याशय पकाशय मूत्राशय रक्ताशय क-
रेजा घ्रीहा हृदय मलाशय और फयफसा इनसबको कोष्ठ
कहते हैं ५ इसके भेदों के लक्षण—जब कोष्ठ भिन्नहोजाताहै व
रक्तसे पूर्ण होजाताहै तो ज्वर और दाह होता है व मूत्रके मार्ग
की गुदकी मुखकी और नासिकाकी होकर रक्त बहने लगता
है ६ व मूर्च्छा श्वास तृषा पेटफूलना अरुचि मलमूत्र व अधो-
वायुका रुकना पसीनाका अधिकहोना और नेत्रों में ललाई हो-
ती है ७ मुख में लोहकी गन्धि आती है अन्य अंगों में दुर्गन्धि
होती है हृदय में शूल और पशुडियों में भी शूलहोती है इस
विषयमें हमसे विशेष और सुनो ८ आम्राशयमें स्थितरुधिर के
लक्षण—जब आम्राशयमें रुधिर जाकर भर होता है तो रुधिरही
धमनकरता है पेट बहुत फूलभाता है व अतिदारुण शूल उठती

अधःकायेविशेषेण शीतताच भवेद्विह १७ ० ॥ सूक्ष्मास्य
 शल्याभिहतं यदंगत्वाशयविनागा उत्तुडितनिर्गतं च त
 द्विद्वमितिनिर्दिशेत् १७ १ ॥ मातिच्छिन्ननातिभिन्न मुभयोर्ल
 क्षणांनितम् ॥ विषमं ब्रूणमंगेषु तत्क्षतत्वमितिनिर्दिशेत् १७ २
 प्रहारपीडिताभ्यां तु यदंगं पृथुतांगतम् ॥ सांस्थितत्पि
 च्चितविद्यान्मज्जारक्तपरिप्लुतम् १७ ३ ॥ घषेणादिभिघाताद्वा
 यदंगं विगतत्वचम् ॥ उपस्त्रावान्वितं तच्च घृष्टमित्यभिधी-
 यते १७ ४ ॥ श्यावंसशोथंपिडिकांनितं च मुहुर्मुहुःशोणित
 वाहिनं च ॥ मृदूद्गतं बुद्बुदतुल्यमांसवर्णसशल्यंसहजं व
 दंति १७ ५ ॥ त्वचोतीत्यशिरादीनिभित्वाचपरिद्वत्पवा ॥

है १७ जब पक्काशयमें रुधिर स्थित होता है तो पीड़ा होती है और
 शरीर भारी लगता है व कटिसे नीचेके भागमें विशेष शीतलता
 होजाती है १७ विद्वके लक्षण-आशय को छोड़ अन्य कोई अंग जब
 पतली नोकवाले कांटेसे छिदजाये व उसस्थानपर कुछ ऊँचा
 होजाय उस घणको विद्वकहते हैं ११ क्षतके लक्षण कहते हैं जो
 न बहुत छिन्न होगया हो न बहुत भिन्नही होगया हो किन्तु दोनों
 लक्षणोंसे युक्त हो पर टेढ़ा मेढ़ा विषमघावहो उसे क्षत कहते हैं
 १२ पिच्छितके लक्षण-जिस अंगके ऊपर कुछ पथेर कांठादिदे-
 मारनेसे वा दबा देनेसे हाडसहित घिनोपंगपिलूया होजाय और
 उससे मज्जा रक्तनिकलनेलगे उसे पिच्छितघाव कहते हैं १३ घृष्ट
 के लक्षण-घसोटने से वा मारनेही से जिस किसी अंगका
 चमड़ा छिलजाता है व रुधिर बहने लगता है उस अंगको घृष्ट
 कहते हैं १४ सशल्यघ्नण के लक्षण-जो घाव नीले रंगका हो
 ऊपर सूजन घनीहो व किनारे छोटे र फोड़े निकलेंहो व बार-
 उससे रक्तवहताहो ऊपर उसके निरमें बना रहे व मांस उसका
 बुल्लाकी तरहकाहो तो उसमें कोई कण्टक फांसयादि अवश्य

कोष्ठप्रतिष्ठितंशल्यं कुर्यादुक्तानुपद्रवान् १६ तत्रांतर्लो
हितं पांडु शीतपादकराननम् ॥ शीतोच्छ्वासंरक्तनेत्रमा
नद्धं परिवर्जयेत् १७ भ्रमः प्रलापः पतनं प्रमोहो विचेष्टनं
ग्लानिरथोष्णता च ॥ सूस्तांगतामूर्च्छं नमूर्ध्वं वातस्तीव्रा
रुजो वातकृताश्च तास्ताः १८ मांसोदकाभं रुधिरं च रा
च्छेत् सर्वेन्द्रियापरमस्तथैव ॥ दशार्द्धसंख्येष्वपि वि
क्षतेषु सामान्यतो मर्मसु लिङ्गमुक्तम् १९ सुरेंद्रगोपं प्रति
मंप्रभूतं रक्तसूवेत्तक्षतजश्च वायुः ॥ करोति रोगान्विवि

उसके भीतर रहता है इससे उसे सशल्य कहते हैं १५ कोष्ठ भेद
के लक्षण—त्वचा को छेदकर भीतर नसों को विदारण करके
वातोड़के जो कांटा फांस आदि शल्य भीतर रहजाता है वह
ऊपर कहेहुये उपद्रवों को करता है व कोष्ठ भेद रुहांता है १६
असाध्यकोष्ठ भेद के लक्षण—जितके भीतर रुधिर जमगयाहो
इससे लालहो व ऊपर रंग पीला होगयाहो व पाद हाथ मुख
ठण्डे होगयेहो व ठण्डी ऊधी र्वासें आतीहो नेत्रलालहो पेट
फूलाचलाआताहो ऐसे कोठके मनुष्यको छोड़ देना चाहिये १७
मांस छोटी बड़ी नसें हाड़ व सन्धियोंके सुकुमार स्थानोंमें घाव
लगने के सामान्य लक्षण—भ्रमहोना अन्तर्ध्वं वचन बकनी गि
रपड़ना अति मोहहोना छटपटाना ग्लानि उष्णता शरीर शि
थिलहोजाना मूर्च्छा ऊपरको र्वास आना च्यहरा कुछ उदास
होजाना वातके कारण पीड़ा १८ मांसके धोवनके रंगका रक्तवहना
सब इन्द्रियोंका निवृत्तहोना जब पांचोइन्द्रियोंके सुकुमार
स्थलोंमें घावलगताहै तो (सामान्यतः) यही लक्षणहोताहै १९ मर्म
रहित शिराविद्वरणके लक्षण—जब नसें छिन्नहोजातीहै वा विद्वहो
जातीहै क्षतयुक्त होजातीहै तो वीरबहूटीनाम वर्षा ऋतुमें उत्पन्न
लाल र कीड़ेके तुल्य बूद र बहुत रक्त चूनेलगताहै व व्रणका वायु

धान्यथोक्तान् शिरासुभिन्नास्त्रथवाक्षतासु २० कौब्ज्यं
शरीरावयवावसादः क्रियास्वशक्तिस्तुमुलारुजश्च ॥चि
राद्वृणोरोहतियश्चत्रापि संस्नायुविद्धंपुरुषंव्यवस्येत्
२१ शोफोतिवृद्धिस्तुमुलारुजश्च बलक्षयःपर्वसुभेद
शोफौ ॥ क्षतेषुसंधिष्वचलाचलेषु स्यात्संधिकर्मोपरम
श्चलिंगम् २२ घोरारुजोयस्यनिशादिनेषु सर्वास्ववस्था
सुचनेतिशान्तिम् ॥भिषग्विंपिचिद्विदितार्थसूत्रस्तमस्थि
विद्धंपुरुषंव्यवस्येत् २३ यथास्वमेतानिविभावयेच्च लि
गानिमर्मस्वभिताडितेषु ॥ पांडुर्विवर्णस्सृष्टिशितंनवेत्तियो

कोपकरके विविधप्रकारके रोगकरताहै २० स्नायुविद्धव्रणके ल-
क्षण—जिस पुरुष का शरीर कुबड़ाहोजाय व देह के सब अंग
टूटनेलगें कुछ कार्य करनेकी शक्तिनरहै पीड़ाबड़ीहो घाव ब-
हुतदिनों में पूराहो उस पुरुषके नसमें घावलगा समझना चा-
हिये २१ सन्धिविद्धके लक्षण—जिसकी देहमें सूजनबढ़तीजाती
हो पीड़ाबड़ी होतीहो बलकानाशहोगया हो सबजोड़ोंमें पीड़ाहो
और सूजनहो जितने जोड़ शरीर में चल वा भचलहोते हैंसबों
में कार्य करने की शक्तिजातीरहीहो मानों सब टूटगये हैं यह
सन्धिव्रणका चिह्न कहागया २२ अस्थिविद्धव्रण के लक्षण—
रात्रिदिन जिसकेअंगोंमें घोरपीड़ा हुआकरें व किसी अवस्थाओं
में भी शान्ति न होतीहो ऐसे रोगीको दोप जाननेवाला वैद्य अ-
स्थिविद्धजाने जो कि वह अच्छे प्रकार वैद्यकका विषय जान-
ताहो २३ मर्मविद्धशिरादिकों के लक्षण—जब मर्मस्थलों में
ऐसीचोटलगे कि नसेतक टूटजायें तोभी पूर्वहीके लक्षणजानने
चाहिये व यही सामान्यविद्धलक्षणभकिहोताहै मांसमर्मकेलक्षण
जिसके मांस के मर्म स्थानमें कठिन चोटलगजाती है वह पा-
ण्डुवर्ण होजाता है देहका रंग विगडजाताछूनेपरवह कुछ नहीं

मांसमर्मस्वभितादितः स्यात् ॥ २४ ॥ विसर्पः प्रक्षघातश्च
 शिरास्तंभोऽपतानकः ॥ मोहोऽन्मत्तत्रणरुजाञ्चरस्तृष्णाः
 हनुग्रहः ॥ २५ ॥ कासश्च हिरतीसारो हिक्काश्वासश्च वैपथुः ॥
 षोडशोऽपद्रवाः प्रोक्ता वृणीनां व्रणचित्तकैः ॥ २६ ॥ १६
 भग्नसमासाद् द्विविधं वदति कांडे च सघाच्च हितत्रसंधौ ॥
 उत्पिष्टविडिलप्रविचिंतच ॥ तिर्घ्यकचविक्षिप्तमधश्च षो
 ढा ॥ प्रसारणाकचनवत्तनोग्रा ॥ रुक्पाश्वावद्वेषणमत
 दुक्तम् ॥ सामान्यतः सन्धिगतस्याल्लगमुत्पिष्टसंधश्च वय

जानता ॥ २४ ॥ व्रणके-सप्तः उपद्रव-व्रणके-विचारनेवाले-वैद्यो ने
 व्रणके-सोलह उपद्रव-कहे-हैं (विसर्पः) फलना-प्रक्षघात-नस-
 रुक्जाना नसोकातन उठना-मोह-उन्मत्तता-व्रणमें-पीड़ा-ज्वर-
 तृष्णा-चौहडी काजकडना-२५-खांसी-भोकाई-भतीसार-हुचकी
 श्वास-चलना-भौर-कापुना-वस-येही-१६-उपद्रव-हैं-२६ ॥ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे तानाव्रणनिदानं सप्तचत्वारः

परिंशत्तमम् ॥ ४७ ॥

॥ २० ॥ अदन्ताल्लिसये-सह-कह्यो-भग्ननिदाननिचोर ॥ ॥

-देखहिं-सुजत-लगायचित-दकै-निजमतिजोर-१-॥

भव-भग्ननिदान-अर्थात्-हडीटूटजानेकातिदानकहतेहैं-हडीका

टूटजाना-दोमकारका-होताहै-एकजोड़परसे-उखड़जाना-दूसरा

जोड़से-अलगकहीं-टूटजाना-उन्मेंसे-जोड़परसे-उखड़जाना-६

प्रकारका-होताहै-१-उत्पिष्ट-२-विडिलप्र-३-विचिंतः-४-तिर्घ्यक

५-विक्षिप्त-और-६-अधःक्षिप्तः-१-सन्धिभंगलक्षण-अर्थात्-जोड़पर

से-उखड़ने-के-सामान्य-लक्षण-प्रसारने-सिकोरने-हिलाने-में

जिसमें-बड़ी-पीड़ाहो-वा-अपने-वा-किसी-अन्यके-अंगोंसे-लुभाया

न-जासक-सामान्यरीतिसे-सन्धिभंगके-ये-लक्षणहैं-जिसमें-जोड़

थुःसंमतात् ॥२॥ विशेषतोरत्रिभवारुजाच ॥ विश्लिष्टजे
 तोचरुजाचनित्यम् ॥ ॥ विवर्तितेपार्श्वरुजश्चतीव्रास्ति
 र्यग्गतेतीव्ररुजोभयन्ति ॥ ॥ ३ ॥ अक्षिप्तेतिशूलंविप्रमत्वम
 स्थनोः क्षिप्तेत्वधोरुग्विघटश्चसंधेः ॥ कांडेत्वतःकर्कटका
 श्वकर्णं विचूर्णितं पिच्चित्तमस्थिञ्जल्लितम् ॥ ॥ कांडेषुभ
 ग्नंह्यतिपातितं च मज्जामत्तं चस्फुटितं चवक्त्रम् ॥ ४ ॥ द्विभ्रं
 द्विधाद्वादशधाहिकांडेः सूस्तांगताशोथरुजातिवृद्धिः ॥
 संपीड्यमानेभवतीहशब्दः ॥ ॥ स्पर्शासहःस्पन्दनतोदशू

के दोनों हाडों आपस में, सगड़ उठते हैं, उसे उपिष्टनामक सन्धि
 भग्न कहते हैं इसमें सत्रारसे सूजन हो आती है २ व रात्रिमें वि
 रोप पीड़ा होती है हाडोंके जोड़में किसी प्रकार, से बीचपडजाने
 को विश्लिष्ट सन्धि भग्न कहते हैं इसमें चारोंओरसे सूजन होती
 व रात्रिमें अधिक पीड़ाहोती है परदिनमें भी पीड़ाहोती है जिस
 में हाडके जोड़के दोनों नोक उलटे पलटे होजायँ उसे विवर्तित
 सन्धिभग्न कहते हैं इसमें उसके पासदोनोंओर तीव्रपीड़ाहोती है
 व जिसमें अपने स्थानको छोड़ कर दोहाडोंके नोक हटकर अग
 ल वगल होजाते हैं उसे तिर्यक्सन्धि भग्न कहते हैं इसमें अति
 तीक्ष्णपीड़ाये होती है ३ जिसमें ऊपरको ओरसे हाड किसी
 कारण से उठजाता है उसे अक्षिप्तसन्धि भग्न कहते हैं इसमें
 अत्यन्त पीड़ाहोती है क्योंकि दोनों हाडोंका जोड़ विपमहोजाता
 है व जिसमें नीचे, को हाड टलजाता है उसे अधःक्षिप्तसन्धि
 भग्न कहते हैं इसमें भी पीड़ा, वैसेही होती है परनीचे को हड्डी
 टलजाने के कारण कुछ, वहाँप्रस्खाली होजाता है यही विशेष
 पता पाई जाती है—काण्डभग्न, अर्थात् जो जोड़ों को छोड़ अ
 लग हड्डी टूटफूटजाती है—उसके लक्षण कहते हैं काण्डभग्न
 १२ प्रकार के होते हैं उनको नाम ये हैं १ कर्कटक २ अश्वकर्ण

लाः शसिर्वास्त्रवस्थासुनशर्मलाभोभग्नस्यकांडेखलुचि
हमेतत् १५ भग्नंतुकांडेवहुधप्रियाति। समीसतोनासभि
रेवतुल्यनि॥ १॥ अल्पाशिनेनात्सवतो जंतोर्वातात्मकस्य

३ विचूणित ४ पिञ्चित ५ अस्थिच्छलित ६ काण्डभग्न ७
अतिपातित ८ मज्जागत ९ स्फुटित १० वक्र ११ व दो प्रकार
का छिन्नये १२ प्रकार के काण्डभग्नहृय हड्डी दोनो धोरको
टूटकर दवे व बीचमें कुछ ऊंचाहोजाय उसे कर्कटक कहते हैं
जिसमें घोड़े के कानोंके तुल्य दोनोभोरके टूटेहुये हाड उठभा-
वें उसे भ्रश्वकर्ण कहते हैं जिसमें हड्डी चूरहो जाय व छूने से
कर कराहत शब्द जानपड़े उसे विचूणित कहते हैं जिसमें हड्डी
पिचक उठे उसे पिञ्चित कहते हैं हड्डीके किसी भ्रशमें जिसमें
परच निकल जाती है उसे अस्थिच्छलितकहते हैं जिसमें हड्डी
की नली टूटजाती है उसे काण्डभग्नकहते हैं सब हड्डियां टूटजायें
तो उसे अतिपातकहने लगते हैं जिसमें हड्डीटूटकर मज्जावहने
लगती है उसे मज्जागत कहते हैं हड्डीटूटकर टुकड़े २ जिसमें
होजाते हैं उसे स्फुटित कहते हैं जिसमें हड्डीमिचुककर टूटतीहो
जाती है उसे वक्रकहते हैं छिन्न दोप्रकारके चाहते हैं कि एकमें
दोनो भोरके टुकड़े चूर होजाते हैं दूसरे में एकही भोरके
चूरहोते हैं काण्डभग्नके सामान्य लक्षण अंगका ढीलापन
सूजन और पीडा की अत्यन्त वृद्धि दवाने पर हड्डी का कड़
कड़ाना छूना न सहजाना कुछ कांपना चोकना शूल किसी
समय सुख न मिलना वस काण्डभग्न होनेका यह चिह्न है ५
काण्डभग्न औरभी बहुतप्रकारके होतेहैं वे जिस २ स्थानमेंहोतेहैं व
जैसा २ उनका आकारहोताहै उसीके तुल्यउनका नामहोता है
कष्टसाध्यकाण्डभग्नके लक्षण जोपुरुषपोडा भोजनकरताहै वजि-
सकी इन्द्रियां उसके वशमेंनहीं हैं व जो वातप्रकृतिकहै व ज्वरादि
उपद्रवासे जोयुक्तहोताहै ऐसेपुरुषोंकी हड्डीटूटजाने से बड़ेकष्टसे

च ॥ उपद्रवैर्वाजुपृस्यभग्नं कृच्छ्रेणसिद्ध्यति ६ भिन्नं
 कपालंकट्यांतु संधिमुक्तंतथाच्युतम् ॥ ॥ जघनंप्रतिपि
 पृंच वर्जयेत्तुविचक्षणः ७ अंसाश्लिष्टंकपालंच ललाटे
 चूर्णितंचयत् ॥ भग्नंस्तनेगुदेशखिष्टेष्टेर्ध्ननुवर्जयेत् ८
 सम्यक्संधितमप्यस्थि दुर्निक्षेपनिबन्धनात् ॥ संक्षोभा
 द्वापियद्रच्छेद्विक्रियांतच्चवर्जयेत् ६ तरुणास्थीनिनम्यं
 ते भिद्यंतेनलकानितु ॥ कपालोनिविभज्यंते स्फुटंतिरु
 त्वकानिच १० ॥ इतिभग्ननिदानम् ॥

साध्यहोतीहै ६ असाध्यके लक्षण जिसकी खोपड़ी विदीर्णहोजा-
 तीहै कटिमें जोड़को छोड़ अन्यत्रकहीं टूटजाताहै वा रीड़अलगह-
 टजाती है अथवापेड़परके हाड़ चूर्णभूतहोजातेहैं ऐसे कारणभंग-
 वाले कोवैद्यछोड़दे क्योंकि वह असाध्यहोजाताहै ७ अन्यअसा-
 ध्यका लक्षण-जिसकारणभग्न वालेकी खोपड़ी ऐसी चूर्णहोजाय
 किवहफिर जुटने के योग्यनरहै अथवा स्तन चागुदवामस्तक और
 पीठकी वा कनपटीकी हड्डियां जब चूर २ होजायें तो ऐसे घायल
 को वैद्यत्यागदे ८ टूटजानेपरजो हाड़मच्छे प्रकार बैठा दियागया
 हो वा जोड़कर बंधभी दियागयाहो परढाला बंधनेसे वा किसी
 प्रकार खुलजानेसे जो अपने स्थानपरसे हटजाताहै व इधरउधर
 डोलने लगताहै इसकारण उसमें कुछ विकारहोजाता है उसेभी
 वैद्यत्यागदे क्योंकि वहपुनस्तन्धितनहीं होसक्ता ६ तरुणहाड़
 बहुधा चोट लगने से भ्रुकजातेहैं व नाड़ी आदि फटजातीहैं खो-
 पड़ी, माथा आदि फटकर चूर २ होजातेहैं व दांत आदिके कुछ २
 भागटूटजाते हैं इससे इनकी अचितचिकित्सा करना चाहिये १०
 इति श्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेसन्धिभंगकारणम् ॥

निदानमष्टचत्वारिंशत्तमम् ॥ १८ ॥

शोफमामिति पक्वमुपेक्षते ज्ञोऽप्योवात्राणं प्रचुरपू-
 मसाधुवृत्तः ॥ अभ्यन्तरं प्रविशति प्रविदार्यतस्य स्थान
 निपूर्वविहितानिततः संपूयः ॥ तस्यातिमात्रगंसनाद्गति
 रिष्यते च नाडीव्रणद्वहति तेन मता तु नाडी ॥ १३ ॥ दोषैस्त्रिभि
 भवति सा पृथगेकशङ्का ॥ समूर्च्छितैरपि च शल्यनिमित्तत
 न्याः २ ॥ तत्रानिलात्परुषसूक्ष्ममुखीसशूलाः फेनानुविद्ध
 अधिकं स्रवति क्षपासु ॥ ॥ प्रित्ताच्च तृड्ज्वरकरी परिदाहयुक्त

दाहा ॥ उनचसयें महँ नाडि व्रणं ज्येहि सब कहत नसूर ॥

भाष्यहु तासु निदानकवि सुनि कीजे भ्रमदूर १ ॥

(नाडीव्रण) मर्त्यात् नसूरका निदान इसव्रणकी सम्प्राप्तिकी
 लक्षण—जो दुष्टवृत्तवाला वैद्य भ्रष्टे प्रकार पकेहुये शोधको कच्चा
 जानकर उसकी उपेक्षा करता है जोड़कर वा प्रौषध से फोड़
 कर उसकी पीव नहीं निकालता अथवा जिस व्रणमें बहुत
 पीव देख कर घबड़ा कर छोड़ देता है तो वह पीवभीतर को घुस
 जाती है व व्रणकी जड़की जस में छेद कर देती है मात चर्म
 सबको गलाकर बड़ा भारी घावकर देती है व उसी जससे फिर
 सदा पीव बहा करती है जब वह अत्यन्तती से नाडीकी रीति से
 पीव बहाने लगती है तो उसे नाडी व्रण वा नसूर कहने लग
 ते हैं १ ये नाडी व्रण पांच प्रकार के होते हैं तिनतो वात पित्त
 कफसे चौथा इनतीनों के मिलने से सन्निपातका व पांचवाँ
 शल्यका मर्त्यात् कांटा फाँस आदि के गूड़जाने से उसकी उपे
 क्षाकर के उसके निकालने का यत्न करने से शिवातजनाडी
 व्रणका लक्षण—इसका मुख कड़ा व सूक्ष्म होता है व फेनासहि
 त पीव बहाकरती है वह भी रात्रि में अधिक पित्तजनाडी व्रणके
 लक्षण—इसमें पिपासा लगती है व ज्वर होतारहेता है—व दाह
 हुआ करता है व पीलेरंगकी उष्णपीव बहती है वहभी दिन में

पीतस्रोवत्यधिकमुष्णमहस्सुचापि ३ ज्ञेयाकफाद्बहुघ
 नाजुनपिच्छलास्त्रास्तव्धासकण्डुररुजारजनाप्रिवद्धा ॥
 दोषद्वयाभिहितलक्षणदर्शनेन तिस्रो गतीर्व्यतिकरप्रभ
 वास्तुविद्यात् ४ दाहज्वरश्वासनमूच्छन्नवक्तृशोषा यस्या
 भवत्यभिहितानिचलक्षणानि ॥ तामादिशेत्पवनपित्तक
 फंप्रकोपाद् घोरामसुक्षयकरीमिवकालरात्रिम् ५ नष्टं
 कथंचिदनुमार्गमुदीरितेषु स्थानेषुशल्यमचिरेणगतिक
 रोति ॥ सफेनिलमथितमुष्णमसृग्विमिश्रं सावकरो
 तिसहसासरुजं चनित्यम् ६ नाडीत्रिदोषप्रभवानसिद्धये
 च्छेषाश्चतसूःखलुग्रलसाध्याः ७ ॥ इतिनाडीप्रणनिदानम् ॥

अधिक ३ कफजनाडी व्रणका लक्षण—इससे बहुतगाढ़ी उजली
 चिकनी पीव बहती है खजुली उठती है पीड़ा नहीं होती व रात्रि
 में अधिक पीव बहती है जिसमें दोदोष विदितहों उसे द्विदोषज
 नाडीव्रण जानना चाहिये व जिसमें वातादि तीनों दोषोंके लक्षण
 पायेजाते हों उसे त्रिदोषज वा सन्निपातज नाडी व्रण कहते हैं
 ४ सन्निपातज नाडी व्रणके लक्षण—जिस नाडी व्रण में दाहज्वर
 श्वास मूच्छा व मुख सूखना ये उपद्रवहों जोकि सदा अहित-
 कारी होते हैं उसको वात पित्त व कफके कोपसे उत्पन्न जानना
 चाहिये यह ऐसाघोर प्राण नाशकारी होता है कि मानों प्राण
 नाशनेके लिये कालरात्रिही है ५ शल्पज नाडी व्रणके लक्षण—
 किसी प्रकार से जब किसी स्थान में काँटा आदि चुभजाता है
 व अधिक गहरे को चलाजाता है इससे दिखाई नहीं देता वह
 बहुत शीघ्र मार्ग कर देता है उसकी फेनासहित उष्ण रुधिर
 व पीव बहने लगती है इसमें रात्रि दिन बराबर घाव बहतारह-
 ता है और पीड़ा होती रहता है ६ इसरोगके साध्य वा असाध्य
 लक्षण—सन्निपातज नाडी व्रण साध्यनहीं होता श्लेषवातज पित्तज

गुदस्यद्व्यंगुलेक्षेत्रे पाश्वतःपिडिकार्त्तिकृत ॥ भिन्नो
 भगंदरोज्ञेयःसचपञ्चविधोमतः १ कषायरुक्षैरितिको
 पितोनिलस्त्वपानदेशोपिडिकां करोतियाम् ॥ उपेक्षणात्पा
 कमुपैतिदारुणं रुजाचभिन्नारुणफेनवाहिनी २ तत्राग
 मोमूत्रपुरीषरेतसांब्रणैरनेकैःशतपोनकंवदेत् ३ प्रकोप
 नैःपित्तमतिप्रकोपितं करोतिरक्तापिडिकांगुदेगताम् ॥
 तदाशुपाकाहिमपूतिवाहिनी भगंदरंचोष्टशिरोधरंवदे
 त् ४ कंडूयनोघनसावी कठिनोमदवेदनः ॥ श्वेतावभा

कफज और श्लयज ये चारो यत्न करने से साध्य होते हैं ७ ॥

इतिश्री माधवनिदाने भापानुवादे नाडीविणनिदानमेकोन-

पंचाशत्तमम् ॥ ४६ ॥

दोहा ॥ कक्षोपचसये महं भगन्दर प्रथ रोगनिदान ॥

महानष्ट यहरोग है जानहिं लोग सुजान १

भगन्दर रोगका निदान—गुदके दोअंगुलकी, दूरीपर बगलमें
 एकछोटा फोड़ा होता है वह पीड़ा बहुत करता है उसके फूट
 जानेपर भगन्दर रोग होता है वह पाँच प्रकार का होता है १
 उसमें प्रथम शतपोनक नाम के लक्षण—कहतेहैं कसैली व रूपी
 वस्तुओंके खानेसे वायु अति कुपितहोकर गुद के निकट एकछो-
 टीसी फोड़िया करताहै उसकी उपेक्षा करनेसे वह पकती है व
 दारुण पीड़ा करती है फूटनेपर उससे लालफेना बहने लगता
 है २ फिर उसमें अनेकधाव होजातेहैं उनमेंसे मूत्र मल व बीज
 बहने लगता है इसे शतपोनक भगन्दर कहते हैं ३ उष्टशिरो-
 धर नाम भगन्दर के लक्षण—बहुत उष्णादिक पित्तके प्रकोप
 कराने वाली वस्तुओंके खाने से अतिकुपित पित्त गुद में एक
 लाल रंग का फोड़ा उत्पन्न करता है वह बहुत शीघ्रपकजाता है
 व फूटकर ठण्डी दुर्गन्धियुक्त पीवकी बहाने लगता है इसको

सःक्रफजःपरिस्रावीभगंदरः ५ बहुवर्णरुजास्रावा पिडि
कागोस्तनोपमा ॥ शम्बूकावर्तवन्नाडीशम्बूकावर्तकोमतः
क्षताद्गतिः पायुगताविवर्द्धतेह्युपेक्षणान्ताः कृमयोविदा
र्यते ॥ प्रकुर्वतेमार्गमनेकधामुखैर्ब्रणैस्तमुन्मार्गभगन्दरं
वदेत् ७ घोराःसाधयितुंदुःखाः सर्वएवभगंदराः ॥ तेष्व
साध्यास्त्रिदोषोत्थः क्षतजश्चविशेषतः ८ वातमूत्रपुरीषा
णि कृमयःशुक्रमेवच ॥ भगन्दरात्प्रस्रवंतो नाशयंतित
मातुरम् ६ ॥ इतिभगंदर निदानम् ॥

उपूशिरोधर नाम भगन्दर कहते हैं ४ परिस्रावी भगन्दर के ल-
क्षण जो भगन्दर कफसे उत्पन्नहोताहै उसमें खजुली उठती है
गाढ़ी पीव बहती कड़ाहोता पीड़ा मन्दहोती है उजलाहोता है
वस इसको परिस्रावी भगन्दर कहते हैं ५ शम्बूकावर्त भगन्दर
के लक्षण—जिसमें मुनकाके समान बड़ाई में फोड़ियाहो रंग
उसमें अनेकहों पीड़ाके साथ बहतीरहै उसका घेराघोंघी के स-
मानहो तो उसको शम्बूकावर्त कहते हैं ६ उन्मार्गी भगन्दरके
लक्षण—काँटाआदिसे जब कभी गुदमें घावलगजाताहै तो उस
की उपेक्षा करनेसे अर्थात् युक्ति न करनेसे वह घाव बढजाताहै
गुदके भीतरतक पहुँचजाताहै उसमें छोटे २ कीड़े पड़जाते हैं
इससे घावविदीर्ण होजाताहै तब वे क्रिभि उसे भँभर करके
उसमें अनेक छेदकरदेते हैं उसको उन्मार्गी भगन्दर कहते हैं ७
इसरोगका असाध्यसाध्य विचार—जितने भगन्दर होते हैं सब
घोरहोते हैं व उनके सिद्धकरनेमें दुःखहोतेहैं परउनमें भी सन्नि-
पातज असाध्यहोता और क्षतज तो विशेष असाध्य होता है ८
असाध्यका लक्षण—जिस रोगीके भगन्दरसे अधोवायु मूत्र मूत्र
कीड़े व बीज गिरतेरहें उसरोगीको ये सब मारहीडालतेहैं ९ ॥
इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेभगन्दरनिदानंपञ्चाशत्तमम् ५०

हस्ताभिघातान्नखदन्तघातादधात्रनादत्युप-सेवना
 द्वा ॥ योनिप्रदोषाच्च भवन्ति शिष्णे पञ्चोपदंशाविविधोप-
 चारैः १ सतोदभेदस्फुरणैः सकृष्णैः स्फोटैर्व्यवस्येत्पत्र-
 नापदंशम् ॥ पीतैर्वहुच्छेद्युतैः सदाहैः पित्तेन रक्तात्पिशि-
 तावभासैः २ सकण्डुरैश्शोथयुतैर्मरुद्भिश्शुक्लैर्धनस्त्रावयु-
 तैः कफेन ॥ नानाविधस्त्रावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुस्त्रिम-
 लोपदंशम् ३ प्रशीर्णमांसकृमिभिः प्रजग्ध-मुष्कावशेष-
 परिवर्जयेत् ॥ संजातमात्रेण करोति मूढः क्रियानरो यो वि-
 षये प्रसक्तः ॥ कालेन शोथक्रिमिदाहपाकैः प्रशीर्णशिष्णो-
 द्वाहा ॥ इक्यावनयेमहंकहयो कवि उपदंश निदान ॥

जाको गर्मी कहत सब भाषा पठित महान १

उपदंश अर्थात् गर्मीनामक रोगका निदान—इसके कारण हाथ
 से चोट लग जाने से नख वा दांतों की चोट लगने से भोग क-
 रने आदि के पीछे न धोने से अत्यन्त मैथुन करने से व योनि
 के दोष से शिष्ण इन्द्रिय में विविध प्रकार के उपचारों से प्रांच
 प्रकारके उपदंश होते हैं १ वातज उपदंशके लक्षण—जिसमें लिंग
 पर फाले रंग के फोड़े होते हैं व उनमें सुई आदि से काँचने की
 सी पीड़ा होती है व जानपड़ता है कि मानों शिष्ण फटा जाता है
 वा फूटा जाता है उसे वातज उपदंश कहते हैं व जिसमें पीले ३
 फोड़े होते हैं व उनमें से पीव अधिक निकलती है व दाह होता
 है व रक्त में मांसके योगसे फोड़े से दिखाई देते हैं उसे पित्तका
 उपदंश कहना चाहिये २ व जिसमें उजले २ सजन व ख-
 ज्जली सहित फोड़े हों व पीवगाढ़ी निकले उसे कफज उपदंश
 कहना चाहिये व जिसमें नाना प्रकार की पीव आदि निकले व
 अति पीड़ा हो उसे त्रिदोषज अर्थात् सन्निपातज उपदंश कहते हैं
 यह असाध्य होता है ३ असाध्य उपदंशके लक्षण—जिस उपदंश

घ्रियतेसितेन ४ अंकुरैरिवसंघातैरुपव्युपरिसंस्थितैः ॥
 क्रमेणजायतेवर्तिस्ताम्रचूडशिखोपमा ५ कोशस्याभ्य
 न्तरेसंधौसर्वसंधिगतापिवा ॥ लिंगवर्तिरितिख्याता लिं
 गार्शइतिचापरे ॥ सवेदनापिच्छलाच दुश्चिकित्स्या
 त्रिदोषजा ६ ॥ इत्युपदशनिदानम् ॥

अक्रमाच्छेफसोवृद्धिंयोभिवाञ्छतिमूढधीः ॥ व्याधय
 रतस्यजायंते दशचाष्टौचशूकजाः १ गौरसर्षपसंस्था

में मांस फटगयाहो कीड़ोंने लिंग खालियाहो केवल अण्डकोश-
 ही शेषरहगयेहों उसको त्यागदेना चाहिये अन्यग्रसाध्य का ल-
 क्षण—जो विषयासक्त मनुष्य उपदंश होतेही उसकी प्रतिक्रिया
 औपधादि द्वारा नहीं करता काल बीतनेपर सूजनहो फूटकर
 क्रिमिपडजातेहैं दाहउत्पन्नहोता फिरपककर शिष्ण सड़गलजा-
 ताहै व उससे वह मूढरोगी मरजाताहै ४ लिंग में बत्ती परजाने
 के लक्षण—उपदंश होनेपर लिंग के ऊपरमांसके रसखुये से निक-
 लनाते हैं धीरे २ वे मुरगेकी शिखाकेतुल्य इकट्ठे होकर एकबत्ती
 कीनाई होजाते हैं ५ अथवा अण्डकोशके जोड़पर भीतर वा अ-
 तिसकुमार लिंगके अग्रभाग पर होजातीहै वह लिंगवर्ति कहा-
 ती है कोई २ उसेही लिंगार्श कहतेहैं इसमें पीड़ा बड़ी होतीहै
 व मोरके पंखके समान चिकनी चमकती है इसकी चिकित्सा
 बड़ी कठिनतासे होती है क्योंकि यह सन्निपातसे होती है ६ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवदेउपदंशनिदानमेकपंचाशत्तमम् ॥

दो० ॥ वावनयेमहं शूक के हैं निदान लिखितेहु ॥

वालीसी जो शिष्णपर होतकुतर्क वशेहु ?

शूररोगका निदान—जो मूढ़ बुद्धिवाला मनुष्य प्रमाण से
 भाविक लिंगको मोटा वा बड़ा करना विष क्रिमिकी पट्टी और
 अन्य औषधों के स्लेष से चाहताहै उसके १८ शूकज रोग उत्पन्न

नाः शूकदुर्भुग्नेहेतुकाः ॥ पिडिकाश्लेष्मवाताभ्यांज्ञेया
 सर्षपिकाबुधैः २ कठिनाविषमैर्भुग्नेर्वायुनाष्टीलिकाभवे
 त् ॥ शूकैर्यत्पूरितं शश्वद्ग्रथितं नाम तत्कफात् ३ कुम्भी
 कारक्तपित्तात्थां जाम्बवास्थिनिभाशुभा ॥ तुल्यजान्त्व
 लर्जाविद्याद्यथाप्रोक्ताविचक्षणैः ४ मृदितं पीडितं यत्तु सं
 र्वधं वातकोपतः ॥ पाणिभ्यां भृशं समूढं समूढपिडिकाभ
 वेत् ५ दीर्घावहृद्यश्च पिडिका दीव्यन्ते मध्यतस्तु याः ॥

होते हैं १ उनमें एक सर्षपिकानाम रोग होता है उसके लक्षण—
 दुष्ट घड़ियाल आदिकी नाभिका लिंगपर लेप करने से पीली सर-
 सोंके प्रमाणकी फुंसियाँ शिष्णके ऊपर निकल आती हैं वे कफ
 और वातके संगसे होती हैं उनको सर्षपिका कहते हैं २ अष्टी-
 लिकाके लक्षण—निर्ज्जीव किसी विपारी वाली के लेप करने से
 वायु कोपकरके अँठुली के तुल्य फुंसी उत्पन्न करता है उसे अ-
 ष्टीलिका कहते हैं वार २ शूकलेपसे कफ कोपकरता है इस से
 शिष्णपर गाँठ परजाती है उसे ग्रथित कहते हैं ३ कुम्भिकाके ल-
 क्षण—रक्त पित्तके दोष से लिंग के ऊपर फरंदे की अँठुली के आ-
 कारकी काली फुंसी निकल आती है उसे कुम्भिका कहते हैं
 अलर्जीके लक्षण—प्रमेहके लक्षणोंमें जो अलर्जी कहआये हैं उ-
 सीके डौलका फोड़ा जो लाल वा काला उत्पन्न हो उसे अलर्जी
 कहते हैं ४ मृदित के लक्षण—शूकज पीड़ा से जब पुरुष लिंगको
 जोरसे दबादेते हैं तो वायुके कोपसे शिष्णपर सूजन आजाती है
 उसे मृदित कहते हैं दोनोंहाथों लिंगजोरसे कलबलाने पर मी-
 जनेसे बिना मुँहका एक फोड़ा शिष्णके ऊपरहोभाता है उसे मूढ
 पिडिका कहते हैं ५ अवमन्थके लक्षण—जम्बी २ बहुतसी फुंसी-
 यां कफ व रक्त के संयोगसे लिंग भरपरहों वा बीच २ में हों तो
 उसे अवमन्थरोग कहते हैं इसमें पीड़ा होती है और वार २ रोम

सोऽत्रमंथःकफासृग्भ्यां वेदनारोमहर्षवान् ६ पिडिकाभि
 श्चितायाञ्च पित्तशोणितसम्भवा ॥ पद्मकर्णिकसंस्थाना
 ज्ञेयापुष्करिकातुसा ७ स्पर्शहानिचजनयेच्छोणितंशूक
 दूषितम् ॥ मुद्गमाषोपमारक्तपित्तोद्भवाचसा ८ व्या
 धिरेषोत्तमानामशूकार्जाणिनिमित्तजा ॥ त्रिद्वैरणुमुखैर्लि
 गं चित्तंयस्यसमंततः ९ वातशोणितजोव्याधिःमज्ञेयः
 शतपोनकः ॥ वातपित्तकृतोज्ञेयस्त्वक्पाकोज्वरदाह
 वान् १० कृष्णैःस्फोटैःसरक्ताभिः पिडिकाभिर्निपीडित
 म् ॥ यस्यवस्तौरुजाश्चोत्रा ज्ञेयंतच्छोणितार्बुदम् ११
 मांसदोषेणजानीयादर्बुदंमांससंभवम् ॥ शीय्यन्तेयस्य

खड़े हो २ जाते हैं ६ पुष्करिकाके लक्षण—बहुतसी छोटी, २ फुं-
 लियोंसे घिरीहुई पित्तरक्तसे उत्पन्न कमलकी पखुरीकेतुल्य जो
 शिष्णपर फोड़िया होती है उसे पुष्करिणी कहतेहैं ७ स्पर्शहानि
 के लक्षण—शूकलेपकरने से रुधिर दूषितहोजाताहै फिर स्पर्शकी
 हानिको उत्पन्न कराताहै अर्थात् छूनेसे फिर लिंगमें कुछ जाने
 नहीं पड़ता उत्तमाके लक्षण—शूकके वार २ लेपकरनेसे रक्तपित्त
 कुपितहोके मूँग और उर्दकेतुल्य लाल फुसी लिंगपर उत्पन्न क-
 राते हैं ८ इसव्याधिको उत्तमाकहतेहैं जिसपुरुषका लिंगछोटे २
 मुखवाले बहुतसे छेदोंसे युक्तहोजाय ९ वायु व रक्तसे उत्पन्न
 उसके जो यह रोगहोता है वह शतपोनक कहाताहै वात और
 पित्त के कोप से शिष्णवरका चर्म पकजाता है उसमें दाह
 होने लगताहै और सब अंगों में उसीके कारण ज्वरहोने लगता
 है इस रोग को त्वक्पाक कहते हैं १० जिस मनुष्य के लिंग में
 काले वा लाल फोड़े छोटे २ इतने होते हैं कि उससे लिंग व-
 नाय पीड़ित होजाता है अथवा वस्ति में अधिक पीड़ा उनके
 कारण से होती है उस रोगको शोणितार्बुद कहते हैं ११ व

मांसानि यस्यसर्वत्रैश्चवेदनाः १२ विद्यात्तस्मात्सपाक-
 न्तु सर्वदोषकृतम्भिषक् ॥ विद्रधिःसन्निपातेन यथोक्त-
 मितिनिर्दिशेत् १३ कृष्णानिचित्राण्यथवा शूकानिस-
 विषाणिच ॥ पातितानिपचंत्याशु मेहनिरवशेषतः १४
 कालानिभूत्वामांसानि शीर्यन्तेयस्यदेहिनः ॥ सन्निपात-
 समुत्थांस्तु तानविद्यात्तिलकालकान् १५ तत्रमांसावु-
 दयञ्च मांसपाकश्चयःस्मृतः ॥ विद्रधिश्चनसिद्ध्यति
 येचस्युस्तिलकालकाः १६ ॥ इतिशूकदोषनिदानम् ॥

विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरुरूपिच ॥ भजता

मांसके दोषसे यदि फोड़े होते हैं तो उसे मांसाव्युद जानना
 चाहिये जिसके लिंगका मांस सड़कर गिरपड़ता है व सब प्र-
 कारकी पीड़ा होती है १२ वैद्य उसको सन्निपातज मांस पाक-
 नामरोगजाने व सन्निपातज विद्रधि-रोगभी इसी लक्षणकाहोता
 है १३ काले वा चितकबुले विपसहित शूक जब लिंग में होतेहैं
 तो शिष्णको ऐसा गलादतेहैं कि उसका कुछ चिह्नही नहीं बा-
 की रहजाता १४ जिस मनुष्य का सब मांस काला होकर लिंग
 के हाड़ से अलग गिरपड़े यह रोग सन्निपात से उत्पन्न होता
 है व तिलकालक इस का नाम है १५ शूक दोषका असाध्य ल-
 क्षण—मांसाव्युद मांसपाक विद्रधि और तिलकालक ये सब शूक
 दोषमें नहीं सिद्धहोते क्योंकि असाध्य होते हैं १६ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेशूकरोगनिदानं द्विपञ्चाशत्तमम् ॥
 दोहा ॥ तिरपनये महं कुष्ठकेहं निदान अतिघोर ॥

जाहि कहत सबकोहं हैं सबसों जौनचरौर १
 कुष्ठरोगका निदान—विरोधी अन्नपानादिक जैसे कि मछली
 व दूध एकही संग खानेपानेसे पतली चिकनी गरई वस्तुओं के
 भी एकही संग खानेसे व मतहोनेपरहो उसके रोकने से व अन्य

मागतांछ्दिवेगांश्चान्यान्प्रतिघ्नताम् १ व्यायाममतिं
 तापमतिभुक्तनिषेविणाम् ॥ शीतोष्णलंघनाहारान्क्रमं
 मुक्तानिषेविणाम् २ धर्मश्रमभयात्तानां द्रुतंशीताम्बुसे
 विनाम् ॥ अजीर्णाध्यासिनांचैव पञ्चकर्मापचारिणाम् ३
 नवान्नदधिमत्स्यादि लवणाम्लनिषेविणाम् ॥ माषमूल
 कपिष्टान्न तिलक्षीरगुडाशिनाम् ४ व्यवायंचाप्यजीर्णे
 न्नेनिद्रांचभजतांदिवा ॥ विप्रान्गुरुन्धर्षयतां पापंकर्म
 प्रकुर्वताम् ५ वातादयस्त्रयोदुष्टास्त्वग्रक्तंमांसमम्बुच ॥ दू
 षयंतिसकुष्ठानां सप्तकोद्रव्यसंग्रहः ॥ अतःकुष्ठानिजायं

सूत्रपुरीषादि वेगोंके रोकने वाले पुरुषोंके १ बहुत भोजन कर
 नेकेपीछे तुरन्तही दण्ड मुद्गर आदि व्यायाम करने वालों के
 व सूर्यके व अग्निके सन्तापके सेवनकरनेवालों के शीतलउष्ण
 लंघन आहार क्रमको छोड़विषमसमय में करने वालों के २ धाम
 श्रम व भयसे पीड़ित होकर तुरन्तशीतल जलके पीने वा स्नान
 करनेवाले लोगोंके अथकञ्चे चर्वाणादि नित्य खानेवाले व खाने
 पर विनापचे दुवारा और खानेवालोंके वमन विरेक फस्त जुलाव
 आदि पांच कर्मोंके अच्छी प्रकार से न होने वालोंके ३ नया
 अन्न दही मछली लोण व खटाई एकही संगखाने वालोंके उर्द
 मूली पीठी तिल दूध व गुड एकही संग खानेवालोंके ४ अन्न
 विनापचे मैथुन करने वालोंके व नियमसे प्रतिदिन दिन में सोने
 वालोंके ब्राह्मण माता पिता गुरु आदि श्रेष्ठजनों का अनादर
 करनेवालोंके व पापकर्म करनेवालोंके ५ वात पित्त कफ तीनों
 दुष्टहोकर त्वचा रक्त मांस व जलको दूषित कर देते हैं व कुष्ठरोग
 उत्पन्न करते हैं इन कोष्ठोंके होनेके कारण सात मुख्य हैं तीन
 वातादिक दोष व ४ त्वचा रक्त मांस व जल जो दूषित होजाते
 हैं इससे ७ महाकुष्ठ उत्पन्न होते हैं व ११ और छोटे -२ कोष्ठ

तेसप्तत्रैकादशैवतु ६ कुष्ठानिसप्तधादोषैः पृथक्द्वन्द्वैस्स
 मागतैः ॥ सर्वेष्वपित्रिदोषेषु व्ययदेशोधिकत्वतः ७ अ
 तिश्लक्षणाखरस्पर्शरवेदास्वेदविवर्णतः ॥ दाहःकंडूस्त्व
 चिस्वापस्तोदःकोठोन्नतिःश्रमः ॥ ८ ॥ व्रणानामधिकंश
 लंशीघ्रोत्पत्तिश्चिरस्थितिः ॥ ९ ॥ रुढानामपिरुक्षत्वं निमि
 त्तैल्पेपिकोपनम् ६ रोमहर्षोसृजःकाण्णयं कुष्ठलक्षणमग्र
 जम् ॥ कृष्णारुणंकपालार्भयद्रूक्षंपरुषंतनु १० कपा

होते हैं सब मिलकर १२ कोट्ट हुये ६ कुष्ठ दोषों से सात प्रकार
 के होते हैं ३ वात पित्त कफसे ३ द्वन्द्वज अर्थात् दो २ के मिलने
 से व ३ सर्वोंके मिलनेसे अर्थात् सन्निपातसे वास्तवमें सबकुष्ठ
 तीनों दोषोंके मिलनेसेही होते हैं उनमें जिसका लक्षण अधिक
 पायाजाय उसीके अनुसार औषधादि करना चाहिये ७ कुष्ठके
 पूर्वरूपका वर्णन जिसस्थानपर कुष्ठ रोग होनेपर होता है वहांकी
 त्वचा चिकनी वा खरखरी होजाती है वहां कभी २ पसीनाहोता
 है वा नहीं भी होता है व त्वचाकारंग औरप्रकारका होजाता है
 व वहांकीखाल जलनेलगती है उसमें खजुली उठती है वा शू-
 न्य होजाती है चुटकीकाटने आदि से कुछ नहीं जानपडता वा
 सुई आदिसे कांचनेकीसी पीडा होती है सृजनहोआती है बिना
 कुछ अमकरनेपर भी धकासा जानपडता है ८ शरीरमें उसी
 अवसर में जो घाव होते हैं तो उनमें पीडा बहुत होती है व घाव
 शीघ्रही होजाते हैं पर बहुत दिनोंतक रहते हैं जो घाव रूखे भी
 होजाते हैं थोड़ेसेही व्यतिक्रममें फिर भरआते हैं व पीडाकरने
 लगते हैं ९ रोम खड़े होजाना व रुधिर काला होजाना ये सब
 होनेवाले कुष्ठके लक्षण हैं जत्र ऐसा होतो जानना चाहिये कि
 अब कोट्ट रोग होगा अब सात महाकुष्ठोंके लक्षण कहते हैं
 जिस कुष्ठका रंग काला लाल मिलाहुआ ताम्रके रंगकाहो व

लंतोदिव्रहूलंतत्कुष्ठंविषमंस्मृतम् ॥ त्वग्दाहरागंकडूभिः
 परीतरोमपिंजरम् ११ उदुम्बरंफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं
 वदेत् ॥ श्वेतंरक्तंस्थिरंस्त्यानं, स्निग्धमुत्सन्नमंडलम् १२
 कृच्छ्रमन्योन्यसंसक्ते कुष्ठमंडलमुच्यते ॥ कर्कशंरक्तपर्यं
 तमंतःश्यावंसवेदनम् १३ यदृक्षजिह्वासंस्थानमृक्षजि
 ह्वंतदुच्यते ॥ सश्वेतंरक्तपर्यंतं, पुंडरीकदलोपमम् १४
 सोत्सेधंचसरागंच पुंडरीकंप्रचक्षते ॥ श्वेतंताघन्तनुच
 यद्रजोघृष्टंविमुंचति ॥ १५ प्रायश्चोरसितत्सिध्ममलाब्रु

मिष्टी के खपरे के समान, रूखाहो कड़ा व, पतला चर्म होजाय
 १० व सुईके कोंचने कीसी पीड़ा बहुत होती रहै उसे कपाल
 कुष्ठ कहते हैं यह कुष्ठ विषम होताहै इससे इसकी औषध कठि-
 नतासे होती है व जिस कुष्ठ में खचामें दाहहो ललाई रहै खजु-
 ली उठे व उसके चारोंओरके रोम पीले पड़जायें ११ व-गूलर
 के फलका सा रंग होजाय उसे औदुम्बरकुष्ठ कहते हैं व जिसमें
 चमड़े का रंग उजला वा लाल, होजाता है व कड़ापन होताहै
 व गाढा चिकना मण्डलाकार उभड़ आता है १२ वा जिस के
 मण्डल एक दूसरे से मिलजाते हैं उसे मण्डल कुष्ठ कहते हैं
 व जिसकुष्ठ में त्रमड़ा कर्कश ताम्बूरुण बीच २ में काला भी
 होजाता है वा पीड़ा होती है १३ व ऋक्षकी जीभके, आकार का
 होताहै उसे ऋक्षजिह्व नाम कुष्ठ कहते हैं व जिसमें चमड़ा उज
 लाई लिये, लाल, होता है व आकार में उजले कमल के दलके
 तुल्य होता है, १४ कुछ खालके ऊपर-उंचाई और ललाई भी
 रहती है उसे पुण्डरीक कुष्ठ कहते हैं व जिस कुष्ठमें उजलावा
 तविके, रंगका चमड़ा होजाताहै पर पतला, और थोड़ा, होताहै व
 खजुवाने से उसमें से कुछ धूलती, उड़ती, है-१५ व बहुधा वह
 छांती पर होताहै व इसका डौल, उजली लौकी के फूल कासा

कुसुमोपमम् ॥ यत्काकणन्तिकावर्णं सपाकन्तीत्रवेदनम् ॥ त्रिदोषलिङ्गन्तत्कुष्ठङ्काकणन्तैवसिद्ध्यति १६ अस्वे
दनम्महावास्तुयन्मत्स्यशंकलोपमम् ॥ तदेवकुष्ठश्चर्मा
ख्यम्बहुलंहस्तिचर्मवत् १७ श्यावङ्किणखरस्पर्शङ्कि
टिभम्परुषंस्मृतम् ॥ वैपादिकम्पाणिपादं स्फुटनन्तीत्र
वेदनम् १८ कण्डूमाद्भिस्सरागैश्च गण्डैरलसकञ्चि
तम् ॥ सकण्डूरागपिडिकन्दद्रूमण्डलमुद्गतम् १९
रक्तंसशूलंकण्डूमत्सस्फोटंदलयत्यपि ॥ तच्चर्मदलमाख्या

होताहै इसे सिध्म वा स्यहुभां नामक कुष्ठ कहते हैं व जिसकुष्ठ
का रंग धुंधुची कासा होताहै व बीच २ में काला वा लालहोता
है व पकजाताहै और पीड़ा भी करताहै इसमें तीनोंदोषोंके लक्षण
होते हैं इससे यह साध्य नहीं होता और काकण कुष्ठ इसका
नाम है १६ भव जो छोटे २ ग्यारह कुष्ठ होते हैं उनके लक्षण व
नाम कहते हैं-जिस कुष्ठमें पसीना नहीं आता व मोटे मांसल
स्थानों में ही होताहै व मछलीके छिलके के तुल्य छिलके होते
हैं व बहुधा हाथीके चर्मके समान वहांका चर्म मोटा होजाता
है इस रोगको गजचर्म कुष्ठ कहते हैं १७ व जिस कुष्ठ में चम
ड़ा नीला होजाताहै व घावस्पर्श करने में खरखरा जान पड़ताहै
और रूखा रहता है उसे किटिभ कुष्ठ कहते हैं व जिस कुष्ठ में
हाथपैर फट जाते हैं व बड़ी पीड़ा होती है उसे वैपादिक कुष्ठ
अर्थात् ब्यवाई कहते हैं १८ व जिसकुष्ठमें ताम्रवर्ण खजुलातीहु
ई बहुतसी फुंसियां होआती हैं उसे अलसक कुष्ठ कहतेहैं व जिस
में खजुली सहित लाल २ फुंसियां गोली २ कुछ चमड़े से ऊंची
होती हैं उसे दद्रूमण्डल कुष्ठ वा दाहु कहते हैं १९ व जिसकुष्ठ
में चर्म लाल पीड़ा सहित खजुली युक्त होता है व चमड़ा फट
जाता है इससे छू नहीं जाता उसे चर्म दल नाम कुष्ठ कहते

तमस्पर्शसहमुच्यते २० सूक्ष्मावहव्यश्चपिडिकाःस्राव
 वत्यःपामेत्युक्ताःकंडूमत्यःसदाहाः ॥ सैवास्फोटैस्तीव्रदा
 हैरुपेताज्ञेयापाणयोःकच्छुरुग्राःफिजोश्च २१ स्फोटाः
 श्यावारुणाभासाविस्फोटाःस्युस्तनुत्वचः ॥ कण्डुन्विता
 याःपिडिकाश्शरीरेसंस्रोवहीनारकसोच्यतेसा २२ रक्तं
 श्यावंसदाहात्तिशतारुःस्याद्बहुव्रणम्॥सकंडूपिडिकाश्या
 वावहुस्रावाविचर्चिका २३ खरंश्यावारुणंरूक्षंवातकुष्ठं
 सवेदनम् ॥पित्तात्प्रकथितंदाहरागस्रावान्वित्तमत्तम् २४

हैं २० व जिसमें छोटी २ बहुतसी फुंसियां खजुली और दाह से
 युक्त होती हैं और उनमें से कुछ पीव भी निकलती है उसे पामा
 अर्थात् खाजु कहते हैं व इसी रोग में जो बड़े २ फोड़े बड़े दाह-
 कारी हों व प्रायः दोनों हाथों में हों वा गलहरी में हों तो उसे
 कच्छु नाम कुष्ठ कहते हैं यह भी खाजुही है २१ व जिस रोग में
 काले वा लालफोड़े निकल आते हैं व फूट जाते हैं व चमड़ा
 पतला बहुत होता है उसे विस्फोटकरोग कहते हैं यह भी कुष्ठही
 है व शरीर में जो खजुली सहित फुंसियां होती हैं पर उनमें से
 पीव नहीं निकलती उस कुष्ठको रकसा कहते हैं २२ जिसकुष्ठमें
 लालश्याम रंगसे मिले हुये दाहपीड़ा युक्त बहुतसे घाव होजाते
 हैं उसे शतास् नाम कुष्ठ कहते हैं जिस कुष्ठमें काली २ फुंसियां
 खजुली सहित हों व उन में से पीव बहुत निकले तो उस रोग
 को विचर्चिका कहते हैं यद्यपि चर्म कुष्ठ से विचर्चिका तक १२
 छुद्र कुष्ठ होते हैं और प्रतिज्ञा ११ कीही की है तथापि बहुत
 आचार्योंके मत से वारह हैं इससे इन्होंने भी १२ कहे हैं २३
 वात के संयोग से जो कुष्ठ होता है वह खरखरहा काला और
 लाल मिलाहुआ रूखा व पीड़ायुक्त होता है व पित्तके योगवाले
 कारंग लाल व दाहयुक्त होता है और बहता रहता है २४

कफात्कृदिघनंस्निग्धं सकंडूपौत्यगौरवम् ॥ द्विदलद्वन्द्व-
जंकुष्ठत्रिलिङ्गं सान्निप्रातकम् २५ त्वक्स्थेवैवैर्यमङ्गेषु
कुष्ठरौक्ष्यन्तु जायते ॥ त्वग्दाहोरोमहर्षश्चस्वेदस्याति-
प्रवर्त्तनम् २६ कण्डूर्विषपूयकश्चैवकुष्ठशोणितसंश्रये ॥
वाहुल्यं च कशोप्रश्चक्राकंश्यम्पिडिकोद्गमः २७ तोद-
स्फोटस्थिरत्वञ्चकुष्ठेमांससमाश्रिते ॥ कौण्डिकतिक्ष्ण-
योऽङ्गानां सम्भेदः क्षतसर्पणम् २८ मेदस्स्थानगतेलिंग-
म्प्रागुक्तानितथैव च ॥ नासाभंगोऽक्षिरागश्चक्षतेषु कि-

व कफके योगसे उत्पन्न कुष्ठका, व्रणः रसीला कठोर, चिकना ख-
जुआनेवाला शीतल और गरुआ होता है, व द्वन्द्वज कुष्ठ में जिन्
दोके योग से होता है उन दोनों के लक्षण रहते हैं, व सन्निप्रात
वाले में तीनों दोष होते हैं २५ जब कुष्ठरोग त्वचा में रहता है
तो अंगमें रुखाई आजाती है व त्वचा में दाह होने लगता है रोम
खड़े होजाते हैं व पसीना बहुत निकलता है, व अंग का रंग व-
जलजाता है २६ व जब कुष्ठरोग रुधिर में प्रवेश करके रहता है
तो खजुली अधिक होती है व पीव बहुत बहती है व मांस में स-
माश्रित कुष्ठ में बहुधा मुखसूखा बनारहता है देहखरखराहोजाता
है व शरीरमें छोटी २ फुसियांसी निकलजाती है २७ व सुई से
कोचनेकीसी पीड़ा हुआकरती है, व बड़े २ भी फोड़े होजाते हैं
और बहुत दिनों तक स्थिर बनेरहते हैं मेदस्स्थानमें कुष्ठपहुँच-
ने व ठहरनेसे कर चरणगलजाते हैं इससे चलना फिरना बन्द
होजाता है देह सब फूटजाता है व घाव सब फैलतेजाते हैं २८
इस कुष्ठमें रसरक्त मांसगत कुष्ठोंमें जो लक्षण कह प्राये हैं वे भी
होते हैं और अस्थिमज्जामें स्थित कुष्ठमें नासिका गलकर गिर-
जाती है वा बैठकर पच्चीहोजाती है, व नेत्रलाल बनेरहते हैं व
घावों में कृमि पड़जाते हैं गलाबैठजाता है इससे बोल भायें २

मिसम्भवः ॥२६॥ स्वरोपघातश्च भवेदस्थिमज्जासमाश्रि-
 ते ॥ दन्तयोः कुष्ठत्राहल्यादुष्टशोणितशुक्रयोः ॥ यदप-
 त्यन्तयोर्जातञ्ज्ञेयन्तदपिकुष्ठितम् ॥३०॥ साध्यन्त्वग्रक्त-
 मांसस्थंत्रातश्लेष्माधिकश्चयत् ॥ ३१ ॥ किमिहृत्नासमन्दाग्नि-
 संयुतं यत्त्रिदोषजम् ॥ ३२ ॥ प्रभिन्नप्रस्रुतांगश्चरक्तेन्रंहते
 स्वरम् ॥ पञ्चकर्मगुणातीतं कुष्ठहन्तीह कुष्ठितम् ॥३२॥ वा-
 तेन कुष्ठङ्गापालम्पित्तैर्दुग्धरङ्गफात् ॥ मण्डलाख्यं
 विचर्चिचक्षुर्यवातपित्तजम् ॥३३॥ चर्मैककुष्ठङ्किटि-

होने लगता है २६ स्त्री औरा पुरुष दोनों के जब कुष्ठकी अधिकारी
 होती है तो पुरुषका बीज व स्त्रीका ऋतु सम्बन्धी रुधिर भी दुष्ट
 होजाता है इससे जो सन्तान कन्या वा पुत्र उन दोनोंसे होते हैं
 वेभी कुष्ठीही होजाते हैं और उनका असाध्य कुष्ठहोता है ३० वचा
 रक्त व मांसमें स्थित कुष्ठ साध्यहोता है वा जिस कुष्ठमें वातकफकी
 अधिकता होती है वहभी साध्यहोता है व जो मेदस् में होता है वा
 वातादिक दोर के योगसे होता है वह कुष्ठसाध्यहोता है व जो मज्जा
 और अस्थिमें कुष्ठ पहुँचजाता है वह बरादेने के योग्य होता है ३१
 व जिसकोटमें कीड़े पड़ते हों व जो मचलाता रहता हो, अथवा
 मन्दाग्नि हो व तीनों दोषोंके संयोग से उत्पन्न हो यह भी अ-
 साध्यहोता है व जो कोढ़ फूटजाता और अंगोंसे रुधिर, प्रीव, वह-
 नेलगती है व जिसके नेत्रलाल वने रहते हैं और जिसका शब्द
 हत होजाता है अथवा जिसके वसन विरेक आदि पाँचों कर्मोंके
 गुण नहीं गुणकरते ऐंसा कुष्ठऐसे कोढ़ीको मारही डालता है ३२
 कपाल नाम कुष्ठमें वातकी प्रधानता होती है व औदुम्बरमें पित्त
 की व मण्डलकमें और विचर्चिकामें कफकी प्रधानता रहती है
 व अंशजिह्वमें वात पित्तकी अधिकता रहती है ३३ व चर्मैक कुष्ठ

भंसिधमालसविपादिकाः ॥ वातश्लेष्मोद्भवाश्लेष्मपि
 ताद्द्रुशतारुषी ३४ पुण्डरीकसत्रिस्फोटपामाचर्मद
 लन्तथा ॥ सर्वैस्स्यात्काकणम्पूर्वन्त्रिकन्दद्रुसकाक
 णा ३५ पुण्डरीकक्षजिह्वेचमहाकुष्ठानिसप्ततु ३६ कुष्ठैक
 सम्भवंशिवत्रङ्गिलासञ्चारुणम्भवेत् ॥ निर्दिष्टमपरिस्रा
 वित्रिधातूद्भवसंश्रयम् ३७ वाताद्रूक्षारुणम्पित्तात्ताघ
 ङ्कमलपत्रवत् ॥ सदाहंरोमविध्वंसिकफाच्छ्वेतङ्गनंगुरु
 ३८ सकण्डुरंक्रमाद्रक्तमांसमेदस्सुवादिशेत ॥ वर्णैर्नवे

किटिभ सिध्म अलस विपादिका ये पांचो वात कफकी प्रधानता
 रखते हैं व कफ पित्त से द्रु और शतारु होते हैं ३४ पुण्डरीक
 बिस्फोटक पामा व चर्मदल इनमेंभी कफपित्तही की प्रधानता
 होती है व काकण कुष्ठमें वात पित्त कफ तीनोंकी प्रधानता हो-
 तीहै प्रथम के तीनकपालमौदुम्बर व मण्डल व दद्रु काकण ३५
 पुण्डरीक श्रृक्षजिह्वेसात महाकुष्ठोंमेंहै ३६ कुष्ठहोनेकेकारणजो
 विरुद्ध भोजन प्रापकर्मादि प्रथम कह आये हैं उन्हीं से श्वेतकुष्ठ
 होता है और किलास भी उन्हीं कारणों से होताहै परन्तु इस
 का रंग लालहोताहै ये दोनों फूटते पकते बहते नहीं पीड़ा भी
 कुठ इनमें नहीं होती येतीनों दोषों व रक्त मांस मेद इनतीनों
 धातुओं केही आश्रित रहते हैं ३७ वायु के कारण कुष्ठ रूखा वा
 लालहोताहै व पित्तसे कमलकी पखुरीकेतुल्य लाजरंगका होता
 है इसमें दाह होनेके कारण देहभरके वालरोम गिरपड़ते हैं कफ
 से श्वेत घन और गुरु ३८ होताहै व कुछ सहराता रहताहै व
 इसीक्रमसे ये रक्त मांस और मेदस् के आश्रित होते हैं व रक्तके
 आश्रित होनेके कारण तामदारं गहोता है व मांसके आश्रितहोने
 के कारण लालरंग होताहै और मेदस् के आश्रितहोने के कारण
 श्वेतरंगका होताहै इनमें रक्ताश्रित से मांसाश्रित व मांसाश्रित

दृग्भयंकृच्छ्रन्तञ्चोत्तरोत्तरम् ॥ ३६ ॥ अशुद्धरोमबहुलम
संश्लिष्टमथोनवम् ॥ ३७ ॥ अनग्निदेश्वजंसाध्यंशिवत्रैवर्ज्यं
मतोन्यथा ॥ ३८ ॥ गुह्यपाणितलोष्ठेषुजातमप्यचिरंतनम् ॥
वर्जनीयंविशेषेपांकिलासंसिद्धिमिच्छता ॥ ३९ ॥ असंगाद्वात्र
संस्पर्शान्निश्वासात्सहभोजनात् ॥ सहशय्यासनाच्चापित्र
स्त्रमाल्यानुलेपनात् ॥ ४० ॥ कुष्ठज्वरश्चशोषश्चनेत्राभिरूप
न्दएवंच ॥ औपसर्गिकरोगाश्चसंक्रामंतिनरान्नरम् ॥ ४१ ॥

॥ इति श्रीमदशुक्लिनिदानम् ॥ १ ॥ ४१ ॥ ॥ ॥

से मेद आश्रित कंठसाध्य होता है ३६ शिवत्रके साध्यासाध्यके
लक्षण—जिस शिवत्र अर्थात् उजले दागपरके वालं काले बने हैं
उजले नहीं होगये उजलाई है भी तो हलकी है व दाग एकमें मि-
ले नहीं हैं और अभी नये हैं बहुत दिनों के नहीं हुये वे वह दाग
अग्निका जलाहुआ नहीं है वस ऐसे उजले दागवाला शिवत्र
साध्य होता है व इसके विपरीत असाध्य होने के कारण त्याज्य
होते हैं ४० असाध्य के लक्षण—गुदलिंगादि गुप्तस्थानों का श्वेत
कुंठ व हाथों के ऊपर का पैरोंके तलवोंका व ओठोंपर का चाहे
बहुत दिनोंका भाज हो नया ही हो तो वह भी अपनी सिद्धिता
चाहनेवाले वैद्यको वर्जनीय है इससे ऐसे की औपथ न करे ४१
सांसर्गिकरोग अर्थात् जो संसर्गसे होजाते हैं मैथुन करनेसे अ-
गोंके छूने वा एकमें रगड़नेसे श्वास लगने से एकसाथ एक ही थाली
में भोजन करनेसे एक शय्यापर सोनेसे एक ही आसनपर सांघ्र ही
वा आगे पीछे बैठने से वस्त्रधारण करने से व मालपिहिरने से ४२
कोष्ठ ज्वर सूखना नेत्ररोगसहामारी खाजु, मृगीआदि औपसर्गि-
करोग ये सब सांक्रामिक होते हैं अर्थात् इनके रोगीके संग ऊपर
लिखेहुये मैथुनादि करनेसे करनेवालेके भी भवियहीजाते हैं ४३
इति श्रीमाध्वनिदाने भाषानुवादे कुष्ठरोगनिदानत्रिपंचाशत्तमम्

शीतमारुतसंस्पर्शात्प्रदुष्टौकफमारुतौ ॥ पित्तेनसहसं
भूयवहिरंतर्विसर्पतः १ पिपांसारुचिहृत्त्वासमोहःसादोगं
गौरवम् ॥ रक्तलोचनतातेषांपूर्वरूपस्यलक्षणम् २ वरटी
दष्टसंस्थानःशोथःसंजायतेवहिः ॥ सकंडूतोद्वह्लैःछ
र्दिज्वरविदाहवान् ३ उद्वर्दमितितंविद्याच्छीतपित्तमथा
परे ॥ वाताधिकंशीतपित्तमुद्वर्दस्तुकफाधिकः ४ सोत्सं
गैश्चसरागैश्चकंडूमद्भिश्चमंडलैः ॥ शैशिरःकफजोव्या

दो० ॥ चौवनवें मँहँ शीतपित्त करनिदान कहिदीन ॥

देखहिं लोग विचारसों जिनकी बुद्धिप्रवीन १ ॥

शीतपित्तकी सम्प्राप्तिकालक्षण—शीतल पवन के अधिकलग-
जाने से अतिदुष्टहोकर कफ और वायु पित्तकेसंग मिलकर भीतर
रुधिरमें प्रविष्ट होजाते हैं व.वाहर त्वचामें फैल जाते हैं उसे शीत
पित्त अर्थात् पित्ती उछलना कहते हैं १ इसका पूर्वरूप—जब
शीत पित्त होने पर होता है तो पिपांसा अरुचि मुख्यमें पानी छु-
टना मूर्च्छा शरीर का टूटना अंगोंमें भारीपन नेत्रोंमें ल जाई ये
सब लक्षण प्रथम होते हैं दो उद्वर्द शीतपित्त व पित्ती उछलने के
लक्षण—जैसे पीली वरैयाओं के काटने से कुछ सूजन होती है
वैसेही इसमें भी होती खजुहट भी होती है और सूई भादि
कोंचनेकीसी पीड़ा बहुतहोती है ओकाईभाती ज्वरहोता व दाह
बहुत होता है ३ इसरोगको उद्वर्द कहते हैं व कोई २ शीत पित्त
कहते हैं भायामें इसीको पित्तीउछलना वा रिसपित्ती वा पित्ती
कहते हैं शीतपित्तमें वातकी प्रधानता होतीहै व उद्वर्द में कफकी
अधिकता होती है इस कारण इन दोनों में भेदहै इसीसे दोनों
अलग २ हैं जिसमें ऊपरको कुछ उछलाने से ददरेपडजाते हैं
वह उद्वर्द और जिसमें योंहींसूजनहो भातीहै उसे शीतपित्त क
हते हैं अन्य सब लक्षण दोनों के एकसे होते हैं ४ उद्वर्द रोगका

धिरुद्वेदःपरिकीर्त्तितः ५ असम्यग्बमनोदीर्णपित्तश्ले
ष्मान्ननिग्रहैः ॥ मंडलानिसकंडूनिरागवंतिब्रह्मनिच ॥ उ
त्कोठःसानुबन्धश्चकोठइत्यभिधीयते ६ ॥

इतिशीतपित्तोद्वेदकोठनिदानम् ॥

विरुद्धदुष्टाम्लविदाहिपित्तप्रकोपिपानान्नभुजो विद
ग्धम् ॥ पित्तंस्वहेतूपचितंपुरायत्तदम्लपित्तंप्रवदंति
संतः १ अविपाककृमोत्क्लेदतिक्ताम्लोद्धारगौरवैः ॥ हृत्कंठ
दाहारुचिभिरम्लपित्तंवेदद्भिषक् २ तृड्दाहमूर्च्छाभ्रममो

दूसरा लक्षण—शीतलता से कफकोप करके ललभरे मण्डलदे-
हपर उछालता है वे बहुत खजुलातेहैं व उनके किनारे २ ऊँचा
और बीचमें कुछखाली रहताहै इसे भी उद्वेद कहते हैं ५ अच्छे
प्रकार खुलकर वमन न होने से व पित्त श्लेष्मा से विगड़े हुये
अन्नके रुकने से खजुली सहित बहुत से लाल २ चकंधे शरीर
भरमें पड़जाते हैं इसे उत्कोठ कहते हैं यदि यही बार २ उछ-
लता व मिटता रहै तो इसे कोठ कहते हैं ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादे शीतपित्तनिदानञ्चतुःपञ्चा-
शत्तमम् ५४ ॥

दो० ॥ पचपनयें मँहँ कह सुकवि अम्लपित्त नीदान ॥

देखहिं सज्जनयहि क्यतिकहैकुतर्कबलवान १

विरुद्ध पदार्थ दूधमछली एक संग भोजनादि करने से दुष्ट
अमिलाना वासीभादि अन्न खाने से बहुत गर्मी करने वाले
अन्नके खानेसे जो कि पित्तको कुपित कराते हैं ऐसे अन्न पान
के सेवन करने वाले का पित्त जोकि अपने हेतुओं से इकट्ठा हो-
ताहै वह वर्षा समयमें नष्टहोजाताहै वस इसीको परिणत लोग
अम्लपित्त कहते हैं १ इसके लक्षण—अन्नका न पचना ग्लानिः

हंकारिप्रयात्यधोवाविविधप्रकारम् ॥ १ ॥ हृत्प्रासकोठानल
सादहर्षस्वेदांगपीतत्वकरकदाचित् ३ वातहरित्पीतिक
नीलकृष्णमास्तरकाभमतीवचाम्लम् ३ ॥ मांसोदकाभ
न्वतिपिच्छलाच्छइलेष्मानुयातंविविधरसेन ४ भुक्ते
विदग्धेप्यधवाप्यभुक्ते करोतितिकांम्लवर्मिकदाचित् ॥
उद्गारमेवंविधमेवकंठे हृत्कुश्रिदाहशिरसोरुजच ५ क
चरणदाहमोण्य महतीमरुचिज्वरचकफपित्तम् ॥ ॥ ज
नयतिकंडुमंडलपिडिकाशतनिचितगात्ररोगचयम् ६ रे

जीमचलाना तीत व अमली डकार आना शरीर भारीरहना हृदय
व गले का जलना व अरुचि जहां ये सबहो वय वहां अम्लपित्त
रोगकहै २ नीचेको गये हुये अम्लपित्त के लक्षण—जब अम्लपित्त
नीचेको जाताहै तो तृपादाह मुच्छा भ्रम मोह होतेहै व विविध
प्रकारके कुतक होते है जीमचलाता कोठे में गडबड होता अग्नि
मन्द होजाता रोमांश्चहोता पसीना बहुत होता शरीर पीलाहो
जातिहै तब पित्तकाला या लालहोकर मलक्रेसग नीचेगिरताहै ३
ऊपरको गयेहुये अम्लपित्त के लक्षण—ऊर्ध्वगत अम्लपित्त जब
होताहै तो हरा पीला नीला काला ताम्रवर्ण रुधिर के रंगका
अत्यन्त खटा मांस धोवन के पानी के रंगका फेने के आकार का
कफ युक्त लोणखर कसैलाआदि विविधरसांसे युक्त वातहोता
है ४ व कभी भोजनकरने के पीछे अन्न पचनेके पूर्व कभी विन
भोजन कियेही परचमन होजाताहै यह चमनतीत भासिल मि
लाहुभा होताहै वा ऐसीही उर्ध्व आती है कण्ठ हृदय व कोखि
में दाहाहोता व शिरसे पीड़ा होती है ५ कफि पित्तज अम्लपित्त
रोगमिहाय पैरों में दाहा शरीर टूटना अरुचि बड़ीभारी ज्वर
शरीरमें दुर्गन्धि खजुली ददरे पड़जाना बहुतसी छोटी २ फुंसि
यां व अनेक उपद्रवोंसे युक्त शरीर होजाताहै ६ यह अम्लपित्त

गोयमम्लपित्ताख्यो यत्नात्संसाध्यतेनवः ॥ चिरोत्थि-
तो भवेद्यप्यः कृच्छ्रसाध्यः सकस्यचित् ७ सानिलसा-
निलकफं सकफं तर्जलक्षयेत् ॥ दोषलिंगेन मतिमान्भि-
पामोहकरहितत् ८ कं प्रलापमूर्च्छाचिमिचिमिगात्रा-
वसादशूलानि ॥ तमसोदर्शनविभ्रमप्रमोहहर्षाण्यनि-
लयुते ९ कफनिष्ठीवनगौरवजडता ॥ रुचिसीदसादेवमि-
लेपाः ॥ द्रहनवलसादकंडूनिद्राश्चिह्नं च कफानुगते. १०
उभयमिदमेवचिह्नंमारुतैकफसंभवे भवत्यम्ले. ११ ॥

नांमरोग ज्व नया होता है तो यत्न से साध्य होता है ज्व बहुत
दिनोंका होजाताहै तो भी औषध करनेके योग्य रहताहै परसिद्ध
होनेमें संशय रहताहै व यदि यही किसी पथ्य करनेवाले वल-
वान् पुरुष के होता है तो कष्टसाध्य होता है ७ वायु युक्त अम्ल
पित्त वायु कफ युक्त अम्ल पित्त व कफ युक्त अम्ल पित्त इनतीनों
प्रकारोंके अम्ल पित्तोंकी परीक्षा वातादि दोषों के लक्षणों के
अनुसार बुद्धिमान् वैद्यकरे क्योंकि यह रोग वैद्यों को भ्रमकारक
होताहै इसमें भ्रमहोनेका हेतु यह है कि अयोग्य अम्ल पित्त में
तो अतीसारिका भ्रम होजाता है व ऊर्ध्वगत अम्ल पित्त में वमन
की भ्रान्ति होतीहै, वस, इसीसे इसरोगमें चिकित्सकलोग चकड़ा
जातेहैं ८ वायु युक्त अम्ल पित्त में क्रांपना अनर्थ वक्रना मू-
च्छा शरीरिका चिपचिपाना सुस्त रहना शूल उठना नेत्रों के
आगे अन्धकार होजाना चित्तघबराना मोह होना व रोमांचहोना
ये लक्षण होते हैं ९ कफ युक्त अम्ल पित्त रोगमें कफका थू-
कना शरीरमें गुरुता अंगों में जडता अरुचि शीतलता शरीरमें
सुस्ता वमन होना मुख में चूटचटी अग्निकी मन्दता खजुरी और-
नाद अधिक वस ये सब लक्षण होते हैं १० वात कफ युक्त अम्ल
पित्त में ऊपरवाले दोनोंके लक्षण सब होते हैं ११ व कफ पित्त

भ्रमो मूर्च्छा रुचिच्छर्दि रालस्यं च शिरोरुजः ॥ प्रसेको मुखः
माधुर्यं श्लेष्मपित्तस्य लक्षणम् १२ ॥ इत्यम्लपित्तनिदानम् ॥

श्लेष्मणाम्लकटूष्णादि सेवनाद्दोषकोपतः ॥ विसर्पः स
प्तधा ज्ञेयः सर्वतः परिसर्पणात् १ पृथक्त्रयस्त्रिभिश्चैको
विसर्पाः द्वंद्वजास्त्रयः ॥ वातिकः पैत्तिकश्चैव कफजः सा
न्निपातिकः २ चत्वार एते वीसर्पा वक्ष्यंते द्वंद्वजास्त्रयः ॥
आग्नेयो वातपित्ताभ्यां ग्रंथाख्यः कफवातजः ३ अग्नि
कर्दमिको घोरः सपित्तकफसंभवः ॥ बुद्ध्यनिपुण्या

युक्त अम्ल पित्त में भ्रम मूर्च्छा भ्रुचि चान्त भ्रालस्य शिर में
पीडा मुखमें पानी छूटना मुखमीठारहना ये सब लक्षण होते हैं १२ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादेऽम्लपित्तनिदानं
पंचपंचाशत्तमम् ५५ ॥

दोहा ॥ छप्पनयें मैं विसर्प के हैं निदान सनिरुक्ति ॥

देखहिं सुजन लगाय चित कैसी है कवियुक्ति १

विसर्प रोगके निदान-खारी खट्टी कड़वी उष्ण वस्तुओं के
अधिक सेवन करनेसे वातादिक कोप करते हैं उससे विसर्परोग
होता है वह सातप्रकार का है और सब भोर शीघ्रही पसरजाने
के कारण से इसरोगका नाम विसर्प हुआ है १ उन सातों में
तीन वात पित्त कफ से अलग २ व एक इन तीनों के मिलने से
व तीन द्वन्द्व अर्थात् दो २ के मिलने से उन में एक वातिक
दूसरा पैत्तिक तीसरा कफज व चौथा सान्निपातिक जो तीनों के
मिलने से होता है २ वस चार तो ये विसर्परोग हुये व तीनों
द्वन्द्वों के नाम और लक्षण कहते हैं एक आग्नेय जो कि वात
और पित्त से होता है दूसरा ग्रन्थ्यनाम जो कि कफ और वात
दोनों के योग से उत्पन्न होता है ३ तीसरा अग्नि कर्दमिक जो

साध्यो भिषजायत्नतः क्वचित् ४ रक्तं लसीकात्वग्मांसं दू-
 ष्यन्दोषास्त्रयोमलाः ॥ विसर्पाणां समुत्पत्तो विज्ञेयाः सप्त
 धातवः ५ तत्र वातात्परीसर्पो वातज्वरसमव्यथः ॥ शो-
 फस्फुरणनिस्तोदो मेदायामार्त्तिहर्षवान् ६ पित्ताद्द्रुत
 गतिः पित्तज्वरलिंगो तिलोहितः ॥ कफात्कंडूयुतस्नि-
 ग्धः कफज्वरसमानरुक् ॥ सन्निपातसमुत्थस्तु सर्वरूप
 समन्वितः ७ वातपित्ताज्वरच्छर्दिमूर्च्छातीसारतृड्भ्र-
 मैः ॥ अस्थिभेदाग्निसदनतमकारोचकैर्युतः ८ करोति
 सर्वमंगंच दीप्तांगाएवकीर्णवत् ॥ यंयदेशं विसर्पश्च वि-

बड़ा घोर होता है व पित्त कफ दोनोंके योगसे होता है यह निपुण
 बुद्धि से बड़े यत्नसे कहीं कोई वैद्य सिद्ध कर सका है नहीं तो प्रायः
 असाध्य ही होता है ४ रक्त (लसीकात्वक्) खालपरका लाल पानी
 मांस व रस दूषित होकर ये चार और वात पित्त कफ ये तीनों दोष
 वस सब विसर्प रोगोंकी उत्पत्तिमें इन्हीं सातोंको धातुसमझना
 चाहिये ५ उनमें वातसे उत्पन्न विसर्परोगमें वातज्वरके समा-
 न व्यथा होती है व शोथहोता अंगफरकते हैं कोंचनासा विद्रित
 होता है फट वा फूटजाने कीसी पीड़ा होती है रोमांच होता है व
 यह विसर्प लम्बहोता है ६ व पित्तसे उत्पन्न विसर्प बहुत शीघ्र
 फैल जाता है व पित्तज्वरके सब चिह्न इसमें होते हैं और इसका
 रंगलाल होता है व कफसे उत्पन्न विसर्प में खजुआहट बहुत
 होती है व चिकनाहोता व कफज्वरके समान पीड़ाहोती है व,
 सन्निपातसे उत्पन्न विसर्पमें वात पित्त कफ तीनोंके सब लक्ष-
 ण होते हैं ७ वात पित्तज अग्नि विसर्प नाम रोग के लक्षण
 वात पित्तसे उत्पन्न अग्नि विसर्प रोगमें ज्वरवमन मूर्च्छा अती-
 सार पिपासा भ्रम हड़फूटन अग्निकी सन्दता नेत्रोंके आगे अ-
 धेराहोजाना अरुचि ये सब होते हैं ८ व इसहेतुसे सब अंगतपते

सर्पतिभवेत्ससः ६३, शांतागारासितोनीलो रक्तोवाशुप
 चीघ्रते ॥ अग्निदग्धनिभैःस्फोटैः शीघ्रगत्वाद्द्रुतंसच १०
 मर्मानुसारीवीसर्पः स्याद्घातोतिबलःस्वतः ॥ व्यथेतांगं
 हरेत्संज्ञां निद्रां चश्वाससीरयेत् ११, हिक्रांचिसतेतोवस्था
 मीदृशीलभतेनना ॥ कञ्चित्क्षामारतिग्रस्तो भूमिशय्या
 तनादिषु १२ त्वेष्टमानस्ततःछिष्टो मतोदेहश्रमोद्भवाम्
 दुर्बोधामश्नुतेनिद्रांसोऽग्निवीसर्पउच्यते १३, कफैतरु
 द्धःपवनोभित्वातंबहुधाकक्रम ॥ रक्तंचटुद्धरक्तस्य त्वक्
 शिरास्नायुमांसगम् १४, दूषयित्वाचद्दीर्घाणुवृत्तस्थूल
 खरात्मताम् ॥ ग्रन्थीनांकुरुतेमालां रक्तानांतीव्ररुक

हुये अंगारोंके समान जलने लगतेहैं व जिसे २ स्थानमें विसर्प
 र्पहोताहै वह २ अंग १ शान्तअंगारके तुल्य काले नीले लाल
 चकत्तोंके साथ सूजजाताहै व तुरन्त अग्नि के जलने से उत्पन्न
 फुटकोंके समान फुटकोंसे युक्त होजाताहै वह विसर्प शीघ्रही जा-
 कर १० अपने निकटके किसी सुकुमार स्थानपर पहुँचजाता है
 अथवा और अधिकपीड़ा करनेलगता है क्योंकि वात तो अपने
 आप अधिक बलवान् होता है इस से अंगको व्यथित करता है
 संज्ञा व निद्राको हरलेताहै व श्वासको अधिक बढ़ाताहै ११
 हुचकीको बढ़ाता ऐसी अवस्थाको पाकर उस मनुष्य को यह
 ज्ञान नहींरहता कि मैं भूमि पर पड़ाहूँ वा शय्यापर वा अन्य
 किसी आसनपर बनाये अचेत होजाताहै १२ व इधर उ-
 धर लोटतारहता है मन देह दोनों अचेत होजाते हैं इस से
 मरण के तुल्य धीरे निद्रा आजाती है वस यही रोग वात पि-
 त्तज अग्नि विसर्प कहाजाताहै १३ अपने आप जब कफ कु-
 पितहोकर वायुको रोकताहै तो वह पवन उस कफ को बहुत
 प्रकार से भेदन कर के व बड़ेहुये रक्त का भी भेदन करके चर्म

ज्वराम् १५ श्वासकासातिसारस्य शोषहिक्काप्रविभ्रमैः ॥
 मोहवैवर्ण्यमूर्च्छाग्निभंगाग्निसदनैर्युताम् १६ इत्ययं
 ग्रन्थिविसर्प कफमारुतकोपजः ॥ कफपित्ताज्ज्वरस्त
 र्भो निद्रातन्द्राशिरोरुजाः ॥ अंगावसादविक्षेप प्रला
 पारोचकभ्रमाः १७ मूर्च्छाग्निहानिर्भेदोस्थनापिपासे
 न्द्रियगौरवम् ॥ आमोपवेशनलेपः स्रोतसांसविसर्प
 तिः १८ प्रायेणामाशयगृहणन्नेकदेशान्चातिरुक् ॥
 पिडिकैरवकीर्णोतिपीतलोहितपांडुरः १९ भेचकाभःसि
 तस्निग्धोमलिनश्शोफवान्गुरुः ॥ गंभीरपाकःप्रायो

मोटी पतली नसे व मांस में जाकर १४ व उनको दूधित करके
 बड़ी छोटी गोली मोटी व खरखरी गांठियोंकी मालाको करताहै
 इस मालाकी गांठियां लालरंगकी व तीव्रपीड़ा करनेवाली व ज्वर
 करनेवाली होतीहै १५ व श्वास खांसी अतीसार शोष हुचकी
 विभ्रमै मोह विवर्णता मूर्च्छा अंग भंग व अग्निकी मन्दता इनसे
 भी युक्तवहै ग्रन्थिमाला होतीहै वस कफवायु के कोपसे उत्पन्न
 यही ग्रन्थि विसर्प रोग कहाता है १६ कफ व पित्त से उत्पन्न
 कर्दमेंनाम विसर्पमें ज्वरदेहकातनना निद्रा तन्द्रा शिरकीपीड़ा
 अंगोंकट्टटना व अंगफटकना अनर्त्यवकना अरुचिभ्रमहोना १७
 मूर्च्छा अग्निमन्दहोना हड्ढफूटन पिपासा इन्द्रियोंका गरुआपन
 आमपड़नामुहमें लठ्भालपटाना व संवनतां में लठ्भालपटाना
 १८ बहुधा यह विसर्प रोग आमोपवेशन से उत्पन्न होकर सब
 ओर फैलता है परन्तु सब ओर पीड़ा बहुत नहीं करता व उस
 के ऊपर पीली लाल व पाण्डु रंगकी फुंसियां होतीहै १९ यह
 विसर्प चिकनी काला श्यामल मेल सृजनसहित गरुआई लिये
 भारी पारिपाक से युक्त उष्णता अधिक भूलभटाहट होजाती है
 दवानेसे कुछ कालतक शीतलता जानपड़ती है फिर पीछे फुं

सर्पतिभवेत्ससः ६॥ शांतागारासितोनीलो रक्तोवाशुप
 चीयते ॥ अग्निदग्धनिभैःस्फोटैः शीघ्रगत्वाद्द्रुतंसत्तं १०
 मर्मानुसारीवीसर्पः स्याद्वातोतिबलःस्वतः ॥ व्यथेतांगं
 हरेत्संज्ञां निद्रां चश्वाससौरयेत् ११ हिक्कांचसततोवस्था
 मीदृशीलभतेनना ॥ कल्लिक्षामारतिग्रस्तो भूमिशय्या
 ननादिषु १२ चेष्टमानस्ततःछिटो सतोदेहश्रमोद्भवाम्
 दुर्बोधामश्नुतेनिद्रांसोर्गिनवीसर्पउच्यते १३ कफेतरु
 द्धःपवनो भित्वातंबहुधाकफम् ॥ रक्तंचटुद्धरक्तस्य त्वक्
 शिरास्नायुमांसगम् १४ दूषयित्वाचद्वीर्घाणवृत्तस्थूल
 खरात्मताम् ॥ ग्रन्थीनांकुरुतेमालां रक्तानांतीव्ररुक्

हुये अंगारोंके समान जलने लगतेहैं व जिस २ स्थानमें विस-
 र्पहोताहै वह २ अंग १ शान्तअंगारके तुल्य काले नीले लाल
 चकत्तोंके साथ सूजजाताहै व तुरन्त अग्नि के जलने से उत्पन्न
 फुटकोंके समान फुटकोंसे युक्त होजाताहै वह विसर्प शीघ्रही जा-
 कर १० अपने निकटके किसी सुकुमार स्थानपर पहुँचजाता है
 अथवा और अधिकपीड़ा करनेलगता है क्योंकि वात तो अपने
 आप अधिक बलवान् होता है इस से अंगको व्यथित करता है
 संज्ञा व निद्राको हरलैताहै व श्वासको अधिक बढ़ाताहै ११
 हुचकीको बढ़ाता ऐसी अवस्थाको पाकर उस मनुष्य को यह
 ज्ञान नहींरहता कि मैं भूमि पर पड़ाहूँ वा शय्यापर वा अन्य
 किसी आसनपर वनाये अचेत होजाताहै १२ व ऊपर उ-
 धर लोटतारहताहै मन देह दोनों अचेत होजाते हैं इस से
 मरण के तुल्य घोर निद्रा आजाती है वस यही रोग वात पि-
 त्तज अग्नि विसर्प कहाजाताहै १३ अपने आप जब कफ कु-
 पितहोकर वायुको रोकताहै तो वह पवन उस कफ को बहुत
 प्रकार से भेदन कर के व बड़ेहुये रक्त का भी भेदन करके चर्म

ज्वराम् १५ श्वासकासातिसारस्य शोषहिक्काप्रविभ्रमः ॥
 मोहवैवर्ण्यमूर्च्छांग भंगाग्निसदनैर्युताम् १६ इत्ययं
 ग्रन्थिवीसर्प कफमारुतकोपजः ॥ कफपित्ताज्ज्वरस्त
 र्भो निद्रातिद्राशिरोरुजा ॥ अंगवेसादविक्षेप प्रला
 पारोचकभ्रमाः १७ मूर्च्छाग्निहानिर्भेदोस्थना पिपासे
 न्द्रियगौरवम् ॥ आमोपवेशनलेपः स्रोतसोसविसर्प
 ति १८ प्रायेणामाशयंगृहणन्नैकदेशनचातिरुक्ता ॥
 पिडिकैरवकीर्णोतिपीतलोहितपांडुरैः १९ मेचकाभासि
 तस्स्निग्धोमलिनश्शोफवान्गुरुः ॥ गंभीरपाकःप्रायो

मोटी पतली नसें व मांस में जाकर १४ व उनको दूषित करके
 बड़ी छोटी गोली मोटी व खरखरी गांठियोंकी मालाको करताहै
 इस मालाकी गांठियांलालरंगकी व तीव्रपीड़ा करनेवाली व ज्वर
 करनेवाली होतीहै १५ व श्वास खांसी अतीसार शोष हुचकी
 विभ्रम मोह विवर्णता मूर्च्छा अंग भंग व अग्निकी मन्दता इनसे
 भी युक्तवह ग्रन्थिमाला होतीहै वस कफवायु के कोपसे उत्पन्न
 यही ग्रन्थि विसर्प रोग कहाता है १६ कफ व पित्त से उत्पन्न
 कर्दमेनाम विसर्पमें ज्वरदेहकातनना निद्रा तन्द्रा शिरकीपीड़ा
 अंगोंकीटूटना व अंगफटकना अनर्त्यवकना अरुचिभ्रमहोना १७
 मूर्च्छा अग्निमन्दहोना हंडफूटन पिपासा इन्द्रियोंका गरुआपन
 आमपड़नामुहमें लव्भालपटाना व सवनसों में लव्भालपटाना
 १८ बहुधा यह विसर्प रोग आमोशय से उत्पन्न होकर सब
 ओर फैलता है परन्तु सब ओर पीड़ा बहुत नहीं करता व उस
 के ऊपर पीली लाल व पाण्डु रंगकी फुंसियां होतीहै १९ यह
 विसर्प चिकनी काली श्यामल मैल सृजनसेहित गरुआई लिये
 भारी पारिपाक से युक्त उष्णता अधिक भूलभटाहट होजाती है
 दवानेसे कुछ कालतक शीतलता जानपड़ती है फिर पीछे फुं-

पमास्पष्टः क्लिन्नो वदीर्यते २० पंकवच्छीर्णमांसश्चस्फुट
 त्स्नायुशिरागणः ॥ शवगंधिचर्वा सर्पकर्ममारुह्यमुशति
 तम् २१ बाह्यहेतोः क्षतात्क्रुद्धः सरक्तपित्तमीरयन् ॥ विस
 र्पमारुतः कुर्यात्कुलत्थसदृशश्चितम् २२ स्फोटैः शोफ
 ज्वररुजादाहाढ्यश्यावशोणितम् २३ ज्वरातिसारौ वमथु
 स्त्वग्मांसदरणक्षमाः ॥ अरोचकाविपाकौ च विसर्पाणामुप
 द्रवाः २४ सिद्ध्यंति वातकफपित्तकृता विसर्पाः सर्वात्मकः
 क्षतकृतश्च न सिद्धिमेति ॥ पित्तात्मको जनवपुश्च भवेदसा
 ध्यः कृच्छ्राश्च मर्मसु भवंति हि सर्व एव २५ इति विसर्पनिदानम् ॥

सिर्षां व भलके फूटजाते हैं २० अथवा उसका मांस कीचड़के
 तुल्य गलजाता है व फिर सबमोटी पतली बड़ी छोटी नसें मांस
 गलनेके कारण खुलजाती हैं फिर मरेसडेहुये जन्तुकीसी दुर्गंधि
 आनेलगती है इसको कर्मविसर्प कहते हैं २१ क्षतज विसर्प
 के लक्षण—बाहरके किसीकारणसे क्षतहोजाने से वायु क्रुद्ध हो
 कर रक्तसहित पित्तको उभाड़कर विसर्परोगको करता है उसके
 ऊपर कुलर्षा के तुल्य फुसियां होती हैं २२ फिरउन फुसियों के
 कारण सूजन होआती पीडा होती है ज्वर होता दाहहोता व
 रुधिर कालाहोजाता है २३ इसरोगके उपद्रव—ज्वर दस्त आना
 वमनहोना त्वचा व मांसका गलना शिथिलता असुप्ति अन्नका
 परिपाक न होना वस ये सब विसर्पों के उपद्रव हैं २४ साध्य
 असाध्य के लक्षण ये हैं वातज पित्तज व कफज ये विसर्प सा
 ध्य होते हैं सन्निपातज व क्षतज विसर्प साध्य नहीं होते व
 पित्तज विसर्प जिसमें देह अङ्गनकेतुल्य कालाहोजाता है वह
 असाध्य होता है व हृदय आदि सुकुमार स्थानोंमें जब होते हैं
 तो सबके सब विसर्प कष्टसाध्यहोते हैं २५ ॥ इति विसर्पनिदानं पट्टपचाशत्तमम् ॥

कट्वम्लतीक्ष्णोष्णविदाहिरूक्षक्षारैरजीर्णोध्यशना
 तपश्च ॥ तथेतु दोषेण विपर्ययेण कुप्यति दोषाः पवनाद्
 घस्तु १ त्वचमाश्रित्य ते रक्तमांसास्थीनि प्रदुष्यन्ते ॥ घो
 रान्कुर्वति विस्फोटान् सर्वान् ज्वरपुरस्सरान् २ अग्निदग्ध
 निभाः स्फोटाः सज्वरारक्तपित्तजाः ॥ क्वचित्सर्वत्रवादे हे
 विस्फोटा इति स्मृताः ३ शिरोरुकशूलभूयिष्ठं ज्वरस्तृट्
 पर्वभेदनम् ॥ सकृष्णवर्णता चेति वातविस्फोटलक्षण
 म् ४ ज्वरदाहरुजास्रावपाकतृष्णाभिरन्वितम् ॥ पीत
 दोहा ॥ सत्तावनये महं कह्यो विस्फोटकनीदान ॥

जाहि शीतलादोष सब भापत लोग अजान १

विस्फोटक रोग वा शीतलाके दोषके लक्षण—कड़ू खट्टा तीपा
 उष्ण दाहक रूपा खारी बिना अन्न पचे फिर खाना बहुत घाम
 में घूमना व उष्णकाल आदि ऋतुके दोषसे इनकारणसे वाता-
 दिक दोषकोप करते हैं १ व त्वचा में स्थिर होकर वे रक्तमांस
 और हाडोंको दूषित करके घोर विस्फोटकोंको उत्पन्न करते हैं
 उन सब विस्फोटकोंके निकलनेके पहिले ज्वर अवश्य आताहै
 इसरोगको लोग शीतला कहते हैं २ विस्फोटक के स्वरूप के
 लक्षण—रक्त पित्त से उत्पन्न विस्फोटक ज्वर सहित होते हैं ये
 अग्निमें जल जानेवाले के फुटकों के आकारके होते हैं देहमें क-
 ही २ होते हैं अथवा देहभरमें निकल आते हैं वे विस्फोटक क-
 हातेहैं ३ वातज विस्फोटकों के लक्षण—वातज विस्फोटक के
 ये लक्षण हैं कि शिरमें पीड़ा होतीहै शूल बहुत उठतीहै ज्वर
 होता पिपासा बहुत लगतीहै सब जोड़ोंमें पीड़ाहोती है कुछ
 कालापन लिये देहके रंगके तुल्य फोड़े होतेहैं ४ पित्तज विस्फो-
 टक के लक्षण ये हैं कि ज्वर दाह पीड़ा बहना पाकना तृष्णा
 इनसे फोड़े युक्त होते हैं पीले लाल मिलेहुये रंग के फोड़े होते

लोहितवर्णच, पित्तविस्फोटलक्षणम् ५ चर्द्यरोचकजा
 ह्यानि, कण्डूकाठिन्यपाण्डुता ॥ अत्रेदनश्चिरात्पाकी
 सन्निस्फोटः कफात्मकः ६ कण्डूदाहोज्वरश्चर्दिरेतैस्तुक
 फपैत्तिकः ॥ वातपित्तकृतोयस्तुकुरुतेतीव्रवेदनाम् ७
 कण्डूस्तैमित्यगुरुभिर्जानीयात्कफवातजम् ॥ मध्येतिमो
 न्नतोन्तेच कठिनोल्पाप्रपाकवान् ८ दाहरागतृषामोह
 च्छर्दिमूर्च्छारुजाज्वरः ॥ प्रलापोवेपथुस्तंद्रा सत्वसाध्य
 स्त्रिदोषजः ९ रक्तारक्तसमुत्थानागुंजाफलनिभास्तथा ॥
 वेदितव्यास्तरक्तेन पैत्तिकेनतुहेतुना ॥ नतोसिद्धिसमा
 यांति सिद्धैर्योगवरैरपि १० एकदोषोत्थितस्साध्यः कृ

हैं ५ कफज विस्फोटक के लक्षण—इसमें वमनहोता अरुचि हो-
 ती अंगोंमें जड़ता आजाती है खजुली अधिक उठती फोड़ों में
 कड़ापन रहता पाण्डु रंगके होते हैं पीड़ा कुछ भी नहीं होती व
 बहुत दिनों में पकते हैं ६ कफ पित्त मिलेहुये विस्फोटक के
 लक्षण—इनमें खजुली होती दाह और ज्वर होता व वमन होता
 है व जो वात पित्तज होते हैं उनमें बड़ीभारी पीड़ाहोती है ७
 कफ वातज विस्फोटक उनको जानना चाहिये जिन में खजुली
 मन्दता व भारीपनहो व जिस विस्फोटकके फोड़ों में बीच में
 खाली होजाताहै व किनारे २ ऊँचा होता है व कड़ापन रहता
 पाकतेकम है ८ दाह ललाई पिपासा मोह वमन मूर्च्छा ज्वर
 पीड़ा अनर्थ बकना कांपना भ्रूपान ये लक्षण होतेहैं वह असा-
 ध्य होता है क्योंकि यह तीनों दोषों से उत्पन्न होता है इससे
 सान्निपातिक होताहै ९ रक्तज विस्फोटकका रंगलालहोता है
 जैसे कि घुँघुचीकारंग होताहै यह रक्त वा पित्तके दुष्टहोनेसेहोता
 है इसमें चाहे सैकड़ों सिद्ध औषधों कोईकरे पर यहरोग सिद्ध
 नहीं होता असाध्यही होताहै १० साध्य असाध्य विचार—एक

च्छसाध्यौद्विदोषजः ॥ ११ ॥ सर्वदोषोत्थितो घोरस्त्वसाध्यो
 भूर्युपद्रवः ११ ॥ इति स्फोटनिदानम् ॥ ११ ॥
 कट्वस्ललवणक्षार विरुद्धाध्यशनाशनैः ॥ दुष्टनि
 ष्पावशाकाद्यैः प्रदुष्टैः पवनोदकैः १ क्रुद्धग्रहेक्षणाच्चापि दे
 हेदोषाः समुद्भवाः २ ॥ जनयन्ति शरीरोस्मिन्दुष्टरक्तेन संग
 ताः २ मसूराकृतिसंस्थाना पिडिकास्स्युर्मसूरिकाः ३ तां
 सांपूर्वज्वरः कंडूर्गात्रिभंगोरुचिभ्रमः ॥ त्वचिशोफः सवै
 वर्यो नेत्ररागस्तथैव च ४ स्फोटाः कृष्णारुणारूक्षास्ती

दोषसे उत्पन्न विस्फोटक साध्यहोतेहै व दो दोषोंसे उत्पन्न कटसा-
 ध्यहोते है व सब दोषोंसे उत्पन्न बड़ा घोरहोताहै इससे असाध्य
 होताहै क्योंकि इसमें बहुत उपद्रव होते है हुचकी श्वास अरुचि
 पिपासा अंगोंका टूटना हृदयमें पीड़ा विसर्प ज्वर जीमचलाना
 ये सब विस्फोटकोंके उपद्रव है ११ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे विस्फोटकनिदानं

सप्तपञ्चाशत्तमम् ॥ ५७ ॥

दोहा ॥ अट्टावनये महं मसूरिकारोग निदान ॥

यहो शितलादोषकर भेद अहैनहिं भान १

मसूरिकादोषका निदान—कडू खटी नोनखर खारी विरुद्ध
 पदार्थोंके एकही संग खानेसे दुष्टपलही क्यरावआदिके शाकके
 खानेसे व दुष्ट वायु जलके सेवनसे १ क्रुद्धग्रहोंकी दृष्टिसे भी
 देहमें वात पित्त कफ क्रुद्धहोकर व दुष्टरक्तमें मिलकर शरीरमें
 मसुढीकी तरहकी फुंसियोंको उत्पन्न करते है वस मसुढीके डों-
 लकी होनेसे इसरोगकी फुंसियोंको मसूरिका कहते है इन्हीं को
 लोग मसूरिकादेवी वा छोटीशितला वा छोटी माताकहतेहै २ ३
 जब ये मसूरिकायें होनेपर होती है तो प्रथम ज्वरआता ख-
 जुलीहोती अंगटूटते अरुचिहोती भ्रमहोता खालसूजआती है

ब्रवेदनयान्विताः ॥ कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिल
 संभवाः ५ संध्यस्थिपर्वणांभेदः कासः कंपोरतिः कृमः ॥
 शोषस्ताह्वोष्ठजिह्वानांतृष्णाचारुचिसंयुताः ६ रक्ताः पी
 ताः सिताः स्फोटाः तृष्णादाहरुजान्विताः ॥ मृदवोचिरपा
 काश्चपित्तकोपसंमुद्भवाः ७ विड्भेदश्चविपाकश्चतृष्णा
 दाहारुचिस्तथा ॥ मुखपांक्रोक्षिपाकश्चज्वरस्तीव्रः सुदा
 रुणः ८ रक्तजायांभवत्येतेविकाराः पित्तलक्षणाः ॥ कफ
 प्रसेकः स्तैमित्यंशिरोरुग्गात्रगौरवम् । हल्लासः सारुचि
 निद्रातन्द्रालस्यसमन्विताः ९ श्वेताः स्निग्धाभूशंस्थूलाः
 कंडूरांमदवेदनाः ॥ मसूरिकाः कफोत्थाश्च चिरपाकाः प्र

देहकारणं वेदलजाता व नेत्र लालहोजातेहै ४ वातज मसूरिका
 के लक्षण—वातसे उत्पन्न मसूरिका काली वा लालहोती है व
 रूपी और तीव्रपीडासे युक्तहोती है कडीहोती इससे देरमेंपकती
 है ५ इसरोगवालेके सब संधियों में व सब ग्रन्थियोंमें हडफूटन
 होती है खाँसीआती कम्पहोता सुस्तीरहती ग्लानिहोती तालु
 ओष्ठ और जीभ सूखजाती है तृषा और अरुचि दोनोंहोती है ६
 पित्तज मसूरिकाके लक्षण—इसमें लाल पीले उजले फाड़ेहोते
 हैं व तृष्णा दाह अरुचि व पीडाहोती है फोड़े कोमलहोते व
 शीघ्रही पकजातेहै ७ इसरोगमें मलपतला उतरता है अन्ननहीं
 पचता तृष्णालगती दाहहोता व अरुचिहोती मुख और नेत्रपक
 जाते है व अतिदारुण तीव्रज्वर होताहै ८ रक्तज मसूरिकारोग
 के लक्षण— रक्तज मसूरिकामें पित्तज मसूरिकावाले सब विकार
 होते है व कफज मसूरिकामें मुखसे कफ अधिक गिरता है देह
 में चटचटाहट शिरमें पीडा अंगभारी जीमचलाना अरुचि निद्रा
 तन्द्रा आलस्य ९ व मसूरिका उजली चिकनी बहुतभारी खजु-
 हदवाली व थोड़ीपीडावाली होती है व बहुत दिनोंमें पकती है

क्रीर्तिताः १० नीलाश्चिपिटविस्तीर्णामध्येनिम्नामहारु
जाः ॥ चिरपाकाःपूतिस्त्रावाःप्रभूर्ताःसर्वदोषजाः ११ कं
ठरोधोरुचिस्तंद्राप्रलापारतिसंयुताः ॥ दुश्चिकित्स्याःस
महिष्टाःपिडिकाश्चर्मसंज्ञिताः १२ रोमकूपोन्नतिसमारा
गिण्यःकफपित्तजाः ॥ कासारोचकसंयुक्कारोमांत्योज्वर
पूर्विकाः १३ तोयवुद्बुदसंकाशारसगास्तुमसूरिकाः ॥
स्वल्पदोषाःप्रजायन्तेभिन्नास्तोयस्त्रवंतिच १४ रक्तस्था
लोहिताकाराःशीघ्रपाकास्तनुत्वचः ॥ साध्यानात्यर्थदुष्टा
श्च भिन्नारक्तसूवंतिच १५ मांसस्थाःकठिनाःस्निग्धाः

ये कफज मसूरिकाओं के लक्षण हैं १० सन्निपातज मसूरिका
नीली चिपटी बड़ी २ बीचमें खाली किनारे २ ऊंची बड़ी पीड़ा
वाली बहुत दिनोंमें पकनेवाली दुर्गन्धियुक्त पीत्र वहानेवाली व
बहुतसी होती है क्योंकि ये तीनों दोषोंसे होती हैं ११ चर्म
पिडिकाओंके लक्षण—इनमें रोगीका गला रूंध जाता है अरुचि हो
ती अनर्थ बकता है तन्द्रा होती किसी चीजमें मननहीं लगता
इससे इनचर्म पिडिकाओंकी औषध बड़ेदुःखसे होसकी है १२
कफ व पित्तसे उत्पन्न रोमोंके छेदके तुल्य बहुत छोटी लाल २
फुंसियां होती हैं इनके होने पर खांसी आती है अरुचि होजाती
है व रोमान्ति उनका नाम होता है जब ये होने पर होती हैं तो
ज्वर होता है १३ रक्तमें प्राप्त मसूरिका पानीके बुल्लाके प्रमाण
की होती हैं व उनके फूटने पर उनमें से लाल बहता है ये साध्य
होती हैं क्योंकि थोड़े दोषसे ये उत्पन्न होती हैं १४ रक्तगत मसू
रिकाके लक्षण—रक्तसे उत्पन्न मसूरिका लाल होती हैं व शीघ्रही
पकजाती हैं इनकी खाल बहुत पतली होती है ये साध्य होती हैं
बहुत दुष्ट नहीं होती फूटने पर इनमें से रुधिर बहता है १५
मांसगत मसूरिका बहुत कड़ी होती हैं व चिकनी होती पर पाक

इत्रपाकास्तनुत्वचः ॥ गात्रशूलोरतिकण्डू मूर्च्छादाह
 तृपान्विताः १६ मेदोजामंडलाकाराः मृदवः किंचिदुन्न
 ताः ॥ घोरज्वरपरीताश्चस्थूलाःस्निग्धाःसवेदनाः १७
 संमोहारतिसंताप्राःकश्चित्ताभ्योविनिस्तरेत् १८ क्षुद्रा
 गात्रसमारूक्षाश्चपिटाः किंचिदुन्नताः ॥ मज्जोत्थाभृश
 संमोहवेदनारतिसंयुताः १९ छिन्दन्तिर्मर्मधामानि प्रा
 णानाशुहरन्ति च ॥ अमरेणैवविद्वानि भवन्त्यस्थीनिसर्व
 तः २० प्रकाभाःपिडिकास्निग्धाःश्लक्षणाश्चात्यर्थवेद
 नाः ॥ स्तैमित्यारतिसंमोह दाहोन्मादसमन्विताः २१

ती बहुत दिनोंमें हैं इनकी भी त्वचा बहुत सूक्ष्म होती है इन
 के होने पर अंगों में पीड़ा होती है चैन नहीं पड़ती खजुली उठ
 ती है मूर्च्छा दाह व तृपा उत्पन्न होती है १६ मेदस में गत मसू-
 रिका गोल होतीं व कोमल होती हैं कुछ ऊपरको उठी हुई हा-
 ती हैं इन में ज्वर बड़ा घोर होता है चिकनी होती व मोटी २
 होती पीड़ा बहुतही होती है १७ संमोह अप्रीति व सन्ताप
 बहुत होता है इनसे कोई बचजाता है तो बचता है नहीं तो
 मरही जाता है १८ मज्जामें गत फुंसियोंके लक्षण—पेबहुत छो-
 टी २ होती है व इनका रंग देहके रंगहीके समान होता है छि-
 पी होती है व चिपटी रहती है कहीं २ फुठेक ऊंची भी रहती
 है इन में संमोह पीड़ा व अप्रीति होती है १९ ये सुकुमार
 स्थानों को काटती हैं व प्राणोंको शीघ्र हरती हैं इनके होने पर
 देह भरके हाड़ ऐसे पिराते हैं जैसे भवरोके काटनेमें पिराते हैं
 २० शुक्रगत फुंसियोंके लक्षण—जब फुंसियां शुक्रगत होती हैं
 तो प्रकीसी चिकनी होती है व पीड़ा बहुत होती है शरीर शिथि-
 ल होजाता है प्रीतिजाती रहती है मोह दाह और उन्माद हो-
 ते हैं २१ वस शुक्रज मसूरिका में येही लक्षण होते हैं केवल

शुक्रजायामसूर्यातु लक्षणा निभवंतिहि ॥ निर्दिष्टकेवलं
चिह्नं दृश्यतेनतु जीवितम् २२ दोषमिश्राश्चसप्तैता द्र
ष्टव्यादोषलक्षणैः ॥ त्वग्गतारक्तजाश्चैव पित्तजाःश्ले
ष्मजास्तथा २३ श्लेष्मपित्तकृताश्चैव सुखसाध्यामसू
रिकाः ॥ एताविनापिक्रियया प्रशाम्यंतिशरीरिणाम् २४
वातज्ञावातपित्तोत्थाः श्लेष्मवातकृताश्चयाः ॥ कृच्छ्र
साध्यामतास्तास्तुयत्नादेताउपाचरेत् २५ असाध्याः स
न्निपातोत्थास्तासां वक्ष्यामिलक्षणम् ॥ प्रवालसदृशाः
काश्चित्काश्चिज्जंबूफलोपमाः २६ लोहजालनिभाःका
श्चिदतसीफलसन्निभाः ॥ आसां बहुविधावर्णा सायंते
दोषभेदतः २७ कासोहिकाप्रमेहश्च ज्वरस्तीव्रःसुदारु
णः ॥ प्रलापश्चारतिर्दाहस्तृष्णामूर्च्छातिघूर्णिता २८

लक्षण तो बतादिये हैं पर रोगीकाजीना इसरोगमें नहीं दिखा-
ई देता है २२ दोषोंके लक्षणों से इनसातो मसूरिकाओं को सब
दोषोंसे मिश्रितजानना चाहिये त्वचामें गतरक्तज पित्तज कफज
व कफपित्तज ये मसूरिका सुखसाध्यहोती हैं येविना औषधादि
करनेपरभी अपनेआपशान्तहोजाती हैं २३ वातज व वातपित्तज
वात कफज येकएसाध्यहोती हैं इससे यत्नसे इनको औषधकर-
नी चाहिये २४ सन्निपातसे उत्पन्न मसूरिका असाध्य होती हैं
उनके लक्षणकहते हैं कोई २ मसूरिका तोमूँगाके तुल्य होती हैं व
कोई २ फरेंदेके फलोंके तुल्यहोती हैं २५ व कोई २ लोहकेजाल
के समान होती हैं कोई २ अलसीकी बोंड़ीके तुल्यहोती हैं इनके
दोषोंके भेदों से नानाप्रकारके रंग होते हैं २६ खांसी हुचकी
तीव्रज्वर अति दारुण अनर्थ्य बकना अप्रीति मूर्च्छा तृषा दाह
धुमनी २७ मुखसे रक्त गिरना व नासिका और नेत्रों में भी रक्त

मुखेनप्रसवेद्रक्तं तथाघ्राणेनचक्षुषा ॥ कंठेघ्रुघ्रुरकंकृत्वा
 इवसित्यत्यर्थदारुणम् २६ मसूरिकाभिभूतोयो भृशंघ्रा
 णेननिःश्वसेत् ॥ समृशंत्यजतिप्राणांस्तृष्णात्तोवायुदू
 षितः ३० मसूरिकांतेशोथःस्यात्कूर्परमाणिवंधके ॥ तथा
 सफलकेचापि दुश्चिकित्स्यःसुदारुणः ३१ ॥

इतिमसूरिकानिदानम् ॥

स्निग्धासवर्णाग्रथिता नीरुजामुद्गसान्निभा ॥ कफ
 वातोत्थिताज्ञेया बालानामजगल्लिका १ यवाकारासु
 कठिना ग्रथितामांससंश्रिता ॥ पिडिकाश्लेष्मवाताभ्यां
 यवप्रख्येतिसामता २ घनामवक्त्रांपिडिकामुन्नतांपरिमं

का चूना कण्ठमें घुरघुर शब्द करके बड़े कण्ठसे श्वासलेना २८
 व जो मसूरिका से व्याकुल होताहै वह नासिकासेही श्वास ले
 सकताहै मुखसे नहीं तृष्णा बहुत लगती है ऐसा वायु से दूषित
 रोगी प्राणांको त्यागही देताहै २६ जब मसूरिकाके पीछे रोगिके
 जंघा कलाई कांधेपर जो सूजन होतीहै तो व भ्रतिदारुण होती
 है इससे बड़ेदुःख से चिकित्सा करने के योग्य होती है ३० ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेमसूरिकानिदानमष्टपञ्चा-

शतमम् ५८ ॥

दोहा ॥ उनसठयें मँहँ कहसकल क्षुद्ररोग निदान ।

जोहैं विविध प्रकारके विविधनाम बलवान ॥

बालकोंके चिकनी उन्हीं के रंगकी गांठेंसी पीड़ा रहित मूँग
 भर २ कीकफ वातसे उत्पन्न फुंसियां होतीहैंउन्हें भजगल्लिका
 कहतेहैं १ यवके भाकारकी बहुत कठिन गांठें सरीखी मांस के
 भाश्रित कफ और वातसे उत्पन्न फुंसियों को यवप्रख्या कहते
 हैं २ घनी विना मुखकी ऊँची गोली फुटाकियां कफ व वात से
 होती हैं पीत्र बहुतही कम निकलती हैं उनको अन्धाजली वा

डलाम् ॥ अंधालजीमल्पपूयांतांविद्यात्कफत्रातजाम् ३
 वितृतास्यांमहादाहां पकोदुम्बरसन्निभाम् ॥ परिमण्ड
 लाम्पित्तकृतां वितृतान्नामतोविदुः ४ ग्रथिताः पञ्चवा
 षट्का दारुणाःकच्छप्रोन्नताः ॥ कफानिलाभ्याम्पिडिका
 ज्ञेयाकच्छपिकाबुधैः ५ ग्रीवांशकक्षाकरपाददेशे संधौ
 गलेवात्रिभिरेवदोषैः ॥ ग्रंथिःसवल्मीकवदक्रियाणां जा
 तःक्रमेणैवगतःप्रवृद्धिम् ६ मुखैरनेकैःस्रुतितोदवद्भिर्वि
 सर्पवत्सर्पतिचोन्नताग्रैः ॥ वल्मीकमाहुर्भिषजोविकारं
 निःप्रत्यनीकंचिरजंविशेषात् ७ पद्मकार्णिकवन्मध्ये पि
 डिकाभिःसमाचिताम् ॥ इन्द्रविद्धंतुतांविद्याद्वातपित्तो
 स्थितांभिषक् ८ मंडलंवृत्तमुत्सन्नंसरक्तंपिडिकाचितम् ॥

अंधोरी कहते हैं ३ मुँहखुली हुई बड़े दाहवाली पकीगूलर भर २
 की गोली २ पित्तसे जो फोड़ियां होती हैं उनको वितृता कहते
 हैं ४ गँठिलाई हुई पांच व छः दारुण फल्लुहेकी पीठके समान
 ऊँची कफ व वात से जो फोड़ियां होती हैं उनको पण्डितलोग
 कच्छपिका कहते हैं ५ गला कांधा कांख हाथ पादोंमें वा जोड़ों
 पर वा गले के जोड़ पर तीनों दोषों से जो ग्रन्थि व्यमौर वा
 वामी के आकारकी होती है उसका उपाय न करने से क्रम से
 बढ़जाती है ६ उस में अनेक मुख होजाते हैं उनसे पीव वा
 पानी बहता है कोंचने कीसी पीड़ा होती है व आगे को ऊँची
 होकर विसर्प रोगकी नाई फैलती जाती है इस विकार को वैद्य
 लोग वल्मीक कहते हैं व औषध न करने से जब यह रोग प्रा-
 चीन होजाता है तो फिर नहीं मिटता ७ वात पित्त से उत्पन्न
 कमल की कली की तरह मध्य में व किनारे २ अन्य फुंसियों
 से घिरी हुई जो फुँसी होती है उरो इन्द्रवृद्धा कहते हैं ८
 वात पित्त से उत्पन्न गोला ऊँचा लाल जो चकंधा पड़ता है व

रुजाकरीगर्दभिकांतांविद्याद्वातपित्तजां ६ वातश्लेष्मस
 मुद्गतश्श्वयथुर्हनुसंधिजः ॥ स्थिरोमंदरुजःस्निग्धोज्ञेयः
 पाषाणगर्दभः १० कर्णस्याभ्यंतरेजातांपिडिकामुग्रवेद
 नाम् ॥ स्थिरापनसिकांतांतुविद्याद्वातकफोत्थिताम् ११
 विसर्पवत्सर्पतियःशोथःस्तनुरपाकवान् ॥ दाहज्वरकरः
 पित्तात्सज्ञेयोजालगर्दभः १२ पिडिकामुत्तमांगस्थावृत्ता
 मुग्ररुजाज्वराम् ॥ सर्वात्मिकांसर्वलिंगां जानीयादिरवि
 लिकाम् १३ बाहुपाश्यांसकक्षेषुकृष्णस्फोटांसवेदनां ॥
 पित्तकोपसमुद्भूतां कक्षामित्यभिनिर्दिशेत् १४ एकामे
 तादृशीदृष्ट्वापिडिकांस्फोटसन्निभाम् ॥ त्वग्गतांपित्त

उसके चारों ओर छोटी २ पिरकियां होती हैं व पीड़ा करती है
 उसको वैद्य गर्दभिकानाम से प्रसिद्ध जाने ६ व वात कफ से उ-
 त्पन्न चौहड़ी की सन्धि पर जो शोथ होता है व स्थिर रहता है
 पीड़ा उसमें थोड़ी होती है विकना होता है उसे पाषाण गर्दभ
 नाम रोग जानना चाहिये १० व वात कफ से उत्पन्न उग्रपीड़ा
 वाली फुंसी जो कानके भीतर में होती है उसका पनसिकानाम
 जानना चाहिये ११ व जो पित्त से उत्पन्न होकर विसर्प रोगके
 तुल्य इधर उधर फैलता रहता है शोथ थोड़ा ही होता है और प-
 कतानहीं दाह व ज्वर को करता है उसे जाल गर्दभरोग कहते हैं
 कहीं २ के लोग भाषा में इसी को भौंतुआभी कहते हैं १२ वात
 पित्त कफ तीनों से बड़ी पीड़ा करनेवाली गोल सबदोषों के चिह्नो
 से युक्त शिर में जो पिटिका होती है जिसमें कि ज्वरभी होता है
 उसे इरवल्लिका कहते हैं १३ बाहु कांख कांधे व पशुरियोंमें बड़ी
 पीड़ा कराती हुई पित्त के कोप से उत्पन्न काले रंग की फोड़िया
 होती है उसे कक्षा कहते हैं व देश भाषा में उसी को कँखवारि
 कहते हैं कहीं १ कँखौरी भी कहते हैं १४ जो इसी प्रकार की

कोपेनगन्धनाम्नीप्रचक्षते १५ कक्षाभागेषुयेस्फोटा जा
 यन्तेमांसदारणः ॥ अन्तर्दाहज्वरकरादीप्तपात्रकसन्नि
 भाः १६ सप्ताहाद्वादशाहाद्वा पक्षाद्वाहन्तिमानवम् ॥
 तामग्निरोहिणींविद्यादसाध्यांसान्निपातिकीम् १७ नख
 मांसमधिष्ठाय पित्तंवायुश्चदेहिनाम् ॥ कुर्वतेदाहपा
 कौच तंव्याधिचिप्पमादिशेत् ॥ तदेवालपतरैर्दोषैःकुन
 खम्परुपंवदेत् १८ गम्भीरामल्पसंरम्भां सवर्णामुपरी
 स्थिताम् ॥ पादस्यानुशयीन्तान्तुविद्यादन्तःप्रपाकिनीम्
 १९ विदारीकन्दवहृत्ता कक्षावंक्षणसन्धिषु ॥ विदारि
 काभवेद्रक्ता सर्वजासर्वलक्षणा २० प्राप्यमांसंशिराः

एक फुंसी अन्य फोड़ों कीसी त्वचा परहो व पित्तसे उत्पन्न हुई
 होतो उसेगन्धनाम्नीकहतेहैं देशभापामें इसे गँधौलीकहतेहैं १५
 कँखरीके भासपास व कँखरीही में जो सन्निपातसे फोड़े उत्पन्न
 होतेहैं व मांसहो गलादेते हैं व भीतरमेंदाह और ज्वरको करते
 रहतेहैं व प्रज्वलित अग्निकेतुल्य उष्णहोतेहैं १६ वे सातदिनमें
 व बारहदिनमें अथवा पन्द्रहदिनमें मनुष्यको मारडालतेहैं उन
 फोड़ोंको अग्निरोहिणी कहतेहैं यह स्फोटकसमूह असाध्यहोता
 है १७ वात और पित्त दोनों प्राणियोंकेनखों व मांसमें प्राप्तहोर
 दाह व पाकको करतेहैं उसव्याधिको चिप्पकहतेहैं व इसीमें जो
 कुछ धोड़ेही दोपहोतो इसीको कुनख कहते हैं १८ पादकेऊपर
 पैरकेचर्मकेही रंगकी छोटीरी व गहरीफोड़िया ह्योती हैं व उस
 के भीतर में पकजाता है उसे अनुशयी कहते हैं १९ विदारी-
 कन्दकीनाई गोल कांखमें वा जांघोंके पट्टोंमें अथवा किसी जोड़
 पर लालरंगकी व वातादि तीनों दोषों के लक्षणोंसे युक्त होती
 है उसे विदारिका कहते हैं २० कफ मेदस् और वात मांस व
 छोटी बड़ी नसोंमें पहुँचकर मधुवृत और वसाके आकारकीगांठ

त्सन्नमरुजं मण्डलं कफरक्तजम् ॥ सहजं लक्ष्मचैकेपां
 लक्ष्यो जंतुमणिस्तुसः ३४ अवेदनं स्थिरं चैव यस्मिन् गा
 त्रे प्रदृश्यते ॥ माषवत्कृष्णमुत्सन्नं वातान्माषकमादिशेत्
 ३५ नीलानितिलमात्राणि नीरुजानिसमानि च ॥ वात
 पित्तकफोत्सेकानान्विद्यात्तिलकालकान् ३६ महद्वायदि
 वास्वल्पं श्यावं वायुदियासितम् ॥ नीरुजमण्डलं गात्रे
 न्यच्छमित्यभिधीयते ३७ क्रोधायास्तप्रकुपितो वायुः पि
 त्तनसंयुतः ॥ मुखमागत्य सहसा मण्डलं विसृजेत्ततः ॥
 नीरुजंतनुकंश्यावम्मुखे व्यंगंतमादिशेत् ३८ कृष्णमेव

उठा हुआ पीड़ारहित मण्डल जन्मके साथही से मनुष्यमात्र
 के किसी न किसी अंगपर होता है उसे कोई लक्ष्म कोई लक्षण
 कोई लक्ष्य व कोई जंतुमणि कहते हैं इसका अंग विशेष पर
 होने से फल विशेष होता है ३४ पीड़ारहित स्थिर जहाँ होता है
 वहीं रहता है जिसी किसी अंगपर माप अर्थात् उर्दकी नाई दि-
 खाई देता है बहुधा काला होता है और ऊपर को उठा हुआ हो
 ता है यह वायुके दोषसे होता है इसको माप कहते हैं लोक में
 मसा कहते हैं अंगके अनुसार इसके भी शुभाशुभ फल होते हैं ३५
 व वात पित्त कफोंके दोषसे काले २ तिलों के समान सम व
 पीड़ारहित जो शरीरपर होते हैं उनको तिलकालक कहते हैं
 व लोकमें तिल कहते हैं ३६ और बड़ा वा अतिछोटा काला
 वा उजला पीड़ारहित मण्डल जो किसी अंगमें होता है उसे
 न्यच्छ कहते हैं ३७ पित्तयुक्त वायु क्रोध व श्रमसे कुपित होके
 मुखमें आकर एकाएकी मुखके ऊपर श्यामता लिये पीड़ारहित
 मण्डल वा चकंधा करदेता है वह बहुत पतला होता है टो-
 नेसे नहीं जानपड़ता उसे व्यंग कहते हैं व लोकमें भाई कहते
 हैं ३८ इसी प्रकारका मण्डल मुखमें वा अन्य किसी अंग में है

गुणं गात्रे मुखेवा नीलिकांविदुः ३६ मर्दनात्पीडनाद्वापि
 तथैवाप्यभिघाततः ॥ ३६ मेढूचर्ममयदावायुर्भजतेसर्व्वत
 इचरन् ४० तदावातोपसृष्टत्वात्तच्चर्मपरिवर्त्तते ॥ मणोर
 धस्तात्कोशस्तु ग्रंथिरूपेण लंबते ४१ सवेदनंसदाहञ्च
 पाकञ्चत्रजतिकंचित् ॥ परिवर्त्तिकांतुतांविद्यात्सरुजांवात
 सम्भवाम् ४२ सकंडूःकठिनाच्चापिसैवश्लेष्मसमुत्थिता
 ४३ अल्पीयस्स्त्रांयदाहर्षाद्दलाद्गच्छेत्स्त्रियन्नरः ॥ ह
 स्ताभिघातादथवाचर्मण्युद्धर्त्तितेवलात् ४४ मर्दनात्पीड
 नाद्वापिशुक्रवेगविघाततः ॥ यस्यावपाटयतेचर्मतांविद्या
 दवपाटिकाम् ४५ वातोपसृष्टेमेद्वेतु चर्मसंश्रयतेमणिम् ॥
 मणिश्चर्मोपनद्धस्तु मूत्रस्रोतोपिनद्धिच ४६ निरुद्धप्र

तो उसे नीलिका कहते हैं ३६ मर्दन करने से व रगड़ने से अथवा
 किसी प्रकार की चोट लगजानेसे सब कहीं घूमता हुआ पवन
 लिंगके चर्ममें पहुँचता है ४० तब वायुके कुपितहोने के कारण
 लिंग की खाल कुछ घूमजाती है इससे लिंग के अग्रभाग के नी-
 चे की खाल में गाँठ परके लटकने लगती है ४१ उसमें पीड़ा
 दाहहोता है कभी २ पकभी जाती है तब अधिक पीड़ा होती है
 यह रोग वात से होता है व परिवर्त्तिका इसका नाम है ४२
 व जिसमें पीड़ा नहीं होती खजुली होती है व कड़ीहोती है वह
 कफसे होती है वात से नहीं ४३ जब कोई पुरुष नवीन स्त्रीके
 संग बड़े हर्षसे अचानक बलके साथ मैथुन करने लगता है अथवा
 जवरदस्ती किसी स्त्रीके संग भोग करता है उस स्त्रीचा खँची से
 अथवा किसी कारण कड़े हाथके धक्के के लगजाने से अथवा जो-
 रसे उसके चमड़े के उधारने से ४४ मर्दनकरने से वा रगड़ने से
 अथवा शुक्रके वेगके रोकनेसे लिंगके ऊपरका चर्म फटजाता है
 उस रोगको अवपाटिका कहते हैं ४५ पवन के योग से लिंग का

कशेतस्मिन्मन्दधारमवेदनम् ॥ मूत्रम्प्रवर्त्ततेजंतोर्भाणि
 विव्रियतेनच ॥ निरुद्धप्रकशंविद्यात्सरुजंवातसंभवम्
 ४७ वेगसंधारणाद्वायुर्विहतोगुदसंश्रितः ॥ संरुणद्धिम
 हत्स्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ४८ ॥ मार्गस्यसौक्ष्म्यात्कृ
 च्छ्रेणपुरीषंतस्यगच्छति ॥ संनिरुद्धगुदं व्याधिमेनंवि
 द्यात्सुदारुणम् ४९ ॥ शकृन्मूत्रसमायुक्ते धौतेपानेशिशो
 र्भवेत् ॥ खिन्नेवाप्लाव्यमानेवाकंडूरक्तकफोद्भवा ५० ॥ कं
 डूयनात्ततःक्षिप्रं स्फोटसावश्चजायते ॥ एकीभूतंत्रणं
 घोरंतंविद्यादहिपूतनम् ५१ ॥ स्नानोत्सादनहीनस्यमलोत्

चर्म सूजजाताहै व शिश्नके अग्रभाग पर वद्वजाताहै इससे लिंग
 का अग्रभाग जिसे मणि कहते हैं वन्द होजाताहै व वह मूत्रके
 मार्गको रोकताहै ४६ जब इस प्रकार मूत्र मार्ग ढकजाता है
 तो मूत्रकीधार मन्द होजाती है पर पीड़ा नहीं होती थोड़ा र
 करके मूत्र उतरता है व मणिका मुख खोलने से नहीं खुलता
 फिर पीड़ा होने लगती है जब कि खाल खींचकर मणि को
 खोलना चाहते हैं यह रोग घात से उत्पन्न होताहै व निरुद्ध
 प्रकश इसका नाम है ४७ गुदमें रहने वाला अपान वायु मल
 के रोकने पर कुपित होकर गुदके छिद्रको रूँध लेताहै व छोटासा
 करदेताहै ४८ तो मार्ग छोटे होजानेके कारण बड़े कपसे उसका
 मल बाहर निकलता है इस महादारुणरोग कानाम सन्निरुद्धगुद
 है ४९ जब बालककी गुद मलमूत्र करनेपर धोई नहींजाती वा
 लड़का घाममें अधिकफिरताहै वाबहुत शीतजलसे नहाताहै तो
 रक्त व कफ के कोपसे उसकी गुदमें खजुली उठतीहै ५० तब ख
 जुलाने से शीघ्र फोड़ा होताहै वह फूटकर बहने लगताहै वस
 सबइकट्टे होकर घोर घावहोजाताहै उसका अहिपूतन नामहै ५१
 जो मनुष्य स्नान के समय अच्छेप्रकार गलहरी का मेल नहीं

षणसंश्रितः ॥ यदाप्रक्लिद्यतेस्वेदात्कंडूं सञ्जनयेत्तदा ५२
 कण्डूयनात्ततः क्षिप्रं स्फोटः सावश्च जायते ॥ प्राहुर्वृषण
 कच्छूतां श्लेष्मरक्तप्रकोपजाम् ५३ प्रवाहिकातिसारा
 भ्यां निर्गच्छति गुदं वहिः ॥ रूक्षदुर्बलदेहस्य तंगुदं
 शमादिशेत् ५४ सदाहोरक्तपर्यंतस्त्वक्पाकीतीन्निवेदनः
 कण्डूमानूज्वरकारीच सस्याच्छूकरदंष्ट्रकः ५५ ॥

इति क्षुद्ररोगनिदानम् ॥

दन्तेष्वष्टावोष्ठयोश्च मूलेषु दशपञ्चच ॥ कण्ठे त्रय
 स्सर्वसरा एकषष्टिचतुः परे १ आनूपपिशितक्षीर दधि

मलकर धोते मल उनके अण्डकोशों में जमजाता है वह जब गर-
 मीके कारण पसीना होता है तो खजुलाने लगता है ५२ व फिर
 खजुलाने से शीघ्रही वहांपर फोड़ा होजाता है व फूटकर बहने
 लगता है इसरोगको वृषणकच्छू कहते हैं व कफ रक्त के कोप से
 यह होती है ५३ रूखी व दुर्बल देहवाले पुरुषको जोर से कांख-
 कर दिशा फिरने से अथवा अतीसार रोग होने से गुद बाहर को
 निकल आती है इसरोगको गुदभ्रंश कहते हैं व देशभाषा में
 कांच निकलना कहते हैं ५४ जो रोग दाह सहित हो व उसके
 किनारे लाल हो त्वचा पक गई हो पीड़ावर्दी करता हो खजुआता
 हो व ज्वर भी उसके कारण से आता हो उसे शूकरदंष्ट्र रोग
 कहते हैं ५५ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे क्षुद्ररोग

निदानमूनपठितमम् ॥ ५६ ॥

दो० ॥ सठयें मँहँ मुखरोग के भाषे सकल निदान ॥

जिन्हें लाखत अल्पज्ञहू होते वैद्य सुजान १

मुख रोगों के निदान कहते हैं दांतों में ८ रोग होते हैं व ओ-
 ठों में भी ८ होते हैं व दांतोंकी जड़ों में १५ तालुमें ९ जीभ

मांषादिसेवनात् ॥ मुखमध्येगदान्कुर्युः क्रुद्धादोषाः क
 फोत्तराः २ कर्कशौपरुषौस्तब्धौ कृष्णौतीव्ररुजान्वि
 तौ ॥ दाल्येतेपरिपाट्येते श्रोष्ठौमारुतकोपतः ३ चीये
 तेपिडिकाभिश्च सरुजाभिःसमन्ततः ॥ सदाहपाकपि
 डिकापाताभासाचपित्ततः ४ सवर्णाभिस्तुचीयेते पिडि
 काभिस्वेदनौ ॥ भवतस्तुकफादोष्ठौ पिच्छलौशीतलौगु
 रू ५ सकृत्कृष्णौसकृत्पीतौ सकृच्छ्वेतौतथैवच ॥ सन्नि
 पातेतविज्ञेयावनेकपिडिकान्वितौ ६ खजूरीफलवर्णाभिः
 पिडिकाभिर्निपीडितौ ॥ रक्तोपसृष्टौरुधिरं स्रवतःशोणि
 तप्रभौ ७ मांसदुष्टौगुरुस्थूलौ मांसपिण्डवदुद्गतौ ॥ जं

में ५ कण्ठरोधक १७ व सर्व्वसर ३ ये सब मिलकर ६५ रोग
 गले से ऊपर भाग में होते हैं ३ मुखरोगोंकी सम्प्राप्ति जलचारी
 वा जल के किनारे रहने वाले जन्तुओंका मांस दुग्ध दधि व उद्वि
 की वस्तु आदि एकही संग खाने से कफ की अधिकता से युक्त
 दोष क्रुद्ध होकर मुखके भीतर रोगोंको करते हैं २ वायु के कोपसे
 कर्कश कड़े तनेहुये काले तीव्र पीड़ासे युक्त दोनों श्रोष्ठ होजाते
 हैं इसहेतु उनमें पीड़ा होने लगती है व फिर फटजाते हैं ३ व
 पित्त के दोपसे श्रोष्ठोंपर चारों ओर से पीड़ा सहित फुटके पड
 जाते हैं उनमें दाह होने लगताहै व उनका रंग पीला होताहै ४
 कफ के दोपसे दोनों श्रोष्ठोंपर श्रोष्ठही के रंगके फुटके पडजाते हैं
 पर उनमें कुछ पीड़ा नहींहोती व भीठ चिकने शीतल व गरु
 ये होजाते हैं ५ जब श्रोष्ठों में अनेक फुटके पड़े व कभी कालेहो
 जायें कभीपीले कभीउजले तौउनकी सन्निपातसे उत्पन्न जानना
 चाहियेदरक्तकी खराबीसे श्रोष्ठके खजूरके फलोंके रंगके फुटकों
 से युक्तहो पीडित होते हैं व रुधिर टपकनेलगताहै श्रोष्ठ रुधिर
 के रंगके होजाते हैं ७ मांस दुष्ट होजानेसे दोनों श्रोष्ठ भारीमोदे

तवश्चात्रमूर्च्छति नरस्योभयतोमुखात् -८, सर्पिर्मण्डप्र
तीकाशौमेदसाकण्डुरौगुरु ॥ अचञ्चंस्फटिकसंकाश मा
सावंस्रवतोभृशम् ॥ तयोर्ब्रणोनसंरोहेन्मृदुत्वन्नैवगच्छ
ति ६ ओष्ठौपर्यवदीर्यतेपीड्येतेचाभिघाततः ॥ अथि
तौचतदायातौ कण्डूहेदसमन्वितौ -१० शोणितन्दन्त
वेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्प्रवर्त्तते ॥ दुर्गन्धीनिसकृष्णानि प्र
हेदीनिमृदूनिच ११ दन्तमांसानिशीर्यते पचन्तिचपर
स्परम् ॥ सीतादोनामसव्याधिः कफशोणितसंभवः १२
दंतयोस्त्रिषुवायस्य श्वयथुर्जायतेमहान्-॥ दंतपुष्पुटको
नाम सव्याधिःकफरक्तजः १३ स्रवंतिपूयंरुधिरं चला

मांसके पिण्डकीनाई ऊंचे होजाते हैं व दोनों ओठों में अथवा
एकही में उस मांस पिण्ड में कीड़े पड़जाते हैं ८ जब मेदस्
में विकार होजाता है तो उसके कारण दोनों ओठों पर घृत के
मॉड़ के तुल्य छाजाताहै इससे ओठ खजुलाने लगते हैं व भारी
होजाते हैं व उनसे फिटकरी के तुल्य उजलारस बहने चूने ल-
गता है व ओठोंकाघाव नहीं पूरता व न उनमें कोमलता आती
है ६ व जब ओष्ठोंमें किसीप्रकारकी चोट लगजाती है तो फट-
जाते हैं व पीड़ाहोने लगतीहै फिर उनमें गाँठ पड़जाती है उन
में खजुली उत्पन्नहोती है व कुछ ललभर पानी बहने लगताहै
१० जिसके मुसुकुरों से अकस्मात् रुधिर बहता है उसके दांतोंके
मांस दुर्गन्धियुक्त काले कोमल व टीसतेरहते हैं ११ व फटजाते
हैं फिर परस्पर मिलकर पकउठतेहैं यह रोग कफ और रुधिरके
कोपसे होता है व सीताद इसकानामहै १२ जिसके दो वा तीन
दांतोंके मुसुकुरोंमें बड़ी सूजन होआतीहै उसके कफ व रक्त के
कोपसे दन्त पुष्पुटनामसे प्रसिद्ध रोगहोताहै १३ दुष्टरुधिर होनेके
कारण दांतोंकीजड़से पीव रुधिर बहनेलगते हैं व दांतहिलनेलग-

दंता भवन्ति च ॥ दंतवेष्टः स विज्ञेयो दुष्टशोणितसंभवः १४
 श्वयथुर्दंतमूलेषु रुजावान्कफरक्तजः ॥ लालास्रावीसं
 विज्ञेयः सौपिरो नामनामतः १५ दंताश्चलन्ति वेष्टेभ्य
 स्तालुचाप्यवदीर्यते ॥ यस्मिन्ससर्वजो व्याधिर्नमहासौ
 पिरसञ्ज्ञकः १६ दंतमांसानि शीर्यन्ते यस्मिन् नृष्ठीवति
 चाप्यसृक् ॥ पित्तासृक्कफजो व्याधिर्ज्ञेयः परिदरो हि सः
 १७ वेष्टेषु दाहपाकश्च ताभ्यां दंताश्चलन्ति च ॥ अत्रा
 कृताः प्रस्रवन्ति शोणितं मंदवेदनाः १८ आध्मायन्ते स्तु
 तेरक्ते मुखे पूतिश्च जायते ॥ यस्मिन्नुपकुशो नाम पित्तरक्त
 कृतोगदः १९ धृष्टेषु दंतमूलेषु संरंभो जायते महान् ॥ भ
 वन्ति चंचला दंताः सर्वे दर्भोभिघातजः २० मारुतेनाधि
 तेहै इसरोगका दन्तवेष्टनामहै १४ कफ व रक्तके विकारसे दाँतों
 की जड़ोंमें पीड़ायुक्त सूजन होती है व लार बहने लगती है इसरोग
 को सौपिर कहते हैं १५ व जिसमें मुसुकुरों से सब दाँत हिलने
 लगते हैं व तालुभी फटजाती है यह रोग यातादिक तीनोंके को-
 पसे होता है व महासौपिर इसका नाम है १६ जिस रोगमें थूँकने
 पर रुधिर बहता है उसमें दाँतोंका मांस गलता है यह रोग पित्त
 रक्त व कफसे उत्पन्न होता है व परिदर इसका नाम है १७ जिस
 रोगमें मुसुकुरोंमें दाहहो ध पक जायँ इन दोनोंके कारण दाँत
 हिलने लगें व बोलनेमें कष्टहो व रुधिर सर्वासे बहतारहै पीड़ा
 धोड़ी रहतीरहै १८ व रक्त बहजानेके पीछे फिर मुसुकुर सूज
 भावें व मुखमें दुर्गन्धि आनेलगें यह रोग पित्त और रक्तसे उत्प-
 न्नहोता है व उपकुश इसका नाम होता है १९ मुसुकुर परस्पर
 रगड़जानेसे सूजनहोभाती है व दाँत हिलने लगतेहै यह रोगला-
 ठी आदिकी चोटलगनेसे होता है इसका वैदर्भनाम है २० वायु
 के योगसे दाँतके ऊपर दूसरा दाँत जमआता है उसमें बड़ी पीड़ा

कोदंतो जायते तीव्रवेदनः ॥ खल्लीवर्द्धनसंज्ञोसौ जाते
रुकचप्रशाम्यति २१ शनैःशनैःप्रकुरुते वायुर्दंतसमा
श्रितः ॥ करालान्विकटान्दन्तान्करालोनससिद्धयति २२
हानव्येपश्चिमेदंते महाशोफोमहारुजः लालास्रावीक
फकृतो विज्ञेयःसोधिमांसकः २३ दंतमूलगतानाड्यः
पंचज्ञेया यथेरिताः २४ दार्यमाणेष्विवरुजाः । भृशंदंतेषु
जायते ॥ दालनोनामसव्याधिः सदागतिनिमित्तजः २५
कृष्णच्छिद्रश्चलस्त्रावी ससंरम्भोमहारुजः ॥ अनि
मित्तरुजोवातात्सज्ञेयःकृमिदंतकः २६ वक्त्रं वक्रं भवेद्य

होती है जब वनाय जमभाता है तो पीड़ा बन्द होजाती है इस
रोगको खल्लीवर्द्धन कहते हैं २१ वायु दाँतोंकी जड़ों में रहता है
व धीरे २ दाँतों को टेढ़ेमेढ़े कराल करदेता इसीसे इसनामसे प्र-
सिद्धरोगहोजाता है यह करालनाम रोग असाध्य होता है २२
चौहड़ी के पीछेवाले दाँत के पीछे बहुतसा मांस सूजभाता है
उसमें बड़ीपीड़ा होती है व लार चूती रहती है इस रोगको
अधिमांसक कहते हैं व कफाधिक्य से यह होता है २३ जैसे
नाड़ीव्रणके निदान में वात पित्त कफ सन्निपात आगन्तुक
नाम से प्रसिद्ध ५ नाड़ी व्रण कहआये हैं वैसेही दाँतोंकी जड़ों
में भी ५ प्रकारके नाड़ी व्रणहोते हैं २४ जिससे दाँतों में फटे
जातेकीसी पीड़ा होती है उसरोग का दालन नाम है और यह
सदा गति कहे वायु के निमित्तसे होता है २५ जिसरोग से दाँत
में काला छेद होजाता है वह दाँत हिलने लगता है व उसमें
से कुछ वहता भी रहता है सूज भाता व बड़ी पीड़ा होने लग-
ती है वहपीड़ा योंही बिनाकारण के हुआकरती है, यहरोग वात-
से होता है व कृमिदन्त इसका नाम है २६ जिसका मुख टेढ़ा
होजाता है व दाँत टूटजाते हैं यहरोग कफ वात से होता है व

स्थ दंतभंगश्चजायते ॥ कफवातकृतोव्याधिः सभंजन
 कसंज्ञितः २७ शीतरूक्षप्रवाताम्लस्पर्शानामसहाद्वि
 जाः ॥ पित्तमारुतदोषेण दंतहर्षःसनामतः २८ मलोदं
 तगतोयस्तु पित्तमारुतशोषितः ॥ शर्करेवखरस्पर्शा
 साज्ञेयादंतशर्करा २९ कपालोष्णिवदीर्णेषु दंतानांसैव
 शर्करां ॥ कपालिकेतिविज्ञेया सदादंतविनाशिनी ३०
 योसृग्मिश्रेणपित्तेन दग्धोदंतस्त्वशेषतः ॥ श्यावतांनी
 लतांवापिगतःसश्यावदंतकः ३१ वातेनतैस्तैर्भात्रैस्तु
 हनुसन्धिविसंहतः ॥ हनुमोक्षइतिज्ञेयो व्याधिरर्दितल
 क्षणः ३२ जिह्वानिलेनस्फुटिताप्रसुप्ता भवेच्चशाकच्छ

दन्तभञ्जन इसका नामहै २७ जिस रोगमें शीत रूखा पदार्थ
 खटा इनको दाँत नहीं सहसके उसरोगका दन्तहर्षनाम है व
 पित्तवात के कोपसे वह होता है २८ जिसरोग में दाँतों का मैल
 पित्तवातसे सूखजाताहै फिर बालूकीनाई खिसखिसाने लगताहै
 उसरोगको दन्त शर्करा कहतेहैं २९ जिस दाँतमें ऐसामैल जम
 जाय कि उसकी खिसखिसाहटसे मानो भुँदही फटाजाताहै इस
 दन्तनाशक रोगको कपालिका रोग कहतेहैं ३० जो दाँत रक्तमि-
 लेहुये पित्त से जलकर सत्र का सब काला वा नीलाहोजाय वह
 रोग श्याव दन्तक कहाता है ३१ वातसे वा अन्य २ किसी योग
 से जिसकी दाही का जोड़ अपने स्थान से उखड़ जाय उसरोग
 कोहनुमोक्ष कहतेहैं उसके भर्दित रोगके से लक्षण होतेहैं ३२
 वातसे जब जीभ फटजाती है उसको किसी वस्तुका स्वादुनहीं
 जानपड़ता व शाकके पत्ते के तुल्य वह खरखरी होजाती है यह
 एक जिह्वा का रोगहै व पित्तके योग से जब जीभपीली होजाती
 है तो वह जलने लगती है व लम्बेलाल कांटेभी जीभ के ऊपर
 होजातेहैं व कफसे जब जिह्वा युक्त होती है तो गरू व बड़ी

दनप्रकाशा ॥ - पित्तेनपीतापरिदह्यतेचदीर्घैःसरक्तेर
 पिसंकटेश्च ॥ कफेनगुर्वीवहुलाचिताच मांसोच्छ्रयैःशा
 ल्मलिकंटकामैः ३३ जिह्वातलेयःश्वयथुःप्रगाढः सोला
 ससंज्ञःकफरक्तमूर्तिः ॥ जिह्वांसतुरस्तम्भयतिप्रवृद्धो मूले
 चजिह्वाभृशमेतिपाकम् ३४ जिह्वाग्ररूपःस्वयथुःसजि
 ह्वामुन्नम्यजातःकफरक्तमूर्तिः ॥ लालाकरःकण्डुयुतःस
 चोषः सातूपजिह्वापठिताभिषग्भिः ३५ इलेष्मासृग्भ्यां
 तालुमूलात्प्रवृद्धोदीर्घःशोफोध्मातवस्तिप्रकाशः ॥ तृ
 ष्णाकाशश्वासकृत्संवदान्त व्याधिर्वैद्याःकण्ठशुंठीतिना
 म्ना ३६ शोफःस्थूलस्तोददाहप्रपाकीप्रागुक्ताभ्यांतुं
 डकेरीमतातु ॥ शोफःस्तब्धोलोहितस्तालुदेशे रक्ताङ्गे
 यस्सोऽध्रुवोरुक्ज्वरश्च ३७ कूर्मोत्सन्नोवेदनोऽशीघ्रज

होजाती है व नीरसहोजातीहै व सेमरके कांटोंकेतुल्यउत्तरऊँचे
 मांसके कांटेहोजाते हैं ३३ जीभ के नीचे जो बहुत शोथ होजा
 ताहै व जो कफरक्तकी मूर्तिही होताहै उसे ब्रज्जात कहते हैं यह
 रोग बढजाने पर जीभको रोकताहै व जीभको जड़ विग्रेय करके
 पाकजाती है ३४ जीभके अग्रभागमें जो तूजन होजातीहै व जीभ
 को उठाकर किनारे ऊँचे और बीचमें खाली करदेती है यहरोग
 कफ व रक्तसे उत्पन्न होताहै व उसमें लारबहुतबहती है खजुली
 उठनी रहतीहै शोथहोताहै क्ये लोग इसरोगको उपजिह्वा कहते
 हैं ३५ अब तालुगत ६ रोग कहते हैं कफ व रक्तसे तालुकोजड़ते
 उत्पन्न बडालम्बा चौडा शोथ फूलकर पेड़के तुल्य ऊँचा होजाता
 है उसके ऐसे होने से पिपासा श्वास खाँतीये उत्पन्न होतेहैं इस
 रोगको वैद्य कण्ठशुण्ठी कहते हैं ३६ व कफ रक्तसे जो उसी
 स्थानपर शोथहो और उसमें शूल दाह हो व पकउठे तो उसे तु-

न्मा रोगो ज्ञेयः कच्छपः श्लेष्मणा वा ॥ पद्माकारं तालुमध्ये
 तु शोफं विद्याद्रक्तादर्वुदं प्रोक्तलिंगम् ३८ दुष्टमांसनीरु
 जं तालुमध्ये कफाच्छूनमांससंघातमाहुः ॥ नीरुक्स्था
 यीकोलमात्रः कफात्स्यान्मेदोयुक्तः पुष्पुटस्तालुदेशे ३९
 शोपोत्यर्थदीर्यते चापितालुः श्वासश्चोग्रस्तालुशोषोनि
 लोत्थः ॥ पित्तकुर्थात्पाकमत्यर्थघोरं तालुन्येवं तालुपा
 कं वदन्ति ४० गलेनिलः पित्तकफोचमूर्च्छितौ प्रदूष्यमां
 संचतथैव शोणितम् ॥ गलोपसंरोधकरस्तथांकुरैः निहं
 त्यसूनव्याधिरयंतुरोहिणी ४१ जिह्वासमंताद्भृशवेद
 नास्तमांसांकुराः कंठनिबंधनाः स्युः ॥ सारोहिणीवात

गिडकेरी रोग कहते हैं व जो शोथ तालु स्थानमें लाल व ऊपर
 को तना हुआ होता है व कोंचता रहता है उसमें पीड़ा व ज्वर भी
 होते हैं इस रोगको अघ्रुव कहते हैं ३७ व कफसे उत्पन्न कच्छपेकी
 पीठकी नाई जो रोग ऊपरको उठा हुआ भटपट तालुमें हो आ
 ता है वह कच्छपरोग कहाता है व कमलके आकार जो तालुके
 मध्यमें शोथ होता है वह रक्तसे होता है उसके लक्षण—जैसे रक्ता
 व्वुद के निदानमें कह आये हैं वैसेही जानना क्योंकि इसीसे
 इसका भी अर्वुदही नाम रक्त्वागया है ३८ व कफसे मांस दुष्ट
 होकर पीड़ा रहित तालुके मध्यमें अंकुर सा उठ आता है उसे मांस
 संघात कहते हैं व तालु देशमें कफ व मेदस् से जो मांसका अंकुर
 बेर भरका अचल हो व उसमें पीड़ा न होती हो तो उसे पुष्पुट
 रोग कहते हैं ३९ व वायुसे तालु अत्यन्त सूजकर उग्र श्वासको
 उत्पन्न करती है व सूखजाती है उसे तालु शोपरोग कहते हैं व
 इसी प्रकार यदि पित्त तालु में अत्यन्त शोपकरे व वह फिर पक
 उठे तो उसरोगको तालुपाक कहेंगे ४० कण्ठगत १७ रोग होते
 हैं उनमें के पांच कहते हैं कण्ठ में पवन पित्तकफ प्राप्त होके मांस

कृताप्रदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढयुक्ता ४२ क्षिप्रोद्गमा
 क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरापित्तनिमित्तजास्यात् ॥ सू-
 तोनिरोधीन्यपिमन्दपाका स्थिरांकुरांयाकफसंभवासा
 ४३ गम्भीरपाकीन्यनिवार्यर्वायर्वा त्रिदोषलिंगात्रित
 योत्थितासा ॥ स्फोटैश्चितापित्तसमानंलिंगा साध्याप्र-
 दिष्टारुधिरात्मिकात् ४४ कोलास्थिमात्रःकफसंभवोयो
 ग्रन्थिर्गलेकंठकशूकभूतः ॥ खरःस्थिरःशस्त्रनिपातसाध्य
 स्तंकंठशालूकमितिब्रुवंति ४५ जिह्वाग्ररूपःश्वयथुःकफा
 तुजिह्वोपरिष्ठादपिरक्तमिश्रात् ॥ ज्ञेयोधिजिह्वःखलु

व रुधिरको दूषितकर गलरूथनेवाले अंकुरोंको उत्पन्न करतेहैं तो प्राणोंको यह रोहिणीनाम रोग मारडालताहै ४१ व यही रोहिणी रोग जबकेवल वातसेउत्पन्नहो व जीभकी सबओर अत्यन्तपीड़ा करनेवाले मांसके अंकुरोंको उत्पन्नकरे जो कि कण्ठको रूथले तो वातात्मक उपद्रवों से युक्त यह वातरुतारोहिणी कहातीहै ४२ व जो वही रोहिणी पित्तसे उत्पन्नहो तो वह भूटहो आती है व भूट दाहकरनेलगती है पकभी भूटपट जाती व तीव्रज्वर उत्पन्न करती है उसे पित्तजा रोहिणी कहते हैं कफजा रोहिणी के लक्षण—यह छिद्रोंको रोकलेती है व पकती कम है अंकुर इसके स्थिर होतेहैं ४३ तीनों दोषों से उत्पन्न रोहिणी के लक्षण—इसमें बहुत गरुमा पाक होता है व कोई इसके वीर्य को निवारण नहीं करसक्ता व वातपित्त कफ तीनों के चिह्न इस में होतेहैं क्योंकि यह तीनोंसे उत्पन्नहोती है यह प्राणको हरलेती है इसरोगको कंठावरोध भी कहते हैं व यही रोग जब रुधिर से उत्पन्न होता है व उसमें फोड़े बहुत होते हैं व अन्य सब लक्षण पित्त के होते हैं तब यह रोग साध्य कहाजाता है ४४ कंठ शालूकरोगके लक्षण—जो रोग कफसे उत्पन्नहो वेरकी अँठु-

रोगएव विवर्जयेच्चागतपाकमेनम् ४६ वलासमवायतमु
 ज्ञतंचग्रंथिकरोत्पन्नगतिंनिवार्य्य ॥ तंसर्वथैवाप्रतिवार्य
 वीर्य्यविवर्जनीयंयत्नयंत्रदंति ४७ गलेतुशोफंकुरुतःप्र
 वृद्धो श्लेष्मानिलौश्यासरुजोपपन्नम् ॥ मर्मच्छिद्रदंदुस्तर
 मेनमाहुर्वलाससंज्ञंतिपुणाविकारम् ४८ वृत्तोन्नतोतः
 श्वयथुःसदाहःकंड्वान्वितोऽपाकमृदुर्गुरुश्च ॥ नाम्ने
 कवृन्दःपरिकीर्तितोसौ व्याधिर्वलासक्षतजप्रसूतः ४९
 समुन्नतं वृत्तिममन्ददाहन्तीवृज्वरंवृन्दमुदाहरन्ति ॥ त
 उचापिपित्तक्षतजप्रकोपा द्विधात्सतोदम्पवनात्मकञ्च
 ५० वर्तिर्घनाकण्ठनिरोधनीया चितातिमात्रंपिशितप्र

लीभरकी गाँठ गलेमेंहो व काँटेकी नोककी नाई नुकाले अंकुर
 उसके ऊपरहो गाँठ स्थिर व खरखरीहो तो यह रोग तीक्ष्ण चा-
 कू छुरी आदि से चीरने के योग्य होताहै इसको वैद्यलोग कंठ
 शालूक कहते हैं ४५ जीभके ऊपर जीभकी फुनगीकी तरहका
 शोथ कफसे व रक्तसे होताहै इसरोगका अधिजिह्वनामहोताहै
 जययह पकजाय तो फिर इसे छोड़देनाचाहिये क्योंकि यह पकने
 पर फिर नहीं अच्छा होता ४६ कफही लम्बी चौड़ी ऊंची गाँठ
 को अन्नकी गतिको रोककर करता है वह सर्वथा किसीके रोक
 ने के मानकी नहीं होती इस्से इसे त्यागदेना चाहिये इसरोग
 को बलय कहते हैं ४७ कफ वात दोनों जब बढ़जाते हैं तो गलेमें
 शोथको उत्पन्न करते हैं उस शोथमें पीड़ा होती है व सुकुमार
 स्थानको यह काटताहै इससे बड़ा दुस्तर रोग होता है निपुण
 लोग इसे वलासरोग कहते हैं ४८ कफ रक्तसे उत्पन्न गोल ऊँचा
 भीतर शोथ दाह खजुली युक्त कोमल व गरू होता पकता नहीं
 है इसका नाम एक वृन्दरोगहै ४९ गलेमें ऊँचा गोल अति दाह
 युक्त तीव्र ज्वरकारी जो रोग होता है उसे वृन्द कहतेहैं यह पित्त

रोहेः ॥ अनेकरुक्प्राणहरीत्रिदोषाज्ज्ञेयाशतघ्नीतुशत
 धिनरूपा ५१ ग्रन्थिर्गलेत्वामलकास्थिमात्रः स्थिरोल्प
 रुक्स्यात्कफरक्तमूर्तिः ॥ संलक्ष्यतेसक्तमिवासनञ्च स
 शस्त्रसाध्यस्तुगिलायुसंज्ञः ५२ सर्वगलंव्याप्यसमुत्थि
 तोयः शोफोरुजःसन्तिचयत्रसर्वाः ॥ ससर्वदोषोगलवि
 द्रधिस्तुतस्यैवतुल्यःखलुसर्वजस्य ५३ शोफोमहानन्न
 जलावरोधी तीव्रज्वरोवायुगतेर्निहन्ता ॥ कफेनजातोरु
 धिरान्वितेन गलेगलौघः परिकीर्त्यतेसौ ५४ यरतान्यमा

व रक्तके कोपसे होताहै व जो वातके दोषसे होताहै उसमें सुईसे
 कोंचनेकीसी पीड़ाहोती है ५० कंठमेंकुछ लम्बी कड़ी सूजनहोती
 है वह गलेको रूंधलेती है इसके ऊपर व चारोंओर मांसके अंकुर
 होते हैं व अनेकप्रकार की पीड़ाओंको करती है यहांतक कि प्राण
 को हरलेती है क्योंकि यह सन्निपात से उत्पन्न होती है इसका
 शतघ्नी नामहै क्योंकि जैने शतघ्नी अर्थात् तोय सैकड़ोंको मार
 डालती है ऐसेही यह भी सैकड़ों के प्राण लेती है इसी से शत-
 घ्नी यह अन्वर्थ नाम इसका धरायागया है ५१ गले में जो
 गांठ अमलेकी गुठलू वा अँठुली के तुल्य स्थिर व थोड़ी पीड़ा
 वाली कफरक्तसे उत्पन्न होती है इससे भोजन करने में कष्ट
 विदित होताहै पर अच्छे तीक्ष्णशस्त्र छुरी चाकू नहनीछुराआदि-
 से चीड़ने के योग्य होती है इसका गिलायुनाम होताहै इसीका
 अपभ्रंश गिलटी शब्द विदित होताहै ५२ जो शोथ सबगलेभर
 में व्याप्त होकर उठताहै व पीड़ा नानाप्रकार की इस में वात
 पित्त कफ तीनों के लक्षणोंकी होती है यह तीनों दोषों केहीयोग
 से होती भी है इसका नाम गलविद्रधिहै जैसे सब दोषोंसे उत्पन्न
 विद्रधि रोगका निदान कह आये हैं वैसेही सब लक्षण गल वि-
 द्रधिके भी जानने चाहिये ५३ रुधिर युक्त कफ से उत्पन्न जो

नःश्वसितिप्रसक्तम्भिन्नस्वरःशुष्कविमुक्तकण्ठः ॥ कफो
 पदिग्धेष्वनिलायनेषु ज्ञेयःसरोगःश्वसनात्स्वरध्वनः ॥ ५५
 प्रतानवान्यःश्वयथुःसुकष्टोगलोपरोधंकुरुतेक्रमेण ॥ स
 मांसतानःकथितोऽवलंबीप्राणप्रणुत्सर्वकृतोविकारः ५६
 सदाहतोदंश्वयथुंसुतीव्रमन्तर्गलेपूतिविशीर्णमांसम् ॥
 पित्तेनत्रिद्याहृदनेविदारीम्पाश्चैविशेषात्सतुयेनशेते ५७
 स्फोटैःसतोदैर्ददनंसमंताद्यस्याचितंसर्वसरःसत्रातात् ॥
 रक्तैःसदाहैःपिडिकैसपीतै र्यस्याचितंचापिसपित्तकोपात्
 ५८ अवेदनैःकण्डुयुतैस्सवर्णैर्यस्याचितंचापिसवैकफे

वड़ा भारी शोथगले में होता है व अन्न जल दोनोंको भीतर नहीं
 जाने देता तीव्र ज्वर को करता है व वायु की गतिका भी नाश
 करता है भीतर से न बाहरको आनेदे न बाहर से भीतर जाने
 देता है इसरोगको गलौघ कहते हैं ५४ वायु की द्वारा भीतर
 शब्द आने जाने के मार्गों में जब कफ लपटजाता है वह रोग
 वायु के फिर न जाने आने से स्वरको भंग करदेता है उस
 कफ के खींचने के लिये जब मनुष्य जोर से खांसता ख्यँखा-
 रताहै तो नेत्रोंके आगे अँधेरासा होजाता है व उस श्वास का
 धक्का लगने से कफ सूखजाता है व कफ के भाँठें जो गले में
 लपटे होते हैं वे गिरते नहीं इसरोगको स्वरध्वन कहते हैं ५५ व
 गले में जो शोथ होकर धीरे २ सर्वत्र गले में फैलजाता है व
 बड़ेकण्ठसे युक्तहोता है गलेभरको रूंधलेता है उसका मांसतान
 नामहै व प्राणोंका नाशक होता है यह सन्निपात से होता है ५६
 गले के भीतर दाह व कोंच सहित अति तीव्र शोथ जो होता है
 व फूटने पर उसके मांसमें दुर्गन्धि आती है यह पित्त से होता
 है सो मुख में बहुधा उसी और होता है प्राणी जिस करवट से
 बहुधा सोता है इसरोगका विदारी नाम है ५७ मुख के ऊपरके

न ५६ ओष्ठप्रकोपेवज्यास्स्युर्मांसकोपप्रकोपजाः ॥ दन्तमू-
लेपुवज्यौतु त्रिलिंगगतिशौषिरौ ६० दन्तेपुचनसिद्ध्यं-
तिश्यावदालनभञ्जनाः ॥ जिह्वातलेष्वलासस्तुतालव्ये-
ष्वर्बुदन्तथा ६१ स्वरधनोवलयोवृन्दो वलासञ्चविदा-
रिका ॥ गलौयोमांसतानश्च शतधनीरोहिणीगले ६२
असाध्याः कीर्तिताह्येतेरोमानवदशैवतु ॥ तेषुचापिक्रि-
यात्रैद्यःप्रत्याख्यायसमाचरेत् ६३ ॥ इतिमुखरोगनिदानम् ॥
समीरणःश्रेत्रगतोन्यथाचरन्समंततश्शूलमतीवकर्णं

तीन रोगोंका निदान कहते हैं चुनचुनी सहित फुंसियों से युक्त वातसे उत्पन्न मुख के ऊपर जो सर्व्वसर नाम रोगहोता है उस में मुखभर पर छोटे २ फुटके होते हैं व जिसके मुखपर लाल २ दाह सहित छोटे २ फुटके हों व कोई २ पीलेभीहों वह पित्त के कोपका सर्व्वसर रोगहै ५८ व जिसमें पीड़ा रहित खजुली युक्त शरीर के चमड़ेके रंगके फुटके मुखभर परहोते हैं वह कफज सर्व्वसर रोग कहाता है ५९ असाध्य मुखरोगों के लक्षण—ओष्ठज रोगोंमें मांसज रक्तज व त्रिदोष रोग वज्ज्यकहे हैं व दन्तमूलके रोगों में सन्निपात नाड़ी व शौषिर ये दो वज्ज्य हैं ६० व दन्त रोगोंमें श्यावदालन व भञ्ज ये तीन असाध्यहोते हैं व जिह्वाके नीचेके रोगोंमें अलास असाध्यहोताहै व तालुरोगमें अर्बुद ६१ व गलरोगोंमें स्वरधन वलय वृन्द वलास विदारिका गलौघ मांस तान शतधनी व रोहिणी ये असाध्य हैं ६२ ये १९ रोग असाध्यहैं विनाऔषधकिये अवश्यही रोगी मरताहै परऔषध करनीचाहिये कदाचित् रोगीवचीजाय इससे वैद्यकोचाहिये कि औषधकरे ६३ ॥ इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेमुखरोगनिदानंपष्टितमम् ६० ॥
दोहा ॥ इकसठयें महँ कर्णगत रोगन केर निदान ॥

देखहिं सुजन लगायचित सकलब्रह्मवलवान १

योः ॥ करोतिदोषैश्चयथास्वमावृतः सकर्णशूलः कथि
 तोदुरासदः १ कर्णस्रोतःस्थितेवातेशृणोतिविविधान्स्व
 रान् ॥ भेरीशंखमृदंगानां कर्णनादःसउच्यते २ यदाश
 व्दवहंस्रोतो वायुरावृत्यतिष्ठति ॥ शुद्धइलेष्मान्वितोवा
 पिवाधिर्यतेनजायते ३ वायुःपित्तादिभिर्युक्तो देणुघोषो
 पमंस्वनम् ॥ करोतिकर्णयोःक्ष्वेडं कर्णक्ष्वेडःसउच्यते ४
 शिरोभिघातादथवानिमज्जतो जलेप्रपाकादथवापिविद्र
 धेः ॥ स्ववेद्वियुंश्रवणोनिलार्दितः सकर्णसंस्त्रावइतिप्र
 कीर्तितः ५ मारुतःकफसंयुक्तःकर्णकण्डूंकरोतिच ॥ पि

कर्णशूलरोगका निदान—वायुकानों के भीतर में आकर कफ
 पित्त व रक्तमें मिलके इधर उधर घूमताहै तब कानोंमें अत्यन्त
 शूल करताहै इस रोगको कर्णशूल कहते हैं यह दुःखसाध्यहोता
 है १ कर्णनाद रोगका निदान—जब वात कानों के छेदों में भर
 होताहै तो नगारे मृदंग शंखकेसे विविध प्रकारके शब्द सुनाई
 देतेहैं इस रोगको कर्णनाद कहतेहैं २ जब शब्दपहुँचानेवालीनस
 में प्रवेशकरके वायु उसे आच्छादित करके ठहरजाताहै सो चाहे
 अकेला वायु चाहे कफ सहित वायु ठहरताहै तो उससे वाधिर्य
 रोग कहते हैं इसीको भाषामें बहिरा होजाना कहते हैं ३ पित्ता-
 दिकोंसे युक्तढाकर जब वायु कानोंमें वाँसुरीके शब्दकेतुल्यशब्द
 को करताहै इससे अनेक प्रकारके और भी वर्णात्मक शब्द सु-
 नाई देते हैं उस रोगको कर्णक्ष्वेड कहते हैं ४ शिर में कहीं चोट
 लगजानेसे अथवाजल में बुझी मारकर स्नान करने से वा अन्य
 किसी कारण से पकजानेसे वा कान में फोड़ा होनेसे तब वातसे
 पीडित कानसे पीव बहने लगती है इसरोगको कर्णसंस्त्राव क-
 हते हैं ५ वकफ युक्त वात कान में खजुली को उत्पन्न करताहै उस
 रोगको कर्ण कण्डू कहते हैं व पित्त की उष्णतासे जब कफ सूख

त्तोष्णशोषितः श्लेष्मा जायते कर्णगूथकः ६ सकर्णगूथो
 द्रवतायद्रागतो विलायितो घ्राणमुखम्प्रपद्यते ॥ तदा स
 कर्णप्रातेनाहसञ्ज्ञितो भवेद्विकारश्शिरसोऽर्द्धभेदकृन् ७
 यदा हि मूर्च्छत्यथवा त्रजन्तवः सृजन्त्यपत्यान्यथवापि म
 च्छिकाः ॥ तदञ्जनत्वाच्छ्रवणानिरुच्यते भिषग्भिराद्यैः
 कृमिकर्णको गदः ८ पतंगाशतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्रवि
 श्यहि ॥ अरतिव्याकुलत्वञ्च भृशं कुर्वन्ति वेदनाम् ९ क
 णानिस्तुद्यते तस्य तथा फुरफुरायते ॥ कीटे चरति रुक्ती
 व्रानिस्पन्दे मन्दचेतना १० क्षताभिघातप्रभवस्तु विद्रधि
 भवेत्तथा दोषकृतोपरः पुनः ॥ सरक्तपीतारुणमसूमासू

जाताहै उससे कानके अन्तमें मैल लपटजाता है इस रोग को
 कर्णगूथ कहते हैं व इसीको देशभाषामें खूँट कहते हैं ६ जबवही
 कर्णगूथ अर्थात् खूँट पतला गीला होजाताहै तब नाकमें वा मुख
 में आजाता है तब उस विकारको कर्णनाह कहतेहैं व वह आधे
 शिरमें पीड़ा उत्पन्न करताहै इसरोगको आधाशीशी वा अधौखी
 कहते हैं ७ जब कानके भीतर कीड़े पड़ जाते हैं अथवा मक्खी
 जाकर अपनेबच्चे वहाँ उत्पन्न करती है उसीसे कीड़े उत्पन्न होकर
 क्रिमियों कासा लक्षण करते हैं आदिके वैद्यों ने इसे क्रिमिकर्ण
 नामरोग कहाहै ८ छोटे पतंगे वा खनखजूर जबकहीं कानके भी-
 तर पैठकर पीड़ा व्याकुलता व अत्यन्त वेदनाको करते हैं ९ तो
 कान में सुई आदिसे कोंचनेकीसी पीड़ा होने लगती है व कान
 फुरफुराने लगता है जबकीड़ा उसके भीतर चलने लगता है वा
 काटने लगता है तो तीव्र पीड़ा होती है व जब नहीं चलता
 न काटता है तब पीड़ा थोड़ी होजाती है १० कानमें जोर से
 खजुलाने से वा कुछ चोटलगजाने से फोड़ा होजाताहै अथवा
 उसमें वातादिकों के दोषसे दूसरी वार पकजाता तब उसमें से

वेत्प्रतोदधूमायनदाहचोषवान् ११ कर्णपाकस्तुपित्तेन
 कोथविक्लेदकृद्भवेत् ॥ कर्णविद्रधिपाकाद्वा जायतेचाम्बुपू-
 रणात् १२ पूयंस्त्रवतिवापूति सज्ञेयःपूतिकर्णकः ॥ कर्ण-
 शोफावुदाशीसि जानीयादुक्तलक्षणैः १३ नादोतिरुक्-
 णमलस्यशोषः स्रावस्तनुश्चाश्रवणंचवातात् ॥ शोथ-
 स्सरागोदरणंविदाहः सपूतिपीतस्रवणंचपित्तात् १४ वै-
 श्रुत्यकंडूस्थिरशुक्लशोफः स्निग्धाश्रुतिःश्लेष्मभवेतिरु-
 क्च ॥ सर्वाणिरूपाणिचसन्निपातात्सावश्चतत्राधिक-
 दोषवर्णैः १५ सौकुमार्याच्चिरोत्सृष्टेसहसावाविवर्द्धते ॥

काला पीला व लाल रुधिर बहने लगताहै कोंचने कीसी पी-
 डाहोती है धुआँ निकलने लगताहै दाह व उष्णता होती है
 इसरोग को कर्ण विद्रधि कहते हैं ११ पित्तसे वा कर्ण विद्रधि
 के फोड़ेसे अथवा कान में पानी भरजाने से कान सड़जाता है
 व चिलकने लगता है इसरोग को कर्णपाक कहते हैं १२ व
 जिस कान से दुर्गन्धियुक्त पीव बहती है उसे पूतिकर्ण रोग
 कहते हैं कर्णशोथ कर्णावुद कर्णाश अर्थात् कान सूजना
 कानमें गुलथी व कानमें से बवासीर की नाई रुधिर बहना इन
 तीनों रोगोंके लक्षण जैसे पहिले कहभाये हैं वैसे जानना १३
 वातज कर्ण रोगमें कुछ संसनाहट व शब्द विदित होताहै
 पीडा बहुत होती है कानकामल सूख जाता है व पतला २
 धोड़ासा बहताहै व सुनाई नहीं पड़ता पित्तज कर्ण रोग में
 कानमें सूजनहोती है व ललाई रहती है व चीड़नेकीसी पीडा
 होतीहै दाह उठता व पीली २ दुर्गन्धि सहित पीव बहती है १४
 कफज कान पीडामें कुछका कुछ सुनाई देताहै खजुली उठतीहै
 कड़ाशोथ उजली चिकनी पीव बहती है व बड़ीपीडा होती है
 सन्निपातज कानके रोगमें वातज पित्तज कफज आदि सबदोषोंके

कर्णशोथोभवेत्पाल्यां सरुजःपरिपोटवान् ॥ कृष्णारुण
निभस्तब्धः सवातात्परिपोटकः १६ गुर्वाभरणसंयोगा
त्ताडनाद्घर्षणादपि ॥ शोफःपाल्यांभवेत्श्यावो दाहपा
करुजान्वितः १७ रक्तोवारक्तपित्ताभ्यामुत्पातःसगदो
मतः ॥ कर्णवलाद्द्वयतःपाल्यांवायुःप्रकुप्यति १८ कफं
संगृह्यकुरुते शोफंस्तब्धमवेदनम् ॥ उन्मथकःसकंडू
को विकारःकफवातजः १९ संवर्द्धमानेदुर्विद्धे कंडूदाह
रुजान्वितः ॥ शोफोभवतिपाकश्च त्रिदोषोदुःखवर्द्ध
नः २० कफासृक्कृमिसम्भूतस्सविसर्पन्नितस्ततः ॥

लक्षणहोते हैं पर जिसदोपकी अधिकता होती है वहतं उसी के
लक्षणके अनुसारहैं १५ सुकुमारतासे कानका छेद जब छोड़दि-
याजाताहै उसमें सीकआदि नहीं डालीजाती व फिर जब एका-
एकी बढ़ाना चाहते हैं तो कानमें सूजन होआती है व कानकेऊ-
परीभागमें काली २ फुंसियाँ निकल आती हैं व जो काली वा
लाल फुंसियाँ कानमें वातसे निकल आती हैं उनको परिपोटक
कहतेहैं १६ गहूभूषण धारणकरनेसे पीटनेसे वा घिसने रगड़नेसे
कानकी कोंचिया सूजआतीहै वहसूजन ताम्रकरंगकीहोतीहै उस
में दाहहोता पकजाती व पीड़ाहोती है, १७ व रक्त पित्तके योगसे
जो सूजन होतीहै वह लालहोती है इसरोगको उत्पातरोग कह-
ते हैं व ज्वरदस्ती कानके छेदको बढ़ाने से कानकी कोंचियाका
वायु कोप करताहै १८ वह कफसे युक्तहोकर शोथ करदेताहै वह
शोथ कड़ाहोताहै पर पीड़ा नहीं करता खजुली होतीरहतीहै इस
कफ वातजरीगको उन्मथक कहतेहैं १९ टेढामेढा नसपर जब
कान छेददियाजाताहै तो उसमें खजुली दाह व पीड़ाहोती है
सूजनहोती व पकभी उठताहै यहरोग सन्निपात से होताहै व
दुःख वर्द्धन इसकानामहै २० कफ व रक्तके योगसे ऐसे छिदेहुये

लिहेत्सशष्कुलींपालीं परिलेहीतिसस्मृतः २१ ॥

इतिकर्णरोगनिदानम् ॥

आनह्यतेयस्यविशुष्यतेच प्रच्छिद्यतेधूप्यतिचैवना
सा ॥ नोवेत्तियोगंधरसांश्चजंतुर्जुष्टंव्यवस्येत्सतुपीनसे
न १ तंचानिलश्लेष्मभवंविकारं ब्रूयात्प्रतिश्यायसमान
लिंगम् ॥ दोषैर्विदग्धैर्गलतालुमूले समूर्च्छितोयस्यसं
मीरणस्तु ॥ निरेतिपूतिर्मुखनासिकाभ्यां तंपूतिनस्यंप्र
वदन्तिरोगम् २ घ्राणाश्रितंपित्तमरूषिकुर्याद्यस्मिन्वि
कारिब्रह्मवांश्चपाकः ॥ तन्नासिकापाकमितिब्यवस्येद्विद्धे

कानेकी कोंचियामें छोटासा कीड़ा उत्पन्नहोजाताहै वह इधर
उधर चलता फिरता रहताहै उसके इधर उधर चलने से वह
सूजनापकजातीहै फिर वह कीड़ाकानमरवालिडालताहै इस
रोगको परिलेही कहते हैं २१ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषीनुवादेकर्णरोगनिदानम् ॥

मेकपटितमम् ॥ २१ ॥

दो० ॥ वासठयें मँहँ नासिका रोग निदान बहुत ॥

भाषे माधवनेलपहिं सकललोगकर वृत्त १

नासिकाके रोगोंका निदानकहते हैं उनमें प्रथम पीनसरोग के
लक्षण कहतेहैं जिसकी नाक सिकुड़जाय फिर सूखजाय व पानी
सा उसमें से बहता रहे व जलती रहे व फिर वह गन्ध के रसों
को न जाने उसपुरुषको पीनस रोगसंयुक्त जाननाचाहिये व इस
विकारको वातकफसे उत्पन्न कहना चाहिये इसके शीर श्लेष्मा
हाम्ये के लक्षण कुछ २ समानहोतेहैं ३ गले शीर तालुमें पित्त
रक्तादि दोषोंसे दूषितहोकर दुष्टवायु मुख व नाकमें दुर्गंधि को
बहाताहै इसरोगको पूतिनस्यकहते हैं २ पित्तनासिकामें टिककर
घाव करदेताहै जिस विकारमें बलवान पाकहोताहै इसरोगको

दकोथावथवापियत्र ३ दोषैर्विदग्धैरथवापिजंतोर्ललाट
देशेभिहतस्यतेस्तैः ॥ नासासूवेत्पूयमसृग्बिमिश्रं तंपूय
रक्तंप्रवदन्तिरोगम् ४ घ्राणाश्रितेमर्मणिसंप्रदुष्टो यस्यो
निलोनासिकयानिरेति ॥ कफानुयातोवहुशःसशब्दस्तं
रोगमाहुःक्षवथुंविधिज्ञाः ५ तीक्ष्णोपयोगादतिजिघ्रतो
वा भावान्कटूनर्कनिरीक्षणाद्वा ॥ सूत्रादिभिर्वातरुणां
स्थिमर्मण्युद्घाटितेन्यःक्षवथुर्निरेति ६ प्रभ्रश्यतेनासिं
क्याहियस्य सांद्रोविदग्धोलवणःकंफस्तु ॥ प्राक्संचि
तोमूर्धनिसूर्यतप्ते तंभ्रंशथुरोगमुदाहरन्ति ७ घ्राणेभृशं
दाहसमन्वितेतु विनिश्चरेद्भूमइवेहवायुः ॥ नासाप्रदीप्ते
वचयस्यजंतोर्व्याधितुतन्दीप्तमुदाहरन्ति ८ उच्छ्वासमार्गं

नासिका पाकरोग कहनाचाहिये इसमें पीवसी नाक वहांकरती
है ३। दोषादिकों के दुष्टहोजाने से अथवा प्राणीके लिलारमें चोट
लगनेसे नाकसे रक्तमिली पीव वहने लगती है उस रोगको पूय
रक्त कहतेहैं ४ घ्राण इन्द्रियके सुकुमार स्थानदोनों भोंहों के बीच
का वायु जब दुष्ट होजाताहै तो नाककी होकर बाहर भाती है
उसके पीछे कफभी अवश्य थोडा बहुत गिरता है व बड़ा भारी
शब्दहोताहै इस साधारण रोगको चवयु वा छिका अथवा छीक
कहते हैं ५ किसी तीक्ष्ण पदार्थ मरिच आदिकी भाससे वा
किसी ऐसेही पदार्थ के बहुत सूंघने से अथवा सूर्यकी ओर दे-
खने से वा नासिका में सूतकी बत्ती आदि डालने से अथवा त-
रुण हाड़ोंके सुकुमार स्थानको किसी वस्तुसे खरखराने से छीक
भाती है ६ सूर्य से अत्यन्त तपाये हुये माथे वाले पुरुषकी ना-
सिका से पहिलेका सञ्चित गाढा व लुनखरकफ गिरताहै उसे
भ्रंशथु नाम रोग कहते हैं ७ नासिका के अत्यन्त सन्तप्त होने
पर उससे धुमांभा वायु निकले व फिर उस प्राणीकी नाक उस

न्तुकफःसवातोरुंध्यात्प्रतीनाहमुदाहरेत्तम् ९ घ्राणादूध
 नःपीतसितस्तनुर्वादोषःसूत्रेत्स्रावमुदाहरेत्तम् १० घ्राणा
 श्रितेस्रोतसिमारुतेनगाढंप्रतप्तपरिशोषितेच ॥ कृच्छ्रा
 च्छुसेदूर्ध्वमधश्चजंतुर्यस्मिन्सनासोपरिशोषउक्तः ११
 शिरोगुरुत्वमरुचिर्नासास्रावस्तनुस्वरः ॥ क्षामःपी
 वत्यथोऽभीक्षणमामपीनसलक्षणम् १२ आमलिंगा
 न्वितःश्लेष्मा घनश्चाप्सुनिमज्जति ॥ स्वरवर्णविशुद्धि
 श्चपक्वपीनसलक्षणम् १३ संधारणाजीर्णरजोतिभाष्य
 क्रोधर्तुवैषम्यशिरोभितापैः ॥ प्रजांगरस्वप्नवाग्भुशी

को जलगईसी जानपड़े उस रोगको दीप्त कहते हैं = श्वासलेने
 के मार्गको वात सहित कफ जब रोकले तो उस रोगको प्रती-
 नाह कहना चाहिये ९ जिस रोगमें नासिकासे गाढा पीला वा
 उजला वा पतला कफ गिरे उसको नासास्राव कहना चाहिये
 १० जब नासिका की सूँघने वाली नसको पवन अत्यन्त सन्तप्त
 करदेता है व घनाय सुखादेताहै तब प्राणी घड़ेकण्ठसे ऊँचे वा
 नीचेको मुखकरके श्वासलेताहै वह रोग नासापरिशोष कहाता
 है ११ शिरका भारी रहना अरुचि पतलापानी नाकसे बहना
 स्वर स्पष्ट न निकलना व वार २ नासिका से पानी बहना ये
 सब कच्चे पीनस रोगके लक्षण हैं १२ पकेहुये पीनस रोगके ल-
 क्षण कच्चे पीनस के लक्षणसे युक्त जब श्लेष्मा गाढाहोकर बाहर
 न निकले नाक के भीतर बनारहै व स्वर अक्षर की शुद्धता ब-
 नीरहै उसमें अन्तर न पड़े तो वह पके हुये पीनस का लक्षण
 है १३ प्रतिश्याय श्लेष्मा वा खड़जुड पांच प्रकार का होता है
 उन सबोंकी संप्राप्ति के कारण बताते हैं-मल मूत्रके वेग के रों-
 कने से अजीर्ण से नासिका में धूलिजाने से अधिक चिक्लाकर
 बोलने से क्रोधकरने से ऋतुओं की उदला बदली से शिरमें बहुत

ता वश्यायकैर्भैथुनवाष्पसैकैः : १४ ,संस्त्यानदोषेशिर
 सिप्रवृद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेच्च ॥ चयंगतामूर्द्धन्ति
 मारुतादयः पृथक्समस्ताश्चतथैवशोणितम् ॥ प्रकु
 प्यमानाविविधैःप्रकोपनैस्ततःप्रतिश्यायकराभवन्ति १५
 क्षवप्रवृत्तिः शिरसोभिपूर्णतास्तम्भोद्धमर्दः परिहृष्टरोम
 ता ॥ उपद्रवाश्चाप्यपरेपृथग्विधानृणांप्रतिश्यायपुरः
 सराःस्मृताः १६ आनद्धापिहितानासा तनुस्त्रावप्रसेकि
 नी ॥ गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदःशंखयोस्तथा १७
 भवेत्स्वरोपघातश्च प्रतिश्यायेनिलात्मके ॥ उष्णः स-
 पीतकः स्वावो घ्राणात्स्त्रवतिपैत्तिके १८ कृशोतिपांडुः सं

घाम लगनेसे रात्रिमें बहुत जागनेसे व दिनमें सोनेसे नया पानी
 पीनेसे शीतल जलमें अधिक स्नान करनेसे मैथुन करने से धुआं
 लगनेसे १४ अधिक सोनेसे व मूलके कफके शिरमें इकट्ठे होनेसे
 वायु कुपित होकर प्रतिश्याय रोगको उत्पन्न कराताहै शिरमें वात
 पित्त कफ व रक्त ये सब इकट्ठे होकर अथवा अलग २ होकर कोष
 करके प्रतिश्याय रोगको करते हैं यह उत्तीका दूसरा लक्षणहै १५
 इस खरजुड़ वा प्रतिश्याय रोग का पूर्वरूप यों होताहै छींक
 काआना शिरभारीहोना देहभारी देहकाटूटना रोमोंकाखड़ेहोना
 इत्यादि बहुत से उपद्रव जब प्रतिश्याय होने पर होता है तो
 मनुष्यों के होते हैं १६ जब वातज प्रतिश्याय होता है तो ना-
 सिका में मलभरारहताहै व बहुत सहराने पर कुछ पतलापा-
 नी बहताहै गला तालु और ओष्ठ सूखजातेहैं दोनों कनपटियों
 में कांटेसे कोंचने लगतेहैं बोल कुछ खरखरासा होजाताहै व गला
 बैठजाता है पित्तज प्रतिश्यायमें उष्ण और पीला कफ नासिका
 से गिरताहै १७ उससे मनुष्य कुछ दुर्बलहोजाता है व पीला
 पड़जाताहै उसका शरीर कुछ जलता रहताहै क्योंकि उष्णता

तप्तो भवेदुष्णाभिपीडितः ॥ सधूममग्निंसहसावमनी
 वचनासया १६ घ्राणात्कफःकफकृतशुक्लश्रीतः स्ववेद्व
 हु ॥ शुक्लावभासःशूनाक्षो भवेद्गुरुशिरानरः २० गल
 ताल्वोष्ठशिरसां कंडूभिरभिपीडितः ॥ भूत्वा भूत्वा प्रति
 श्यायो यो कस्माद्द्विनिवर्त्तते ॥ संपक्वो वाप्यपक्वो वा सस
 र्वप्रभवः स्मृतः २१ प्रच्छिद्यते पुनर्नासा पुनश्च परिशुष्य
 ति ॥ पुनरानह्यते चापि पुनर्विब्रियते तथा २२ निश्वास
 इच्छाति दुर्गंधो नरोगंधनवेत्ति च ॥ एवं दुष्टप्रतिश्यावं जा
 नीयात्कृच्छ्रसाधनम् २३ रक्तजेटुप्रतिश्याये रक्तस्रावः
 के कारण पीडित होजाता है ऐसा जानपड़ेता है कि मानो धुमा
 सहित अग्नि नासिका से उगिलना चाहता है १६ व कफज प्रति
 श्यायमें नासिकासे उजलाठणदा बहुतसा कफगिरता है इससे वह
 रोगी उजलासा दिखई देता है नेत्रोंके नीचे फरेफरने लगता है
 व शिरमारी बनारहता है १६ कण्ठ तालु शिरमें खजुहट उठ
 ती है इससे पीडित होता है जिसका प्रतिश्यायहो २ कर अपने २
 भाप वार २ निवृत्त होजाय चाहे पक्का हो वा कच्चा वह प्रतिश्याय
 वात पित्त कफ तीनोंसे उत्पन्न समझाजाता है २० दुष्टप्रतिश्याय
 यके लक्षण—जिस प्रतिश्यायमें वार २ नासिकासे कफवहै व
 वार २ नासिका सूखजायाकरे वार २ नासिकामें कफजकड़जा
 य व वार २ खुलजाय २१ श्वास जो ले उसमें दुर्गन्धि आवे
 परन्तु उसको कुछभी दुर्गन्धि न जानपड़े इसप्रकारके दुष्ट प्रति
 श्यायको कष्टसाध्य समझना चाहिये २२ रक्तज प्रतिश्यायके
 लक्षण—रक्तज प्रतिश्यायमें नासिकासे रक्त चूने लगता है व प्रा
 णीके नेत्रलाल होजातेहैं छाती पिराने लगती है उससे अत्यन्त
 पीडित होता है उसके सब श्वास दुर्गन्धियुक्तही आतेहैं पर वह
 गन्धको नहीं जानता २३ प्रतिश्यायके असाध्य लक्षण—जितने

प्रवर्तते ॥ तास्वाक्षश्चभवेज्जन्तुरुरोघातप्रपीडितः॥दुर्गन्धोच्छ्वासवदनो गंधानपिनवेत्तिसः २४ सर्वएवप्रतिश्याया नरस्याप्रतिकारिणः ॥ दुष्टतांयांतिकालेन तदाऽसाध्या भवंतिहि २५ मूर्च्छति कृमयश्चात्रश्वेताःस्निग्धास्तथाणवः ॥ कृमिजोयःशिरोरोगस्तुल्यंतेनास्यलक्षणम् २६ वाधिर्घ्नमांध्यमघ्नत्वं घोरंश्चनयनामयोन् ॥ शोकाग्निंसादकासांश्च क्रुद्धाःकुर्वन्तिपीनसाः २७ अर्बुदंसप्तधांशोपाश्चत्वारोर्शश्चतुर्विधम् ॥ चतुर्विधंरक्तपित्तमुक्तंघ्राणेपित्तद्विदुः २८ ॥ इतिनासारोगनिदानम् ॥

उष्णाभितप्तस्यजलप्रवेशाद्दूरेक्षणात्स्वप्नविपर्ययाच्च ॥

प्रतिश्यायहैं औपधादि न करनेवाले रोगीके काल पाकर दुष्टता को प्राप्त होजाते हैं व असाध्य होजाते हैं २४ । २५ बहुतदिनों के प्रतिश्यायमें उजले २ छोटे चिकने कीड़े पड़जाते हैं जो कृमिज शिर का रोगहै उसीके तुल्य इसके भी लक्षण होते हैं २६ इसीप्रतिश्याय में जब कीड़े पड़जातेहैं तब पीनस रोग होजाताहै जब कीड़े बहुत बढ़जाते हैं व वृद्धहो जाते हैं तो मनुष्यको बहिरा अन्या न सूँघनेवाला करदेतेहैं व नानाप्रकारके घोररोगनेत्रोंमें करदेते हैं देह शोधजाताहै अग्निमन्द होजाताहै खाँसी आदि रोगहो आतेहैं २७ सात प्रकार के अर्बुद रोग चारप्रकार के शीथरोग व चार प्रकार के वयासीर रोग चार प्रकार के रक्तपित्तये पहले कह आये हैं इनरोगोंको नासिका के रोगों में भी कहना चाहिये २८ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादे नासिकारोगनिदानं

द्विपठितम् ६२ ॥

दोहा ॥ तिरसठयें महँ नेत्र के रोग निदान बखान ॥

बिबिधभाँतिके बहुत जो उनके सुनहुप्रमान १

नेत्ररोगों के निदान प्रथम उनके कारण घाम से अति सन्तप्त

स्वेदाद्रजोधूमनिषेवणाच्च छर्द्विघाताद्भवनातियोगात् १
 द्रवान्नपानादातिसेवनाच्च विण्मूत्रवातक्रमनिग्रहाच्च ॥
 प्रसक्तसंरोदनशोकको पाच्छिरोभिघातादातिमद्यपानात्
 २ तथाऋतूनाञ्चविपर्ययेण क्लेशाभिघातादातिमैथुना
 च्च ॥ वाष्पग्रहात्सूक्ष्मनिरीक्षणाच्च नेत्रे विकाराञ्जनयन्ति
 दोषाः ३ वातात्पित्तात्कफाद्रक्तादभिष्पन्दश्चतुर्विधः ॥
 प्रायेण जायते घोरः सर्वनेत्रामयाकरः ४ निस्तोदनस्तं
 भनरोमहर्षसंहर्षपारुष्यशिरोभितापाः ॥ विशुष्कभा
 वःशिशिराश्रुताच्च वाताभिपन्नेनयने भवन्ति ५ दाहप्रपा

होकर मनुष्य के अतिशीतल जलमें देरतक रहनेसे दूरके पदार्थ
 के देखनेसे दिनमें सोनेसे व रात्रि में अधिक जागनेसे नेत्रों में
 पसीना भर होनेसे वा धूलिपड़नेसे अधिक धुआं लगनेसे व मन
 के रोकनेसे वा अधिक वान्तहोनेसे १ पियले हुये पतले भ्रंशवा-
 ने व पीनेसे मलमूत्र व अधोवायु के वेगके रोकनेसे बहुत रोदन
 करने व अधिक शोक कोप करनेसे शिरमें चोट लगनेसे व अत्य-
 न्त मदिरा पानकरनेसे २ व ऋतुओंकी उलटा पलटीसे क्लेशों
 की चोटलगनेसे अतिमैथुन करनेसे आँशुओंके रोकनेसे व
 सूक्ष्म वस्तु छोटे अक्षर आदिके देखनेसे वात पित्त कफ आदि
 दोष नेत्रमें विकारोंको उत्पन्न कराते हैं ३ ये नेत्ररोग सब छिहत्तर
 होते हैं १० वातसे १० पित्तसे १३ कफसे १६ रक्तसे २५ सन्नि-
 पातसे २ और बाहरसे वात पित्त कफ व रक्त इनचारोंसे बहुधा
 चार प्रकारके नेत्र उठते हैं यही घोर रोग सब रोगोंको करता है
 ४ अभिष्पन्द रोग अर्थात् आँखोंका आना वा उठना वातज
 अभिष्पन्दके लक्षण—वातसे नेत्र उठनेमें सुईके कोंचनेकीसी पीड़ा
 होती है नेत्रमें भारीपन होता है रोमखड़ेहो २ जाते हैं नेत्रोंमें
 कंकरोंरीसी गड़ती हैं नेत्रोंमें रुखाई होआती है शिरमें पीड़ाहोती

कौशिशिराभिनन्दो धूमायनंवाप्यसमुच्छ्रयश्च ॥ उष्णा
श्रुतापीतकनेत्रताच पित्ताभिपन्नेनयनेभवन्ति ६ उष्णा
भिनंदोगुरुताक्षिशोफः कंडूपदेहावतिशीतताच ॥ स्वा
वोवहुःपिच्छलएवचापि कफाभिपन्नेनयनेभवन्ति ७ ता
माश्रुतालोहितनेत्रताच राज्यःसमंतादतिलोहिताश्च ॥
पित्तस्यलिंगानिचयानितानि रक्ताभिपन्नेनयनेभवन्ति ८
वृद्धैरेतरभिष्पदैर्नराणामक्रियावताम् ॥ तावंतस्त्वधिमं
थाःस्युर्नयनेतीव्रवेदनाः ९ उत्पाट्यतइवात्यर्थं नेत्रंनि
र्मथ्यतेतथा ॥ शिरसोर्द्ध्वचतंविद्यादधिमंथंस्त्रलक्षणैः १०

है नयन सूखेरहतेहै नेत्रसे ठण्डेभांशु गिरते हैं ५ पित्तसे जब नेत्र
उठता है वा आताहै तो नेत्रमें दाह होता व पकउठताहै उसमें
शीतल वस्तुलगवाने से आनन्द जानपड़ता है व नेत्रोंसे धुमांसा
निकलताहै नेत्रमें सूजननहींहोती उष्ण भांशु बहते हैं नेत्रपीले
होजाते हैं ६ कफसे जब नेत्र उठते हैं तो उष्णवस्तु के लगाने
से आनन्द जान पड़ता है नेत्रोंमें भारीपन रहता आंखें सूजआ-
ती हैं खजुली उठती है चटचटाहटहोती है नेत्र बहुत ठण्डेरहते
हैं पानी बहुत टपकता है वहभी चिकना ७ रक्त के दोपसे नेत्र
उठने में ललभ्रर आंशु गिरते हैं व नेत्र भी लालही रहते हैं व
वरौनियां भी सब ओर से लालही होजातीहैं व जितने पित्तसे
उठेहुये नेत्र में लक्षण कह आये हैं वे सब इस रक्तजमें भी होते
हैं ८ इन प्रकारों से आंख उठने पर औषधादि न करने वाले
मनुष्यों के उतनेही अधिमन्थ रोग होतेहैं जिनमें कि नेत्रों में
तंत्रि पीड़ाये होतीहैं ९ अधिमन्थ रोग का दूसरा लक्षण यह है
कि जानो कोई नेत्रको उखाड़ेही लेता है व इसीप्रकार जानो
उसमें कोईसराई आदि डालकर मथताहै व आधाशिर पिराता
है इसके लक्षण वातसे उठेहुये नेत्रों के से होते हैं १० कफ के

ह्न्याद्दृष्टिंश्लेष्मिकः सप्तरात्राद्योधिमंधोरक्तजः पंचरा
त्रात् ॥ षट्तरात्राद्वावातिकोवैनिह्न्यान्मिथ्याचारात्पैत्तिक
स्सद्यएव ११ उदीर्णवेदननेत्ररागोद्रेकसमन्वितम् ॥ घ
र्षनिस्तोदशूलाश्रुयुक्तमामान्वितंविदुः १२ मंदवेदन
ताकंडूसंरंभाश्रुप्रशांतता ॥ प्रसन्नवर्णताचाक्षोस्सम्प
कंदोषमादिशेत् १३ कंडूपदेहाश्रुयुतः पकोटुंवरसंनि
भः ॥ संरंभीपच्यतेयस्तु नेत्रपाकः सशोफजः ॥ शोथ
हीनानिलिंगानि नेत्रपाकेत्वशोथजे १४ उपेक्षणाद्
क्षियदाधिमंधोवातात्मकः सादयतिप्रसह्य ॥ रुजाभिरु

कोपसे जब आँख में अधिमन्थरोग होता है तो वह सात दिन में
नेत्रको फोड़ता है व ऐसेही रक्तज अधिमन्थ पाँचदिनमें व वातज
अधिमन्थ ६ दिनमें व पित्तज तुरन्त फोड़ता है परन्तु ये सब मिथ्या-
चारसेही अर्थात् इसरोगमें उपास करनेसे वाकुछकी कुछ औप-
ध करनेसेही यह समयका नियम पूरा होता है ११ नेत्ररोग के
निदान अब कहते हैं—जिसनेत्ररोगमें जबतक पीड़ा अधिकहो व
ललाई अधिकहो करकरानाहो नेत्रमेंकोंचनेकीसी पीड़ाहो आँ-
शुवहतेहों तबतक जानना चाहिये कि अभी नेत्रके दोषपकेनहीं
हैं किन्तुकञ्चेहें १२ नेत्र अच्छे होनेके लक्षण—जब पीड़ा कमहो-
जाय व खजुलानेलगे सूजन थोड़ीहोचले आँशुओंका वहनाकम
होनेलगे ललाई छूटकर स्वच्छता आनेलगे तब जानना चाहिये
कि अब दोषपरिपक्व होगया १३ सूजन सहित नेत्रपकेहुये के
लक्षण—जब खजुली होनेलगे व सूजेहुये नेत्रसे आँशु वहनेलगे
व आँखपकीहुई गूलरकेतुल्य लालहो व बड़े जोरसे नेत्रपकभावे
तो उसको नेत्रपाकरोग कहतेहैं व वह शोथसे होता है १४ जि-
सनेत्रपाकमें शोथ नहींहोता अन्य सब चिह्नहोते हैं उसको अ-
शोथज नेत्रपाक जानना चाहिये जब अधिमन्थरोगकी उपेक्षा

ग्राभिरसाध्यएकहताधिमन्थःखलुनेत्ररोगः १५ वारंवारं
चपर्येतिभ्रुवौनेत्रेचमारुतः ॥ रुजश्चविविधास्तीव्राः
सज्ञेयोवातपर्ययः १६ यत्कूणितंदारुणरूक्षवर्त्मसंदह्य
तेवाविलदर्शनंयत् ॥ सुदारुणंयत्प्रतिबोधनेचशुष्काक्षि
पाकोपहतंतदक्षि १७ यथावटूकर्णशिरोहनस्थोमन्याग
तोवाप्यनिलोन्यतोवा ॥ कुर्याद्भ्रुजं वैभुविलोचनेचतमन्य
तोवातमुदाहरंति १८ श्यावंलोहितपर्यंतं सर्वं चाक्षिप्रप
च्यते ॥ सदाहशोथंसस्रावमम्लाध्युषितमम्लतः १९ अत्रे
दनावापिसवेदनावायस्याक्षिराज्योहिभवंतिताम्राः ॥ मुहु

कीजाती है औपधादि नहीं कियेजाते व वह वातज होता है तो वह ठहरकरके उग्रपीड़ा करता है व असाध्य होजाताहै व तबउस रोगको हताधिमन्थ कहने लगते हैं १५ जब वार २ भौहों में व नेत्रों में वात लौटता पलटताहै तो विविधप्रकारकी कठिन पीड़ायेहोती है व वह रोग वातपर्यय कहाताहै १६ जो नेत्र खुलतानहीं व उसकी पलक दारुणहोरु रूखी होजाती है व जलने लगती है व बड़ी कठिनतासे कुछढवैले रंगका देखपडता है व जिसके उधारनेमें बड़ी कठिनता पडती है वस उसको जानना चाहिये कि यह नेत्र शुष्काक्षिपाक रोगसे उपहत होगया है १७ दूसरे वातजपाक का लक्षण—जिसकी पलकें कान मस्तक चौहड़ी ग्रीवाके ऊपरकीनसें इनस्थानोंमें वातरहै वा अन्यहीकिसी स्थानमेंरहै व वह भौहमें व नेत्रमें पीड़ाकरे तो उसरोगको अन्यतो वात वा दूसराघात कहते हैं १८ अम्लाध्युषित नेत्ररोग के लक्षण—जबनेत्र बीचमें कुछ काला हो व अन्यत्र सबलाल हो जाय व सब नेत्र पकउठे दाह शोथ व आंशुओं का बहना भी हो तो उसे अम्लाध्युषित रोग कहते हैं यह रोग खटाई अधिक खानेसे होताहै इससे इसका अम्लाध्युषित नाम अन्वर्थकहै १९

विरज्यंति च यास्स तादृग्ध्याधिः शिरोत्पात इति प्रदिष्टः ॥
 २० मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगः स शिराप्रह
 र्षः ॥ तास्मात्श्रुमसंभवति प्रगाढं तथानशक्रोत्यभिर्वीक्षितुं च
 २१ निमग्नरूपं तु भवेद्विकृष्णसूच्येव विद्ध प्रतिभातियद्वे ।
 स्रावंसवेदुष्णमतीव यच्च तत्सत्रणं शुक्रमुदाहरंति २२ दृष्टे
 स्समीपेन भवेत्तु यच्च न चावगाढं न च संसवेद्वि ॥ अवेदनं
 वानचयुग्मशुक्रं तत्सिद्धिमायातिकदाचिदेव २३ स्पंदा
 त्मकंकृष्णगतंसचोषं शंखेन्दुकुन्दप्रतिभावभासम् ॥ वै
 हायसाभ्रप्रतनुप्रकाशमथात्रणं साध्यतमं वदन्ति २४ गं

चाहे पीड़ा सहितहों वा पीड़ा रहित जिसकी बरौनियां लाल
 होजायँ व उसपरभी कभी २ बहुतही लाल होजाया करें ऐसेरोग
 को शिरोत्पात कहते हैं २० व जो कोई मोहवश होकर इस शिरो-
 त्पातरोगकी उपेक्षा करताहै औपधादि नहीं करता तो फिर उसी
 केस्थानपर शिराप्रहर्ष नामरोगहोजाताहै इसमें नेत्र से ऐसेगाढे
 लाल आंशु गिरते हैं कि उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता २१
 नेत्रके काले भागमें जो लाल रंगकी फूली पड़जाती है व उसी
 काले भागमें डूबीरहतीहै अथवा उसीकाले भागमें सुई के छेद
 के समान छेद होजाताहै व उससे उष्ण बहुत से आंशु गिरते हैं
 उसको सत्रण शुक्ररोग कहते हैं २२ यह शुक्ररोग अर्थात् फूली
 का रोग जो तिलके समीप न हो व बहुत गाढा न हो व कुछ
 बहता नहो पीड़ा न होतीहो व उसमें मिहीं छेद न हों तो वह
 फूली औपध करने से कदाचित् सिद्धही होजाय इससे उसकी
 औपध करनी चाहिये २३ भत्रण शुक्र अर्थात् विना छेदकी फूली
 के लक्षण-आंख उठनेपर जो फूली नेत्रके काले भागमेंहो व अपने
 स्थान परसे कुछचलती रहै व उसकारंग शंख चन्द्रमा वा कुन्दके
 फूलके तुल्य उजलाहो आकाशके विना जलके वादर के तुल्य

म्भीरजातं बहुलं च शुक्रं चिरोत्थितं चापि वदन्ति कृच्छ्रम्
 विच्छिन्नमध्ये पिशिताश्रितं वा चलं शिरासूक्ष्ममट्टिकृच्च
 २५ द्वित्वग्गतलोहितमन्ततश्च चिरोत्थितं चापि विवर्ज
 नीयम् ॥ उष्णाश्रुपातः पिडिकाचनेत्रे यस्मिन् भवेन्मुद्ग
 निभं च शुक्रम् २६ तदप्यसाध्यं प्रवदन्ति केचिदन्यच्च य
 त्ति त्तिरपक्षतुल्यम् ॥ श्वेतः समाक्रामति सर्वतो हि दोषेण
 यस्यासितमंडलं तु ॥ तमक्षिपाकात्ययमक्षिपाकं सर्वात्मकं
 वर्जयितव्यमाहुः २७ अजापुरीषप्रतिमोरुजावान् सलो
 हितो लोहितपिच्छलाश्रुः ॥ विगृह्य कृत्स्नं प्रचयोभ्युपैतित

उजली दिखाई दे व छोटी सी हो इस रोगको सुखसाध्य कहते
 हैं २४ व यही रोग जब बहुत गहरे में दूसरे वा तीसरे पर्त में हो
 व बढ़ा हो व बहुत दिनों का होजाय तो फिर कष्टसाध्य होजाता
 है वही अत्रण शुक्र वा फूली जब बढ़ेहुये मांस से विरजाती है
 वा उसका बीच कुछ खाली होजाता है व वह चलती रहती है
 व देखनेवाली नसमें छिदी होती है व देखने नहीं देती २५ व
 दूसरी खालमें हो व भीतर में लाल हो व बहुत दिनों की होगई
 हो तो असाध्य होने के कारण त्याज्य है व जिस फूली वाले के
 गरम भांगु गिरते हों व नेत्रमें फुंसी हो व फूली मूंगभरकी हो
 तो २६ उसे भी कोई २ असाध्यही कहते हैं व जो तित्तिरके पंख
 के रंगकी फूली होतो वह भी असाध्य होती व जिसके नेत्रके
 काले भागभरपर दोप से सपेदी दौड़जाय कहीं काला दिखायही
 न पड़े उसको अक्षिपाकात्यय नाम अक्षिपाक कहते हैं यह सन्नि-
 पातसे होता है इससे यह वर्जित कहा जाता है २७ अजका
 जात नाम रोगके लक्षण—जिसनेत्रमें छगड़ी की लेंडी के समान
 का रोग हो व वह ललाई लिये हो व लाल चिकने भांगु उस
 नेत्रसे गिरते हों व काले भागभरको भूदकर वह रोग ऊँचा होगया

ञ्जाजकाजातमिति व्यवस्येत् २८ प्रथमेपटले दोषो यस्य दृष्टि-
 ष्टिव्यवस्थितः ॥ अव्यक्तानि सरूपाणि कदाचिदथ पश्य-
 ति २६ दृष्टिर्भ्रंशविह्वलति द्वितीयेपटले गते ॥ मक्षिकाम-
 शकान्केशान्जालकानिव पश्यति ३० मण्डलानि पता-
 काश्च मरीचीन्कुडलानि च ॥ परिप्लवांश्च विविधान् वर्ष-
 मभ्रंतमांसि च ३१ दूरस्थानि च रूपाणि मन्थते च समीप-
 तः ॥ समीपस्थानि दूरचट्टेर्गोचरविभ्रमात् ३२ यत्नवा-
 नपि चात्यर्थं सूचीपाशं न पश्यति ॥ ऊर्ध्वं पश्यति नाध्वंस्ता-
 तृतीयेपटले गते ३३ महान्त्यपि च रूपाणि श्लाघितानीव

होतो उसरोगको भ्रजकाजात कहना चाहिये २८ जिसके पहिले
 पर्दे में वातादि दोष होता है वह दृष्टिको रोकता है इसलिये उसे
 विविध प्रकार के रूप दिखाई देते हैं जैसे कि वायुका दोष होता है
 तो नीला काला दिखाई देता है पित्तका दोष होता है तो पीला
 कफका होता है तो उजलासा व रक्तका दोष होता है तो सबलाल
 ही लाल दिखाई देता है व सन्निपातके दोषसे होतो अनेक रंग
 दिखाई देते हैं २६ व जब रोग नेत्रके दूसरे पर्दे में होता है तो दृष्टि
 अत्यन्त विह्वल होजाती है व त्वरोगी मकखी मसे केश व मकड़ी
 का जालासा नेत्रके आगे देखता है ३० व मण्डल पताका कि-
 रण कुण्डल व विविध प्रकार के चञ्चल पदार्थ वर्षा बादल व
 अन्धकार देखता है ३१ दूरके पदार्थों को समीप मानता है व
 समीप वालोंको दूर यह दृष्टिके भ्रम से ऐसा दिखाई देता है ३२
 व चाहे बहुत यत्नकरे पर सुई में डोरा नहीं डाल सकता क्योंकि
 उसका नाका तो उसे दिखाई ही नहीं देता व जिसके नेत्रके तीसरे
 पर्देमें रोग होता है वह ऊपरके पदार्थों को तो देखता है और नीचे
 वालोंको नहीं देखता ३३ बड़े २ रूपवाले भी पदार्थ उसे बादलसे
 घिरेहुये से दिखाई देते हैं व सबको वहरोगी काननाक नेत्रसे राहित

वचांवरैः ॥ कर्णनाशाश्रिहीनानि विकृतानिचपश्यति
 ३४ यथादोषंचरज्येत दृष्टिर्दोषेवलीयसि ॥ अधःस्थि
 तेसमीपस्थ न्दूरस्थंचोपरिस्थिते ३५ पाश्र्वस्थितेतथा
 दोषे पाश्र्वस्थन्नेवपश्यति ॥ समन्ततःस्थितेदोषेसंकुला
 निचपश्यति ३६ दृष्टिमध्यगतेदोषे महद्ध्रस्वञ्चपश्य
 ति ॥ द्विधास्थितेद्विधापश्येद्बहुधाचानवस्थिते ३७
 दोषेदृष्टिस्थितेतिर्यगेकत्रैमयतेद्विधा ३८ तिमिराख्यः
 सविज्ञेयश्चतुर्थपटलंगतः ॥ रुणद्धिसर्वतोदृष्टिं लिंग
 नाशमनःपरम् ३९ अस्मिन्नपितमोभूते नातिरूढेमहा
 गदे ॥ चन्द्रादित्यौसनक्षत्रा वन्तरिक्षेचविद्युतः ४०
 निर्मलानिचतेजांसि भ्राजिष्णूनिचपश्यति ॥ सएवलिं

ही विकृतरूप देखताहै ३४ जिस बलवान् दोपसे उसकी दृष्टिरंग
 जाती है उसीके अनुसार वह देखताहै जब दृष्टिकेनीचेकी ओर
 कोईपदार्थहोताहै तो समीपकी वस्तुनहींदिखाईदेती वजोऊपर
 की ओरहोतो दूरकी वस्तुको नहींदेखता ३५ व जोदोष पास में
 स्थितहोताहै तोरोगी पासकी वस्तुको नहीं देखता व जोसब ओर
 दोपस्थितहोता है तो उसे मगडलाकारही दिखाईदेताहै ३६ जब
 दृष्टिके बीचोबीच में दोष होताहै तोबड़ा पदार्थ छोटा दिखाई
 देताहै व जबदो ठिकाने दृष्टिमें दोपहोताहै तो एकपदार्थ के दो
 दिखाई देते हैं व जो दोपका नियम एकत्र न रहै चलता फिरता
 रहे तो एकपदार्थ को रोगी बहुतसे देखता है ३७ जोदोष दृष्टि
 मेंटेढास्थितहोताहै तोरोगी एकपदार्थको दोखण्ड करके मानता
 है ३८ जब तिमिर नाम रोग चौथे पर्दे में जाताहै तो सबओर
 से दृष्टिको रूखलेताहै तबवह लिंगनाशरोग होजाताहै ३९ व यह
 लिंगनाश नाम महारोग अन्धकार रूप होकर जो बहुत बढ़न
 गयाहो तो चन्द्रमा सूर्य नक्षत्र विजुली ४० येपदार्थ आकाश

गनाशस्तुनीलिकाकाचसंज्ञितः ४१ तत्रवातेचरूपाणि
 भ्रमन्तीवसपश्यति ॥ अविलान्यरूपाभानि व्याविद्धा
 नीवमानवः ४२ पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतडिद्गणा
 न् ॥ नृत्यतश्चैवशिखिनःसर्वनीलञ्चपश्यति ४३ कफे
 नपश्येद्रूपाणि स्निग्धानिचसितानिच ॥ सलिलप्लाविता
 नीव परिजाड्यानिमानवः ४४ पश्येद्रक्तेनरक्तानि तमां
 सिविविधानिच ॥ मसितान्यथकृष्णानि पीतान्यपिचमा
 नवः ४५ सन्निपातेनचित्राणि विप्लुतानिचपश्यति ॥ व
 हुधावाद्दिधावापि सर्वाण्येवसमन्ततः ४६ हीनाधिकां

में बहुत निर्मल प्रकाशित दिखाई दें व वही लिंगनाश रोग
 जब बहुत दिनों का होजाताहै तो नीलिका व काच रोग के
 नामसे प्रसिद्धहोजाता है कोई २ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि
 काचनामरोग जब चौथेपर्दे में आताहै तो लिंगनाश व नीलिका
 नाम रोग होजाता है परन्तु यह अर्थ श्लोकके अन्वय से नहीं
 आता इससे हमने वही लिखा है जो अन्वय से आता है ४१
 वातज नेत्ररोगी सबरूपोंको घूमते हुये देखताहै व उसे सब रूप
 मटमैले कुछ लाल टेढ़ेसे दिखाई देते हैं ४२ व जिसके नेत्र में
 पित्तके दोषसे रोगहोताहै वह सूर्य जुगुनू इन्द्रधन्वा विजुली
 नाचतेहुयेमोर व सब नीलेही पदार्थ देखता है ४३ व जिसके
 नेत्रों में कफके दोषसे रोगहोताहै वह मनुष्य चिकने उजले ज-
 लमेंडूबेहुये से व जड़ता युक्तरूपोंको देखता है ४४ व जिसके
 नेत्रमें रक्तके दोष से रोगहोता है वह मनुष्य लाल २ व विविध
 प्रकार के काले पदार्थ उजलाई लिये हुये व काले पीले भी
 रूपदेखताहै ४५ व जिसके नेत्रमें सन्निपातके दोषसे विकारहो-
 ताहै वह मनुष्य चित्र विचित्र उछलतेहुते एकही पदार्थ बहुत
 से वा एकके दो ऐसे सब को चारों ओरों से देखता है ४६ और

गान्धथवाज्योतींष्यपिचपश्यति ॥ पित्तंकुर्यात्परिम्ला
यि मूर्च्छितंरक्ततेजसा ४७ पीतादिशस्तथोद्योतान्नवी
नपिचपश्यति ॥ विकीर्यमाणान्खद्योतैर्दृश्यांस्तेजोभिरे
वच ४८ वक्ष्यामिषड्विधंरोगैर्लिंगनाशमतःपरम् ॥
रागोरुणोमारुतजःप्रदिष्टो म्लायीचनीलश्चतथैवपि
त्तात् ॥ कफात्सितशोणितजस्तुरक्तः समस्तदोषप्रभ
वोविचित्रः ४९ अरुणमण्डलंदृष्ट्यां स्थूलकाचारुण
प्रभम् ॥ परिम्लायिनिरोगेस्यात् म्लायिनीलं चमण्डल
म् ५० दोषक्षयात्कदाचित्स्यात्स्वयंतत्रप्रदर्शनम् ॥

कोई रूप उसे हीनांग कोई अधिकांग दिखाई दें व नानाप्रकार
के प्रकाशित पदार्थ उसे दिखाई दें तो रक्तके तेज में मिलकर
पित्त परिम्लायि नाम तिमिर को उत्पन्न करता है ४७ तब
रोगी को सब दिशा सूर्य व जुगनु पीले व प्रकाशित दिखाई
देते हैं वृक्ष सब तेजों से व जुगनुओंसे युक्त दिखाई देते हैं ४८
अवरंगों के भेदसे लिंगनाशरोग इसके पीछे ६ प्रकार के कहते हैं
वातसे जो लिंगनाश रोग होताहै वह लाल रंगका होताहै इस
से उसमें सब लालही लाल दिखाई देताहै व पित्तसे उत्पन्न
वालेका रंग मैला व नीला होता है इससे इस में येही रंग
दिखाई देते हैं कफ के दोषवालेका रंग उजलाहै इससे उसमें
उजलादिखाई देता व रक्तसे जो उत्पन्न होता वह भतिलाल
होताहै इससे इसमें लालही दिखाई देताहै व सन्निपात से उ-
त्पन्न लिंगनाशरोगका विचित्ररंग होताहै इससे उसमें सब पदा-
र्थ विचित्ररंग के दिखाईदेते हैं ४९ वातजरोग के विशेष लक्षण
कहते हैं—परिम्लायिरोगमें दृष्टिके आगे मोटेकाचकी ललाई के
लालरंग का मण्डल दिखाई देता है अथवा मटमैला और नी-
ला मण्डल दिखाई देताहै ५० व दोषके क्षय होजाने से जब

अरुणमण्डलं वाताच्चञ्चलम्परुषन्तथा ५१ पित्ततो
मण्डलं नीलं कांस्याभं पीतमेव च ॥ इलेष्मणा बहुलांस्नि
ग्धं शंखकुन्देन्दुपाण्डुरम् ५२ चलत्पद्मपलाशस्थः
शुक्लो विन्दुरिवाम्भसः ॥ मृद्यपाने च नयने मण्डलं त
द्विसर्पति ५३ प्रवालपद्मपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकम् ॥
दृष्टिरागो भवेच्चित्रो लिंगनाशो त्रिदोषजे ५४ यथास्वं
दोषलिंगानि सर्वेष्वेव भवन्ति हि ॥ पङ्कल्लिंगनाशाः षडिमे
च रोगा दृष्ट्याश्रयाः षट्चषडेव च स्युः ५५ पित्तेन दुष्टे
न विदग्धदृष्टिः पीता भवेद्यस्य नरस्य दृष्टिः ॥ पीतानिरू
पाणि च तेन पश्येत्समानवः पित्तविदग्धदृष्टिः ५६ प्राप्तेत्

जिसका दोष अधिक रह जाता है तब वही रंग दिखाई देने लगता
है व वात के दोषसे चञ्चल कड़ा और लाल मण्डल देख पड़ता
है ५१ व पित्तके दोषसे जब दृष्टि में विकार होता है तो कुछ का
ला व कांस्यके रंगका व पीला रंग दिखाई देता है व कफके दोष
से बहुत चिकना व शंख कुन्द चन्द्रमाके रंगका उजला रंग दि
खाई देता है ५२ व उसी लिंगनाश रोगमें कमल के पत्ते पर
स्थित चलायमान जल के बूँदकासा शुकरंग दिखाई देता है व
नेत्रोंके मीजनेपर वह मण्डल इधर उधर फैलने व दोड़ने लग
ता है ५३ व जब रक्तके दोषसे लिंगनाश रोग होता है तो मूँगाव
लाल कमल के पत्ते के रंगका मण्डल रोगी देखता है व त्रिदो
षज लिंगनाश रोगमें चित्र विचित्र दृष्टिका रंग हो जाता है ५४
व अपने २ दोषके रंग के चिह्न सबमें होते हैं प्रथमके कहे
हुये ६ लिंगनाश रोग व दृष्टि के आश्रित ये ६ लिंगनाश सब
मिलकर छ व छ बारह होते हैं ५५ जिसरोगीकी दृष्टि दुष्ट पित्त
के बढ़ने से पीली हो जाती है उससे वह सब रूपोंको पीलेही दे
खता है व उसरोगी का नाम पित्त विदग्धदृष्टि हो जाता है ५६

तीयेपटलेतुदोषे दिवानपश्येन्निशिबीक्षतेच ॥ रात्रोस
शीतानुगृहीतदृष्टिः पित्ताल्पभावादपिवानपश्येत् ५७
तथानरः श्लेष्म विदग्धदृष्टिस्तान्येवशुक्लानिच मन्यते
तु ॥ त्रिषुस्थितोयःपटलेषुदोषो नक्तांध्यमापादयति
प्रसह्य ५८ दिवाससूर्यानुगृहीतदृष्टिः पश्येत्तुरूपाणिक
फाल्पभावात् ॥ शोकज्वरायामशिरोभितापैरभ्याहताय
स्यनरस्यदृष्टिः ५९ सधूमकान्पश्यतिसर्वभावात्सधूम
दर्शीतिनरःप्रदिष्टः ॥ थोह्रस्वजात्योदिवशेषुकृच्छ्रात्ह
स्त्रानिरूपाणिचतेनपश्येत् ६० विद्योततेयस्यनरस्यदृ
ष्टिर्दोषाभिपन्नानकुलस्ययद्वत् ॥ चित्राणिरूपाणिदिवा
चपश्येत्सवैविकारोनकुलांध्यसंज्ञः ६१ दृष्टिर्विरूपाश्च

ज्व नेत्ररोगी के तीसरे पदोंमें दोष पहुँचजाता है तो वह फिर
दिनमें नहीं देखता रात्रिमें देखताहै क्योंकि रात्रिमें दृष्टिमें शी-
तलता आजाती है व पित्तकी अल्पता होजाती है इसी रात्रिमें
वह रूपोंको देखनेलगत है ५७ व वैसेही ज्व मनुष्य कफ वि-
दग्ध दृष्टि होताहै तो सबरूपोंको शुक्लवर्ण मानताहै जिसरोगी
के तीनों पटलों में कफ व्याप्त होजाताहै उसको ज्वरदस्तीवह
रात्रिमें नहींदेखनेदेता इसरोगीकोरात्र्यन्धरुहतेहैं व रोगको रतों-
धी ५८ व दिनमेंसूर्यकी अनुग्रह दृष्टिसे वहदेखताहै दिनमेंउपग-
ताके कारणसे कफकीअल्पता होजातीहै शोकज्वर अतिपरिश्रम
व शिरमें अत्यन्त घामलगनेसे जिस मनुष्यकी दृष्टि अत्यन्त
हत होजाती है ५९ तबवह सबपदार्थों को धूमलेरंगके देखने
लगतहै तबवह नर धूमदर्शी अर्थात् धूमिल देखनेवाला कहा-
ने लगता है जो ह्रस्वदृष्टि पुरुष है जिसकी लम्बीदृष्टि नहीं है
वहदिनमें सबरूपों को छोटे २ देखता है ६० जिस मनुष्य की
दृष्टि दोष से युक्त होकर न्योरेकी सी होजाती है वह दिन में

सनोपसृष्टा संकोचमभ्यंतरतस्तुयाति ॥ रुजावगाढं च
 तमक्षिरोगंगंभीरकेतिप्रवदंतितज्ज्ञाः ६२ वाहत्रोपुनर्द्वा
 विहसंप्रदिष्टौ निमित्ततश्चाप्यनिमित्ततश्च ॥ निमित्तत
 स्तत्रशिरोभितापात् ज्ञेयस्त्वभिष्पंदनिदर्शनस्सः ६३
 सुरर्षिगंधर्वमहोरगानांसंदर्शनेनापिचंभास्करस्य ॥ हन्ये
 तद्वट्टिर्मनुजस्यचैवं सोलिंगनाशस्त्वनिमित्तसंज्ञः ६४
 तत्राक्षिविस्पष्टमिवावभाति वैदूर्यवर्णाविमलाचट्टिः ॥
 प्रस्तार्य्यर्ममतनुस्तीर्णेश्यावंरक्तनिभंसिते ॥ सश्वेतंमृदुशु
 क्काम्मशुक्लेतद्वर्द्धतेचिरात् ६५ पद्माभंमृदुरक्तार्मयन्मांसं

चित्रविचित्र रूप देखता है इसविकारको नकुलान्ध्य कहते हैं
 ६१ जिसकी दृष्टि वात रोगसे युक्तहोनेसे भीतरको सिंकुड़जाती
 है व नेत्रमें पीड़ा बढ़ी होती है इस नेत्र रोग को उसके जानने
 वाले लोग गम्भीर दृष्टिकहते हैं ६२ अभिघातज लिंगनाश दो
 प्रकारके होते हैं वे बाहरी कहाते हैं उनमें एक किसी निमित्तसे
 होता है व दूसरा विना निमित्तसे योंही होआता है उनमें नि-
 मित्तसे जो होता है वह शिरमें बड़ाघाम वा आँच लगनेसे होता
 है अथवा कभी नेत्र के उठने से होता है ६३ जिस मनुष्यकी
 दृष्टि देवता ऋषि गन्धर्व्व अजगर तक्षकादि महासर्पों के देखने
 से वा सूर्य्य को बहुत देखनेसे इनसबोंके तेजसेहत होजाती है
 वह लिंगनाश अनिमित्त कहाताहै ६४ इसमें नेत्र वैदूर्य्य माणिके
 तुल्य निर्मल नीलरंगका दिखाईदेताहै व दृष्टि विमलहोजाती
 है वस दृष्टिज दोपहोगये नेत्रके श्वेतभागमें पतला लम्बा श्याम
 रंगका वा लालरंगका कुछ उजलाई लिये कोमल अथवा शुक्ल
 हरिरंगका मसा जो भूट पट बढआवे तो उसे प्रस्तारि अर्मरोग
 कहते हैं ६५ व जो उसीनेत्रके उजले भागमें कमलके रंगका
 कुछलाल कोमल मसाहोतो उसे रक्तार्म रोग कहते हैं व जो

वीयतेसिते ॥ पृथुमदधिमांसार्मबहुलंचयकृन्निभम् ६६
 स्थिरंप्रस्तारिमांसाढ्यंशुक्लंस्नाय्वर्मंपंचमम् ॥ श्यावाःस्युः
 पिशित निभाश्चविद्वोयेशुक्याभासितसिताः सशुक्ति
 संज्ञाः ६७ एकोयःशशरुधिरोपमश्चविदुःशुक्लस्थोभवति
 तदर्जुनंवदंति ॥ श्लेष्ममारुतकोपेनयच्छुक्लेमांसमुन्नतं ॥
 पिष्टवत्पिष्टकंविद्धिमलाक्तादर्शसन्निभम् ६८ जालाभः क
 ठिनशिरोमहांसरक्तः संतानस्मृतइहजालसंज्ञितस्तु ॥
 शुक्तस्थासितपिडिकाः शिरावृतायास्ताब्रूयादमितसर्मा
 पजाःशिराजाः ६९ कांस्याभोमृदुरथवारिविन्दुकल्पोवि
 ज्ञेयोनयनसितेवलासकार्ख्यः ७० पक्कःशोथःसंधिजः प्र

मताउसी उजले भागमें यकृत्की तरह कुछलाल कुछकाला
 मिलाहुआ चौड़ा मोटा कोमलहो उसेअधिमांसात्म्य कहतेहैं व
 जो बड़ा यकृत्कीतरहका कुछलाल कालामिलाहुआ ६६ स्थिर
 बहुत फैलाहुआ मांससेयुक्त सूखामसाहो उसे स्नाय्वर्म कहते
 हैं यह पाँचवां है शुक्तिरोग सूँतीके डौलके काले वा मांसकेरंगके
 बूँद स्थिर जो नेत्रके उजलेभागमें होते हैं वह रोग शुक्तिनाम
 कहाताहै ६७ व नेत्रके उजलेभागमें जो एकही विन्दु चौगड़ा
 वा खरगोशके रुधिरके रंगकाहो उसरोगको अर्जुन कहतेहैं व
 कफ और वातके कोपसे नेत्रके उजलेभागमें पीठाके तुल्य मांस
 ऊँचाहोआताहै उसका पिष्टकनाम होताहै इसका रंगप्रायःमैले
 दर्पणकासा होताहै ६८ नेत्रके उजलेही भागमें नसों का जाल
 सा बनकर बड़ाभारी तनजाताहै व उसका लालरंग होता है
 ऐसेरोगको जाल कहतेहैं जो नेत्रके कालेभागके समीप उजले
 भागमें नसोंसे विरीहुई उजली फुंसियाँ होती हैं उनको शिरा-
 जा कहतेहैं ६९ नेत्रके उजलेभागमें काँसेके रंगका कोमलजल
 के छोटे विन्दुकेतुल्य जो होताहै उसे वलासरोग कहते हैं ७०

स्त्रवेद्यःसांद्रं पूयं पूति पूलाय संस्थः ॥ ग्रन्थिर्नालपोट्टिस्त्रं
 धावपाकी कंडू प्रायोनी रुजस्तूपनाहः ७५ गत्वा संधी नश्रं
 मार्गेण दोषाः कुर्युः स्रावान् लक्षणैः स्वैरुपेतान् ॥ तं हि स्राव
 नेत्रनाडीति चैकेतस्यालिंगं कीर्त्तयिष्ये चतुर्था ७२ पाकः
 संधी संसवेद्यस्तु पूयं पूया स्रावो सोगदः सर्वजस्तु ॥ इवेतं
 सांद्रं पिच्छिलं यः सवेद्धि श्लेष्मा स्रावो नीरुजः संप्रदिष्टः
 ७३ रक्तास्रावः शोणिताद्यो विकारस्स्रावेदुष्णन्तत्र रक्तम्प्र
 भूतम् ॥ हारिद्राभंपीतिमुष्णं जलं वा पित्तास्रावः संश्रवे
 त्संधिमध्यात् ७४ ताम्रातन्वीदाहपाकोपपन्नाज्ञेयावैद्यैः

नेत्रके सान्धिसे उत्पन्न शोथ जिसमें सुईसे कोंचनेकीसी पीड़ा
 हो व उसमेंसे दुर्गन्धियुक्त पीववहै उसरोगको पूयालस कहते
 हैं नेत्रके काले धौर उजलेके जोड़पर नीलीगाँठ जो हो व नती
 पाके न पीड़ाकरे केवल खजुलातीरहै उसको उपनाहरोग कहते
 हैं ७१ वात पित्त कफ रक्त ये चारोदोष आँशुओं के मार्गमें होकर
 नेत्रके सन्धियोंमें जाकर अपने २ लक्षणोंसे युक्त पदार्थों को चु-
 खाते हैं उसरोगको नेत्रस्राव वा नेत्रनाडी कहते हैं इसके चिह्न
 चारप्रकारके होते हैं उन्हें हम कहेंगे ७२ जो नेत्र सान्धिमें पाका
 होकर पीवको चुखावे उसरोगको पूयास्राव कहते हैं वहवात पि-
 त्त कफ रक्त चारोंके योगसे उत्पन्न होता है व जिस पकेहुपेसे उज
 ली गाँठी व चिकनी पीववहै उसे कफास्राव जानो ७३ व जो
 रुधिरसे विकार होता है उसे रक्तास्राव कहते हैं उसमें उष्ण रक्त
 घहुंतसा चूता है व जो पित्तजसन्धिमें विकार होता है उसमेंसे ह-
 रिद्राके रंगका पीला उष्ण जल निकलता है इससे उसे पित्तास्राव
 कहते हैं ७४ नेत्रके काले व उजले जोड़पर लाल २ छोटीसी
 दाहयुक्त पकीहुई गोलसूजन होती है उसे पर्वणी कहते हैं व
 उसीकाले व नीलेके जोड़पर जो वात पित्त कफ रक्तके चिहनों

पर्वणीवृत्तशोफा ॥ जातासन्धौकृष्णशुक्लेलजीस्यात्तस्मि
 न्नेवरुयापितापूर्वलिङ्गैः ७५ कृमिग्रन्थिर्वर्मनःपक्ष्मण
 इचकंडुकुर्युःकृमयःसंधिजाताः ॥ नानारूपावर्मशुक्लांत
 संधौचरंत्यंतर्नयनंदूषयंतः ७६ अभ्यंतरमुखीताघ्रावा
 ह्यतोवर्मनश्चया ॥ सोत्संगोत्संगिपिडिकासर्वजास्थूल
 कंडुरा ७७ वर्मातेपिडिकाधमाता भिद्यंतधःस्रवंतिच ॥
 कुम्भीकवीजसदृशाः कुंभीकाःसन्निपातजाः ७८ स्यावि
 एयःकंडुरागुर्व्यैरक्तसर्षपसंनिभाः ॥ पिडिकाश्चरुजावं
 त्यःपोथकाइतिताःस्मृताः ७९ पिडिकायाः खरास्थूलाः
 सूक्ष्माभिरभिसंवृताः ॥ वर्मस्थाशर्करानामासरोगोवर्म
 दूषकः ८० एर्वारुवीजप्रतिमाःपिडिकामंदवेदनाः ॥ इल

सेयुक्त छोटीसी फुंसी होती है उसे अजली कहते हैं ७५ वरौनी
 व पलकों के सन्धिमें जो छोटे २ कीड़ेउत्पन्न होजाते हैं व उस
 स्थान में खजुहट उत्पन्न करते हैं व नानाप्रकारके रूपोंसे नेत्रके
 बीचको दूषित करतेहुये चलते रहते हैं इसरोगको क्रिमिग्रन्थि
 कहते हैं ७६ वर्मरोग अर्थात् पलक परके रोग वरौनियोंके वा-
 हर भीतर को मुख किये हुई लालरंग की फुंसी ऊँचीहो उसको
 उत्संगपिडिका कहते हैं यह वातादिसत्र दोषोंसे उत्पन्न होती है
 व उसमें खजुहट उठती है ७७ वरौनी के किनारे पर फुंसीहो
 फूलकर पकती व फुटती हैं व वहने लगती हैं ये कुम्भी के वी-
 जके तुल्य चपटी होनेके कारण कुम्भीका कहाती हैं व सन्नि-
 पात से उत्पन्न होती हैं ७८ लालसरसों भर २ की फुंसियां पीड़ा
 युक्त खजुली सहित जो वरौनियोंकी जड़ में होती हैं उनमें से
 कुछ जलसावहा करताहै उन्हें पोथकियां कहते हैं ७९ नेत्रकी
 पलकों के ऊपर मोटी फुंसी जो अन्य २ छोटी २ फुंसियों से
 घिरीहुई होती है व खरखरी होती है इसरोगको वर्मस्था शर्करा

क्षणाः खराश्च वर्त्मस्थास्तदर्शो वर्त्मकीर्त्यते ८१ दीर्घाकु
 रः खरः स्तब्धोदारुणोभ्यंतरोद्भवः ॥ व्याधिरेषोतिविख्या
 तः शुष्काशंसंज्ञितः ८२ दाहतोदवतीतामापिडिका
 चातुवर्त्मजा ॥ मृद्धीमंदरुजासूक्ष्मा ज्ञेयासांजननामिका
 ८३ वर्त्मोपचीयते यस्य पिडिकाभिः समंततः ॥ सवर्णा
 भिः स्थिराभिश्च विद्याद्बहलवर्त्मच ८४ कंडूमतालपतो
 देन वर्त्मशोथेत योनरः ॥ नसंप्रच्छादयेदक्षि यत्रासौव
 र्त्मबन्धकः ८५ मृद्वल्पवेदनंतामंयद्वर्त्मसममेवच ॥ अ
 कस्माच्च भवेद्रक्तं श्लिष्टवर्मेति तद्विदुः ८६ छिष्टं पुनः पि
 त्त्युतं शोणितं विदहेद्यदा ॥ ततः छिन्नत्वमापन्नमुच्यते
 वर्त्मकर्ममः ८७ वर्त्मजो ब्राह्मणो तश्च श्यावंशुनं सवेदन
 कहते हैं व यह पलकों को दूषित कर देता है ८० ककड़ी के बीज
 के तुल्य थोड़ी पीड़ावाली चिकनी व खरखरी भी फुंसियां जो
 पलकके ऊपर उभड़ आती हैं वह रोग अर्शोवर्त्म कहा जाता है ८१
 पलकपर लम्बा अस्त्रुभासा खरखरा कड़ा दारुण होता है यह भी-
 तरसे उत्पन्न होता है इसरोगको शुष्काशसू कहते हैं ८२ पलक
 के ऊपर दाह व कोंचनेकीसी पीड़ासे युक्त लाल फुंसी कोमल
 थोड़ी पीड़ावाली व सूक्ष्म होती है उसे अञ्जना कहते हैं ८३
 जिसकी पलक सबभोर से पलककेही रंगवाली फुंसियोंसे युक्त
 होजाय उसरोगको बहल वर्त्म कहते हैं ८४ खजुलीयुक्त थोड़ी
 सी कोंचनेकी पीड़ासे भी युक्त सृजनसे जो मनुष्य नेत्रको बराबर
 न मूँदसके उसरोगको वर्त्म बन्धक कहते हैं ८५ जो पलककोमल
 थोड़ी पीड़ासे युक्त लाल व समानहो पर अकस्मात् बहुतलाल
 होजाय उसरोगको श्लिष्ट वर्त्म कहते हैं ८६ वही श्लिष्टवर्त्म
 रोग जब पित्तसे युक्त होता है तो ललाईको जलादेता है तबवह
 कुछ गीलासा होजाता है इससे उसकानाम वर्त्म कर्मम कहा जाता

म् ॥ तदाहुःश्यामवर्त्मैति नेत्ररोगविशारदाः ८८ अरु
जंवाह्यतःशूनं वर्त्मयस्यनरस्यहि ॥ प्रक्लिन्नवर्त्मतद्विद्या
त् क्लिन्नमत्यर्थमंततः ८९ यस्यधौतान्यधौतानि संनह्य
न्तेपुनःपुनः ॥ वर्त्मान्यपरिपक्वानि विद्यादक्लिन्नवर्त्मतत्
९० विमुक्तसंधिनिश्चेष्टं वर्त्मयस्यनमील्यते ॥ एतद्वा
ताहतंकर्म जानीयादक्षिचिंतकः ९१ वर्त्मान्तरस्थंविष
मं ग्रन्थिभूतमवेदनम् ॥ आचक्षीतार्वुदमिति सरक्त
मविलंबितम् ९२ निमेषणिःशिरावायुः प्रविष्टोवर्त्मसं
श्रयः ॥ चालयत्यतिवर्त्मानि निमेषमितितंविदुः ९३ यः
स्थितोवर्त्ममध्येतुलोहितोमृदुरंकुरः ॥ तद्रक्तजंशोपिता
शीः छिन्नंछिन्नंप्रवर्द्धते ९४ अपाकीकठिनःस्थूलो ग्रन्थि

है ८७ जो पलक वा पपोटा भीतर व बाहर से सूजकर श्याम
व पीड़ासहितहो पलकोंके रोगों के जानने में चतुरलोग उसे
श्यामवर्त्मरोग कहते हैं ८८ जिस पुरुषकी पलक ऊपर सूजीहो
पर पीड़ा न होती हो व भीतर कीचर आदि से अत्यन्त गीली
रहती हो उसरोगको प्रक्लिन्न वर्त्म कहते हैं ८९ जिसकीपलक
बरोनियाँ वार २ धोई जायँ व वार २ बिनाधोई होजायँ तुरन्त
लासा कीचर लपट जायाकरे व अन्य बरोनियाँ सब वनाय परि-
पक्क होगईहो उसरोगको अक्लिन्न वर्त्म जानना चाहिये ९० जि-
सनेत्र का सन्धि कुछ हटजाय पर उपर मूँद न सके नेत्रकी चि-
न्ता करनेवाला वैद्य इसरोगको वातहत वर्त्म जाने ९१ जिसकी
पलक के भीतर टेढ़ी पीड़ा रहित गांठ लालहो व बढ़ने में शी-
घ्रताकरतीहो उसरोग को अर्बुद कहते हैं ९२ पलक में ठहरा
हुआ वायु पलक मारनेवाली नसमें प्रवेशकरके जो वार २ पलक
कों उधारे मूँदे उसको निमेष रोग कहते हैं ९३ रक्तके विकार से
नेत्रके पपोटेके भीतर जो लाल २ कोमल अंकुर निकले व का-

वर्त्मभवोरुजः ॥ संकण्डःपिच्छिलःकोला प्रमाणोलग
 एस्तुसः ६५ त्रयोदोषावहिःशोथंकुर्युश्छिद्राणिवर्त्मनोः॥
 प्रसवन्त्यन्तरुदकं विशवद्विशवर्त्मतत ६६ वाताद्याव
 र्त्मसंकोचञ्जनयन्तियदामलाः ॥ तदाद्रष्टुन्नशक्रोतिकु
 ञ्चनन्नामतद्विदुः ६७ प्रचालितानिवातेन पक्ष्माण्य
 क्षिविशन्तिहि ॥ घृष्यन्त्यक्षिमुहुस्तानि संरम्भञ्जनय
 त्यपि ६८ असितेचसितेभागे मूलकोशात्पतन्तिहि ॥
 पक्ष्मकोपःसविज्ञेयोव्याधिःपरमदारुणः ६९ वर्त्मपक्ष्मा
 शयगतं पित्तरोमाणिशातयेत् ॥ कण्डूदाहञ्चकुरुते प
 क्ष्मशातन्तमादिशेत् १०० ॥

शतिनेत्ररोगनिदानम् ॥

टने पर फिर २ वड़ा करे उसे शोणितार्शस् रोग कहते हैं ९४
 पपोटे में उत्पन्न कड़ी मोटी पीड़ा सहित गांठ जो पड़ती है व
 पकती नहीं चिकनी होती व घेरभर होती है व उसमें खजुहट
 उठती रहती है इसरोगको लगण कहते हैं ९५ वात पित्त कफ
 ये तीनों पलकोंके ऊपर सूजन करें व उसमें फिर छोटे २ छेद
 कर दें जिनमेंसे कमलकी जड़में जो पतले २ सूतसे होते हैं वैसी
 पतली धारसे पानी बहावें तो उसरोगको विशवर्त्म कहते हैं ९६
 वातादिक दोष जब पलकको सिकोरलेतेहैं तो वह फिर देखनहीं
 सका ऐसेरोगको कुञ्चन कहतेहैं ६७ वातसे चलाईहुई वरौनि
 यां जब नेत्रके भीतर घुँसजाती हैं व नेत्रमें बार २ घिसतीहैं उ
 ससे सूजन उत्पन्न कराती हैं ६८ वह सूजन चाहे नेत्रके काल
 भागमेंहो वा उजलेभागमेंहो व वरौनियोंकी जड़में वे घूमकर
 घुँसती चलीजाती हैं यह परम दारुण रोगहोता है इसका नाम
 पक्ष्मकोपहै ६९ पपोटे व वरौनियोंके आशयमें जाकर दुष्ट पित्त
 वरौनियों को सूक्ष्मकर देता है अर्थात् गिरादेताहै व खजुल

शिरोरोगाश्च जायन्ते वातपित्तकफैस्त्रिभिः ॥ संनिपा-
तेन रक्तेन क्षयेन कृमिभिस्तथा १- सूर्यावर्त्तानन्तवाता
र्द्धावभेदकशंखकैः ॥ यस्यानिमित्तं शिरसोरुजश्च भवन्ति
तीव्रानि शिचातिमात्रम् ॥ बन्धोपतापैः प्रशमश्च यत्र शि-
रोभितापः ससमीरणेन २ यस्योष्णमंगारचितंतथैव भ-
वेच्छिरोदाह्यतिवाक्षिनासा ॥ शीतेन रात्रौ च भवेच्छम-
श्च शिरोऽभितापस्सतु पित्तकोपात् ३ शिरोभवेद्यस्य क-
फोपदिग्धं गुरुप्रतिष्ठब्धमथोहिमञ्च ॥ शूनाक्षिकूटं व-
दनंच यस्य शिरोभितापः सकफप्रकोपात् ४ शिरोऽभिता

और दाह करता है इसरोगको पक्ष्मशात कहना चाहिये १०० ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादेनेत्ररोगनिदान

न्त्रिपष्टितमम् ॥ ६३ ॥

दोहा ॥ चौंसठयें महँ सकलशिर रोग निदान बखान ॥

देखहिं विज्ञलगाय चित ये कैसे बलवान १

अब शिरके रोगोंके निदान कहतेहैं—शिरके रोग वात पित्त व
कफ तीन तो इनसे होते हैं व सन्निपात रक्त क्षय व क्रिमियोंसे
चार ये होते हैं सूर्यावर्त्त अनन्तवात अर्द्धावभेदक व शंखक सब
मिलकर ११ होते हैं १ वातज शिरोरोगके लक्षण जिसके शिरमें
बिना कारण के तीव्र पीड़ाये होती हैं वे रात्रिमें अधिक होती हैं
वे बांधनेसे अथवा सेंकनेसे अच्छी होजाती हैं उसे वातिकशिरो
रोग कहते हैं २ पैत्तिक शिरोरोगके लक्षण—जिसका शिर अंगारों
के समान उष्ण होजाय नेत्र व नासिका जलने लगे शीत चन्द-
नादि लंगानेसे अथवा रात्रिमें शान्त होजायाकरे उस शिरोऽभि-
तापको पित्तज जानना ३ जिसका शिर कफसे युक्त होताहै भारी
रहताहै बंधाहुआ जान पड़ताहै ठण्डा रहता नेत्र व मुखपर भ-
भरीछाजाती है वस ऐसे शिरोरोगको कफकेकोपसे जाननाचा-

पेत्रितं यप्रवृत्ते सर्वाणिलिंगानिसमुद्भवन्ति ५ रक्तात्मकः
 पित्तसमानलिंगः स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच्च ॥ असृग्ब-
 साश्लेषमसमीरणानां शिरोगतानामिह संक्षयेण ६ क्षव
 प्रवृत्तिः शिरसो भितापः कण्ठो भवेदुग्ररुजोतिमात्रम् ॥
 संस्वेदनच्छर्दनधूमनस्यैरसृग्बिमोक्षैश्च विट्छिमेति ७
 निस्तुद्यते यस्य शिरोतिमात्रं सम्भक्ष्यमाणं स्फुरतीवचा-
 न्तः ॥ घ्राणाच्च गच्छेद्बुधिरसपूयं शिरो भितापः कृमिभिः
 सघोरः ८ सूर्योदयं या प्रतिमन्दमन्दमक्षिध्रुवं रुक्मसमुपै-
 ति गाढा ॥ विवर्द्धते चांशुमतासहैव सूर्यापवृत्तौ विनिव-

हिये ५ सन्निपातक शिरकी पीड़ा में वात पित्त कफतीनों के सब
 लक्षण होते हैं ५ रक्त के कोपसे जो शिरमें पीड़ा होती है उसमें
 सवपित्त के कोपवाली पीड़ा के लक्षण होते हैं उससे अधिक
 इसमें यह होता है कि शिर किसीसे छुमाया नहीं जासक्ता रक्त
 वसा कफ पवन जो सदा शिरमें रहते हैं जब इनका नाश हो जाता
 है तो शिर में अत्यन्त पीड़ा होती है ६ इस में छीकें बहुत
 आती हैं शिर में पीड़ा होती और जलता है ऐसा कष्ट व ऐसी
 पीड़ा होती है कि रहा नहीं जाता इसे क्षयज शिरोरोग कहते
 हैं इस में पसीना निकालनेसे वमनकराने से धुआँकी नास देने
 से व रुधिर निकालने से अधिक पीड़ा होती जाती है ७
 क्रिमिज शिरके रोगके लक्षण—जिसके शिरमें सुईभादि के कोंचने
 कीसी अत्यन्त पीड़ा हो व ऐसा जानपड़े कि शिरका भीतर
 कोई खायेलेता है इससे फूट जाया चाहता है व नासिकासे पवि-
 सहित रक्त बहाकरे ऐसे शिरोरोगको क्रिमियों के योगसे जान-
 नाचाहिये ८ सूर्यावर्त शिरोरोगके लक्षण—सूर्योदयहोते २ नेत्र
 और भौहोंमें पहिले धीरे २ पीड़ाहोने लगती है फिर जैसे २ सूर्य
 ऊपरको चढ़ते आते हैं उन के साथही साथ पीड़ा बढ़ती जाती

र्त्तते च ६ शीतेन शान्ति लभते कदाचिदुष्णेन जन्तुस्सु
 खमाप्नुयाद्वा ॥ सर्वात्मकं कण्ठतमं विकारं सूर्यापवृत्तन्तमु
 दाहरन्ति १० दोषास्तुदुष्टास्त्रय एव मन्यां संपीड्य गाढं
 सरुजांसतीव्राम् ॥ कुर्यन्ति साक्षिभ्रुविशंखदेशे गतिकरो
 त्याश्रुविशेषतश्च ११ गण्डस्य पार्श्वेतु करोति कम्पं हनुग्र
 हं लोचनजांश्च रोगान् ॥ अनन्तवातन्तमुदाहरन्ति दो
 षत्रयोत्थं शिरसो विकारम् १२ रूक्षाशनात्यध्यशनप्रा
 ग्वातावश्यमैथुनैः ॥ वेगसंधारणायास व्यायामैः कुपितो
 निलः १३ केवलः सकफोवाहं गृहीत्वा शिरसोवर्ती ॥ म

है व दोषहरके पीछे जैसे २ सूर्य नीचे को जाते हैं उनके साथ
 ही साथ निवृत्त होती जाती है ६ कभी शीतवस्तु के लगाने से
 पुरुष शान्तिको पाता है व कभी उष्णवस्तु के लगाने परभी यह
 विकार सन्निपात के कारण से होता है व इसको सूर्यावर्त्त अथवा
 सूर्यापवृत्त कहते हैं १० अनन्त वात नामक शिरके रोगके ल-
 क्षण—वात पित्त कफ तीनों दोष दुष्ट होकर गर्दनको पीड़ित करके
 अति तीव्र गाढी पीड़ासे युक्त करते हैं व नेत्र भौहँ कनपटियों
 में स्थित होकर उनमें विशेष पीड़ा करते हैं ११ व कानके पास
 फरफराहटको करते हैं चौहड़ीको जकड़ देते हैं नेत्रमें अनेक रोग
 उत्पन्न करते हैं इस सन्निपात से उठे हुये शिरके विकार को
 अनन्त वात कहते हैं १२ अधौखी व आधाशीशीके लक्षण—बहुधा
 रूपेही अन्नो के अधिक खानेसे भोजन करके फिर तुरन्तही भो-
 जन करने से पुरवाई बहने से अत्यन्त मैथुन करने से मल मूत्र
 वमनादि वेगों के रोकनेसे परिश्रम करने से अधिक दगड मुद्गरादि
 करने घुमाने से कुपित होकर वायु १३ केवल आपही अथवा
 युक्त होकर भाधे शिरको ग्रहण करके वह बलवान् गर्दन
 कनपटी कान नेत्र व ललाट इनके भाधेमें तीव्र वेदनाको

न्याभ्रशंखकर्णाक्षिललाटेर्द्धतिवेदनाम् १४ शस्त्रारणिनि
भांकुर्यात्तीव्रांसोर्द्धावभेदकः ॥ नयनंवाथवाश्रोत्रमभिवृ
द्धौविनाशयेत् १५ पित्तरक्तानिलादुष्टाः शंखदेशेविमू
र्च्छिताः ॥ तीव्ररुग्दाहरागंहि शोथंकुर्वन्तिदारुणम् १६
सशिरोविषवद्वेगी निरुंद्भ्याशुगलंतथा ॥ त्रिरात्राज्जी
वितंहन्ति शंखकोनामनामतः १७ त्र्यहाज्जीवतिभैष
ज्यं प्रत्याख्यायास्यकारयेत् १८ ॥ इतिशिरोरोगनिदानम् ॥

विरुद्धमद्याध्यशनादजीर्णाद्रिर्भ्रंपातादतिमैथुनाच्च ॥
यानाच्चशोकादतिकर्शनाच्च भाराभिघाताच्छयनादिवा

करता है १४ सो भी सामान्य पीड़ा नहीं करता किन्तु मानों
कोई कुल्हाड़ी आदिसे चीरे डालता है ऐसी पीर होती है इसरोग
को अर्द्धावभेदक कहते हैं बहुत अधिक बढ़जानेसे यह रोग जिस
ओर पीड़ा करता है उधर के नेत्रको वा कानको फोड़ डालता
है १५ शंखरोगके लक्षण-पित्त रक्त वायु दुष्ट होकर कनपटियों
में जाते हैं तब वहां तीव्र पीड़ा दाह ललाई व दारुण सूजनको
करते हैं १६ यह रोग विषके समान वेगसे शिरको रूंधकर भट
गलेको भी रूंध लेता है वस तीन रात्रिमें प्राण हरलेता है इस
रोगको शंख कहते हैं १७ जब इसरोग में रोगीतीन दिनतक
जीता बचे तो औपथ करना चाहिये व प्रथम से भी करतारहै
तो अच्छाही है १८ ॥

इति श्रीमाधवनिदानेभापानुवादोशिरारोग

निदानञ्चतुष्पष्टितमम् ॥ ६४ ॥

दोहा ॥ पैसठेयं महँ प्रदरप्रथ रोग निदानं कहेव ॥

यह नारिन का रोग है भापे ताके भेव १

अब स्त्रियोंके रोग कहतेहैं उनमें प्रथम प्रदररोगके लक्षण-यह
रोग विरुद्ध भोजन करनेसे मदिरा पीनेसे अजीर्ण में फिर भोजन

च, १ तंश्लेष्मपित्तानिलसन्निपातैश्चतुःप्रकारं प्रदरं वदन्ति ॥ असृग्दरं भवेत्सर्वसांगमर्दसवेदनम् २ तस्यातिवृद्धौ दौर्बल्यं श्रमो मूर्च्छामदस्तृषा ॥ दाहः प्रलापः पाण्डुत्वं तन्द्रारोगाश्च वातजाः ३ आमंसपिच्छाप्रतिमंसपांडुपुलाकतोयप्रतिमंकफात्तु ॥ सपीतनीलासितरक्तमुष्णपित्तात्तियुक्तं भृशवेगिपित्तात् ॥ रूक्षारुणं फेनिलमल्पमल्पं वातार्तिवातात्पिशितोदकाभम् ४ सक्षौद्रसर्पिर्हरितालवर्णमज्जाप्रकाशंकुणपात्रिदोषम् ॥ तच्चाप्यसाध्यं प्रवदन्तितज्ज्ञानतत्र कुर्वीतभिषक् चिकित्साम् ५ मासादपिच्छं

करनेसे गर्भपात होनेसे अति मैथुन करनेसे अधिक चलनेसे अति शोकसे अति दुबराने से भारी बोझा उठाने से दिनमें सोनेसे १ इन कारणों से प्रदररोग उत्पन्न होता है वह वातपित्त कफ व सन्निपातोंके योगसे चार प्रकारका होता है सब प्रकार के प्रदरों में योनि रो रुधिर बहता है व पीड़ा सहित शरीर ऐंठता है व हाथ पैरों में कुछ सूजनभी आजाती है २ प्रदर रोगके उपद्रव प्रदररोग के अत्यन्त बढजानेपर शरीरमें दुर्बलता श्रम मूर्च्छा मद पिपासा दाह अनर्थ वकना पीला होजाना तवींना व सब वातज रोगहोतेहैं ३ कफज प्रदरके लक्षण—कफके प्रदररोगमें आँके तुल्य चिकना उजला व मांडू वा पसावनके रंगका विकार गिरता है, व पित्तके में पीला नीला काला लाल पित्तके रंगका उष्ण पीड़ा सहित व पित्तके विकारोंसे युक्त अधिक बहता है वातज प्रदरके लक्षण—इसमें रूपा लाल फेनायुक्त थोड़ा २ मांसके धोवन के रंगका बहता है व वातज विकारों सहित होता है ४ सन्निपातसे उत्पन्न प्रदरके लक्षण—मधु घृत व हरिताल के रंगका व मज्जाके रंगका दुर्गन्धि युक्त विकार बहता है इसरोग को उस विद्याके जानने वाले असाध्य कहते हैं इससे वैद्य इस

दाहान्तिपंचरात्रानुबंधि च ॥ नैवातिबहुलत्राल्पमार्तवंश
 द्धमादिशेत ६ शशासृक्प्रतिमंयच्च यद्वालाक्षारसोप
 म् ॥ तदार्त्तवंप्रशंसंति यच्चाप्सुनविरज्यते ७ ॥

इतिप्रदर निदानम् ॥

विंशतिर्व्यापदोयोनेर्निर्दिष्टारोगसंग्रहे ॥ मिथ्याचा
 णताःस्त्रीणां प्रदुष्टेनार्त्तवेन च १ जायंतेवीजदोषाच्च दैव
 द्वाशृणुताःपृथक् ॥ सफेनिलमुदावर्त्ता रजःकृच्छ्रेणमुंच
 ति २ बंध्यांदुष्टार्त्तवांविद्याद्बिभ्रुतानित्यवेदनाम् ॥ परि
 ष्टुतायांभवतिग्राम्यधर्मेणरुग्भृशम् ३ वातलाकर्कशास्त

रोगकी चिकित्सा न करे ५ विशुद्ध रजोदर्शन के लक्षण—जो म-
 हीना भरकेपीछे चिकनाई दाह व पीड़ा से रहित रुधिरगिरे अ-
 र्थात् वह रूपाहो बहुत गरम न हो न उसके होनेमें कुछ पीड़ा
 हो ऐसा रुधिर जो निकलताहै वह शुद्धार्त्तव कहाता है ६ व
 जोरुधिर चौगड़ा वा खरगोशकेरक्तकेरंगकाहो अथवा जो महाउर
 के रंगकाहो अर्थात् जो लाह वा लाखके रंगकाहो व उसका रंग
 जल से धोने से छूटजाय दाग बनारहे ऐसे ऋतु धर्मको शुद्ध
 कहते हैं ७ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेप्रदररोगनिदानम्पञ्चपट्टि
 तमम् ॥ ६५ ॥

दोहा ॥ छासठयें मँहँ योनिगत रोगनिदान बखान ॥

कानि माधवाचार्य्य तिन देखहि लोगमहान १ ॥

योनि के रोगोंका निदान—रोगों के संग्रह में योनि के बीसरोग
 कहे गयेहैं वे स्त्रियों के मिथ्या आहार विहार करने से वा आ-
 र्त्तवधर्म के दुष्टहोने से होतेहैं १ व बीजके दोषसे और भाग्यसे
 भी होते हैं उनको अलग २ सुनो जो योनिफेना सहित कण्ठ से
 रुधिरको छोड़तीहै वह उदावृत्तायोनि कहातीहै २ जिस योनिमें

व्धाशूलनिस्तोदपीडिता ॥ चतसृष्वपिचाद्यासु भवंत्य
 निलवेदनाः ४ सदाहंक्षीयतेरक्तं यस्यांसालोहितक्षया ॥
 सवातमुद्गिरेद्धीजं वामिनीरजसान्वितम् ५ प्रसंसिनीस्रं
 शतेत्तु क्षोमितादुःप्रजायिनी ॥ स्थितंस्थितंहंतिगर्भं पु
 त्रघ्नीरक्तसंक्षयात् ६ अत्यर्थपित्तलायोनिर्दाहपाकज्व
 रान्विता ॥ चतसृष्वपिचाद्यासुपित्तर्लिंगोच्छ्रयोभवेत् ७
 अत्यानंदानसंदोषं ग्राम्यधर्मेणगच्छति ॥ कर्णिन्यांक
 णिकायोनीश्लेष्मासृग्भ्यांप्रजायते ८ मैथुनाचरणात्पूर्व

नित्यपीड़ाहुआकरे व मास २ पर मासिकधर्म न हुआकरे उस
 दुष्ट ऋतुधर्मवालीयोनिको बन्ध्याजानना चाहिये जिस योनिमें
 सदा पीड़ा हुआ करे उसे विप्लुता कहते हैं व जिस में मैथुनके
 समय बड़ीपीड़ाहो उसेपरिप्लुता कहतेहैं ३ जो योनिकर्कशकड़ी
 शूल व कोंचनेकीसी पीड़ासे पीडित हो उसे वातला कहते हैं व
 प्रथमवाली उदावृत्ता बन्ध्या विप्लुता और परिप्लुता इनचारों
 योनियों में वातज पीड़ा सदाहोतीहै ४ जिस योनिसे जलता
 हुआ रुधिर सदा बहतारहै उसे लोहितक्षया कहतेहैं जिसयोनि
 से रजवीज वात सहित निकले उसे वामिनी कहते हैं ५ जिस
 योनि से गर्भस्थान बाहर निकलआवे उसे प्रसंसिनी कहते हैं
 उसके संग पुरुष का प्रसंग होनेपर भी पुत्रादि नहीं होता जिस
 योनिसे रक्त सदा बहता रहताहै इस से गर्भ नहीं ठहरता उस
 योनिको पुत्रघ्नी कहते हैं ६ जिस योनिमें अत्यन्त दाह पकना
 व ज्वर बने रहते हैं उसे पित्तला कहते हैं इन में से प्रथम की
 चार योनियों में अर्थात् लोहित क्षया वामिनी प्रसंसिनी व पु-
 त्रघ्नी में पित्तके लक्षणों की उच्चता होतीहै ७ जो योनि बड़े
 वेगसेमैथुन करनेपर भी नहीं सन्तुष्टहोती उसे अत्यानन्दा कहते
 हैं व जिसयोनिमें कफ व रक्तके रहने के स्थानमें कमल के फूल

पुरुषादतिरिच्यते ॥ बहुशङ्कातिचरणातयोर्वीजं न वि-
दति ६ श्लेष्मालापिच्छलायोनिः कंडूयुक्तातिशीतला ॥
चतसृष्वपिचाद्यासु श्लेष्मलिंगोच्छ्रयो भवेत् १० अना-
त्तवास्तनीषंठीखरस्पर्शाचमैथुने ॥ अतिकायगृहीताया
स्तरुण्याश्रंडिनी भवेत् ११ विवृतातिमहायोनिः सूचीव-
क्कातिसंवृता ॥ सर्वलिंगसमुस्थानासर्वदोषप्रकोपजा १२
चतसृष्वपिचाद्यासु सर्वलिंगनिदर्शनम् ॥ पञ्चासाध्या

के भीतर के भुमके की नाई मांसका एक भुमका बनजाता है
उस योनिको कर्णिनी कहते हैं ८ व मैथुन करनेपर जो योनि
पुरुष से पहिलेही बीज को चुआदेवे उसे चरणा कहते हैं जिस
योनिमें मैथुनके पीछे स्त्री पुरुष दोनों का बीज न ठहरसके सब
का सब गिरपड़े उस योनिको अतिचरणा कहते हैं ९ जो योनि
बहुत चिकनी होती व खजुलाती बहुत है व सदा अतिठरडी
वनी रहतीहै उस योनिको श्लेष्मला कहतेहैं इसमें बहुत चिक-
ने होनेके कारण बीज नहीं ठहरता इससे गर्भाधान नहींहोस-
का इनमें प्रथम की चारों योनियों में अर्थात् अत्यानन्दा
कर्णिनी चरणा व अतिचरणा में श्लेष्माके चिह्नोंकी अधिकता
रहती है १० जिस स्त्री के मांसिकधर्म नहींहोता व जिसके स्तन
नहीं होते व मैथुनकरनेमें अति सूक्ष्म छिद्रके कारण लिंगप्रवेश
में महाकठिनता होती है उसको परडी अर्थात् हिजरी कहते हैं
जिसस्त्रीके बड़ेमोटे लिंगवाले पुरुष के सम्भोग करनेसे योनिसे
अण्डासा निकलआताहै उसकी योनिको अश्रिंडनी कहतेहैं ११
जो योनि बहुत फैलीहो उसे महायोनि कहतेहैं व जो योनि ब-
हुत संकीर्ण मुखकी हो उसे सूचीवक्का कहते हैं जिसयोनि में
सब घातादि दोषों के चिह्नों वह योनि सन्निपातिनी है १२ प-
हिलेकी चारपाण्डनी अश्रिंडनी महायोनि व सूचीवक्का इनमें

भवंतीहयोनयःसर्वदोषजाः १३ ॥ इतियोनिनिदानम् ॥

दिवास्वप्नादतिक्रोधाद्व्यायामादतिमैथुनात् ॥ क्षत
 च्चनखदंताद्यैर्वाताद्याः कुपितामलाः १ पूयशोणितसंका
 शं लकुचाकृतिसंनिभम् ॥ उत्पद्यतेयदायोनी नाम्नाक
 न्दस्तुयोनिजः २ रूक्षंविषण्णस्फुटितं वातिकंतंविनिर्दि
 शेत् ॥ दाहरागज्वरयुतं विद्यात्पित्तात्मकंतुतम् ३ नील
 पुष्पप्रतीकाशं कंडूमंतंकफात्मकम् ॥ सर्वलिंगसमायुक्तं
 संनिपातात्मकंवदेत् ४ ॥ इतियोनिकन्दनिदानम् ॥

सर्वदोषों के चिह्नहोतेहैं इससे ये सब सन्निपातिनी हैं इसलिये
 ये चार व पीछेवाली सन्निपातिनी ये पाँचों योनियाँ सन्निपात-
 ज होती हैं इससे असाध्य हैं १३ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेयोनिनिदानं पट्टपठितम् ६६ ॥

दोहा ॥ सरसत्रयं महं कविकह्यो योनीकन्द निदान ॥

लखहिं सुजनदै दृष्टिपुनि उनकाकरहिं प्रमान १ ॥

अब योनिकन्दका निदानकहते हैं—दिनमें बहुत सोनेसे अति
 क्रोधकरनेसे बहुतजोरकरनेसे अति मैथुनसे नख दांत आदि के
 घावलगजानेसे वात कफ पित्तकोप करके १ पीव व रुधिरके रंग
 का व बड़हरके फलके डोलका मांसका लुथड़ा योनि के बाहर
 लटकादेते हैं उसे योनिकन्द कहते हैं २ जो कन्द रूपा मांससे
 भिन्न अन्य किसिरंगका फूटाफाटाहो उसे वार्तिक योनिकन्दक-
 हतेहैं जो योनिकन्द दाह ललाई व ज्वर से युक्तहो उसे पित्तात्म
 क योनिकन्द जानना चाहिये ३ जो योनिकन्द नीलके पुष्पके रंग
 काहो व खजुआताहो उसे कफज योनिकन्द कहते हैं व जिसमें
 वातादिक सबों के लक्षण होते हैं उसे सन्निपातात्मक योनि-
 कन्द कहना चाहिये ४ ॥ इतिश्रीमाधवनिदानेभापानुवादेयोनि
 कन्दनिदानंसप्तपठितम् ॥ ६७ ॥

भयाभिघाततीक्ष्णोष्ण पानाशननिषेवणात् ॥ गर्भे
 पततिरक्तस्य सशूलंदर्शनंभवेत् १ आचतुर्थात्ततोमा
 सात्प्रसवेद्गर्भविद्रवः ॥ ततःस्थिरशरीरस्य पातःपंचम
 षष्ठयोः २ गर्भोभिघातविषमाशनपीडनाद्यैः पक्कंद्रुमा
 दिवफलंपततिक्षणेन ॥ मूढःकरोतिपवनःखलुमूढगर्भं
 शूलंचयोनिजठरादिषुमूत्रसंगमं ३ भुग्नोनिलेनविगुणे
 नततःसगर्भः संख्यामतीयबहुधासंभुपैतियोनिम् ॥ द्वा
 रंनिरुद्ध्यशिरसाजठरेणकश्चित्कश्चिच्छरीरपरिवर्तित
 कुब्जदेहः ४ एकेनकश्चिदपरस्तुभुजद्वयेन तिर्यग्ग

दोहा ॥ भरसठयें महँ कहसुकवि मूढगर्भ नीदान ॥

लखहिँ वैद्य शोचहिँ बहुरि यहगद कैसभजान १ ॥

मूढगर्भकेनिदान कहतेहैं-उसमेंप्रथम गर्भपातकेलक्षण-भय
 से किसी लाठी आदिकी चोट लगजाने से अति तीक्ष्ण व बहुत
 उष्ण अन्नजलके खानेपीनेसे गर्भ गिरपड़ताहै तब पीडासहित
 रुधिर गिरने लगताहै १ जबतक चारमासकागर्भ होताहै व इसी
 बीचमें गिरताहै तो रुधिरहीके तुल्य कोमल गाढासा कुछआकार
 युक्त गिरता है उसके पीछे फिर पांचयें छठे मास में जब स्थिर
 शरीरहोजाताहै तो शरीरवान् गर्भपातहोताहै २ किसी प्रकार
 की चोटलगनेसे खाले ऊंचे विषम आसन पर चढ़ने उतरनेसे
 व जोरसे मलने से क्षणमात्रमें गर्भवृक्षसे जैसे पकाफल गिर
 पड़ताहै वैसेही गिरपड़ताहै जो गर्भ डोलतानहीं उसे मूढगर्भ
 कहते हैं सो मूढपवन उसगर्भको मूढ करता है कहीं चलनेनहीं
 देता व पेटकमर आदि में पीडाभी करता है व मूत्रकोभी कुष्ठरो
 कताहै ३ मूढगर्भकी आठप्रकारकी गति होतीहै विगुण वायु से
 आंड़ाहुआ गर्भ दशमास बिताकर नीचेको मुखकर के बहुतप्र
 कारों से योनिके मुहड़ेपर आताहै वे प्रकार आठ हैं कोई मूढ गर्भ

तो भवति कश्चिद्वाङ्मुखोऽन्यः ॥ पार्श्वप्रवृत्तगतिरेति
 तथैव कश्चिदित्यष्टधा गतिरियं हि पराचतुर्धा ५ संकी
 लकः प्रतिखुरः परिघोऽथ वीजस्तेषूर्ध्ववाहुचरणैः शिरसा च
 योनिम् ॥ संगीचयो भवति किल कवत्सकीलो दृश्यैः खुरैः
 प्रतिखुरः सहिकायि संगी ६ गच्छेद्भुजद्वयशिराः सच वीज
 कार्ख्यो योनौ स्थितः सपरिघः परिघेण तुल्यः ७ अपविद्ध
 शिराया तु शीतांगी निरपत्रपा ॥ नीलोद्धतशिराहंति सा
 गर्भसचतां तथा ८ गर्भास्पन्दनमापीनां प्रणाशः श्यावपां

तो शिरसे योनिके द्वारको रूंधलेता है तब वड़ी कठिनता से बाहर
 आता है कोई पेटसे रूंधकर कोई अपने शरीरको दुनैकर कुबड़ा
 होजाता है उसी कुबड़ से योनिके द्वारको रूंधदेता है ४ कोई एक
 हाथसे कोई दोनों हाथों से कोई आप तिरछा होजाता है कोई
 नीचेको मुख करलेता है कोई पशुलियोंको घुमाकर करवटालिये
 योनिद्वार को रूंधता है बस यह आठ प्रकारकी गति हुई इनके विशेष
 चार प्रकारकी गति और है ५ १ संकीलक २ प्रतिखुर ३ परिघवौधा
 वीज उनमें जो हाथ पैर ऊपरको उठाये उन्हीं के बीचमें शिर
 किये इन पांचोंसे आकर योनिके द्वारको कालसमान बन्द करले
 वह संकीलक कहाता है व जो प्रथम अपने पैर कुछ बाहर दिखावे
 व आप फिर भीतरही अड़जाय वह प्रतिखुर कहाता है ६ व जो दो
 हाथ व शिर साथही पहिले दिखावे वह वीजक कहाता है व जो
 गर्भ परिघ अर्थात् घरनेके तुल्य आकर बड़ा २ योनिमें अड़जाय
 वह परिघ कहाता है ७ असाध्य सूदृग्गर्भ व असाध्य गर्भिणीके
 लक्षण—जिस गर्भिणीके लड़केका मुख नीचे को होगया हो व
 उसके भंग ठण्डे होगये हों व मोरे पीड़ाके उसकी लज्जा जाती
 रही हो देहका संभाल उसे न हो व उसके शरीरकी नसें नीची
 होकर फूल आई हों और लड़का कोपमें अड़ा हो तो वह स्त्री अपने

डुता ॥ भवेदुच्छ्वासपूतित्वं शूनतांतमृतेशिशौ ६ मानं
सागंतुभिर्मातुरुपतापैः प्रपीडितः ॥ गर्भो व्यापद्यते कुक्षौ
व्याधिभिश्च प्रपीडितः १० योनिसंवरणसंकुः कुक्षोमक
ल्लएवच ॥ हन्युः स्त्रियं मूढगर्भो यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः ११
इति मूढगर्भनिदानम् ॥

अंगमर्दो ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता ॥ शोफः शू
लातिसारौ च सूतिकारोगलक्षणम् १ मिथ्योपचारात्सं

गर्भको मार डालती है और वह गर्भ उसे मार डालता है अर्थात्
दोनों मर जाते हैं = जब गर्भका हिलना चलना बन्द हो जाय व
प्रसवकालकी पीड़ाभी बन्द हो जाय व गर्दिभणी गोरी भी होतो भी
सां वली हो जाय अथवा पीली हो जाय व उसके श्वासोंमें दुर्गन्धि आने
लगे व पेट फूलता चला आता हो तो जानना चाहिये कि लड़का
भीतर ही मर गया है ६ जब गर्दिभणी स्त्री मनके दुःखोंसे अथवा आने
वाले दुःखोंसे अत्यन्त पीडित होती है तो गर्भ पेट हीमें मर जाता
है अथवा गर्भ ही रोगोंसे पीडित हो जाता है तो भीतर ही मर जाता
है १० वायुके योग से योनिसंकीर्ण हो जाने से व कड़ी हो जाने से
व कोपि में शूल होनेसे वा शिलाज्जित लपट जानेसे अथवा ऊपर
के उपद्रवों के होनेसे अथवा मूढगर्भ होनेसे स्त्री मृतक हो जाती है
ये सब मार डालते हैं ११ ॥ इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे
गर्दिभणीरोगादिनिदानमष्टपष्टितमम् ६८ ॥

दोहा ॥ उनहत्तरयें महुँ कह्यो सकल प्रसूता रोग ॥

तिन निदान पुनि कविकह्यो करिके बहुत नियोग १ ॥
प्रसूतिका के रोगोंका निदान कहने हैं—भंग टूटना ज्वर आना
कम्प होना पिपासा लगना अंगोंका भारीपन शोथ आ जाना शूल
उठना दस्त होना वस ये सब सूतिका के रोग के लक्षण हैं १
मिथ्या आहार व्यवहारसे दोष उत्पन्न करनेवाले अन्नोंके भोजन

क्लेशाद्विषमाजीर्णभोजनात् ॥ सूतिकायाश्चयैरोगा जा
यन्तेदारुणास्तुते २ ज्वरातिसारशोफाश्च शूलानाहव
लक्षयाः ॥ तन्द्रारुचिप्रसेकाद्याः कफवातामयोद्धवाः ३
कृच्छ्रसाध्याहितेरोगाः क्षीणमांसवलाग्नितः ॥ ते सर्वे सू
तिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ४ ॥

इति सूतिकारोगनिदानम् ॥

सक्षीरौवाप्यद्गुग्धौवादोषः प्राप्यस्तनौ स्त्रियाः ॥ प्रद
प्यमांसरुधिरेस्तनरोगाय कल्पते १ पञ्चानामपितेषां
हि रक्तजं विद्रधिं विना ॥ लक्षणानि समानानि वाहयविद्र
धिलक्षणैः २ ॥ इति स्तनरोगनिदानम् ॥

से व जून कुजून विषम भोजन से व अजीर्ण में भोजन करने
से सूतिकाके जो रोग होते हैं वे दारुण होते हैं २ ज्वर अती-
सार शोथ शूल पेटफूलना वलक्षय भ्रूषानपडना अरुचि मुख
में पानी छूटना इत्यादि रोग कफ व वातसे होते हैं ३ जिस स्त्री
के मांस बल व अग्नि क्षीण होगये हों उसके ये रोग कष्टसाध्य
हैं उनमें सूतिका के नाम से जो प्रसिद्धे हैं वे सूति रोग हैं अन्य
ज्वर अतीसारदिक उनके उपद्रव हैं ४ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे सूतिकारोगनिदानमून
सप्ततितमम् ॥ ६९ ॥

दो० ॥ सत्तरयें महुँ हैं कहे सब कुंच रोग निदान ॥

देखहिं सुजन लगाय चित कैसे हैं बलवान ?

अब स्तनरोग निदान कहते हैं चाहे दूधवाली स्त्री के हों वा
बिनादूधवाली स्त्री के स्तनों में प्राप्त होकर वातादिदोष मांस व
रुधिरको दूषित करते हैं वही स्तनरोग होजाताहै इस रोग को
धन्नेलरोग कहते हैं ? ये स्तनरोग पाँचप्रकारके होते हैं रक्तज

गुरुभिर्विविधैरश्लेष्टैर्दोषैः प्रदूषितम् ॥ क्षीरंधात्र्याः
 कुंमारस्य नानारोगाद्यकल्पते १ कषायसलिलझाविस्त
 न्यन्मार्कृतदूषितम् ॥ कटुम्लत्वणम्पीत राजिमत्पित्त
 संज्ञितम् २ कफदुष्टं घनंतोये निमज्जतिसुपिच्छिलम् ॥
 द्विलिंगद्वन्द्वजं विद्यात्सर्वलिंगत्रिदोषजम् ३ अदुष्टं चां
 युनिक्षिप्तमेकी भवति पाण्डुरम् ॥ मधुरं चाविवर्णं च प्रसन्न
 तद्विनिर्दिशेत् ४ ॥ इति स्तन्यरोगनिदानम् ॥

विद्रधिरोगकोछोड़कर उनमें अन्यविद्रधियोंके लक्षणहोतेहैं २ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे स्तनरोगनिदानं

सप्ततितमम् ॥ ७० ॥

दोहा ॥ इकहत्तरयें महँ कहे स्तनभव दुग्ध निदान ॥

लपहिंसुजनमनलायके पुनितिनकरहिं प्रमान १

विविधप्रकार के भारी अन्य दोषों से दूषित होकर दूधपिलाने वाली स्त्रीका दूध बालकके रोगके लिये होताहै १ जो दूध वात से दूषित होजाताहै वह कसैलापन छूटहा होजाताहै व जो कटु खटा लुनखर व पीली २ लकारों से युक्त होजाता है वह पित्तसे दूषित कहाताहै २ व जो कफके दोषसे दूषित होजाताहै वह स्तनका दूध गाढा व बहुत चिकना होजाता है और पानी में डालनेसे डूबजाताहै व जिसमें दो दोषोंके लक्षण मिलें उसे द्वन्द्वज जानना चाहिये जिसमें तीनोंके लक्षण मिलें उसे त्रिदोषज अर्थात् सन्निपातज जानना चाहिये ३ शुद्ध दुग्धके लक्षण—जो दूध दोषरहित होताहै वह पानीमें डालदेनेसे उसीमें मिलजाता है व उजला होताहै मीठाहोता व जैसा दूधकारंग चाहिये वैसा हीहोताहै वस ऐसेही दूधको प्रसन्न वा शुद्धकहना चाहिये ४ ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादेधात्रीस्तनदुग्धनिदानं

मेकसप्ततितमम् ॥ ७१ ॥

त्रिविधः कथितो बालः क्षीरान्नोभयवर्तनः ॥ स्वास्थ्य
न्ताभ्यामदुष्टाभ्यादुष्टाभ्यारोगसंभवः १ वार्तिदुष्टाशशुः
स्तन्यं पिवन्वातिगदातुरः ॥ क्षामस्विरः कृशांगः स्याद्बद्धत्रि
ण्मूत्रमारुतः २ स्विन्नोभिन्नमलो बालः कामलापित्तरो
गवान् ॥ तृष्णालुरुष्णसर्वांगः पित्तदुष्टंपयः पिवन् ३ क
फदुष्टंपिवन्क्षीरं लालालुः श्लेष्मरोगवान् ॥ निद्रादितो
जडः शूनः शुक्लाक्षइन्द्रदनः शिशुः ४ शिशोस्तीव्रामतीव्रां
च रोदनालक्षयेद्ब्रजम् ॥ सयंस्पृशेद्भृशन्देशयत्र च

दोहा ॥ कहे वहत्तरये महै बालक रोग निदान ॥

देखनयोग्य सुबैद्यके जो शिशुपालनध्यान १

बालकोंके रोगोंके निदान—प्रथम बालक तिन प्रकारके होते हैं
एक वे जो केवल दुग्धही पीते हैं दूसरे वे जो अन्नही खाते हैं तीसरे
वे जो दूधपीते हैं व अन्नभी खाते हैं सो दूध व अन्नदोनों जहां दुष्ट नहीं
होते वहां बालक अच्छारहता है व जहां दोनों दुष्ट होजाते हैं वहां
बालक के रोग उत्पन्न होता है १ वातसे दुष्टदूधपीने से बालक वायु
के रोगोंसे आतुर होजाता है उसका बोलधीरा होजाता दुर्बल होजा
ता है व मल मूत्र व अधोवायु बँधजाते हैं खुलकर नहीं होते हैं २
पित्त से दूषित दूधके पीने से बालक के पसीना बहुत आने ल
गता है उसका मल पतला होजाता है व कामल रोग होता है व
पित्तका रोग होता पियासा अधिक लगती है सब अंग काले पड़
जाते हैं ३ व कफसे दूषित दुग्धपीने से बालक के राल बहुत ब
हती है व कफके सवरोग होते हैं व नाँद बहुत आती है दह ज
कडासा होजाता है सूजन हो आती है नेत्र उजले होजाते हैं व
वमन करने लगता है ४ बालक के रोगसे अधिक व थोड़ी पीड़ा
का ज्ञान करना चाहिये व बालक जिस अपने अंगके ऊपर अप
ना हाथ धार २ लेजाताहो अथवा जिस अंगके छनेपर अधिक

नसंज्ञावानतिरोदिति ॥ पूयशोणितगन्धित्वंस्कन्दापस्मार
 लक्षणम् २३ स्त्रस्तांगोभयचकितोविहंगगंधिःसास्त्रा
 वत्रणपरिपीडितःसमंतात् ॥ स्फोटैश्चप्रञ्चिततनुःसदाह
 पाकैर्विज्ञेयोभवतिशिशुःक्षतःशकुन्या २४ व्रणोस्फोटैश्चि
 तंगात्रंपंकगंधस्त्रवेदसृक् ॥ भिन्नवर्चाज्वरीदाहीरेवतीग्र
 हलक्षणम् २५ अतीसारोज्वरस्तृष्णातिर्यक्प्रेक्षणरोद
 नम् ॥ नष्टनिद्रंस्तथोद्विग्नस्त्रस्तःपूतनयाशिशुः २६ छ
 दिंकाशोज्वरस्तृष्णावसागन्धोतिरोदनम् ॥ स्तन्यद्वेषो
 तिसारश्चअंधपूतनयाभवेत् २७ वेपतेकासतेक्षीणोने
 त्ररोगोविगंधिता ॥ छर्द्यतीसारयुक्तश्चशीतपूतनयाशि
 शुः २८ प्रसन्नवर्णवदनः शिराभिरिवसंवृतः ॥ मूत्रग

आवे वस यह स्कन्दापस्मार का लक्षण है २३ जिस बालकके अंग सब गलजायँ भयसे चकड़ाया करे अंगमें पदियों कीसी गन्धि आवे अंगोंमें सब ओरसे घाव होजायँ व बहते रहें फोड़े देह भरमें हों उनमें दाह होताहो व सब पङ्गयेहों वस इस लक्षणमे युक्त बालक को शकुनि ग्रहसे पीडित जाननाचाहिये २४ जिस बालकके अंगोंमें घाव व फोड़े होगयेहों देहकी गन्धि कीचड कीसी हो रुधिर घावोंसे बहताहो मल पतला उतरताहो ज्वर वा दाह वना रहताहो वस ये रेवती ग्रहके लक्षणहैं २५ पूतना ग्रहके लक्षण—पूतना ग्रहपीडित छोटे बालकके अतीसार ज्वर तृष्णा ति-रछीनजर रोना नींद न आना ऊबना गलजाना ये सब होते हैं २६ अन्धपूतना नामग्रहसे पीडित बालकके वमन खांसी ज्वर तृष्णा वसाकीसीगन्धि बहुतरोना दूध न पीना अतीसार ये लक्षणहोते हैं २७ शीत पूतनाग्रहसे पीडित बालक कांपता खांतता क्षीणरहता नेत्ररोगी होता दुर्गन्धि आना वमनहोना अतीसार इन उपद्रवों से युक्तहोताहै २८ मुखमण्डिका ग्रहसे पीडित बालक प्रसन्नरंग

तेवालः क्षणात्त्रस्यतिरोदिति ॥ १७ ॥ नखैर्दन्तेर्दारयति
 धात्रीमात्मानमेवच ॥ ऊर्ध्वनिरीक्ष्यतेदन्तान्खादितुकूज
 तिजम्भते १८ भ्रुवौक्षिपतिदंतोष्ठफेनं वमतिचासकृत् ॥
 क्षामातिनिशिजागर्त्ति शूनांगोभिन्नविट्स्वरः ॥ १९ ॥ मांस
 शोणितर्गधिश्चनचाश्नातियथापुरा ॥ सामान्यग्रहजुष्टा
 नालक्षणंसमुदाहृतम् ॥ २० ॥ एकनेत्रस्यगात्रस्यस्त्रावःस्ये
 दनकंपनम् ॥ अर्द्धदृष्ट्यानिरीक्ष्येतवक्रास्योरक्तगन्धिकः
 २१ दन्तान्खादतिविस्त्रस्तःस्तन्यनैवाभिनन्दति ॥ स्क
 न्दग्रहगृहीतानारोदनञ्चाल्पमेवच ॥ २२ ॥ नष्टसंज्ञोवमेत्फे

क क्षणभर में ऊबने लगे व क्षणमें डरने वारोने लगे १७ व नहँ
 और दांतोंसे दूध-पिलाने वाली को व अपने कोभी जो जोचेकाटे
 ऊपरको देखता रहे दांत कटकटावे कुहुरु २ करे व जँभोई लेता
 रहे १८ भौहँ इधर उधर करता रहे दांत व ओठ भी फरफरा-
 ता चलाता रहे वार २ मुहँसे फेना निकालताही दुर्बल होग-
 या हो व रात्रिमें सोता न हो देहमें सूजन आगई हो मल पतला
 आताही गला खरखरा होगया हो १९ व मांस रक्त कीसी दुर्ग-
 न्धि उसके पास आवे जैसा पहिले खाता रहाहो वैसा न खाय
 ये सब सामान्य ग्रह के पकड़े हुये बालकोंके लक्षण हैं २० स्क-
 न्दग्रहके पकड़े हुये बालकके लक्षण—एक नेत्रसे बालकके पा-
 नी बहे व एकही ओरके अंगसे पानी चले व फरफराय और कां-
 पे एकही ओरके नेत्रसे देखे मुखं टेढ़ा होगया हो रक्त कीसी ग-
 न्धि आती हो २१ दांत वार २ कटकटाताहो देह ढील होगयाहो
 दूध पीना न चाहताहो व थोडासाराहो हो वस्त स्कन्दग्रहके प-
 कड़े हुये बालकोंके येही लक्षण होते हैं २२ स्कन्दापस्मार रोग
 के लक्षण-मूर्च्छित पदारहे मुहँसे फेना बहताजाय मूर्च्छा जाग-
 ने पर बहुत रोदन करे पीब व रुधिरकी दुर्गन्धि उसके अंगों में

नसंज्ञावानतिरोदिति-॥ पूयशोणितगंधित्वंस्कंदापस्मा
रलक्षणम् २३ स्त्रस्तांगोभयचकितोविहंगगंधिःसास्त्रा
वव्रणपरिपीडित समंतात् ॥स्फोटैश्चप्रचिततनुं सदाह
पाकैर्विज्ञेयोभवतिशिशुःक्षतःशकुन्या २४ व्रणैस्फोटैश्च
तेगात्रंपंकगंधंस्त्रवेदसृक् ॥ भिन्नवर्चांज्वरीदाहारेवतीग्र
हलक्षणम् २५ अतीसारोज्वरस्तृष्णातिर्यक्प्रेक्षणरोद
नम् ॥ नष्टनिद्रन्तथोद्विग्नस्त्ररतःपूतनयाशिशुः २६ छ
र्दिकाशोज्वरस्तृष्णावसागन्धोतिरोदनम् ॥ स्तन्यद्वेषो
तिसारश्चअंधपूतनयाभवेत् २७ वेपतेकासतेक्षीणोने
त्ररोगोविगंधिता ॥ छर्द्यतीसारयुक्तश्चशीतपूतनयाशि
शुः २८ प्रसन्नवर्णवदनः शिराभिरिवसंवृतः ॥ मूत्रग
भावे वस यह स्कन्दापस्मार का लक्षण है २३ जिस बालकके
अग सब गलजायँ भयसे चकड़ाया करे अंगमें पदियो कीसी
गन्धि आवे अंगोंमें सब ओरसे घाव होजायँ व बहते रहें फोड़े देह
भरमें हों उनमें दाह होताहो व सब परगयेहों वस इस लक्षणमे
युक्त बालक को शकुनि ग्रहसे पीडित जाननाचाहिये २४ जिस
बालकके अंगोंमें घाव व फोड़े होगयेहों देहकी गन्धि कीचड कीसी
हो रुधिर घावोंसे बहताहो मल पतला उतरताहो ज्वर वा दाह
वना रहताहो वस ये रेवती ग्रहके लक्षणहै २५ पूतना ग्रहके ल-
क्षण—पूतना ग्रहपीडित छोटे बालकके अतीसार ज्वर तृष्णा ति-
रछीनजर रोना नींद न आना ऊबना गलजाना ये सब होते हैं २६
अन्यपूतना नामग्रहसे पीडित बालकके वमन खाली ज्वर तृष्णा
वसाकीसीगन्धि बहुतरौना दूध न पीना अतीसार ये लक्षणहोते हैं
२७ शीत पूतनाग्रहसे पीडित बालक कांपता खांसता क्षीणरहता
नेत्ररोगी होता दुर्गन्धि आना वमनहोना अतीसार इन उपद्रवों
से युक्तहोताहै २८ मुखमण्डिका ग्रहसे पीडित बालक प्रसन्नरंग

न्धिश्चवक्रांशीमुखमण्डिकयाभवेत् २६ छदिस्पन्दनकं
ठास्यशोषंमूर्च्छाविगंधिताः ॥ ऊर्ध्वं पश्येद्दशदंतान् नैगमे
यग्रहं वदेत् ३० ॥ इति बालरोगनिदानम् ॥

स्थावरं जंगमं चैव द्विविधं विषमुच्यते ॥ मूलात्मकन्त
दाद्यं स्यात्परसर्पादिसंभवम् १ निद्रांतं द्रां क्लं मं दाहं मं पाकं
लोमहर्षणम् ॥ शोफं चैवातिसारं च कुरुते जंगमं विषम् २
स्थावरं तु ज्वरं हिक्कां दंतहर्षं गलग्रहम् ॥ फेनच्छर्द्यरुचि
श्वासं मूर्च्छां च कुरुते भृशम् ३ इङ्गितज्ञो मनुष्याणां वाक्
चेष्टामुखवैकृतैः ॥ जानीयाद्विषदातारमेतैर्लिङ्गैश्च बुद्धि
मान् ४ न ददात्युत्तरं पृष्ठो विवक्षुर्मोहमेति च ॥ अपार्थं व
प्रसन्नमुख मानों नसों से घेरा मूत्र कीसी गन्धि व बहुत भोजन
इनसे युक्त रहता है २६ नैगमेय ग्रहसे पीड़ित बालक व मन
कांपना गला मुख सूखना मूर्च्छा दुर्गन्धि आना ऊपरको देखना
दांतकटकटाना इन उपद्रवों से युक्त रहता है ३० ॥

इति श्रीमाधवनिदाने भाषानुवादे बालरोगग्रहनिदान

द्विसप्ततितमम् ॥ ७२ ॥

दो० ॥ तिहत्तरयें महीं कहे विष निदान बहुभांति ॥

देखहिं त्यागहिं तिन्हें बुध गीन २ उनकी पांति १

अत्र विषोंके निदान कहते हैं विष दो प्रकारके होते हैं एक स्थावर
दूसरे जंगम किसी वृक्षकामूल विष होता है वह स्थावर विष है व
सर्पादिकों से जो विष उत्पन्न होता है वह जंगमविष कहाता है १
जंगमविषसे व्याकुल पुरुष निद्रा भ्रगान ग्लानि दाह पक न
जाना रोमखड़ेहोना शोथ भतीसार इनसे युक्त होता है २ स्थावर
विष ज्वर हुचकी दांतघिसना गलाकटना फेनाडाकना अरुचि
श्वास व मूर्च्छा इनको करता है ३ बुद्धिमान् वैद्य धोलसे मुख उ-
दास हो जानेसे विष खिला देनेवाले को पहिचाने ४ जो पूछनेपर

हुसंकीर्णं भाषतेचापिमूढवत् ५ हसत्यक्रस्मात्स्फोटयत्यं
 गुलीविलिखेन्महीम् ॥ वेप्रथुश्चास्य भवति त्रस्तश्चान्यो
 न्यमीक्षते ६ विवर्णवक्तोऽध्यामश्चनखैः किंचिच्छिनत्यपि
 ज्ञालभेतासनन्दीन करेणचशिरोरुहम् ॥ वर्त्ततेविपरी
 तंचविषदात्ताविचेतनः ७ उद्वेष्टनंमूलविषैः प्रलापोमोह
 एवच ॥ जूम्भणंवेपत्तंश्वासोमोह, पत्रविषेणतु ८ मुष्कशो
 थःफलविषैर्दाहोन्नद्वेषएवच ॥ भवेत्पुष्पविषैश्चर्दिराध्मा
 नंश्वासएवच, ९ त्वक्सारनिर्वासविषैरुपयुक्तैर्भवंतिहि ॥
 त्रास्यदौर्गन्ध्यपारुष्यशिरोरुक्कफसंस्वाः १० फेनागमः

कुछउत्तर न देताहो कुछ कहनेपर जैसेहो मोहित होजाय बोले
 तो अप्रमाण बहुत संकीर्ण वात कहे वह भी जैसे कोई महामूढ
 कहताहै ५ अकस्मात् हसने लगे तालवजाने लगे अंगुलीसे प्रथ्वी
 खोदने लगे शरीर कांपने लगे भयड्याकुलहो परस्पर मुखदेख-
 ने लगे ६ मुखकारंग औरका और होजाय कुछ शोचनेलगे नहों
 संखरखोंटने लगे दुःखीसा एकस्थानपर बैठजाय हाथसे शिरके
 वाल खजुआनेलगे चेष्टारहित होजाय वस विपदेने वालेके ऐसे
 लक्षण होते हैं वैद्य इन्हीं लक्षणों से जानले ७ मूलादि विप के
 लक्षण हाथ पैरफूटके, अन्तर्त्य वकै मोहित होजाय जो ऐसाहो
 जानों कि किसीविपारी वृक्षकीजड़ इसनेखाई है जिसको जंभाई
 आवे कांपता रहे ऊर्ध्व श्वासले मोहितहो जानोकिइसनेकिसी
 विपारी वृक्षकी पत्ती खाईहै ८ किसी विपारी वृक्षकाफलखानेसे
 मुखमें सूजनआजातीहै दाहहोता अन्नखानेमें प्रीति नहीं रहती
 विप पुष्पोंकेखानेसे वान्त, पेटफूलना व श्वासअधिकचलनेलगते
 हैं ९ वकला सायर व गोंद इनविपोंसे मुखमें दुर्गन्धिआतीहै देह
 खरखरा होजाताहै शिरमें शूल मुखसे कफगिरना ये सब होते,

क्षीरविषैर्विड्भेदोगुरुजिह्वता ॥ हृत्पीडनन्धातुविषैर्मृ
 च्छ्वादाहश्चतालुनि ११ प्रायेणकालघातीनि विषाण्ये
 तानिनिर्दिशेत् ॥ सद्यःक्षतंपच्यतेयस्यजंतो स्रवेद्रक्तंप
 च्यतेचाप्यभीक्षणम् ॥ कृष्णीभूतंक्लिन्नमत्यर्थपूतिक्षतान्मां
 संशीर्यतेयस्यचापि १२ तृष्णामूर्च्छाज्वरदाहौचयस्य
 दिग्धाहतंतंमनुजंव्यवस्येत् ॥ लिंगान्येतान्येवकुर्यादमि
 त्रैर्वृणोविषंयस्यदत्तंप्रमादात् १३ वातपित्तकफात्मानोभो
 गिमंडलिराजिलाः ॥ यथाक्रमंसमारुयाताद्वयंतराद्वंद्वरू
 पिणः १४ दंशोभोगिकृतःकृष्णसर्ववातविकारकृत्॥पीतो

हैं १० विपारी वृक्ष के दूधके पीने से मुखसे फेना गिरताहै मल
 पतलाभाताहै जीभ गरूहोजातीहै हृदयमें पीड़ाहोती है धातुके
 विषमें मूर्च्छाआती तालुमेंदाह होताहै बहुधा ये सब विषकाला-
 न्तरमें प्राणघातक होते हैं ११ विषमें बुभुक्षेहुये अस्त्र शस्त्रादि-
 कोंसे उत्पन्न घावोंके लक्षण—जिस प्राणीका घाव तुरन्त पकउठे
 व उससे रुधिरवहे व बार २ पकता फूटतारहे व घावकालाहो
 जाय व पचपचातारहे दुर्गन्धि बहुतआवे घावसड़ता चलाजा-
 य १२ व पिपासा मूर्च्छा ज्वर दाहहों ऐसे मनुष्यको जानना
 चाहिये कि इसके विषमें बुभुक्षेहुये अस्त्रादि का घावहै ये सबचि-
 ह्नहोते हैं व यह काम बहुधा शत्रुलोग करते हैं व घाववालेकी
 असावधानतासे विपलगवाकर शत्रुलोग सीधारण घावपर पट्टी
 बंधादेतेहैं तो भी ऊपरके लिखेहुये चिह्नहोते हैं १३ अश्वसर्प
 का विषसबसे अधिकहोताहै—इससे उसकी जातोंका वर्णनकरते
 हैं—वात पित्त कफ शरीरी क्रमसे भोगी मण्डली व राजिल ये
 तीनसर्प होते हैं भोगी कालासर्प वातप्रकृतिक मण्डली जि-
 सके ऊपरचकधेहोते हैं पित्तप्रकृतिक राजिल डोमहरा कफ प्रक-
 तिकहोताहै इनके विशेष अन्य सर्प इन्द्ररूपी होते हैं अर्थात्

मंडलिजःशोथो मृदुःपित्तविकारवान् १५ राजिलोत्थोभ
वेदंशः स्थिरशोथश्चपिच्छिलः ॥ पाण्डुस्निग्धोतिसां
द्रासृक्सर्वश्लेष्मविकारवान् १६ अश्वत्थदेव्यायतनश्म
शानवल्मीकसन्ध्यासुचतुष्पथेषु ॥ याम्येचदष्टाःपरिव
र्जनीया ऋशेशिरामर्मसुयेचदष्टाः १७ दर्वीकराणांविष
माशुहन्ति सर्वाणिचोष्णेद्विगुणीभवन्ति ॥ अजीर्णपि
त्तातपीडितेषुबालेषुवृद्धेषुबुभुक्षितेषु ॥ क्षीणाक्षतेमेहिनि
कुष्ठजुष्टेरुक्षेत्रलेगर्भवतीषुचापि १८ शस्त्रक्षतेयस्यनरक्त
मस्ति राज्योलताभिश्चनसम्भवन्ति ॥ शीताभिरद्भि

उनकीमाता अन्य जातिकी व पिता अन्य जातिका होताहै १४
भोगी सर्पके काटने से जहां काटताहै काला होजाताहै व घात के
सब विकार होतेहैं मण्डलीके काटनेकाघाव पीलाहोजाताहै शो-
थघाता व कोमलरहता व पित्तके सब विकारहोतेहैं १५ राजि-
लके काटनेकाघाव चिकना व शोथ कड़ाहोताहै व उजला होता
व रक्तगाढा और चिकना निकलताहै वे कफके सब विकार उस
प्राणी के होतेहैं १६ जो सर्प पीपलके नीचे वा देवालयमें श्म-
शानभूमिमें वा व्यमौरी वामीमें सन्ध्यासमय में चौरहामें भर-
णी आर्द्रा आश्लेषा मघा मूल व कृत्तिकानक्षत्रों में मोटी नसमें
वा किसी सुकुमारस्थान में काटे तो वर्जनीयहै अर्थात् असा-
ध्यहोताहै १७ कालेसर्पोंका विष तुरन्त प्राणी को मारडालताहै
व अन्य सब सर्पोंके विष उष्णताके योगसे अपनी शक्तिसे दूने
होजातेहैं अजीर्ण रोगी पित्त प्रकृतिक घाम से पीडित बाल वृद्ध
भूखे क्षीणशरीर घावलगेहुये प्रमेहरोगी कोढ़ी रूपे निर्व्वल व
गर्भवती स्त्री के जब सर्पकाटताहै तो ये अवश्यही मरजातेहैं १८
जिस सर्पकाटेहुये प्राणीके शस्त्रसे काटने से रक्त न निकले व
कोड़ा आदि के मारनेसे जिसके वर्त्तन पड़आवे व शीतल जल

इचनरोमहर्षो विषाभिभतपरिवर्जयेत्तम् १९ जिह्वामुखं
 यस्यचकेशशातोनासावसादश्चसकण्ठभंगः ॥ कृष्णः
 सरक्तःश्वस्रश्चुश्चदशहन्वोःस्थिरत्वंसविवर्जनीयः ॥ २०
 वर्तिर्धनायस्यनिरेतिक्लाद्रक्तंस्त्रवेदुर्ध्वमधश्चयस्य ॥
 दंष्ट्राभिघाताश्चतुरश्रश्चयस्य ॥ तेषुचापित्रैद्यःपरिवर्जयेत्त
 २१ उन्मत्तमत्यर्थमुपद्रुतश्चहीनः स्वरंवाप्यथवाविवर्ण
 म् ॥ सारिष्टमत्यर्थमवेगिनश्च जह्यान्नरन्तत्रनेकर्मकुर्या
 त् २२ जीर्णविषग्नौषधिभिर्हतवादावाग्निवातात्पशो
 पितंवा ॥ स्वभावतोवागुणविप्रहीनविषंहिदूषीविषतामु

डालनेपर रोम न खड़े होजायँ. ऐसे विष पीड़ित प्राणीको त्याग
 देना चाहिये १९ जिस विष युक्तका मुख टेढ़ा होजाय. बाल गिर
 पड़े नासिका टेढ़ी होजाय बालबन्द होगयाहो व लाल काला
 मिला शोथ काटने के स्थान पर होआवे चौहड़ी बैठजाय धस
 वह असाध्य होजाताहै इससे औषधादि करनेके योग्य नहीं रह
 ता २० जिस सर्प के काटनेपर मनुष्यके मुख से रालकी गाढ़ी
 धार बत्तीकीतरह निकले व मुख गुद दोनोंकी रुधिर बहताजाय
 व जिसके चार दांतोंके धावहों ऐसे को भी वैद्यवरादे औषध न
 करे क्योंकि वह असाध्य होजाताहै २१ व जो सर्पके डँशने पर
 उन्मत्तता होगयाहो व उठ २ भागताहो वा ज्वरादि से पीड़ित
 होगयाहो वा जिसका बाल बन्द होगयाहो अथवा देह का रंग
 कुछ का कुछ बदल गयाहो अथवा नाकटेढ़ी होगई हो वा और
 कोई मरण सूचक अरिष्ट होगये हों व मलमूत्रका होना बन्द
 होगयाहो ऐसे पुरुषको त्याग देना चाहिये औषध न करनी चा
 हिये २२ जो बहुत दिनों का पुराना विषहोजाताहै अथवा जो
 विष नाशक औषधियोंसे हत होगयाहो अथवा जो दावाग्नि वायु
 वा घाम से सुखाडाला गयाहो वा उसका स्वभाव बदल गयाहो

पैति २३ वीर्याल्पभावान्ननिपातयेत्तत्कफान्वितं वर्षगे
 णानुबन्धि ॥ तेनादितोभिन्नपुरीषवर्णो विगन्धवैरस्ययु
 तःपिपासी २४ मूर्च्छाभ्रमन्गद्गदवाग्वमित्वं विचेष्टमा
 नोरतिमाप्नुयाद्वा ॥ आमाशयस्थेकफवातरोगी पक्वाश
 यस्थेनिलपित्तरोगी ॥ भवेत्समुद्धस्तशिरोरुहांगोविलून
 पक्षस्तुयथाविहंगः २५ स्थितंरसादिष्वथवायथोक्तान्क
 रोतिधातुं प्रभवानप्ररोगान् ॥ कोपञ्चशीतानिलदुर्दिनेषु
 यात्याशुपूर्वशृणुतस्याचिह्नम् २६ निद्रागुरुत्वञ्च विजृ
 म्भणञ्च विश्लेषहर्षावथवागमर्दः ॥ ततःकरोत्यन्नमदा

व गुणही बदल गया हो उस विपको दूषी विप कहते हैं २३ जब
 दूषी विप हो जाता है तो पराक्रम थोड़े हो जाने के कारण वह फिर
 मार नहीं सका क्योंकि कफके कारण से उसका बल अल्प हो-
 जाता है केवल वर्षभरके पीछे एक बार विपका जोर हो जाता है
 तब उससे पीड़ित मनुष्यके मल पतला होने लगता है व वर्ण
 भी कुछ का कुछ हो जाता है कुछ और प्रकारकी महक उसके
 अंगोंसे आने लगती है व देह नीरस हो जाता है पिपासा बहुत
 लगती है मूर्च्छा आजाती है भ्रम होता बोललरबरा जाता है व मन
 होने लगता है उलटे सीधे काम अस्त व्यस्त करने लगता व चित्त
 किसी में नहीं लगता २४ विपजत्र आमाशयमें प्राप्त हो जाता है तो
 कफके व वातके रोग उत्पन्न करता है व जत्र पक्वाशय में स्थित
 होता है तो वात व पित्तके रोग होते हैं उसरोगमें नेत्र शिरआदि
 के बाल गिर पड़ते हैं तब पक्ष उखाड़ेहुये पक्षी के तुल्य मनुष्य
 दिखाई देता है २५ रसादिक धातुओंमें विप पहुंचकर उसधातुके
 विकारसे उत्पन्न रोगोंको करता है व जिसदिन बहुत ठण्डा होता
 वा वायु अधिक बहता है वा बदरी बहुत होती है उस दिन भूटफट
 कोप करता है भव उसका लक्षण सुनो २६ दूषी विप में निद्राअंग

विपाकावरोचकम्मण्डलकोठजन्म २७ मांसक्षयंपादकर
 प्रशोफं मूर्च्छान्तथाह्निदिमथातिसारम् ॥ दूषीविषंश्वास
 तृषौचकुर्याज्ज्वरप्रवृद्धिञ्जठरस्यचापि २८ उन्मादम
 न्यज्जनयेत्तथान्यद्दाहन्तथान्यत्क्षपयेच्चशुक्रम् ॥ गाद्वद्य
 मन्यज्जनयेच्चकुष्ठन्तांस्तान्विकारांश्चबहुप्रकारान् २९
 दूषितन्देशकालान्नादिवास्वप्नैरभीक्षणशः ॥ यस्मात्स
 न्दूषयेद्वातूस्तस्माद्दूषीविषंस्मृतम् ३० सौभाग्यार्थस्त्रि
 यःस्वेदंरजोनानांगजान्मलान् ॥ शत्रुप्रयुक्तोश्चगरान्प्र
 यच्छन्त्यन्नमिश्रितान् ३१ तैःस्यात्पांडुःकृशोल्पाग्निर्ज्व
 रश्चास्योपजायते ॥ मर्मप्रधमनाध्मानंहस्तयोःशोथल

भारी लैभुआई अंगों का अलग २ होना रोम खड़े होना अंगोंका
 टूटना इसके पीछे अन्नखाने की इच्छाहो परखाने पर अन्न न
 वचे अरुचि होजाय अंगोंमें चकते पड़ें व खांसी उधराय २७
 मांस की क्षयहोजाती है हाथों पैरों में शोथ होजाता है मूर्च्छा
 वमन व अतीसार श्वास पिपासा ज्वर बहुत व पेट का भी
 फूलना ये सब होते हैं २८ उन्माद को उत्पन्न करता दाह को
 करता प्रमेह करता बोल लरवर करदेता कुष्ठरोगोंको उत्पन्नक-
 रता इसप्रकार दूषी विष नानाप्रकारके विकारों को करताहै २९
 जिससे कि देशकाल अन्न दिनमें सोने आदि से दूषित पुरुषको
 दूषितकरता व उसके धातुओं को दूषित करताहै इससे इसका
 दूषीविषनाम हुआ है ३० कोई २ दुष्ट स्त्रियां पति के सब धन
 की स्वामिनी होनेके लिये उसको अपना पसीना ऋतुधर्म का
 रुधिर व अपने अनेकअंगों के मल अन्नमें मिलाकर व शत्रुओं
 के प्रेरित विषभी अन्नमें मिलाकर खिलादेती हैं ३१ इन सब
 कारणों से पतिपीला दुर्बल मन्दाग्नि होजाता व उसके ज्वर
 भी होनेलगताहै सुकुमार स्थानों में पीड़ा होती पेट फूलता

क्षणम् ३२ जठरग्रहणीदोषो यक्ष्मगुल्मक्षयज्वराः ॥
 एवंविधस्यचान्यस्य व्याधेलिंगानिनिर्दिशेत् ३३ साध्य
 मात्मवतस्सद्यो याप्यसंवत्सरोषितम् ॥ दूषीविषमसा
 ध्यंतुक्षीणस्याहितसेविनः ३४ यस्माल्लूनंतृणम्प्राप्तामु
 नेःप्रस्वेदर्विदवः ॥ तस्माल्लूतास्तुभाष्यंते संख्ययाता
 श्चषोडश ३५ ताभिर्दष्टदंशकोथःप्रवृत्तिःक्षतजस्यच ॥
 ज्वरोदाहोतिसारश्चगदाःस्युश्चत्रिदोषजाः ३६ पिडि
 काविविधाकारा मण्डलानिमहांतिच ॥ शोफामहांतोमू
 दवोरक्तश्यावाश्चलास्तथा ३७ सामान्यंसर्वलूतानामे
 तदंशस्यलक्षणम् ॥ दंशमध्येतुयत्कृष्णं श्यावंवाजाल
 काततम् ३८ ऊर्ध्वाकृतिभृशंपाकं छेदकोथज्वरान्वि
 हाथ सूजमाते हैं ३२ उदरके रोग ग्रहणीदोष राजयक्ष्मा गुल्म
 क्षयी व ज्वर आदि अनेक रोगों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं
 ३३ दूषी विष उदरमें जाने से तुरन्त उपाय करने से साध्य हो
 जाताहै जब वर्षभर बीतजाता है तो कष्ट साध्यहोता है व क्षीण
 पुरुष और अपथ्य करनेवाले पुरुषका दूषीविष असाध्य होता है
 ३४ वशिष्ठकी धेनु विश्वामित्र हरलेगये थे तब मुनि के कोप से
 पत्नीने के वृद्ध जिस से कि काटेहुये तृणोंपर गिरे उनसे उत्पन्न
 होनेके कारण वे विष लूताके नामसे प्रसिद्ध हुये वे लूता १६
 होतीहैं ३५ उनके काटने के लक्षण—जब लूता काटती हैं तो
 घाव सड़जाता है व रुधिर बहने लगता है ज्वर दाह अतीसार
 व तीनोंदोषोंसे उत्पन्न रोग होते हैं ३६ विविधप्रकार की फुं-
 सियां होती हैं व बड़े २ मण्डल शरीर में पड़जाते हैं व कोमल
 बड़े २ शोथ होते हैं व रक्तकाला होजाता है व फुंसियां फैलती
 चलीजाती हैं ३७ सामान्यरीतिसे यह सब लूताओं का लक्षण
 है काटेहुये घावके बीचमें जो काला व तामड़ेरंगका चिह्नहोजाय

तम् ॥ दूषीविषाभिलूताभिस्तद्वृष्टमिति निर्दिशेत् ३६
 सर्पाणामेव विषमूत्र श्वक्रोधसमुद्भवाः ॥ दूषीविषा
 प्राणहरा इति संक्षेपतोमताः ४० शोफाः श्वेतासितार
 क्ताः पीताः सपिडिकाज्वराः ॥ प्राणांतिकाभिर्ज्जायन्ते
 दाहहिक्काशिरोग्रहाः ४१ आदंशाच्छोणितम्पाण्डुम
 एडलानिज्वरोरुचिः ॥ लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूर्ष
 विषादिते ४२ मूर्च्छांगशोफत्रैव एष्यं हृदोमंदश्रुति
 ज्वरः ॥ शिरोगुरुत्वं लालासृक्छादिश्चासाध्यमूषकैः ४३
 काष्ण्यैश्चात्रमथवानानावर्णत्वमेव च ॥ व्यामोहोवर्च
 सोभेदोदण्डे स्यात्कृकलासकैः ४४ दहत्यग्निरिवादौ तुभि

व वह जाल से घिरा हो ३२ व बहुत पकजाय पंचपचाता रहे
 फूटकर पीव वह ज्वरहो ऐसे घावको दूषी विषाताम लूताओंका
 दशाहुआ जानना चाहिये ३६ प्राण हरलूता के लक्षण—सर्पों के
 मलमूत्र व मरेहूये सर्प के सङ्गजाने से उत्पन्न दूषी विषप्राण
 हरलूता कहाती हैं यह संक्षेपसे हमने कहा ४० इन प्राणहरालू
 ताओं से शोथ श्वेत काले लाल पीलेरंगकी फूसियां ज्वर
 दाह हुचकी शिरभारी ये रोग होते हैं ४१ विषवाले मूषक के
 काटने से उस स्थान से पाण्डुरंगकी रुधिर बहता है शरीर
 पर चकंधे पड़जाते हैं रोम खड़े होजाते हैं व दाह होता है वस
 यही आखुदूषी विष कहाता है ४२ असाध्य अर्थात् प्राणहरा
 मूषकों के काटने से मूर्च्छा अंगों में शोथ शरीरका रंग कुछका
 कुछ गीलासा कम सुनाई देना ज्वर शिर भारी राल व रुधिरमि
 ला वमन ये लक्षण होते हैं ४३ गिरगिटों के काटनेसे अंगकाला
 नीला वा तामड़ा वा नानाप्रकार के रंगकाहो जाता है भ्रमहोता
 व भ्रतीसार होता है ४४ बीछीके विषके लक्षण—जब बीछी मार
 ती है तो पहिले अग्नि के समान जलने लगता है व जानी उपर

तत्तीव्रोर्द्धमाशुच ॥ वृश्चिकस्यविषंयाति देशेपञ्चाच्चति
 ष्ठति ४५ दष्टोऽसाध्यस्तुहृद्घ्राणरसनोपहतोनरः ॥ मां
 सैः पतद्भिरत्यर्थवेदनात्तो जहात्यसूनु ४६ विसर्पः श्वयथुः
 शूलज्वरश्छर्दिस्थापिवा ॥ लक्षणंकणभैर्दष्टेदंशश्चैव
 विशीर्यते ४७ हृष्टरोमोच्चिटिंगेन स्तब्धलिंगोभृशार्ति
 मान् ॥ दष्टःशीतोदकेनैवसिक्तान्यंगानिमन्यते ४८ एक
 दंष्ट्राहितशूनः सरुजःपीतकस्तृषा ॥ छर्दिर्निद्राचसविषै
 र्मैडूकैर्दष्टलक्षणम् ४९ मत्स्यास्तुसविषाः कुर्युर्दाहंशोफं
 रूजंतथा ॥ कंडूशोषज्वरंमूर्च्छांसविषास्तुजलौकसः५०
 विदाहंश्वयथुतोदं स्वेदं च गृहगोधिका ॥ दंशस्वेदंरूजं
 दाहंकुर्याच्छतपदीविषम् ५१ कंडूमान्मशकैरीषच्छोफः
 को अंगोंको फाड़तीहुई चढाये लियेजाती है फिर अन्तमें जहाँ
 डंकमारती है वहाँ विपरहजाताहै ४५ स्थान विशेषके कारण
 वीछी के असाध्य लक्षण—हृदय नासिका जीभमें वीछीके डँशने
 से इनस्थानोंका मांसगलकर गिरपड़ताहै तब अत्यन्त पीडासे
 युक्तहोकर प्राणी प्राणोंको छोड़देताहै ४६ कणभनाम कीड़ों के
 काटने से (विसर्प) फैलना शोथ शूल ज्वर वान्त ये होते हैं व
 जहाँ काटते हैं वहाँ सड़जाताहै ४७ उच्चिटिंग नाम कीड़े केकाट-
 नेसे रोम खड़ेहोजाते हैं लिंगखड़ा व कड़ा होजाताहै पीडा अ-
 धिक होती है जिसके काटताहै वह अपने अंगोंको शीतल जलसे
 सींचेहुये मानताहै ४८ विपवाले मेड़कके काटनेसे उसके एकही
 दाँतके लगनेसे सूजनहो आतीहै पीडाहोती व सूजनका रंग पीला
 होताहै उसे प्यासलगती वमनहोता व नाँद अधिक आतीहै ४९
 विपवाली मच्छलियों के काटने से दाहशोथ व पीडाहोती है व
 विपवाली जोंकके काटनेसे खजुली शोथ व ज्वर मूर्च्छा होती है ५०
 विपयुक्त घूसके काटनेसे दाह शोथ कोंचनेकी पीडा व पसीना

स्यान्मन्दवेदनः ॥ असाध्यकीटसदृशमसाध्यंमशकक्ष
 तम् ५२ सद्यःप्रस्त्राविणीश्यावादाहमूर्च्छाज्वरान्विता ॥
 पिडिकामक्षिकादंशेतासांतुस्थविकासुहृत् ५३ चतुष्पा
 द्विर्द्विपाद्विर्वानखदन्तक्षतंतुयत् ॥ शूयतेपच्यतेवापिस्र
 वतिज्वरयत्यपि ५४ प्रसन्नदोषंप्रकृतिस्थधातुमन्नाभि
 कांक्षंसममूत्रविट्कम् ॥ प्रसन्नवर्णेन्द्रियचित्तचेष्टं वैद्योव
 गच्छेदविषमनुष्यम् ५५ ॥ इति विपनिदानम् ॥

पित्तोरत्यल्पवीर्यत्वादासेक्यःपुरुषोभवेत् ॥ सशुक्र
 म्प्राश्यलभते ध्वजोच्छ्रायमसंशयम् १ यःपूतियोनोजा

होताहै खनखजूरके काटनेसे पसीना पीड़ा दाहहोताहै ५१ मसों के
 काटनेसेखजुआताहै कुछसूजनहोती व मन्दपीड़ाहोतीहै पर्वतादि
 परके असाध्य मसों के काटने से असाध्य कीड़ोंके काटने के तुल्य
 असाध्य घावहोताहै ५२ विपवाली मधुमक्खियोंकेकाटनेसे तुरंत
 घावहोकर बहने लगते हैं व छोटी २ कालीदाह मूर्च्छा ज्वरयुक्त
 फुंसियाँ होआती हैं मक्खियों के बीचमें जो स्थविकाहोती है वह
 प्राणहरलेती है ५३ व्याघ्रादि चौपायों के व बानरादि दो पायों
 के नखों व दाँतों में जो विप होताहै वह सूजन करता पकाता
 फूटकर पीव वहाता व ज्वर उत्पन्न करताहै ५४ जब किसी प्र-
 कारके विपसे पीडित मनुष्य के वातादिक दोष प्रसन्न होजायँ
 अपने स्थान पर ठीक होजायँ व रस आदि धातुभी अपने २ स्व-
 भावसे युक्त होजायँ उनमें कुछ विकार न रहजाय अन्न खाने
 की इच्छाहो मल मूत्र पीड़ा रहित अच्छे प्रकार होनेलगें देहका
 रंग यथावस्थित होजाय इन्द्रियां व मन भी प्रसन्न होजायँ तो
 वैद्य उस मनुष्य को विप रहित जानले ५५ ॥

इतिश्रीमाधवनिदानेभाषानुवादेविपनिदानन्त्रिसप्ततितमम् ७३॥

येतससौगंधिकसञ्ज्ञितः ॥ सयोनिशेफसोर्गंधमाघ्रांयत्
 भतेवलम् २ स्वेगुदेत्रह्यचर्याद्यस्त्रीषुपुं वत्प्रवर्तते ॥
 कुम्भीकस्सतुविज्ञेयईर्ष्यकंशृणुचापरम् ३ दृष्ट्वाव्यवाय
 मन्येषांव्यवायेयःप्रवर्तते ॥ ईर्ष्यकस्सतुविज्ञेयोदृग्घो
 निरयमर्ष्यकः ४ योभार्याधामृतौमोहादंगनेवप्रवर्त
 ते ॥ तत्रस्त्रीचेष्टिताकारोजायतेषण्डसञ्ज्ञितः ५ ऋतौ
 पुरुषवद्वापिप्रवर्तन्तेऽङ्गनायदि ॥ तत्रकन्यायदिभवेत्सा
 भवेन्नरचेष्टिता ६ ॥ इतिपाण्ड्यनिदानम् ॥

शुनश्श्लेष्मोल्लवणादोषस्सञ्ज्ञां सञ्ज्ञावहाश्रि-
 ताः ॥ मुष्णन्तःकुर्वतेक्षोभन्धातूनामतिदारुणम् १
 लालावानन्धवधिरस्सर्वतस्सोऽभिधावति ॥ स्रस्तपु
 च्छहनुस्कन्धश्शरोदुःखीनताननः २ दंशस्तेनविदष्ट
 स्य सुप्तःकृष्णंक्षरत्यसृक् ॥ हृच्छिरोरुग्ज्वरस्तम्भत्
 णामूच्छ्रोत्रोद्भवोऽनुच ३ अन्येनान्येऽपिवोधव्या व्या
 लादंष्ट्राप्रहारिणः ॥ शृगालाश्वतराश्वर्क्ष द्वीपिव्याघ्र
 वृकादयः ४ कण्डूनिस्तोदवैवर्ण्यसुप्तिकेदज्वरभ्रमाः ॥
 त्रिदाहरागरुक्पाक शोफग्रन्थिविकुञ्चनम् ५ दंशद्वद
 रणंस्फोटाः कर्णिकामण्डलानिच ॥ सर्वत्रसत्रिषेलिङ्गं
 विपरीतन्तुनिर्विषम् ६ दष्टोयेनतुतच्चेष्टा रुतंकुर्व
 न्विनश्यति ॥ पश्यंस्तमेवचाकस्मादादर्शसलिलादिपु
 ७ योद्ध्यस्त्रस्येददष्टोऽपिशब्दसंस्पर्शदर्शनैः ॥ जलस
 न्नासनामानन्ददष्टन्तमपिचर्जयेत् ८ ॥ इत्यलर्कनिदानम् ॥

शाखासुकुपितोदोषस्सोऽस्रं कृत्वाविसर्प्यवत् ॥ भिन
 त्तितक्षतेतत्र सोष्ममांसविशोष्यच १ कुर्यात्तन्तुभिन

उजीवं वृत्तसितद्युतिस्वहिः ॥ शनैश्शनैःक्षताद्यातिच्छे
दात्कोपमुपैति च २ तत्पाताच्छोफशान्तिस्स्यात्पुनस्था
नान्तरे भवेत् ॥ सस्नायुकेति विख्यातः क्रियोक्ता तु विस
र्पवत् ३ वाहोर्यदि प्रमादेत जंघयोस्तु द्यते क्वचित् ॥ सं
कोचं खञ्जतां चैव च्छिन्नो जन्तुः करोत्यसौ ४ ॥

इति स्नायुनिदानम् ॥

ज्वरोदाहोभ्रमोमोहो ह्यतीसारो वमिस्तृषा ॥ अनि
द्रामुखशोषश्च तालुजिह्वा च शुष्यति १ ग्रीवायाम्परिहृ
श्यन्ते स्फोटकास्सर्षपोपमाः ॥ धृताशनात्स्वेदरोधान्मथ
रो जायते नृणाम् २ ॥ इति मन्थरकज्वरनिदानम् ॥

ज्वरातिसारौ ग्रहणी अर्शो जीर्णविषूचिका ॥ अलसश्च
विलम्बी च क्रिमिरुक् पाण्डुकामलाः १ हलीमकरक्तपित्तराज
यक्ष्मा उरःक्षतम् ॥ कासो हिक्का सहश्वासः स्वरभेदस्त्व
रोचकः २ छर्दिस्तृष्णा च मूर्च्छा च रोगाः पानात्ययादयः ॥
दाहोन्मादावपस्मारः कथितोऽथानिलामयः ३ वातरक्त

दोहा ॥ चौहत्तरथे महँ कह्यो जितने रोग निदान ॥

अनुक्रमणिका सबनकी देखहिं लोग महान १

जितने रोगोंके निदान इसग्रन्थ में कहे हैं उनकी अनुक्रमणी
कहते हैं ज्वर १ अतीसार २ ग्रहणी ३ अर्शसू ४ अजीर्ण ५
विषूचिका ६ अलस ७ विलम्बी ८ क्रिमि रोग ९ पाण्डु १०
कामल ११ ॥ १ ॥ हलीमक १२ रक्तपित्त १३ राजयक्ष्मा १४
उरःक्षत १५ कास १६ हिक्का १७ श्वास १८ स्वरभेद १९
अरोचक २० ॥ २ ॥ वमन २१ तृषा २२ मूर्च्छा २३ पाना-
त्ययादि २४ दाह २५ उन्माद २६ अपस्मार २७ वातरोग २८
॥ ३ ॥ वातरक्त २९ ऊरुस्तम्भ ३० आमवात ३१ शुल ३२

मुरुस्तंभआमवातोथशूलरुक् ॥ पंक्तिजंशूलमानाहउ
 दावतोथगुल्मरुक् ४ हृद्रोगोमूत्रकृच्छ्रश्चमूत्राघातस्त
 थाश्मरी ॥ प्रमेहोमधुमेहश्च पिडिकाश्चप्रमेहजाः ५ मे
 दस्तथोदरंशोथोवृद्धिश्चगलगण्डकः ॥ गण्डमालापचीग्रं
 थिरवृद्धंश्लीपदंततः ६ विद्रधिर्व्रणशोथश्च द्वौत्रणौभ
 ग्ननाडिके ॥ भगंदरोपदंशौच शूकदोषस्त्वगामयः ७
 शीतपित्तमुददेश्च कोष्ठश्चैवांम्लपित्तकः ॥ विसर्पश्च
 सविस्फोटः सरोमांत्यमसूरिकाः ८ क्षुद्रास्यकर्णनासा
 क्षि शिरस्त्रीनालकग्रहाः ॥ विषंचेत्ययमुद्देशोरुग्निनि
 श्चयसंग्रहे ९ ॥ इतिरोगोद्देशः ॥

इतिमाधवनिदानं सन्पूर्णेम् ॥

पंक्तिज ३३ अन्यशूल ३४ आनाह ३५ उदावर्त ३६ गुश्म ३७
 ॥ ४ ॥ हृदयरोग ३८ मूत्रकृच्छ्र ३९ मूत्राघात ४० अश्मरी ४१
 प्रमेह ४२ मधुमेह ४३ प्रमेहजपिटिका ४४ ॥ ५ ॥ मेदोरोग ४५
 उदररोग ४६ शोथ ४७ वृद्धिरोग ४८ गलगण्ड ४९ मण्डमाला
 ५० अपची ५१ ग्रन्थिरोग ५२ अर्चुद ५३ श्लीपद ५४ ॥ ६ ॥
 विद्रधि ५५ व्रणशोथ ५६ भग्नव्रण ५७ नाडीव्रण ५८ भगन्दर
 ५९ उपदंश ६० शूकदोष ६१ त्वचारोग ६२ ॥ ७ ॥ शीतपित्त
 ६३ उदद ६४ कोष्ठ ६५ अंम्लपित्त ६६ विसर्प ६७ विस्फो-
 ट ६८ रोमान्त्य ६९ मसूरिका ७० ॥ ८ ॥ क्षुद्ररोग ७१ मुख-
 रोग ७२ कर्णरोग ७३ नासारोग ७४ शिरोरोग ७५ स्त्रीरोग ७६
 वालग्रह ७७ विष ७८ वसइतनेरोगरोगियोंके इसग्रन्थमेहे ॥ ९ ॥

हरिगीतिका ॥

वसुजलधिनव शशिशरद् सितगुरु अमाभाद्र सुमास में ।
 माधव निदान विधाने पूर्वक शाजहाँपुर वास में ॥
 पाय परम निदेश नवलकिशोर जी को पावनो ।
 भापानुवाद महेशदत्त कियो सुवेद्य सुहावनो १ ॥
 इति श्रीमाधवनिदाने भापानुवादे श्रीमन्महाशयनवलकिशोर
 कारिते वारहविकीप्रदेशान्तर्गतगोमत्युत्तरतटस्थधना-
 वलीनिवासिनासाम्प्रतंशाहजहाँपुरस्थराजकीय
 बृहत्पाठशालासंस्कृताध्यापकमहेशदत्तश-
 र्मणाकृतेग्रन्थानुक्रमणिकाध्याय-
 इचतुस्तततितमः ॥ ७४ ॥

ज्वराध्याय के ४६ वें श्लोक के व्याख्यानमें सन्निपात ज
 के लक्षणमें कहआये हैं कि इसग्रन्थके व अन्य ग्रन्थों के मत
 सन्निपात १३ प्रकारके होते हैं उनके लक्षण व नाम ग्रन्थ
 अन्तमें कहेंगे सो अब कहते हैं ॥

अम्लस्निग्धोष्णतीक्ष्णैः कटुमधुरसुरातापसेवा
 घायैः कामक्रोधातिरूक्षैर्गुरुतरपिशिताहारसौहित्यश-
 तैः ॥ शोकव्यायामचिन्ताग्रहणवनितात्यन्तसंगप्रसंगे
 प्रायःकुप्यातिपुंसाम्मधुसमयशरद्वर्षणैः सन्निपाताः १ ॥

खट्टा चिकना उष्णतीक्ष्ण कडू मीठा मदिरा तापना वा ऊ
 वस्त्र बहुत ओढना कसेली वस्तु काम क्रोध अतिरूपा गरिष्ठ भ
 जन मांस शीत पदार्थोंका सेवन शोक श्रमकरना चिन्ता ग्रहण
 उपद्रव व स्त्री का अत्यन्त संग करनेसे बहुधा वसन्त वर्षा व श
 रद् काल में सन्निपात कोप कहते हैं १ ॥

सन्निपातों के नाम ॥

सन्धिकश्चान्तकश्चैव रुग्दाहश्चित्तविभ्रमः ॥ शी
तांगस्तन्द्रिकःप्रोक्तः कण्ठकुब्जश्चकर्णकः २ विख्यातो
भुग्ननेत्रश्च रक्तष्ठीवीप्रलापकः ॥ जिह्वकश्चेत्यभिन्ध्या
सस्सन्निपातास्त्रयोदश ३ ॥

सन्धिक १ अन्तक २ रुग्दाह ३ चित्तविभ्रम ५ शीतांग ५
तन्द्रिक ६ कण्ठकुब्ज ७ कर्णक ८ ॥ २ ॥ भुग्ननेत्र ६ रक्तष्ठीवी १०
प्रलापक ११ जिह्वक १२ अभिन्ध्यास १३ वस ये तेरह सन्निपात
होते हैं ३ ॥ सन्निपातोंकी अवधि ॥

सन्धिकेवासरास्सप्त चांतकेदशवासराः ॥ रुग्दाहे
विंशतिर्ज्ञेयावहन्यष्टौचित्तविभ्रमे ४ ॥

सन्धिककी ७ दिनकी अवधि अन्तककी १० दिन रुग्दाहकी
२० दिन चित्त विभ्रमकी २४ दिन अवधि होती है ४ ॥

पक्षमेकंतुशीतांगे तन्द्रिकेपञ्चविंशतिः ॥ विज्ञेया
वासराश्चैव कण्ठकुब्जेत्रयोदश ५ ॥

शीतांगकी १५ दिन तन्द्रिककी २५ दिन कण्ठकुब्जकी १३
दिनकी अवधि होती है ॥ ५ ॥

कर्णकेचत्रयोमासा भुग्ननेत्रेदिनाष्टकम् ॥ रक्तष्ठी-
वीदशाहानि चतुर्दशप्रलापके ६ ॥

कर्णकी तीनमास भुग्ननेत्रकी ८ दिन रक्तष्ठीवीकी १० दिन
प्रलापक की १४ दिन ॥ ६ ॥

जिह्वकेषोडशाहानिकलाभिन्ध्यासलक्षणे ॥ परमायुरि
दम्प्रोक्तमिद्यतेतत्क्षणादपि ७ ॥

जिह्वककी १६ दिन अवधि अभिन्ध्यास की भी १६ दिन की
अवधि होती है यह परमआयु कहीगई है पर मृतक तुरन्तही
होजाता है इस अवधि के नांघजाने पर बचजाता है ॥ ७ ॥

सन्धिकस्तन्द्रिकश्चैव कर्णकः कण्ठकुब्जकः ॥ जिह्वक
 चित्तविभ्रंशषट्साध्यास्सप्तमारकाः ८ ॥

सन्धिक । तन्द्रिक । कर्णक । कण्ठकुब्जक । जिह्वक व चित्त
 विभ्रंश ये ६ साध्यहोतेहै अन्य सात मारडालतेहै ८ ॥

सन्धिकके लक्षण ॥

पूर्वरूपकृतशूलसम्भवंशोषवातबहुवेदनान्वितम् ॥ श्ले
 ष्मतापबलहानिजागरंसन्निपातमितिसंधिकं वदेत् ९ ॥

जिस सन्निपात के पूर्वरूप में शूल शोष वातकीबड़ी पीड़ा
 कफअधिक होना सन्ताप बलहानि व जागना हो उसे सन्धिक
 सन्निपात कहना चाहिये ९ ॥

अन्तक सन्निपात के लक्षण ॥

दाहङ्करोतिपरितापनमातनोतिमोहं ददोतिविदधाति
 शिरःप्रकम्पम् ॥ हिक्काङ्करोतिकसनञ्चसमाजुहोतिजानी
 हितंविबुधवर्जितमंतकारख्यम् १० ॥

जो सन्निपात दाह करताहै तापकी बढ़ाताहै मोहदेताहै शिर
 को कँपाता है हुचकी करता है खांसीको बुलाता है पण्डितों के
 त्यागनेके योग्य उसे अन्तकनाम सन्निपात जानना चाहिये १० ॥

रुग्दाहके लक्षण ॥

प्रलापपरितापनप्रबलमोहमांश्रमः परिभ्रमणवेद
 नाव्यथितकण्ठमन्याहनुः ॥ निरंतरतृषाकरश्चसनकास
 हिक्काकुलस्सकण्ठतरसाधनो भवतिहान्तिरुग्दाहकः ११

अनर्थवकना परितापहोना प्रबलमोह मन्दता श्रमः करबटले-
 नेमें पीड़ा गला ग्रीवाका ऊपरी भाग व चौहड़ी में पीड़ा सदा
 प्यास बनीरहे श्वास खांसी हुचकी से व्याकुल रहना इनलक्षणों
 से युक्त सन्निपात को रुग्दाह कहते हैं वह कण्ठतर साध्यहोताहै
 नहीं तो मारडालताही है ॥ ११ ॥

चित्तविभ्रमकलक्षण ॥

यदिकथमपिपुंसाञ्जायतंकायपीडा भ्रममद्रपरितापो
मोहवैकल्यभावः ॥ विकलनयनहासोर्गीतनृत्यप्रलापो
ऽभिदधततमसाध्यङ्केऽपिचित्तभ्रमाख्यम् १२ ॥

जब किसीप्रकार से मनुष्योंके शरीरमें पीड़ाहोतीहै भ्रमयुक्त
मदका परिताप होताहै मोहकी विकलता का भावहोता नेत्र
विकलहोते हैंसीआती गाना नाचना अनर्त्यवकना ये सबलक्षण
होते हैं तो चित्तभ्रम सन्निपात कहाता है उसे कोई २ असाध्य
कहते हैं १२ ॥

शीतांगकेलक्षण ॥

हिमसदृशशरीरोत्रेपथुश्श्वासहिक्का शिथिलितसक
लांगोऽच्छिन्ननादोग्रतापः ॥ क्लमथुद्वथुकासच्छर्द्यतीसा
रयुक्तस्त्वरितमरणहेतुश्शीतगात्रःप्रभावात् १३ ॥

शरीर पालासा ठण्डा कम्प श्वास हुचकी सब अंग शिथिल
शब्द बहुत नष्ट नहीं उग्रतर भीतीताप बिना श्रम के थकवाही
मनमें पीड़ा खांसी वमन व अतीसार इन लक्षणों से जो युक्त
हो वह शीतांग सन्निपात कहाताहै व अग्ने प्रभाव से मरणका
हेतु होताहै १३ ॥

तन्द्रिरुकेलक्षण ॥

प्रभूतातन्द्रार्तिज्वरकफपिपासाकुलतरो भवेच्छ्यामा
जिक्कापृथुलकठिनाकण्टकृता ॥ अतीसारश्श्वासःक्लम
थुपरितापश्श्रुतिरुजो भृशङ्कण्ठेजाड्यंशयनमनिशन्त
न्द्रिकगदे १४ ॥

तन्द्रा अधिक पीड़ा ज्वर कफ पिपासासे अतिव्याकुलता
जीभकाली बहुतकड़ी व मोटीकांटोंसेयुक्त अतीसार श्वासग्लानि
परिताप कानोंमें पीड़ा कण्ठका अतिजकड़ना व रात्रिदिन बरा-
बरसोते रहना वस ये लक्षण तन्द्रिक सन्निपात में होतेहैं १४ ॥

कर्णकुञ्जसन्निपातकेलक्षण ॥

शिरोऽर्त्तिकण्ठग्रहदाहमोह कम्पज्वरोरक्तसमीरणा
र्त्तिः ॥ हनुग्रहस्तापविलापमूर्च्छास्यात्कण्ठकुञ्जःखलु
कष्टसाध्यः १५ ॥

शिरमें पीड़ा गलेसे बोलने में पीड़ा दाह मोह कम्प ज्वर रक्त
वातकी पीड़ा चौहड़ीका जकड़ना ताप रोदनकरना मूर्च्छा जिस
में ये लक्षण होतेहैं वह कण्ठकुञ्जहै व कष्टसाध्यहै १५ ॥

कर्णककेलक्षण ॥

प्रलापश्रुतिहासकण्ठग्रहाङ्गव्यथाश्वासकासप्रसेक
प्रभावम् ॥ ज्वरन्तापकर्णन्तयोगर्गलपीडाबुधाःकर्णकं
कष्टसाध्यंवदन्ति १६ ॥

अन्तर्ध्वकना कमसुनपड़ना गला बैठजाना अंगों में पीड़ा
श्वास खांसी लारबहना ज्वर कानों व गालों में पीड़ा जिसमें ये
लक्षण होतेहैं परिडत उसे कर्णक कहते हैं यह कष्टसाध्यहै १६ ॥

सन्निपातज्वरस्यान्तेकर्णमूलेसुदारुणः ॥ शोथस्सं
जायतेतेनकश्चिदेवप्रमुच्यते १७ ॥

सन्निपात ज्वर के अन्तमें कानकी जड़केलगे जो अतिदारुण
बहुत मोटी सूजन होआती है उससेकोई एकपुरुष छूटताहै नहीं
तो प्रायः जिस किसीके ऐसीसूजन होतीहै वह मरीजाताहै १७ ॥

इसका विशेष नियम कहते हैं ॥

ज्वरस्यपूर्वज्वरमध्यतोवा ज्वरान्ततोवाश्रुतिमूलं
शोथः ॥ क्रमादसाध्यःखलुकष्टसाध्यस्सुखेनसाध्योमुनि
भिःप्रदिष्टः १८ ॥

वह सूजन जो ज्वरहोने के पहिले हो तो असाध्य होतीहै व
ज्वर के बीच में होतीहै तो कष्टसाध्य होती है व ज्वर के अन्त
में होतीहै तो सुखसे साध्यहोतीहै यह मुनियोंने कहाहै १८ ॥

भुग्ननेत्र नाम सन्निपात के लक्षण ॥^{१५}

ज्वरवलापचयस्मृतिशून्यता श्वसनभुग्नविलोचनमोहितः ॥ प्रलपनभ्रमकम्पनशोफवांस्त्यजतिजीवितमाशुसभुग्नदृक् १६ ॥

ज्वर बहुत न आवे पर स्मरण वनायजातारहे श्वास अधिक चलने लगे नेत्रटेढ़े होजायँ भवेत होजाय अनर्थ जो पावे बकने लगे भ्रम होजाय शरीर कांपनेलगे व शोथ होआवे तो रोगी शिग्रही प्राण छोड़दे इस सन्निपात को भुग्ननेत्र कहते हैं १६ ॥

रक्तघ्नीवी सन्निपात के लक्षण ॥

रक्तघ्नीवीज्वरवमितृषामोहशूलातिसाराहिकाध्मानभ्रमणद्वथुश्वाससञ्ज्ञाप्रणाशः ॥ श्यामारक्ताधिकतररसनामण्डलोत्थानरूपा रक्तघ्नीवीनिगदितइहप्राणहन्ता प्रसिद्धः २० ॥

मुख से रुधिर गिरना ज्वर वमन पिपासा मोह शूल अतीसार हुचकी पेट फूलना चित्तधूमना तापहो श्वासें बहुत आवें ज्ञान ऐसा नष्टहोजाय कि किसी को पहिचान न सके जीभ अधिकतर काली वा लाल होजाय अथवा जीभ के ऊपर मण्डलाकार चकंधे पड़जायँ इस लक्षण से युक्त सन्निपात को रक्तघ्नीवी कहते हैं यह प्राणहन्ता होता है यह बात प्रसिद्ध है २० ॥

प्रलाप के लक्षण ॥

कम्पप्रलापपरितापनशीर्षपीडा प्रौढप्रभावपवमानपरोऽन्यचिन्ता ॥ प्रज्ञाप्रणाशविकलप्रचुरप्रवादः क्षिप्रम्प्रयातिपितृपालपदम्प्रलापी २१ ॥

जिस सन्निपात में कम्प अनर्थ बकना सन्ताप होना शिरमें पीडा बल अधिक करना पवित्रतामें तत्पर अन्य लोगोंकी चिन्ता बुद्धिकानाश विकलता बहुत बकना ये सब लक्षणहों उसे प्रलापी कहतेहैं इसमें फँसकर प्राणी यमराजके स्थानको जाताहै २१ ॥

जिह्वकनाम सन्निपात के लक्षण ॥

श्वसनकासपरितापविह्वलः कठिनकण्ठकृतातिजिह्वकः ॥ वधिरमूकबलहानिलक्षणी भवतिकण्ठरसाध्यजिह्वकः २२ ॥

श्वसन खांसी सन्तापसे विह्वल होजाना कड़े २ कांटों से जीभ का युक्त होना बहिरा गुँगा बलहीन होना जिसमें ये लक्षण हों उरं जिह्वक कहते हैं यह सन्निपात अतिशय कण्ठसाध्य होता है २२ ।

अभिन्यास नाम सन्निपात के लक्षण ॥

दोषत्रयस्निग्धमुखत्वनिद्रा वैकल्यनिश्चेष्टनकण्ठवाग्मी ॥ बलप्रणाशश्श्वसनादिनिग्रहोऽभिन्यासउक्तेननुमृत्युकल्पः २३ ॥

वात पित्त कफों के दोषसे मुख में चिकनाई लासासी बर्न रहे दिन रात्रि निद्रा बनी रहे विकलता से चेष्टाका बदलना वदे कण्ठसे कुछ बोलसकना बल का नाश श्वसन आदिका रुकजान वंस जिस में ये लक्षण हों उसे अभिन्यास कहते हैं यह मृत्यु से कुछेकही न्यून होता है २३ ॥

हारिद्रक नाम सन्निपात के लक्षण ॥

हारिद्रदेहनखनेत्रकरांग्रितापनिष्ठीवनादिकसनैरुपलक्षितोयः ॥ हारिद्रकस्सकथितः किलसन्निपातस्साध्यो नचैषभिषजांज्वरकालरूपः २४ ॥

जिस में देह नख नेत्र हाथ पैर हरिद्रासे रंगे से होजाते है ज्वर धूँक खांसी इनसे युक्त होजाता है वह सन्निपात हारिद्रक कहाता है यह वैद्यों से साध्य नहीं होता क्योंकि यह ज्वर रूप कालही होता है २४ ॥

सद्यस्त्रिपंचसप्ताहाद्दशाहाद्द्वादशादपि ॥ एकविंशति नैशुद्धस्सन्निपातीसुजीवति २५ ॥

सन्निपात होने पर जो तुरन्तही शुद्ध होजाताहै अथवा ३ ।
५ । ७ । १० । १२ । वा २१ दिनपर जो शुद्ध होजाता है वह फिर
अच्छे प्रकार जीता है २५ ॥

त्रिदोषज ज्वरों की मर्यादा ॥

सप्तमीद्विगुणायत्रन्नवम्येकादशातथा ॥ एषात्रिदोष
मर्यादामोक्षायचवधायच २६ ॥

सप्तमी नवमी एकादशी वा इनकी दूनी मर्यादा वात पित्त
कफके दोषोंकी है अर्थात् ७ । वा १४ । ६ वा १८ । ११ वा २२ दिन
की मर्यादा सन्निपात के छोड़देने वा मारडालने की है २६ ॥

पित्तकफानिलवृद्ध्यादशदिवसद्वादशाहसप्ताहात् ॥
हन्तिविमुंचतिपुरुषन्त्रिदोषजोधातुमलपाकात् २७ ॥

पित्त कफ वात की वृद्धि से क्रम से १० दिन १२ दिन ७
सात दिन में पुरुष को कितो मारही डालता है वा छोड़ही देता
है त्रिदोषज धातुके पकजाने पर तो मारडालता है व केवल
मल के पकने से छोड़देता है २७ ॥

धातुपाकके लक्षण ॥

निद्रानाशोहृदिस्तम्भोविष्टम्भोगौरवारुची ॥ अरति
व्वलहानिश्चधातूनाम्पाकलक्षणम् २८ ॥

नींद का नाश हृदय का जकड़ना मल मूत्रका बन्दहोजाना
देहभर भारी होजाना अरुचि स्वस्थ न रहना बलकी हानि वस
ये धातु पकजाने के लक्षण हैं २८ ॥

मल पकने वा लक्षण ॥

दोषप्रकृतिवैकृत्यंलघुताज्वरदेहयोः ॥ इन्द्रियाणा
उच्चैर्मल्यन्दोषाणाम्पाकलक्षणम् २९ ॥

दोषोंके स्वभावका बदलजाना । ज्वर व देहका हलका होना
इन्द्रियोंका निर्मल होना वस यही मलपाकका लक्षणहै २९ ॥

इति